



सत्यमेव जयते

भारत का संविधान

[15 सितंबर, 2021 गी जि 'यां मजूद]

CONSTITUTION OF INDIA

[As on 15th of September, 2021]

भारत सरकार

कनून ते न्यांऽ मंत्रालय, विधायी विभाग

GOVERNMENT OF INDIA

Ministry of Law and Justice, Legislative Department

2022



भारत का संविधान

संविधान च सारियां तरमीमां शामिल कीतियां गेदियां न
[इक सौ पंज तरमीम] अधिनियम, 2021 तगर

2022

GOVERNMENT OF INDIA

**THE CONSTITUTION OF INDIA
IN DOGRI LANGUAGE**

- Prepared by** : The Constitution of India in Dogri language prepared on behalf of Government of India by the University of Jammu.
- ©** : Government of India
- Edition** : First
- Copies** : 500
- Price** : Rs. 886/-
- Published by** : Published on behalf of Government of India by the University of Jammu, Jammu
- Printed at** : Rohini Printers, Kot Kishan Chand, Jalandhar City.

PREFACE

This is the first edition of the Constitution of India in Dogri language. In this edition the text of the Constitution has been updated by incorporating therein all the Amendments upto and including the Constitution (One Hundred and Fifth Amendment) Act, 2021.

The present edition of the Constitution of India is being published by the Official Languages Wing (Regional Unit), Legislative Department, Ministry of Law and Justice, New Delhi, as part of the implementation of the decision of the Central Government to make available the Constitution of India and other Central Laws to the general public in their own regional language to enable them to understand the law of the land in its true spirit to fulfill the constitutional mandate.

This edition is being brought out by the Government of India with the sincere efforts and cooperation of University of Jammu and translated into Dogri language by Prof. (Dr.) Archana Kesar, Department of Dogri, University of Jammu, Sh. Prakash Premi, Dogri writer and translator, Sh. Yash Paul Nirmal, Dogri writer and translator and Smt. Nirmal Vikram Dogri writer and translator under the guidance of Legal Expert Prof. (Dr.) Arvind Jasrotia, Dean Faculty of Law, University of Jammu.

**New Delhi
March, 2022**

**Dr. Reeta Vasishta
Secretary of the Government of India.**

प्राक्कथन

भारत दे संविधान दा एह पैहला डोगरी संस्करण ऐ। इस संस्करण च दिते गेदे पाठ च संविधान (इक सौ पंज तरमीम) अधिनियम, 2021 तगर दियां सारियां तरमीमां शामिल न।

भारत दे संविधान दा मजूदा संस्करण सरकारी भाशाएं दे विंग (क्षेत्री यूनिट), विधायी विभाग, कनून ते न्यांऽ मंत्रालय, नमीं दिल्ली आसेआ प्रकाशत कीता गेआ ऐ। एहदा मकसद केंदर सरकार दे उस निर्णे गी लागू करना ऐ जेहदे च भारत दे संविधान ते होरनें केंदरी कनूनें गी आम लोकाई आस्तै उं'दियें अपनी क्षेत्री भाशाएं च उपलब्ध करोआना ऐ।

एह संस्करण भारत सरकार आसेआ जम्मू विश्वविद्यालय दियें इमानदाराना कोशशें ते सैहयोग कन्नै प्रकाशत कीता जा करदा ऐ ते इसदा डोगरी अनुवाद प्रो. (डॉ.) अर्चना केसर, डोगरी विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, श्री प्रकाश प्रेमी, डोगरी लेखक ते अनुवादक, श्री यश पाल निर्मल, डोगरी लेखक ते अनुवादक, श्रीमति निर्मल विक्रम, डोगरी लेखक ते अनुवादक होरें कनूनी विशेषज्ञ प्रो. (डॉ.) अरविंद जसरोटिया, डीन विधि संकाय, जम्मू विश्वविद्यालय हुंदे निर्देशन च कीता।

नमीं दिल्ली
मार्च, 2022

डॉ. रीटा वशिष्ठ
(सचिव, भारत सरकार)

संखेप अक्खरें दी सूची

क.अ.	—	कनूनी अदेश
क.नि.अ.	—	कनूनी नियम अदेश
सं.	—	संख्यांक
स.	—	सफा
सं.अ.	—	संविधान अदेश

भारत दा संविधान

विशे-सूची

प्रस्तावना

सफा

अनुच्छेद

भाग 1

संघ ते ओहदा राज्यक्षेत्र

1.	संघ दा नांS ते राज्यक्षेत्र	2
2.	नमियें रियासतें दी शमूलियत जां स्थापना	2
2क.	[रद्द]	2
3.	नमियें रियासतें दा नर्माण ते मजूदा रियासतें दे रकबें, हद्दें जां नाएं च फेर-बदल करना	2
4.	पैहली अनुसूची ते चौथी अनुसूची दी तरमीम ते जिमनी, घटनात्मी ते नतीजक मामलें दे प्रावधान करने आस्तै अनुच्छेद 2 ते 3 तैहत बनाए गेदे कनून	3

भाग 2

नागरिकता

5.	संविधान दे रम्भ पर नागरिकता	4
6.	पाकिस्तान थमां भारत च विस्थापत होइयै आए दे किश व्यक्तियें दे नागरिकता दे अधिकार.....	4
7.	पाकिस्तान अल विस्थापन करने आहले किश व्यक्तियें दे नागरिकता दे अधिकार	4
8.	भारत थमां बाहर रौहने आहले भारती मूल दे किश व्यक्तियें दे नागरिकता दे अधिकार	4
9.	अपनी इच्छा कन्नै बदेशी मुल्खै दी नागरिकता अर्जित करने आहले व्यक्तियें दा नागरिक नेई होना	5
10.	नागरिकता दे अधिकारें दा बनेआ रौहना.....	5
11.	संसद आसेआ नागरिकता दे अधिकार दा कनूनै राहें विनियमन कीता जाना	5

भाग 3

मौलिक अधिकार

सधारण

12.	परिभाशा.....	6
13.	मौलिक अधिकारें कन्नै असंगत जां उ'नेंगी घटाने आहले कनून.....	6

बरोबरी दा अधिकार

14.	कनून सामनै बरोबरी	6
-----	-------------------------	---

भारत दा संविधान

(विशे-सूची)

अनुच्छेद	सफा
15. धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग जां जनम-थाहर दे अधार पर फर्को-फर्की पर रोक	6
16. लोक रोजगार दे मामलें च मौकें दी बरोबरी	7
17. छूह्त-छात दा अंत	8
18. उपाधियें दा अंत	8

स्वतंत्रता दा अधिकार

19. बोल्लने दी स्वतंत्रता वगैरा विशें सरबंधी किश अधिकारें दा संरक्षण	8
20. अपराधें आस्तै दोशसिद्धि दे सरबंधे च संरक्षण	9
21. जीवन ते निजी स्वतंत्रता दा संरक्षण	9
21क. शिक्षा दा अधिकार	9
22. किश मामलें च गिरफ्तारी ते नज़रबंदी थमां संरक्षण	9

शोशन दे बरुद्ध अधिकार

23. मनुक्खें दी तस्करी ते जबरी कम्म कराने पर रोक	11
24. कारखानें वगैरा च बच्चें दे कम्म करने पर रोक	11

धर्म दी स्वतंत्रता दा अधिकार

25. अंतःकरण दी ते धर्म गी बेरोक-टोक मन्नने, आचरण ते प्रचार करने दी स्वतंत्रता	11
26. धार्मिक कम्में दे प्रबंध दी स्वतंत्रता	11
27. कुसै धर्म बशेश दे बाद्धे आस्तै टैक्सें दे भुगतान बारै स्वतंत्रता	12
28. किश शिक्षा संस्थाएं च धार्मिक शिक्षा जां धार्मिक उपासना च हाजर रौहने बारै स्वतंत्रता	12

संस्कृति ते शिक्षा सरबंधी अधिकार

29. घट्ट गितरी आहले वर्गें दे हितें दा संरक्षण	12
30. शिक्षा संस्थाएं दी स्थापना ते प्रशासन करने दा घट्ट गितरी आहले वर्गें दा अधिकार	12
31. [रदद]	12

किश कनूनें दी किफायत

31क. संपदा वगैरा दे अर्जन आस्तै प्रावधान करने आहले कनूनें दी किफायत	13
31ख. किश अधिनियमें ते विनियमें गी कनूनी मानता	14
31ग. किश निदेशक तत्त्वं गी असरी बनाने आहले कनूनें दी किफायत.....	14
31घ. [रदद]	14

भारत दा संविधान

(विशे-सूची)

अनुच्छेद

सफा

संविधानक सुधारें दा अधिकार

32.	इस भाग राहें दित्ते गोदे अधिकारें गी लागू कराने आस्तै सुधार	14
32क.	[रद्द]	15
33.	इस भाग राहें दित्ते गोदे अधिकारें दा, बलें वगैरा गी लागू होने च, सुधार करने दा संसद दा अख्तोआर	15
34.	जिसलै कुसै क्षेत्र च सैन्य कनून चलन च ऐ उसलै इस भाग राहें दित्ते गोदे अधिकारें पर रोक	15
35.	इस भाग दे प्रावधानें गी असरी करने आस्तै विधान	15

भाग 4

रियासत दी नीति दे निदेशक तत्त्व

36.	परिभाशा	17
37.	इस भाग'च शामिल तत्त्वे दा लागू होना	17
38.	राज्य लोक कल्याण दे बाद्धे आस्तै समाजक व्यवस्था बनाहग	17
39.	राज्य आस्तै अपनानेजोग किश नीति तत्त्व	17
39क.	इक बरोबर न्यांऽ ते मुख्त कनूनी स्हायता	18
40	ग्रांऽ पंचैतें दा गठन	18
41.	किश मामलें च कम्म, शिक्षा ते लोक स्हायता हासल करने दा अधिकार	18
42.	कम्म दी न्यांऽ-संगत ते मानवोचित हलातें दा ते प्रसूति स्हायता दा प्रावधान	18
43.	कम्मगारें आस्तै नर्बाह मजदूरी आदि	18
43क.	उद्योगें दे प्रबंधें च कम्मगारें दा हिस्सा लैना.....	18
43 ख	सैहकारी समितियें दा बाद्धा-विकास.....	18
44.	नागरिकें आस्तै इक बरोबर सिवल संहिता.....	18
45.	छें बरें थमां घट्ट उमरी दे ज्यानें आस्तै मुंढली बरेस दी दिक्ख-रिक्ख ते शिक्षा दा प्रावधान	18
46.	अनुसूचित जातियें, अनुसूचित जनजातियें ते होर कमजोर वर्गें आस्तै शिक्षा ते धन-सरबंधी हितें च बाद्धा	18
47.	खुराक दे स्तर ते जीवन दे स्तर गी उबड़ा चुक्कने ते लोक स्वास्थ दा सुधार करने दा रियासत दा कर्तब्व	18
48.	राही-बाही ते पशु पालन दा संगठन	18
48क.	चपासम दा संरक्षण ते बाद्धा-विकास ते जंगलें ते जंगली जीवें दी रक्षा	19
49.	राश्ट्री म्हत्तव दे स्मारकें, थाहरें ते चीजें दा संरक्षण	19
50.	कार्यपालिका थमां न्यांपालिका दा बक्खकरण	19
51.	अंतरराश्ट्री शांति ते सुरक्खेआ दा बाद्धा	19

भारत दा संविधान

(विशे-सूची)

अनुच्छेद

सफा

भाग 4क

मूल कर्तब्व

51क.	मूल कर्तब्व	20
------	-------------------	----

भाग 5

संघ

ध्याऽ 1 – कार्यपालिका

राश्ट्रपति ते उपराश्ट्रपति

52.	भारत दा राश्ट्रपति	21
53.	संघ दा कार्यपालिका अख्तेआर	21
54.	राश्ट्रपति दा चनांऽ	21
55.	राश्ट्रपति दे चनांऽ दा तरीका	21
56.	राश्ट्रपति दे औहदे दी औद्ध	22
57.	परती चनोने आस्तै योग्यतां	22
58.	राश्ट्रपति चनोने आस्तै योग्यतां	22
59.	राश्ट्रपति दे औहदे आस्तै शर्तां	23
60.	राश्ट्रपति आसेआ सघंद जां प्रतिज्ञा	23
61.	राश्ट्रपति पर महाभियोग चलाने दी प्रक्रिया	23
62.	राश्ट्रपति दे खाल्ली होए दे औहदे गी भरने आस्तै चनांऽ दा समां ते चान-चक्क खाल्ली होए दे थाहरै गी भरने आस्तै चनोए दे व्यक्ति दे औहदे दी औद्ध	23
63.	भारत दा उपराश्ट्रपति	24
64.	उपराश्ट्रपति दा राज्यसभा दा पदेन सभापति होना	24
65.	राश्ट्रपति दे औहदे दे चान-चक्क खाल्ली होने दे दरान जां ओहदी गैर मजूदगी च उपराश्ट्रपति दा राश्ट्रपति दे रूपै च कम्म करना जां ओहदे कम्मं दा नर्बाह करना	24
66.	उपराश्ट्रपति दा चनांऽ	24
67.	उपराश्ट्रपति दे औहदे दी औद्ध	25
68.	उपराश्ट्रपति दे खाल्ली होए दे औहदे गी भरने आस्तै चनांऽ कराने दा समां जां चान-चक्क खाल्ली होए दे थाहरै गी भरने आस्तै चनोए दे व्यक्ति दे औहदे दी औद्ध	25
69.	उपराश्ट्रपति आसेआ सघंद जां प्रतिज्ञा	25
70.	होर चान-चक्कियें च राश्ट्रपति दे कम्मं दा नर्बाह	25
71.	राश्ट्रपति जां उपराश्ट्रपति दे चनांऽ कन्नै सरबंधत जां जुड़े दे विशे.....	26
72.	राश्ट्रपति दा किश मामलें च माफी वगैरा, स्थगन, घट्ट करना जां स'जा देने दा अख्तेआर.....	26
73.	संघ दी कार्यपालिका दे अख्तेआर दा विस्तार	26

भारत दा संविधान

(विशे-सूची)

अनुच्छेद

सफा

मंत्रि-परिशद्

74.	राष्ट्रपति गी मदाद ते सलाह देने आस्तै मंत्रि-परिशद्	27
75.	मंत्रियें दे बारे च होर प्रावधान	27

भारत दा महान्यांवादी

76.	भारत दा महान्यांवादी	27
-----	----------------------------	----

सरकारी कम्मै दा संचालन

77.	भारत सरकार दे कम्मै दा संचालन	28
78.	राष्ट्रपति गी जानकारी देने वगैरा दे सरबंभे च प्रधानमंत्री दे कर्त्तब	28

ध्याऽ 2- संसद

सधारण

79.	संसद दा गठन	28
80.	राज्य सभा दी संरचना	29
81.	लोक सभा दी संरचना	29
82.	हर इक जनगणना परैत परती समायोजन	30
83.	संसद दे सदनें दी औद्ध	31
84.	संसद दी सदस्यता आस्तै योग्यता	31
85.	संसद दे सत्र, सत्र स्थगन ते भंग	31
86.	सदनें गी संबोधन दा ते सनेह भेजने दा राष्ट्रपति दा अधिकार	31
87.	राष्ट्रपति आसेआ बशेश भाशन	32
88.	सदनें दे बारे च मंत्रियें ते महान्यांवादी दे अधिकार	32

संसद दे अधिकारी

89.	राज्य सभा दा सभापति ते उपसभापति	32
90.	उपसभापति दा औहदा खाल्ली होना, औहदे थमां इस्तीफा ते औहदे थमां हटाया जाना	32
91.	उपसभापति जां कुसै होर व्यक्ति दा अपने कर्त्तबें दा पालन करने जां सभापति दे तौर पर कम्म करने दा अख्तेआर	32
92.	जिसलै सभापति जां उपसभापति गी औहदे थमां हटाने दा कोई प्रस्ताव विचाराधीन ऐ उसलै ओहदा पीठासीन नेई होना	32
93.	लोक सभा दा अध्यक्ष ते उपाध्यक्ष	33

भारत दा संविधान

(विशे-सूची)

अनुच्छेद	सफा
94. अध्यक्ष ते उपाध्यक्ष दा औहदा खाल्ली होना, औहदे थमां इस्तीफा ते औहदे थमां हटायया जाना	33
95. उपाध्यक्ष जां कुसै होर व्यक्ति दा अपने कर्तबबे दा पालन करने जां अध्यक्ष दे तौर पर कम्म करने दा अख्तेआर	33
96. जिसलै अध्यक्ष जां उपाध्यक्ष गी औहदे थमां हटाने दा कोई प्रस्ताव विचाराधीन ऐ उसलै ओहदा पीठासीन नेई होना	33
97. सभापति ते उपसभापति ते अध्यक्ष ते उपाध्यक्ष दी तनखाह ते भत्ते	34
98. संसद दा सचिवालय	34

कम्म संचालन

99. सदस्ये आसेआ सघंद जां प्रतिज्ञा	34
100. सदनें च मतदान, खाल्ली थाहरें ते कोरम दे नेई होंदे होई बी सदनें दा कम्म-काज करने दा अख्तेआर	34

सदस्ये दियां अयोग्यतां

101. सीटें दा खाल्ली होना	35
102. सदस्यता आस्तै अयोग्यतां	35
103. सदस्ये दिये अयोग्यताएं कन्नै सरबंधत सुआले पर फैसला	36
104. अनुच्छेद 99 दे तैहत् सघंद चुक्कने जां प्रतिज्ञा करने कोला पैहले जां योग्य नेई होंदे होई जां अयोग्य कीते जाने पर बौहने ते वोट देने आस्तै डन्न	36

संसद ते ओहदे सदस्ये दे अख्तेआर, चेचे अधिकार ते उन्मुक्तियां

105. संसद दे सदनें, उं'दे सदस्ये ते समितिये दे अख्तेआर, चेचे अधिकार वगैरा	36
106. सदस्ये दियां तनखाहीं ते भत्ते	37

विधायी प्रक्रिया

107. बिल्ले दे पेश करने ते पास कीते जाने दे सरबंधे च प्रावधान	37
108. किश सूरते च दौने सदनें दी सांझी बैठक	37
109. धन-बिल्ले दे सरबंधे च बशेश प्रक्रिया	38
110. "धन बिल्ले" दी परिभाशा	38
111. बिल्ले गी मंजूरी	39

माल्ली मामले सरबंधी प्रक्रिया

112. सलाना माल्ली ब्यौरा	39
113. संसद च अनुमाने दे सरबंधे च प्रक्रिया	40
114. विनियोग बिल्ल	40

भारत दा संविधान

(विशे—सूची)

अनुच्छेद सफा

115.	जिमनी, बादधू जां मता अनुदान	41
116.	लेखा अनुदान, ज'मा खाता अनुदान ते अपवाद अनुदान पर मतदान	41
117.	माल्ली बिल्लें बारै चेचे प्रावधान	41

आमतौरै पर अपनाई जाने आहली प्रक्रिया

118.	प्रक्रिया दे नियम	42
119.	संसद च माल्ली कम्मै सरबंधी प्रक्रिया दा कनूनै राहें विनियमन	42
120.	संसद च बरतोने आहली भाशा	42
121.	संसद च चर्चा पर रोक	42
122.	अदालतें आसेआ संसद दियें कारवाइयें दी पड़ताल नेई कीती जानी	43

ध्याऽ 3 – राष्ट्रपति दे विधायी अख्तेआर

123.	संसद दे बसांऽ—काल च अध्यादेश जारी करने दे राष्ट्रपति दे अख्तेआर	43
------	---	----

ध्याऽ 4 – संघ दी न्यांपालिका

124.	सर्वोच्च अदालत दी स्थापना ते गठन	43
124 क	राष्ट्री न्यायिक नियुक्ति आयोग.....	44
124 ख	आयोग दे कम्म—काज.....	45
124 ग	संसद दा कनून बनाने दा अख्तेआर.....	45
125.	जज्जें दियां तनखाहीं वगैरा	45
126.	कार्यकारी मुख्य न्यांमूर्ति दी नियुक्ति	45
127.	अडहाक जज्जें दी नियुक्ति	45
128.	सर्वोच्च अदालत दियें बैठकें च सेवानिवृत्त जज्जें दी मजूदगी	45
129.	सर्वोच्च अदालत दा रिकार्ड अदालत होना	46
130.	सर्वोच्च अदालत दा थाहर	46
131	सर्वोच्च अदालत दी बुनियादी अधिकारिता.....	46
131क.	[रद्द]	46
132.	किश मामलें च उच्च अदालतें थमां अपीलें दा सर्वोच्च अदालतै दा अपीली अधिकार.....	46
133.	उच्च अदालतें थमां सिवल मामलें कन्नै सरबंधत अपीलें दा सर्वोच्च अदालत दा अपीली अधिकार	47
134.	अपराधक मामलें कन्नै सरबंधत सर्वोच्च अदालत दा अपीली अधिकार	47
134क.	सर्वोच्च अदालत च अपील आस्तै प्रमाण—पत्र.....	48
135.	मजूदा कनूनै तैहत फेडरल अदालतें दी अधिकारिता ते अख्तेआरें दा सर्वोच्च अदालत आसेआ बरतूनजोग होना	48
136.	अपील आस्तै सर्वोच्च अदालत दी खास मंजूरी	48
137.	फैसलें जां हुकमें दी सर्वोच्च अदालत आसेआ नजरसानी	48

भारत दा संविधान

(विशे-सूची)

अनुच्छेद	सफा
138. सर्वोच्च अदालत दी अधिकारिता दा बादधा	48
139. सर्वोच्च अदालत गी किश रिट्टां जारी करने दे अख्तेआरें दा दित्ता जाना	48
139क. किश मामलें दा तबादला.....	49
140. सर्वोच्च अदालत दे बादधू अख्तेआर	49
141. सर्वोच्च अदालत आसेआ घोशत कनून दा सभनें अदालतें आसेआ मन्नना लाज़मी होना	49
142. सर्वोच्च अदालत दियें डिक्रियें ते हुकमें गी लागू करने ते सामनें आहने वगैरा दे बारै हुकम	49
143. सर्वोच्च अदालत कन्ने सलाह करने दा राष्ट्रपति दा अख्तेआर	49
144. सिवल ते न्यायिक प्राधिकारियें आसेआ सर्वोच्च अदालत दी मदाद च कम्म कीता जाना	50
144क. [रद्द]	50
145. अदालत दे नियम वगैरा	50
146. सर्वोच्च अदालत दे अधिकारी ते सेवक ते खर्चा	51
147. व्याख्या	51

ध्याऽ 5 – भारत दा नियंत्रक-महालेखापारखी

148. भारत दा नियंत्रक-महालेखापारखी.....	51
149. नियंत्रक-महालेखापारखी दे कर्तबब ते अख्तेआर	52
150. संघ दे ते रियासतें दे लेखे दा फार्म	52
151. आडिट रपोट	52

भाग 6

रियासतां

ध्याऽ 1 – सधारण

152. परिभाशा	53
--------------------	----

ध्याऽ 2 – कार्यपालिका

राज्यपाल

153. रियासतें दे राज्यपाल	53
154. रियासत दे कार्यपालिका अख्तेआर	53
155. राज्यपाल दी नियुक्ति	53
156. राज्यपाल दे औहदे दी औद्ध	53
157. राज्यपाल नियुक्त होने आस्तै योग्यतां	53
158. राज्यपाल दे औहदे आस्तै शर्तां	53
159. राज्यपाल आसेआ सघंद चुक्कना जां प्रतिज्ञा	54
160. किश चान-चक्की स्थितियें च राज्यपाल दे कम्में दा नर्बाह	54

भारत दा संविधान

(विशे-सूची)

अनुच्छेद सफा

161.	राज्यपाल दा किश मामलें च माफी वगैरा, स्थगन, घट्ट करना जां स'जा देने दा अख्तेआर	54
162.	रियासत दी कार्यपालिका अख्तेआर दा विस्तार	54

मंत्रि-परिशद्

163.	राज्यपाल गी मदद ते सलाह देने आस्तै मंत्रि-परिशद्	54
164.	मंत्रियें दे बारे च होर प्रावधान	55

रियासत आस्तै महाधिवक्ता

165.	रियासत आस्तै महाधिवक्ता	56
------	-------------------------------	----

सरकारी कम्मै दा संचालन

166.	रियासत दी सरकार दे कम्मै दा संचालन	56
167.	राज्यपाल गी जानकारी देने वगैरा दे सरबंधे च मुख्मंत्रि दे कर्तब्व	55

ध्याऽ 3 – रियासत दा विधान-मंडल

सधारण

168.	रियासतें दे विधान-मंडलें दा गठन	56
169.	रियासतें च विधान परिशदें दा समापन जां सिरजन	57
170.	विधान सभाएं दी संरचना	57
171.	विधान परिशदें दी संरचना	58
172.	रियासतें दे विधान-मंडलें दी औद्ध	59
173.	रियासत दे विधान-मंडल दी सदस्यता आस्तै योग्यता	59
174.	रियासत दे विधान-मंडल दे सत्र, सत्र स्थगन ते सत्र भंग	59
175.	सदन जां सदनें च भाशन दा ते उ'नेंगी सनेहा भेजने दा राज्यपाल दा अधिकार	60
176.	राज्यपाल आसेआ बशेश भाशन	60
177.	सदनें दे बारे च मंत्रियें ते महाधिवक्ता दे अधिकार	60

रियासत दे विधान-मंडल दे अधिकारी

178.	विधान सभा दा अध्यक्ष ते उपाध्यक्ष	60
179.	अध्यक्ष ते उपाध्यक्ष दा औहदा खाल्ली होना, इस्तीफा ते औहदे थमां हटाय़ा जाना	60
180.	उपाध्यक्ष जां कुसै होर व्यक्ति दा अपने कर्तब्वें दा पालन करने जां अध्यक्ष दे तौर पर कम्म करने दा अख्तेआर	61
181.	जिसलै अध्यक्ष जां उपाध्यक्ष गी औहदे थमां हटाने दा कोई प्रस्ताव विचार अधीन ऐ उसलै ओहदा पीठासीन नेई होना	61

भारत दा संविधान

(विशे—सूची)

अनुच्छेद	सफा
182. विधान परिशद दा सभापति ते उपसभापति	61
183. सभापति ते उपसभापति दा थाहर खाल्ली होना, औहदे थमां इस्तीफा ते औहदे थमां हटाया जाना	61
184. उपसभापति जां कुसै होर व्यक्ति दा अपने कर्त्तबें दा पालन करने जां सभापति दे तौर पर कम्म करने दा अख्तेआर	61
185. जिसलै सभापति जां उपसभापति गी औहदे थमां हटाने दा कोई प्रस्ताव विचार अधीन ऐ उसलै ओहदा पीठासीन नेई होना	62
186. अध्यक्ष ते उपाध्यक्ष ते सभापति ते उपसभापति दी तनखाह ते भत्ते	62
187. रियासत दे विधान—मंडल दा सचिवालय	62

कम्म संचालन

188. सदस्यें आसेआ सघंद चुक्कना जां प्रतिज्ञा	62
189. सदनें च मतदान, खाल्ली थाहरें ते कोरम दे नेई होंदे होई बी सदनें दा कम्म—काज करने दा अख्तेआर	62

सदस्यें दियां अयोग्यतां

190. सीटें दा खाल्ली होना	63
191. सदस्यता आस्तै अयोग्यतां	64
192. सदस्यें दियें अयोग्यताएं कन्नै सरबंधत सुआलें पर फेसला	64
193. अनुच्छेद 188 दे तैहत सघंद चुक्कने जां प्रतिज्ञा करने थमां पैहलें जां योग्यता दे नेई होंदे होई जां अयोग्य कीते जाने पर बौहने ते वोट देने आस्तै डन्न	64

रियासतें दे विधान—मंडलें ते उं'दे सदस्यें दे अख्तेआर, चेचे अधिकार ते उन्मुक्तियां

194. विधान—मंडलें दे सदनें दे ते उं'दे सदस्यें ते समितियें दे अख्तेआर, चेचे अधिकार वगैरा	64
195. सदस्यें दियां तनखाहीं ते भत्ते	65

विधायी प्रक्रिया

196. बिल्लें दे पेश ते पास कीते जाने दे सरबंधे च प्रावधान	65
197. धन—बिल्लें थमां बकख बिल्लें दे बारे च विधान परिशद दे अख्तेआरें पर रोक	65
198. धन—बिल्लें दे सरबंधे च चेची प्रक्रिया	66
199. "धन—बिल्लें" दी परिभाशा	66
200. बिल्लें गी मंजूरी	67
201. विचार आस्तै आरक्षित बिल्ल	67

माल्ली मामलें दे सरबंधे च प्रक्रिया

202. सलाना माल्ली ब्यौरा	68
--------------------------------	----

भारत दा संविधान

(विशे-सूची)

अनुच्छेद	सफा
203	विधान-मंडल च अनुमानें दे सरबंधे च प्रक्रिया 68
204.	विनियोग बिल्ल 68
205.	जिमनी, बादधू जां मता अनुदान 69
206.	लेखा अनुदान, ज'मा खाता अनुदान ते अपवाद अनुदान 69
207.	माल्ली बिल्लें दे बारे च चेचे प्रावधान 70

आमतौरै पर अपनाई जाने आहली प्रक्रिया

208	प्रक्रिया दे नियम 70
209.	रियासती विधान-मंडल च माल्ली कम्मै सरबंधी प्रक्रिया दा कनूनै राहें विनियमन 70
210.	विधान-मंडल च बरतोने आहली भाशा 70
211.	विधान-मंडल च चर्चा पर रोक 71
212.	अदालतें आसेआ विधान-मंडल दियें कारवाइयें दी पड़ताल नेई कीती जानी 71

ध्याऽ 4 – राज्यपाल दे विधायी अख्तेआर

213.	विधान-मंडल दे बसांऽ-काल च अध्यादेश जारी करने दा राज्यपाल दा अख्तेआर 71
------	--

ध्याऽ 5 – रियासतें दियां उच्च अदालतां

214.	रियासतें आस्तै उच्च अदालतां 72
215.	उच्च अदालतें दा रिकार्ड अदालत होना 72
216.	उच्च अदालतें दा गठन 72
217.	उच्च अदालतै दे जज्जै दी नियुक्ति ते ओहदे औहदे दियां शर्ता 73
218.	सर्वोच्च अदालतै कन्नै सरबंधत किश प्रावधानें दा उच्च अदालतें पर लागू होना 74
219.	उच्च अदालतें दे जज्जें आसेआ सघंद जां प्रतिज्ञा 74
220.	स्थाई जज्ज होई जाने परैत कनूनी व्यवसाय पर रोक 74
221.	जज्जें दियां तनखाहीं वगैरा 74
222.	कुसै जज्ज दा इक उच्च अदालतै थमां दूई उच्च अदालतै च तबादला 74
223.	कार्यकारी मुख न्यांमूर्ति दी नियुक्ति 75
224.	अतिरिक्त ते कार्यकारी जज्जें दी नियुक्ति 75
224क.	उच्च अदालतें दियें बैठकें च सेवानिवृत्त जज्जें दी नियुक्ति 75
225.	मजूदा उच्च अदालतें दा अधिकार क्षेत्र 75
226.	किश रिट्टां जारी करने दा उच्च अदालत दा अख्तेआर 76
226क.	[रद्द] 76
227.	सभनें अदालतें दे अधीक्षण दा उच्च अदालत दा अख्तेआर 76
228.	किश मामलें दा उच्च अदालत गी तबादला 77
228क.	[रद्द] 77
229.	उच्च अदालत दे अधिकारी, सेवक ते खर्चे 77

भारत दा संविधान

(विशे-सूची)

अनुच्छेद		सफा
230.	उच्च अदालतें दी अधिकारता दा संघ राज्यक्षेत्रें पर विस्तार	78
231.	दो जां मतियें रियासतें आस्तै इक गै उच्च अदालत दी स्थापना	78

ध्याऽ 6 – हेठलियां अदालतां

233.	जि'ला जज्जें दी नियुक्ति	78
233क.	किश जि'ला जज्जें दियें नियुक्तियें दा ते उं'दे आसेआ कीते गेदे फ़ैसलें आदि दा कनूनी तौर पर मान्य होना	79
234.	न्यायिक सेवा च जि'ला जज्जें थमां बकख व्यक्तियें दी भर्ती	79
235.	हेठलियें अदालतें पर नियंत्रण	79
236.	व्याख्या	79
237.	किश वर्ग जां वर्गें दे मजिस्ट्रेटें पर इस ध्याऽ दे प्रावधानें दा लागू होना	79

भाग 7

पैहली अनुसूची दे भाग ख दियां रियासतां

238.	[रद्द]	80
------	---------------	----

भाग 8

संघ राज्यक्षेत्र

239.	संघ राज्यक्षेत्रें दा प्रशासन	81
239क.	किश संघ राज्यक्षेत्रें आस्तै स्थानी विधान-मंडलें जां मंत्रि-परिशदें जां दौनें दा सिरजन	81
239कक.	दिल्ली दे सरबंधें च चेचे प्रावधान	81
239कख.	संविधानक तंत्र दे नाकाम होई जाने दी सूरतें च प्रावधान	83
239ख.	विधान-मंडल दे बसां-काल च अध्यादेश जारी करने दा प्रशासक दा अख्तेआर.....	83
240.	किश संघ राज्यक्षेत्रें आस्तै विनियम बनाने दा राष्ट्रपति दा अख्तेआर	84
241.	संघ राज्यक्षेत्रें आस्तै उच्च अदालतां	85
242.	[रद्द]	85

भाग 9

पंचैतां

243.	परिभाशां	86
243क.	ग्रां सभा	86
243ख.	पंचैतें दा गठन	86
243ग.	पंचैतें दी संरचना	86
243घ.	सीटें दा आरक्षण	87
243ङ.	पंचैतें दी औदध, वगैरा	88

भारत दा संविधान
(विशे-सूची)

अनुच्छेद	सफा
243च. सदस्यता आस्तै अयोग्यतां	88
243छ. पंचैतें दे अख्तेआर, प्राधिकार ते जिम्मेवारियां	89
243ज. पंचैतें आसेआ टैक्स लाने ते उं'दे फंडें दे अख्तेआर	89
243झ. माल्ली स्थिति दी नज़रसानी आस्तै वित्त आयोग दा गठन	89
243ञ. पंचैतें दे लेखे दा आडिट	90
243ट. पंचैतें आस्तै चनांS	90
243ठ. संघ राज्यक्षेत्रें पर लागू होना	90
243ड. इस भाग दा किश क्षेत्रें पर लागू नेई होना	90
243ढ. मजूदा कनूनें ते पंचैतें दा बनेआ रौहना	91
243ण. चनांS सरबंधी मामलें च अदालतें दे दखल दी मनाही	91

भाग 9क
नगरपालिकां

243त. परिभाशां	92
243थ. नगरपालिकाएं दा गठन	92
243द. नगरपालिकाएं दी संरचना	92
243ध. वार्ड समितियें, वगैरा दा गठन ते संरचना	93
243न. सीटें दा आरक्षण	93
243प. नगरपालिकाएं दी औद्ध, वगैरा	94
243फ. सदस्यता आस्तै अयोग्यतां	94
243ब. नगरपालिकाएं, वगैरा दे अख्तेआर, प्राधिकार ते जिम्मेवारियां	95
243भ. नगरपालिकाएं आसेआ टैक्स लाने ते उं'दे फंडें दे अख्तेआर	95
243म. वित्त आयोग	95
243य. नगरपालिकाएं दे लेखे दा आडिट	96
243यक. नगरपालिकाएं आस्तै चनांS	96
243यख. संघ राज्यक्षेत्रें पर लागू होना	96
243यग. इस भाग दा किश क्षेत्रें पर लागू नेई होना	96
243यघ. जि'ला योजना आस्तै समिति	96
243यङ. महानगर योजना आस्तै समिति.....	97
243यच. मजूदा कनूनें ते नगरपालिकाएं दा बनेआ रौहना	98
243यछ. चनांS सरबंधी मामलें च अदालतें दे दखल दी मनाही	98

¹[भाग 9ख
सैहकारी समितियां

243यज परिभाशां.....	99
243यझ सैहकारी समितियें दा निगमन.....	99
243यञ बोर्ड दे सदस्यें ते उसदे औहदेदारें दी संख्या ते औहदे पर बने रौहने दी औद्ध.....	99
243यट बोर्ड दे सदस्यें दा चनांS.....	100
243यठ बोर्ड दा अधिक्रमण ते निलंबन ते अंतरिम प्रबंधन.....	100
243यड सैहकारी समितियें दे लेखे दा आडिट.....	101
243यढ आम सभा दी बैठक अयोजत करना.....	101
243यण सूचना हासल करने दा सदस्य दा अधिकार.....	101

भारत दा संविधान

(विशे—सूची)

अनुच्छेद	सफा
243यत रिटना.....	101
243यथ अपराध ते डन्न.....	102
243यद बहुराज्य सैहकारी समितिये पर लागू होना.....	102
243यध संघ राज्यक्षेत्रे पर लागू होना.....	102
243यन मजूदा कनूने दा जारी रौहना.....	102

भाग 10

अनुसूचित ते जनजाति क्षेत्र

244.	अनुसूचित क्षेत्रे ते जनजाति क्षेत्रे दा प्रशासन	103
244क.	असम दे किश जनजाति क्षेत्रे गी शामिल करिये इक खुदमुखेआर रियासत बनाना ते ओहदे आरतै स्थानी विधान—मंडल जां मंत्रि—परिशद जां दौने दा सिरजन	103

भाग 11

संघ ते रियासते बशकहार सरबंध

ध्याऽ 1 — विधायी सरबंध

विधायी अख्तेआरे दी बंड

245.	संसद आसेआ ते रियासते दे विधान—मंडले आसेआ बनाए गेदे कनूने दा विस्तार	105
246	संसद आसेआ ते रियासते दे विधान—मंडले आसेआ बनाए गेदे कनूने दी विशे—वस्तु	105
246 क	माल ते सेवा—टैक्स दे सरबंधे च चेचे प्रावधान.....	105
247.	किश अतिरिक्त अदालते दी स्थापना दा प्रावधान करने दा संसद दा अख्तेआर	105
248.	घट्ट म्हतव आहले कनूनी अख्तेआर	105
249.	रियासती सूची च कुसै मामले दे सरबंधे च राष्ट्री हित च कनून बनाने दा संसद दा अख्तेआर	106
250.	जेकर अमरजैसी लगी दी होए तां रियासती सूची च कुसै मामले दे सरबंधे च कनून बनाने दा संसद दा अख्तेआर	106
251	संसद आसेआ अनुच्छेद 249 ते अनुच्छेद 250 दे तैहत बनाए गेदे कनूने ते रियासते दे विधान—मंडले आसेआ बनाए गेदे कनूने च ताल—मेल नेई होना	106
252.	दो जां मतिये रियासते आरतै उं दी सैहमती कनै कनून बनाने दा संसद दा अख्तेआर ते नेह कनूने दा कुसै होर रियासत आसेआ अपनाया जाना	106
253.	अंतरराष्ट्री करारे गी असरी करने आरतै विधान	107
254.	संसद आसेआ बनाए गेदे कनूने ते रियासती विधान—मंडल आसेआ बनाए गेदे कनूने च ताल—मेल नेई होना	107
255.	सफारशे ते पुज्ज मजूरी बारे जरूरते गी सिर्फ प्रक्रिया दा विशे मन्नना.....	107

भारत दा संविधान

(विशे-सूची)

ध्या 2 – प्रशासनक सरबंध

सधारण

अनुच्छेद	सफा
256.	रियासतें दी ते संघ दी बाध्यता 107
257.	किश सूरतें च रियासतें पर संघ दा नियंत्रण 107
257क.	[रद्द] 108
258.	किश सूरतें च रियासतें गी अख्तेआर देने वगैरा दा संघ दा अख्तेआर 108
258क.	संघ गी कम्म सौंपने दा रियासतें गी अख्तेआर..... 108
259.	[रद्द] 108
260.	भारत थमां बाहर दे राज्यक्षेत्रें दे सरबंधे च संघ दी अधिकारता 108
261.	सार्वजनक कम्म, रिकार्ड ते न्यांऽ सरबंधी कारवाइयां 109

पानी सरबंधी झमेले

262.	अंतर-रियास्ती नदियें जां नदी-घाटियें दे पानी सरबंधी झमेलें दा नबेड़ा 109
------	--

रियासतें दा आपू चें ताल-मेल

263.	अंतर-रियास्ती परिशद् दे सरबंधे च प्रावधान 109
------	---

भाग 12

वित्त, संपत्ति, करारनामें ते मकद्दमे

ध्याऽ 1 – वित्त

सधारण

264.	व्याख्या 110
265.	कनूनै दे प्राधिकार बगैर टैक्सें गी नेई लाया जाना 110
266.	भारत ते रियासतें दे कठेरमें कोश ते लोक लेखे 110
267.	चान-चक्की कोश..... 110

संघ ते रियासतें बशक्हार राजस्व दी बंड

268.	संघ आसेआ ग्राहेआ जाने आहला पर रियासतें आसेआ कठेरे ते विनियोजित कीता जाने आहला शुल्क 111
268क.	संघ आसेआ ग्राहेआ जाने आहला ते संघ ते रियासतें आसेआ कठेरेआ ते विनियोजित कीता जाने आहला सेवा-टैक्स 111
269.	संघ आसेआ ग्राहे ते कठेरे गेदे पर रियासतें गी सौंपे जाने आहले टैक्स 111
269 क	अंतर-रियास्ती बपार जां तजारत दे सरबंधे च माल ते सेवा-टैक्स गी लाना ते ग्राहना..... 112
270.	ग्राहे गेदे टैक्स ते उं'दी संघ ते रियासतें च बंड 112
271.	किश शुल्कें ते टैक्सें पर संघ दे मकसदें आस्तै सरचार्ज 113

भारत दा संविधान

(विशे-सूची)

अनुच्छेद

सफा

272.	[रद्द।]	113
273.	सनै पर ते सनै दे उत्पादें पर नर्यात शुल्क दे थाहरै पर अनुदान	113
274	नेह टैक्स लाने पर जिं'दे च रियासतें दा हित ऐ, प्रभाव पाने आहले बिल्लें आस्तै राष्ट्रपति दी पुज्ज सफारश दी लोड़.....	113
275.	किश रियासतें गी संघ थमां अनुदान	114
276.	कम्म-धंधे, बन्ज-बपार, रोजी-रुट्टी दे साधनं ते रोजगारें पर टैक्स	115
277.	बचत	115
278.	[रद्द।]	115
279.	"शुद्ध आगम" वगैरा दी गणना.....	115
279 क	माल ते सेवा टैक्स परिशद्.....	116
280.	वित्त आयोग	117
281.	वित्त आयोग दियां सफारशां	117

प्रकीर्ण वित्त सरबंधी प्रावधान

282.	संघ जां रियासत आसेआ अपने राजस्व थमां कीते जाने आहले खर्च	117
283.	कठेरमें कोशें, चान-चक्की कोशें ते लोक लेखे च ज'मा धनराशियें दी हिफाजत वगैरा	117
284.	लोक सेवकें ते अदालतें आसेआ हासल मुअक्कलें दी ज'माराशि ते होर धनराशियें दी हिफाजत	118
285.	संघ दी संपत्ति गी रियासती टैक्स थमां छूट	118
286.	माल दे खरीदने जां बेचने पर टैक्स लाने पर रोक	118
287.	बिजली पर टैक्स दी छूट	119
288.	पानी जां बिजली दे सरबंधे च रियासतें आसेआ टैक्स थमां किश सूरतें च छूट	119
289.	रियासतें दी संपत्ति ते औंदनी गी संघ आसेआ टैक्स थमां छूट	119
290.	किश खर्चें ते पैशनें दे सरबंधे च समायोजन	120
290क.	किश देवस्वम् कोशें गी सलाना भुगतान	120
291.	[रद्द।]	120

ध्याऽ 2 – दोहार लैना

292.	भारत सरकार आसेआ दोहार लैना	120
293.	रियासतें आसेआ दोहार लैना	120

ध्याऽ 3 – संपत्ति, करारनामें, अधिकार, जिम्मेवारियां, बाध्यतां ते मकद्दमे

294.	किश मामलें च जायदाद, संपत्ति, अधिकारें, जिम्मेवारियें ते बाध्यताएं दा उत्तराधिकार	121
295.	होरनें मामलें च संपत्ति, जायदादें, अधिकारें, जिम्मेवारियें ते बाध्यताएं दा उत्तराधिकार	121
296.	राजगामी जां व्यपगत जां स्वामीहीन होने पर हासल संपत्ति	122
297.	राज्यक्षेत्री समुंदरी सीमा जां महाद्वीपी पट्टी थमां हासल होने आहलियें कीमती चीजें ते होर आर्थक क्षेत्र दे चेचे संपत्ति दे संसाधनें दा संघ च शामिल होना	122

भारत दा संविधान

(विशे-सूची)

अनुच्छेद		सफा
298.	बपार वगैरा करने दा अख्तेआर	122
299.	करारनामं	122
300.	मकद्दमे ते कारवाइयां	123

ध्याऽ 4 – संपत्ति दा अधिकार

300क.	कनून दे प्राधिकार दे बगैर व्यक्तियें गी संपत्ति कोला वंचित नेई कीता जाना	123
-------	--	-----

भाग 13

भारत दे राज्यक्षेत्र अंदर बपार, बन्ज ते मेल-जोल

301.	बपार, बन्ज ते मेल-जोल दी स्वतंत्रता	124
302.	बपार, बन्ज ते मेल-जोल पर रोक लाने दा संसद दा अख्तेआर	124
303.	बपार ते बन्ज दे सरबंधें च संघ ते रियासतें दे विधायी अख्तेआरें पर रोक	124
304.	आपूं चें रियासतें च बपार, बन्ज ते मेल-जोल पर रोक	124
305.	मजूदा कनूनें ते रियासत दे एकाधिकार दा प्रावधान करने आहले कनूनें दी हिफाजत	124
306.	[रद्द ।]	124
307.	अनुच्छेद 301 कोला अनुच्छेद 304 दे मकसदें गी अमली च आहने आस्तै प्राधिकारी दी नियुक्ति	124

भाग 14

संघ ते रियासतें अधीन सेवां

ध्याऽ 1 – सेवां

308.	व्याख्या	125
309.	संघ जां रियासत दी सेवा करने आहले व्यक्तियें दी भर्ती ते सेवा दियां शर्ता	125
310.	संघ जां रियासत दी सेवा करने आहले व्यक्तियें दे औहदे दी औद्ध	125
311.	संघ जां रियासत दे तैह्त सिवल हैसियत च नौकरी करने आहले व्यक्तियें गी नौकरी चा कड्डी दिता जाना, औहदे थमां हटाया जाना जां औहदा घटाया जाना	125
312.	अखिल भारती सेवां	126
312क.	किश सेवाएं दे अधिकारियें दियें सेवाएं दियें शर्तें च बदलाव करने जां रद्द करने दा संसद दा अख्तेआर.....	126
313.	संक्रमणकाली प्रावधान	127
314.	[रद्द ।]	127

ध्याऽ 2 – लोक सेवा आयोग

315.	संघ ते रियासतें आस्तै लोक सेवा आयोग	127
316.	सदस्यें दी नियुक्ति ते औहदे दी औद्ध	128
317.	लोक सेवा आयोग दे कुसै सदस्य गी हटाया जाना ते मोत्तल कीता जाना	129
318.	आयोग दे सदस्यें ते कर्मचारियें दियें सेवाएं दियें शर्तें बारै नियम बनाने दे अख्तेआर	129
319.	आयोग दे सदस्यें आसेआ नेह सदस्य नेई रौहने पर औहदा धारण करने दे सरबंधें च रोक	129

भारत दा संविधान

(विशे-सूची)

	अनुच्छेद	सफा
320.	लोक सेवा आयोगें दे कम्म	130
321.	लोक सेवा आयोगें दे कम्मं दा विस्तार करने दा अख्तेआर	131
322.	लोक सेवा आयोगें दे खर्चे	131
323.	लोक सेवा आयोगें दियां रपोटां	131

भाग 14क**ट्रिब्यूनल**

323क.	प्रशासनक ट्रिब्यूनल	132
323ख.	होरनें मामलें आस्तै ट्रिब्यूनल	132

भाग 15**चर्नांऽ**

324.	चर्नाएं दा अधीक्षण, निदेशन ते नियंत्रण चर्नांऽ आयोग कोल होना	134
325.	धर्म, मूलवंश, जाति जां लिंग दे अधार पर कुसै व्यक्ति दा निर्वाचक-नामावली च शामिल कीते जाने आस्तै अपात्र नेई होना ते ओह्दे आसेआ कुसै बशेश निर्वाचक-नामावली च शामिल कीते जाने दा दा'वा नेई कीता जाना	134
326.	लोक सभा ते रियासतें दियें विधान सभाएं आस्तै चर्नाएं दा बालिग मताधिकार दे अधार पर होना	135
327.	विधान-मंडलें आस्तै चर्नाएं दे सरबंधे च प्रावधान करने दा संसद दा अख्तेआर	135
328.	कुसै रियासत दे विधान-मंडल आस्तै चर्नाएं दे सरबंधे च प्रावधान करने दा उस विधान-मंडल दा अख्तेआर	135
329.	चर्नांऽ सरबंधी मामलें च अदालतें दे दखल पर रोक	135
329क.	[रद्द ।]	135

भाग 16**किश वर्गे दे सरबंधे च चेचे प्रावधान**

330.	लोक सभा च अनुसूचित जातियें ते अनुसूचित जनजातियें आस्तै सीटें दा आरक्षण	136
331.	लोक सभा च ऐंग्लो इंडियन समुदाय दी नुमायंदगी	136
332.	रियासतें दियें विधान सभाएं च अनुसूचित जातियें ते अनुसूचित जनजातियें आस्तै सीटें दा आरक्षण	136
333.	रियासतें दियें विधान सभाएं च ऐंग्लो इंडियन समुदाय दी नुमायंदगी	138
334.	किश निश्चत औद्ध दे बाद सीटें दा आरक्षण ते चेची नुमायंदगी खतम होई जानी.....	138
335.	नौकरियें ते औह्दे आस्तै अनुसूचित जातियें ते अनुसूचित जनजातियें दे दा'वे	138
336.	किश नौकरियें च ऐंग्लो इंडियन समुदाय आस्तै चेचे प्रावधान	138
337.	ऐंग्लो इंडियन समुदाय दे फायदे आस्तै शिक्षा सरबंधी माल्ली मदाद दे चेचे प्रावधान	139
338.	राष्ट्री अनुसूचित जाति आयोग	139
338क.	राष्ट्री अनुसूचित जनजाति आयोग	140
338ख.	पिछडे दे वर्गे आस्तै राष्ट्री आयोग	142

भारत दा संविधान

(विशे-सूची)

अनुच्छेद	सफा
339. अनुसूचित क्षेत्रें दे प्रशासन ते अनुसूचित जनजातियें दे कल्याण बारै संघ दा नियंत्रण	143
340. पिछड़े दे वर्गें दे हलातें दी पड़ताल आस्तै आयोग दी नियुक्ति	143
341. अनुसूचित जातियां	143
342. अनुसूचित जनजातियां	144
342क समाजक ते शिक्षा दे अधार पर पिछड़े दे वर्ग	144

भाग 17

राजभाशा

ध्या 1 – संघ दी भाशा

343. संघ दी राजभाशा	145
344. राजभाशा दे सरबंधे च आयोग ते संसद दी समिति	145

ध्या 2 – प्रादेशिक भाशां

345. रियासत दी राजभाशा जां राजभाशां	146
346. इक रियासत ते दूई रियासत दे बिच्च जां कुसै रियासत ते संघ दे बशकहार खतो-कताबत वगैरा दी राजभाशा	146
347. कुसै रियासत दी जनसंख्या दे कुसै वर्ग आसेआ बोल्ली जाने आहली भाशा दे सरबंधे च चेचे प्रावधान	146

ध्या 3 – सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालतें वगैरा दी भाशा

348. सर्वोच्च अदालत ते उच्च अदालतें च ते अधिनियमें, बिल्लें वगैरा आस्तै बरती जाने आहली भाशा	146
349. भाशा कन्नै सरबंधत किश कनून अधिनियमत करने आस्तै बशेश प्रक्रिया	147

ध्या 4 – बशेश निदेश

350. शिकायतें दे नबेड़े आस्तै दरखासतें च बरतोने आहली भाशा	147
350क. प्राइमरी स्तर पर मातरी भाशा च शिक्षा दियां सुविधां	147
350ख. भाशाई घट्ट गिंतरी आहले वर्गें आस्तै बशेश अधिकार	148
351. हिंदी भाशा दे विकास आस्तै निदेश	148

भाग 18

अमरजैसी प्रावधान

352. अमरजैसी दी उद्घोशना	149
353. अमरजैसी दी उद्घोशना दा असर.....	151
354. जिसलै अमरजैसी दी उद्घोशना लागू ऐ उसलै राजस्वें दी बंड सरबंधी प्रावधानें दा लागू होना.....	151

भारत दा संविधान

(विशे-सूची)

अनुच्छेद		सफा
355.	बाहरी हमला ते अंदरूनी गड़बड़ी कन्नै रियासतें दी रक्षा करने दा संघ दा कर्तब्व	151
356.	रियासतें च संविधानक तंत्र दे नाकाम होई जाने दी सूरतै च प्रावधान	151
357.	अनुच्छेद 356 दे तैहत कीती गेदी उद्घोशना तैहत विधायी अख्तेआरें दी बरतून	153
358.	अमरजैसी दरान अनुच्छेद 19 दे प्रावधानें दी मोत्तली	154
359.	अमरजैसी दरान भाग 3 राहें दिते गेदे अधिकारें दे लागू रौहने पर स्थगन	155
359क.	[रद्द].....	156
360.	वित्त सरबंधी अमरजैसी दे बारै प्रावधान	156

भाग 19

प्रकीर्ण

361.	राश्ट्रपति ते राज्यपालें ते राजप्रमुखें दा संरक्षण	158
361क.	संसद ते रियासतें दे विधान-मंडलें दियें कारवाइयें दे प्रकाशन दा संरक्षण	158
361ख.	लाह आहले राजनीतक औहदे पर नियुक्ति आस्तै अयोग्यता	159
362.	[रद्द].....	159
363.	किश संधियें, करारें वगैरा थमां पैदा होए दे विवादें च अदालतें दे दखल पर रोक	159
363क.	देशी रियासतें दे शासकें गी दित्ती गेदी मानता दी समाप्ति ते प्रिवी पर्सें दा अंत	160
364.	बडिडयें बंदरगाहें ते हवाई अड्डें दे बारै बशेश प्रावधान	160
365.	संघ आसेआ दित्तियें गेदियें हिदायतें दा पालन करने च जां उ'नेंगी असरी बनाने च असफलता दा प्रभाव	160
366.	परिभाशां	160
367.	व्याख्या	164

भाग 20

संविधान दी तरमीम

368.	संविधान दी तरमीम करने दा संसद दा अख्तेआर ते ओहदे आस्तै प्रक्रिया	165
------	--	-----

भाग 21

आरजी, संक्रमणकाली ते चेचे प्रावधान

369	राज्य सूची दे किश विशें दे सरबंधे च कनून बनाने दे संसद दे इस चाल्ली आरजी अख्तेआर जि'यां आखो ओह समवर्ती सूची दे विशे होन	166
370.	जम्मू-कश्मीर रियासत दे सरबंधे च आरजी प्रावधान	166
371.	महाराश्ट्र ते गुजरात रियासतें दे सरबंधे च चेचे प्रावधान	167
371क.	नागालैंड रियासत दे सरबंधे च चेचे प्रावधान	168
371ख.	असम रियासत दे सरबंधे च चेचे प्रावधान	170
371ग.	मणिपुर रियासत दे सरबंधे च चेचे प्रावधान	170
371घ.	आंध्र प्रदेश रियासत दे सरबंधे च चेचे प्रावधान	171

भारत दा संविधान

(विशे-सूची)

अनुच्छेद	सफा
371ड. आंध्र प्रदेश च केंदरी विश्वविद्यालय दी स्थापना	173
371च. सिक्किम रियासत दे सरबंधे च चेचे प्रावधान	173
371छ. मिज़ोरम रियासत दे सरबंधे च चेचे प्रावधान	175
371ज. अरुणाचल प्रदेश रियासत दे सरबंधे च चेचे प्रावधान.....	175
371झ. गोवा रियासत दे सरबंधे च चेचे प्रावधान	176
372. मजूदा कनूनें दा चलन च बनेआ रौहना ते उं'दा अनुकूलन	176
372क. कनूनें गी अनुकूल बनाने दा राष्ट्रपति दा अख्तेआर	177
373. निवारक नज़रबंदी च रक्खे गेदे व्यक्तिये दे सरबंधे च किश सूरते च हुकम देने दा राष्ट्रपति दा अख्तेआर.....	177
374. फेडरल अदालत दे जज्जे ते फेडरल अदालत च जां हिज़ मजेस्टी दी परिशद् कोल बकाया पेदिये कारवाइये दे बारे च प्रावधान	177
375. संविधान दे प्रावधाने दे तैहत रौहदे होई अदालते, प्राधिकारिये ते अधिकारिये दा कम्म करदे रौहना	178
376. उच्च अदालते दे जज्जे दे बारे च प्रावधान	178
377. भारत दे नियंत्रक-महालेखापारखी दे बारे च प्रावधान	178
378. लोक सेवा आयोगे दे बारे च प्रावधान	179
378क. आंध्र प्रदेश विधान सभा दी औद्ध दे बारे च चेचे प्रावधान	179
379-391.[रद्द]	179
392. औखे गी दूर करने दा राष्ट्रपति दा अख्तेआर	179

भाग 22

लौहका सिरलेख, रम्भ, हिंदी च प्राधिकृत पाठ ते रद्द

393. लौहका सिरलेख	180
394. रम्भ	180
394क. हिंदी भाशा च प्राधिकृत पाठ	180
395. रद्द	180

अनुसूचियां

पैहली अनुसूची

1. रियासतां	181
2. संघ राज्यक्षेत्र	185

दूई अनुसूची

भाग-क - राष्ट्रपति ते रियासते दे राज्यपाले दे बारे प्रावधान	187
भाग-ख -[रद्द]	187

भारत दा संविधान
(विशे-सूची)

अनुच्छेद	सफा
भाग-ग – लोक सभा दे अध्यक्ष ते उपाध्यक्ष दे ते राज्य सभा दे सभापति ते उपसभापति दे ते रियासत दी विधान सभा दे अध्यक्ष ते उपाध्यक्ष दे ते विधान परिशद् दे सभापति ते उपसभापति दे बारै प्रावधान	188
भाग-घ – सर्वोच्च अदालत ते उच्च अदालतें दे जज्जें बारै प्रावधान	188
भाग-ङ – भारत दे नियंत्रक-महालेखापारखी बारै प्रावधान	191
त्री अनुसूची – सघंद जां प्रतिज्ञा दे फार्म	192
चौथी अनुसूची – राज्य सभा च सीटें दी बंड	195
पञ्चमी अनुसूची – अनुसूचित क्षेत्रें ते अनुसूचित जनजातियें दे प्रशासन ते नियंत्रण बारै प्रावधान	197
भाग क – सधारण	197
भाग ख – अनुसूचित क्षेत्रें ते अनुसूचित जनजातियें दा प्रशासन ते नियंत्रण	197
भाग ग – अनुसूचित क्षेत्र	198
भाग घ – अनुसूची दी तरमीम	199
छेमी अनुसूची – असम, मेघालय, त्रिपुरा ते मिज़ोरम रियासतें दे जनजाति क्षेत्रें दे प्रशासन बारै प्रावधान	200
सतमी अनुसूची	
सूची 1 – संघ सूची	220
सूची 2 – राज्य सूची	224
भाग 3 – समवर्ती सूची	227
अठमी अनुसूची – भाशां	231
नौमी अनुसूची – किश अधिनियमं ते विनियमं दा कनूनी तौरै पर मान्यकरण	232
दसमी अनुसूची – दल बदली दे अधार पर अयोग्यता बारै प्रावधान	245
जांहरमी अनुसूची – पंचैतें दे अख्तेआर, प्राधिकार ते जिम्मेवारियां	248
बाहरमी अनुसूची – नगरपालिकाएं वगैरा दे अख्तेआर, प्राधिकार ते जिम्मेवारियां	249
अनुक्रमणिका	250
भारत दे संविधान च प्रयुक्त अंग्रेजी-डोगरी तकनीकी शब्दावली	324

भारत दा संविधान

प्रस्तावना

अस, भारत दे लोक, भारत गी इक ¹[सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेख लोकतंत्री गणराज्य] बनाने आस्तै, ते ओहदे सभनें नागरिकें गी :

समाजक, आर्थक ते राजनीतक न्यांस,
विचार, अभिव्यक्ति, विष्वास, धर्म

ते पूजा-पाठ दी स्वतंत्रता
प्रतिष्ठा ते मौके दी समानता

हासल कराने आस्तै,
ते उ'नें सभनें च

व्यक्ति दी गरिमा ते ²[राष्ट्र दी एकता
ते अखंडता] गी जकीनी बनाने आह्ला भाईचारा

बधाने आस्तै

द्विदसंकल्प होइयै अपनी इस संविधान सभा च अज्ज तरीक 26 नवम्बर, 1949 ई. (माघ महीना शुक्ल पक्षै दी सतमीं, संवत् दो जहार छे विक्रमी) गी ते हूनै कोला इस संविधान गी अंगीकार, अधिनियमित ते अपने आप गी समर्पत करने आं।

-
1. संविधान (बतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 2 राहें(3-1-1977 थमां) "प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतंत्री गणराज्य" दे थाहर पर प्रतिस्थापत।
 2. संविधान (बतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 2 राहें(3-1-1977 थमां) "राष्ट्र दी एकता" दे थाहर पर प्रतिस्थापत।

भाग-1
संघ ते ओहदा राज्यक्षेत्र

1. **संघ दा नांऽ ते राज्यक्षेत्र—** (1) इंडिया, जेहदा नांऽ भारत ऐ, रियासतें दा इक संघ होग।
¹[(2) उत्थै रियासतां ते राज्यक्षेत्र उ'आं होडन जि'यां पैहली अनुसूची च चेचे तौरा पर दस्से गेदे न]
 (3) भारत दे राज्यक्षेत्र च शामिल होडन —
 (क) रियासतें दे राज्यक्षेत्र;
²(ख) पैहली अनुसूची च दस्से गेदे संघ राज्यक्षेत्र; ते]
 (ग) नेह होर अर्जत कीते गेदे राज्यक्षेत्र।
 2. **नमियें रियासतें दी शमूलियत जां स्थापना —**
 संसद कनूनै राहें नेह निबंधनं ते शर्तें पर नमियें रियासतें गी संघ'च शामिल करी सकदी ऐ जां नमियें रियासतें गी स्थापत करी सकदी ऐ, जि'यां ओह ठीक समझै।
³2क [सिक्किम गी संघ कनूनै जोड़ेआ जाहग] संविधान (छितीमीं तरमीम) अधिनियम, 1975, (26-4-1975 थमां) रद्द।
 3. **नमियें रियासतें दा नर्माण ते मजूदा रियासतें दे रकबें, हद्दें जां नाए'च फेर-बदल करना —** संसद कनूनै राहें —
 (क) कुसै रियासतै थमां उसदे राज्यक्षेत्र गी बक्ख करियै जां द'ऊं जां मतियें रियासतें गी मलाइयै जां रियासतें दे हिस्सें गी मलाइयै जां कुसै रियासतै दे राज्यक्षेत्रै गी कुसै रियासतै दे हिस्से कनूनै मलाइयै नमीं रियासत बनाई सकदी ऐ;
 (ख) कुसै रियासत दा रकबा बधाई सकदी ऐ;
 (ग) कुसै रियासत दा रकबा घटाई सकदी ऐ;
 (घ) कुसै रियासत दी हद्दें'च फेर-बदल करी सकदी ऐ;
 (ङ) कुसै रियासत दे नांऽ'च फेर-बदल करी सकदी ऐ।
⁴ [बावजूद एहदे, कोई बिल्ल जेहदे'च कुसै रियासत दे रकबे, हद्दें जां नांऽ पर असर पाने आह्ला प्रस्ताव शामिल ऐ, इस मकसद आस्तै राष्ट्रपति दी सफारष दे बगैर संसद दे कुसै बी सदन'च पेष नेई कीता जाहग⁵, राष्ट्रपति आसेआ रियासत दी विधान सभा गी ओहदे पर अपने विचार देने आस्तै भेजेआ गेदा बिल्ल, उस औद्ध दे अंदर जेहड़ी उस संदर्भ च चेची दस्सी जा जां अगें होर औद्ध जेहदी राष्ट्रपति मंजूरी देऐ ते इस चाल्ली दस्सी गेदी जां मंजूर कीती गेदी औद्ध समाप्त नेई होई जंदी ऐ।]
- ⁶[स्पष्टीकरण-1, इस धारा, दे खंड (क) ते खंड (ङ) "रियासत" च संघ राज्यक्षेत्र शामिल ऐ, पर परंतुक, "रियासत" च संघ राज्यक्षेत्र शामिल नेई ऐ।
- स्पष्टीकरण-2, खंड (क) राहें संसद गी दित्ते गेदे अख्तेआर च कुसै रियासत जां संघ राज्यक्षेत्र दे कुसै हिस्से गी कुसै होर रियासत जां संघ राज्यक्षेत्र च मलाइयै नमीं रियासत जां संघ राज्यक्षेत्र बनाने दा अख्तेआर शामिल ऐ।]

-
1. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 2 राहें खंड (2) राहें प्रतिस्थापत।
 2. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 2 राहें उपखंड (ख) राहें प्रतिस्थापत।
 3. संविधान (पैंत्तिमीं तरमीम) अधिनियम, 1974 दी धारा 2 राहें (1-3-1975) राहें अनुच्छेद 2(क) अंतरस्थापत।
 4. संविधान (पञ्जमीं तरमीम) अधिनियम, 1955, धारा 2 राहें परंतुक राहें प्रतिस्थापत
 5. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956, दी धारा 29 राहें "पैहली अनुसूची दे भाग क ते भाग ख च चेचे दस्से गेदे" शब्दें दा लोप कीता गेआ।
 6. संविधान (ठाहरमीं तरमीम) अधिनियम, 1966 दी धारा 2 राहें अंतरस्थापत।

भारत दा संविधान
भाग-1
संघ ते आहदा राज्यक्षेत्र

4. पैहली अनुसूची ते चौथी अनुसूची दी तरमीम ते जिमनी, घटनात्मी ते नतीजक मामलें दे प्रावधान करने आस्तै अनुच्छेद 2 ते 3 तैहत बनाए गेदे कनून –
- (1) अनुच्छेद 2 जां अनुच्छेद 3 च दस्से गेदे कुसै कनून च पैहली अनुसूची ते चौथी अनुसूची दी तरमीम आस्तै नेह प्रावधान शामिल होडन जेहडे उस कनून दे प्रावधानें गी असरी करने आस्तै जरूरी होन ते नेह जिमनी, घटनात्मी ते नतीजक प्रावधान बी (जिं'दे तैहत नेह कनून थमां प्रभावत रियासत जां रियासतें दे संसद'च ते विधान-मंडल जां विधान-मंडलें च नुमायंदगी दे बारै प्रावधान न) शामिल होई सकडन जि'नेगी संसद लाजमी समझै ।
- (2) उप्पर आखेआ गेदा कोई कनून अनुच्छेद 368 दे मकसदें आस्तै इस संविधान दी तरमीम नेई समझेआ जाहग ।

भाग 2

नागरिकता

5. संविधान दे रम्भ पर नागरिकता — इस संविधान दे रम्भ पर हर इक व्यक्ति जेहदा भारत दे राज्यक्षेत्र च निवास ऐ ते —

- (क) जेहड़ा भारत दे राज्यक्षेत्र च पैदा होआ हा, जां
- (ख) जेहदे माता जां पिता चा कोई भारत दे राज्यक्षेत्र च पैदा होए दा हा, जां
- (ग) जेहड़ा नेह रम्भ थमां ठीक पैहलें घट्टो-घट्ट पंजें बरें तगर भारत दे राज्यक्षेत्र च ममूली तौरा पर निवासी रेहदा ऐ,

भारत दा नागरिक होग।

6. पाकिस्तान थमां भारत च विस्थापन होइयै आए दे किश व्यक्तियें द नागरिकता दे अधिकार — अनुच्छेद 5 च बावजूद एहदे, कोई व्यक्ति जिन्ने नेह राज्यक्षेत्र थमां जेहड़ा इस बेल्लै पाकिस्तान दे अधीन ऐ, भारत दे राज्यक्षेत्र च विस्थापन कीता ऐ, इस संविधान दे रम्भ पर भारत दा नागरिक समझेआ जाहग —

(क) जेकर ओह जां ओहदे माता जां पिता चा कोई जां ओहदे दादा जां दादी जां नाना जां नानी चा कोई (मूल रूप च जि'यां अधिनियम मताबक) भारत शासन अधिनियम 1935 च परिभाषत भारत च पैदा होआ हा; ते

(ख) (i) जद् के ओह व्यक्ति नेहा ऐ जिन्ने 19 जुलाई 1948 थमां पैहलें इस चाल्ली विस्थापन कीते दा ऐ उसलै जेकर ओह अपने विस्थापन दी तरीक कोला भारत दे राज्यक्षेत्र च ममूली तौरा पर निवासी रेहदा ऐ, जां

(ii) जद् के ओह व्यक्ति नेहा ऐ जिन्ने 19 जुलाई 1948 गी जां ओहदे परेंत इस चाल्ली विस्थापन कीते दा ऐ तां जेकर ओह नागरिकता हासल करने आस्तै भारत डोमिनयन दी सरकार आसेआ नर्धारत फार्म च ते तरीके कन्नै ओहदे आसेआ इस संविधान दे रम्भ थमां पैहलें नेह अधिकारी गी, जिसी उस सरकार ने इस मकसद आस्तै नियुक्त कीते दा ऐ दरखास्त दित्ते जाने पर उस अधिकारी आसेआ उसी भारत दा नागरिक पंजीकृत करी लैता गेआ ऐ:

पर जेकर कोई व्यक्ति अपनी दरखासत दी तरीक कोला ठीक पैहलें घट्टो-घट्ट छे म्हीने भारत दे राज्यक्षेत्र दा निवासी नेई रेहदा तां ओह इस चाल्ली पंजीकृत नेई कीता जाहग।

7. पाकिस्तान अल विस्थापन करने आहले किश व्यक्तियें द नागरिकता दे अधिकार — अनुच्छेद 5 ते अनुच्छेद 6 च बावजूद एहदे, कोई व्यक्ति जिन्ने 1 मार्च 1947 परेंत भारत दे राज्यक्षेत्र थमां नेह राज्यक्षेत्र गी, जेहड़ा इस बेल्लै पाकिस्तान दे अधीन ऐ, विस्थापन कीता ऐ, भारत दा नागरिक नेई समझेआ जाहग:

पर इस अनुच्छेद दी कोई गल्ल नेह आदमी पर लागू नेई होग, जेहड़ा नेह राज्यक्षेत्र गी, जेहड़ा इस बेल्लै पाकिस्तान च ऐ, विस्थापन करने परेंत भारत दे राज्यक्षेत्र गी नेही इजाजत तैहत परतोई आया ऐ जेहड़ा परती बस्सने आस्तै जां पक्के तौरा पर परताने आस्तै कुसै कनून दे प्राधिकार राहें जां ओहदे तैहत दित्ती गेई ऐ ते हर इक नेह व्यक्ति दे बारे च अनुच्छेद 6 दे खंड (ख) दे मकसदें आस्तै एह समझेआ जाहग जे उ'न्ने भारत दे राज्यक्षेत्र गी 19 जुलाई 1948 दे परेंत विस्थापन कीता ऐ।

8. भारत थमां बाहर रौहने आहले भारती मूल दे किश व्यक्तियें द नागरिकता दे अधिकार — अनुच्छेद 5 च बावजूद एहदे, कोई व्यक्ति जेहड़ा जां जेहदे माता जां पिता चा कोई जां दादा जां दादी जां नाना जां नानी चा कोई (मूल रूप च जि'यां अधिनियम मताबक) भारत शासन अधिनियम, 1935 च परिभाषत भारत च पैदा होआ हा ते जेहड़ा इस चाल्ली परिभाषत भारत थमां बाहर कुसै देसै च अस्थाई तौरा पर र'वा करदा ऐ, भारत दा नागरिक समझेआ जाहग जेकर

भारत दा संविधान

(भाग 2 — नागरिकता)

ओह नागरिकता हासल करने आस्तै भारत डोमिनियन दी सरकार आसेआ जां भारत सरकार आसेआ नर्धारत फार्म च ते तरीके कन्नै अपने आसेआ उस देश च, जित्थै ओह उस बेल्लै र'वा करदा ऐ भारत दे राजनयिक ते कौंसली नुमायंदे गी इस संविधान दे रम्भ थमां पैहलें जां ओहदे बाद अवेदन कीते जाने पर नेह राजनयिक जां कौंसली नुमायंदे आसेआ भारत दा नागरिक पंजीकृत करी लैता गेआ ऐ।

9. अपनी इच्छा कन्नै बदेशी मुल्खै दी नागरिकता अर्जित करने आहले व्यक्तियें दा नागरिक नेई होना — जेकर कुसै व्यक्ति ने कुसै बदेशी मुल्क दी नागरिकता अपनी मर्जी कन्नै हासल करी लैती दी ऐ तां ओह अनुच्छेद 5 दे अधार पर भारत दा नागरिक नेई होग जां अनुच्छेद 6 जां अनुच्छेद 8 दे अधार पर भारत दा नागरिक नेई समझेआ जाहग।

10. नागरिकता दे अधिकारें दा बनेआ रौहना — हर इक व्यक्ति, जेहड़ा इस भाग दे पछेत्तरे प्रावधानें चा कुसै दे अधीन भारत दा नागरिक ऐ जां समझेआ जंदा ऐ, नेह कनून दे प्रावधानें दे तैह्त जेहड़े संसद आसेआ बनाए जाहन, भारत दा नागरिक बने दा रौहग।

11. संसद आसेआ नागरिकता दे अधिकार दा कनून राहें विनियमन कीता जाना — इस भाग दे पछेत्तरे प्रावधान दी कोई गल्ल नागरिकता दे अर्जन ते समाप्ति ते नागरिकता कन्नै सरबंधत होर सभनें मामलें दे सरबंधै च प्रावधान करने दे संसद दे अख्तेआर गी घट्ट नेई करग।

भाग 3

मौलिक अधिकार

सधारण

12. परिभाषा — इस भाग च, जिसलै तगर संदर्भ कन्नै जां पही जरूरी नेई होऐ, "राज्य" दे तैहूत भारत दी सरकार ते संसद ते रियासतें चा हर इक रियासत दी सरकार ते विधान-मंडल ते भारत दे राज्यक्षेत्र दे अंदर जां भारत सरकार दे नियंत्रण दे तैहूत सब्भै मुकामी ते होर प्राधिकारी न।

13. मौलिक अधिकारें कन्नै असंगत जां उ'नेंगी घटाने आह्ले कनून — (1) इस संविधान दे रम्भ कोला ठीक पैहलें भारत दे राज्यक्षेत्र च लागू सब्भै कनून उस मात्तरा तगर सिफर होई जाह्ङन जित्थूं तगर ओह् इस भाग दे प्रावधानें कन्नै मेल नेई खंदे।

(2) रियासत नेहा कोई कनून नेई बनाह्ग जेह्ङा इस भाग राहें दित्ते गेदे अधिकारें गी खोंहदा ऐ जां घट्ट करदा ऐ ते इस खंड दे उलंघन च बनाया गेदा हर कनून उलंघन दी मात्तरा तगर सिफर होग।

(3) इस अनुच्छेद च जिसलै तगर जे संदर्भ कन्नै जां पही जरूरी नेई होऐ —

(क) "कनून" दे तैहूत भारत दे राज्यक्षेत्र च कनून दा बल रक्खने आह्ला कोई अध्यादेश, अदेश, उपकनून, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि, जां प्रथा ऐ;

(ख) "लागू कनून" दे तैहूत भारत दे राज्यक्षेत्र च कुसै विधान-मंडल जां होर समर्थ अधिकारी आसेआ इस संविधान दे रम्भ कोला ठीक पैहलें पास कीता गेदा जां बनाया गेदा कनून ऐ जेह्ङा पैहलें गै रद्द नेई करी दित्ता गेदा ऐ, भाएं नेहा कोई कनून जां ओहदा कोई भाग उस बेल्लै पूरी चाल्ली जां खास क्षेत्रें च चलन च नेई ऐ।

¹[(4) इस अनुच्छेद दी कोई गल्ल अनुच्छेद 368 दे तैहूत कीती गेदी इस संविधान दी कुसै तरमीम पर लागू नेई होग।]

बरोबरी दा अधिकार

14. कनून सामन बरोबरी — राज्य, भारत दे राज्यक्षेत्र च कुसै व्यक्ति गी कनून दे सामनै बरोबरी कन्नै जां कनून दे बरोबर संरक्षण कोला मैहरूम नेई करग।

15. धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग जां जनम-थाहर दे आधार पर फकों-फर्की पर रोक — (1) राज्य, कुसै नागरिक दे बरुद्ध छडे धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जनम-थाहर जां इ'दे बिच्चा कुसै दे आधार पर कोई फकों-फर्की नेई करग।

(2) कोई नागरिक सिर्फ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जनम-थाहर जां इ'दे चा कुसै दे आधार पर —

(क) हट्टियें, सार्वजनक रैस्टोरेंटें, होटलें ते सार्वजनक मनोरंजन दे थाहरें च प्रवेश, जां

(ख) पूरी चाल्ली जां आषिक रूप कन्नै रियासती कोष कन्नै पोषत जां आम जनता दे इस्तेमाल आस्तै समर्पत खूह, तलाऽ, न्होनें आस्तै स्नानघाटें, सडकें ते सार्वजनक किट्ट आह्ले थाहरें दे इस्तेमाल, दे सरबंधें च कुसै बी अयोग्यता, जिम्मेवारी, पाबंदी जां शर्तें दे तैहूत नेई होग।

(3) इस अनुच्छेद दी कोई बी गल्ल रियासत दियें महिलाएं ते ज्यानें आस्तै कोई बषेस प्रावधान करने कोला नेई रोकग।

²[(4) इस अनुच्छेद दी जां अनुच्छेद 29 दे खंड (2) दी कोई गल्ल राज्य गी समाजक ते षिक्षा दी द्रिष्टी कन्नै पिछडे दे नागरिकें दे कु'नें वर्गें दी तरक्की आस्तै जां अनुसूचित जातियें ते अनुसूचित जनजातियें आस्तै कोई चेचा प्रावधान करने कोला नेई रोकग।]

³[(5) इस अनुच्छेद जां अनुच्छेद 19 दे खंड (1) दे उपखंड (N) दी कोई गल्ल राज्य गी समाजक ते षिक्षा दी द्रिष्टी कन्नै पिछडे दे नागरिकें दे कु'नें वर्गें दी तरक्की आस्तै जां अनुसूचित जातियें जां अनुसूचित जनजातियें आस्तै, कनून

1. संविधान (चोह्विमीं तरमीम) अधिनियम, 1971 दी धारा 2 राहें अंतरस्थापत।

2. संविधान (पैहली तरमीम) अधिनियम, 1951 दी धारा 2 राहें जोडेआ गेदा।

3. संविधान (त्रेआनमीं तरमीम) अधिनियम, 2005 दी धारा 2 राहें (20-1-2006 थमा) अंतरस्थापत।

भारत दा संविधान

(भाग 3 — मौलिक अधिकार)

राहें, कोई चेचे प्रावधान करने कोला नेई रोकग, जित्थूं तगर नेह् चेचे प्रावधान, अनुच्छेद 30 दे खंड (1) च दस्से गेदे घट्ट गिंतरी आहली शिक्षा संस्थाएं कोला बक्ख, शिक्षा संस्थाएं च, जेह्दे तैह्त् निजी शिक्षा संस्था बी हैन, भाएं उ'नेंगी रियासत दी मदाद हासल होऐ जां नेई, दाखले कन्नै सरबंधत न।]

¹(6) इस अनुच्छेद दी जां अनुच्छेद 19 दे खंड (1) दा उपखंड (छ) जां अनुच्छेद 29 दे खंड (2) दी कोई गल्ल राज्य गी हेठ लिखे दे प्रावधान करने कोला नेई रोकग —

(क) खंड (4) ते खंड (5) च दस्से गेदे वर्ग दे इलावा आर्थक तौरा पर कमजोर कुसै बी वर्ग दे नागरिकें दे बादधे—बरोस आस्तै कोई चेचा प्रावधान करना।

(ख) खंड (4) ते खंड (5) च दस्से गेदे वर्ग दे इलावा, आर्थक तौरा पर कमजोर कुसै बी वर्ग दे नागरिकें आस्तै कोई चेचा प्रावधान करना, जित्थूं तगर नेह् प्रावधान शिक्षा संस्थाएं च उं'दे दाखले कन्नै सरबंधत न जिं'दे च निजी शिक्षा संस्थान बी शामिल न, भाएं ओह् सरकार आसेआ मदाद हासल करदे होन जां नेई, अनुच्छेद 30 दे खंड (1) च दस्से गेदे अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानें दे इलावा, जेह्ड़ा आरक्षण दे मामले च मजूदा आरक्षण कोला बादधू होग ते हर वर्ग च बद्ध कोला बद्ध 10 फीसदी होग।

व्याख्या — इस अनुच्छेद ते अनुच्छेद 16 दे मकसदें आस्तै, “आर्थक तौरा पर कमजोर वर्ग” ओह् होग जेह्ड़ा राज्य समें—समें पर परोआरक औदन दे आधार पर ते होरनें आर्थक लाह्हीन संकेतकें दे आधार पर अधिसूचित करै।

16. लोक रोजगार दे मामलं च मौकें दी बरोबरी — (1) राज्य दे तैह्त् कुसै औह्दे पर रोजगार जां नियुक्ति कन्नै सरबंधत मामलें च सभनें नागरिकें आस्तै बरोबर मौके होडन।

(2) राज्य दे तैह्त् कुसै रोजगार जां औह्दे दे सरबंधे च सिंफ धर्म, मूलवंष, जाति, लिंग, मूल, जनम—थाहर, निवास जां इं'दे चा कुसै दे आधार पर नां ते कोई नागरिक अयोग्य होग ते नां गै ओह्दे कन्नै कोई भेद—भाव कीता जाह्ग।

(3) इस अनुच्छेद दी कोई गल्ल संसद गी कोई नेहा कनून बनाने कोला नेई रोकग जेह्ड़ा ²[कुसै राज्य जां संघ राज्यक्षेत्र दी सरकार दे जां ओह्दे च कुसै मुकामी जां होर प्राधिकारी दे अधीन कुसै वर्ग जां वर्गें दे औह्दे पर रोजगार जां नियुक्ति थमां पैह्लें उस राज्य जां संघ राज्यक्षेत्र दे अंदर रौहने कन्नै सरबंधत कोई जरूरत नर्धारत करदी ऐ।]

(4) इस अनुच्छेद दी कोई गल्ल, राज्य गी पिछड़े दे नागरिकें दे कुसै वर्ग दे पक्ख च, जिं'दी नुमायंदगी राज्य दी राड च राज्य दे अधीन सेवाएं च काफी नेई ऐ, नियुक्तियें जां औह्दें दे आरक्षण आस्तै प्रावधान करने कोला नेई रोकग।

³[(4क) इस अनुच्छेद दी कोई गल्ल राज्य गी अनुसूचित जातियें ते अनुसूचित जनजातियें दे पक्ख च, जिं'दी नुमायंदगी राज्य दी राड च राज्य दे अधीन सेवाएं च काफी नेई ऐ, राज्य दे अधीन सेवाएं च ⁴[कुसै वर्ग जां वर्गें दे औह्दें पर नतीजन वरीयता सनें, तरक्की दे मामलें च] आरक्षण आस्तै प्रावधान करने कोला नेई रोकग।]

⁵[(4ख) इस अनुच्छेद दी कोई गल्ल राज्य गी कुसै ब'रे च कु'नें नेई भरे गेदे नेह् खाल्ली थाहरें, जेह्ड़े खंड (4) जां खंड (4क) दे तैह्त् कीते गेदे आरक्षण आस्तै कुसै प्रावधान दे मताबक उस ब'रे च भरे जाने आस्तै मखसूस न, कुसै अगेत्रे ब'रे जां ब'रें च भरे जाने आस्तै बक्ख वर्ग दे खाल्ली थाहरें दे रूपै च विचार करने कोला रोकग नेई, ते नेह् वर्ग दे खाल्ली थाहरें पर उस ब'रे दे खाल्ली थाहरें कन्नै जेह्दे कन्नै ओह् भरे जा करदे न, उस ब'रे दियें खाल्ली थाहरें दी कुल गिंतरी दे सरबंधे च पंजाह् फीसदी आरक्षण दी बद्धो—बद्ध हद्द नर्धारत करने आस्तै विचार नेई कीता जाह्ग।]

1. संविधान (इक सौ त्रै तरमीम), अधिनियम 2019 दी धारा 5 राहें जोड़ेआ गेआ।

2. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूचि राहें “पैहली अनुसूचि च चेचे तौर पर दस्से गेदे कुसै रियासत दे जां ओह्दे क्षेत्र च कुसै मुकामी जां होर प्राधिकारी दे अधीन उस रियासत अंदर रौहने कन्नै सरबंधत कुसै जरूरत गी नर्धारत करदी होऐ” दे थाहर पर प्रतिस्थापत।

3. संविधान (स्ततरमीं तरमीम) अधिनियम, 1995 दी धारा 2 राहें अंतरस्थापत।

4. संविधान (पचासिमीं तरमीम) अधिनियम, 2001 दी धारा 2 राहें (17—6—1995 थमां) किष शब्दें दे थाहरा पर प्रतिस्थापत।

5. संविधान (कासिमीं तरमीम) अधिनियम, 2000 दी धारा 2 राहें (9—6—2000 थमां) अंतरस्थापत।

भारत दा संविधान

(भाग 3 — मौलिक अधिकार)

(5) इस अनुच्छेद दी कोई गल्ल कुसै नेह कनूनै दे चलन पर असर नेई पाहग जेहड़ी एह प्रावधान करदी ऐ जे कुसै धार्मिक जां सांप्रदायक संस्था दे कम्मै-काजै कन्नै सरबंधत कोई औहदाधारी जां ओहदे शासी अदारे दा कोई सदस्य कुसै खास धर्म गी मन्ने आहला जां कुसै खास संप्रदाय दा गै होऐ।

¹(6) इस अनुच्छेद दी कोई गल्ल खंड (4) च दस्से गेदे वर्ग दे इलावा कुसै बी आर्थक तौरा पर कमजोर वर्ग दे नागरिकें दे हितें च नियुक्तियें जां औहदें दे आरक्षण आस्तै राज्य गी प्रावधान करने कोला नेई रोकग, जेहड़ा आरक्षण दे मामले च मजूदा आरक्षण कोला बादधू होग ते हर वर्ग च बद्ध कोला बद्ध औहदें दा 10 फीसदी होग।

17. छूह-छात दा अंत — “छूह-छात” गी खतम कीता जंदा ऐ ते कुसै बी रूपै च एहदे प्रचलन पर रोक लाई जंदी ऐ। “छूह-छात” थमां पैदा होई दी कुसै बी अयोग्यता गी लागू करना अपराध होग जेहड़ा कनूनै अनुसार दंडजोग होग।

18. उपाधियें दा अंत — (1) राज्य, सेना जां विद्या सरबंधी सम्मान छुट्ट होर कोई उपाधि प्रदान नेई करग।

(2) भारत दा कोई नागरिक कुसै बदेषी मुल्कै थमां कोई उपाधि स्वीकार नेई करग।

(3) कोई व्यक्ति, जेहड़ा भारत दा नागरिक नेई है, राज्य दे अधीन लाह जां विष्वास दे कुसै औहदे गी धारन करदे होई कुसै बदेषी मुल्क थमां कोई उपाधि राष्ट्रपति दी सैहमती बगैर स्वीकार नेई करग।

(4) राज्य दे अधीन लाह जां विष्वास दा औहदा धारण करने आहला कोई व्यक्ति कुसै बदेषी मुल्क थमां जां ओहदे अधीन कुसै रूप च कोई तोहफा, मेहनताना जां औहदा राष्ट्रपति दी सैहमती बगैर स्वीकार नेई करग।

स्वतंत्रता दा अधिकार

19. बोल्लने दी स्वतंत्रता वगैरा विशें सरबंधी किश अधिकारें दा संरक्षण — (1) सभनें नागरिकें गी —

(क) बोल्लने दी अजादी ते अभिव्यक्ति दी अजादी दा,

(ख) शांतिपूर्वक ते हथ्यार बिजन किट्ट दा,

(ग) संस्था जां संघ बनाने दा, ²[जां सैहकारी संस्थां]

(घ) भारत दे राज्यक्षेत्र च हर थाहरा निर्बिघन औने-जाने दा,

(ङ) भारत दे राज्यक्षेत्र दे कुसै बी हिस्से च रौहने ते बस्सी जाने दा, ³[ते]

⁴ * * * * *

(छ) कोई व्यवसाय, पेसा, बपार जां कारोबार करने दा,

अधिकार होग।

⁵[(2) खंड (1) दे उपखंड (क) दी कोई गल्ल आखे गेदे उपखंड राहें दित्ते गेदे अधिकार दी बरतून पर ⁶[भारत दी प्रभुता ते अनत्रुटता, राज्य दी सुरक्षा, बदेषी मुल्कें कन्नै मित्तरता आहले सरबंधें, लोक-व्यवस्था, षिष्टाचार जां सदाचार दे हितें च जां अदालत दी अवमानना, मानहानि जां अपराध गी उत्तेजित करने दे सरबंधें च जायज़ रकावटां जित्थूं तगर कोई मजूदा कनून लांदा ऐ उत्थूं तगर ओहदे चलन पर प्रभाव नेई पाहग जां उ'ऐ नेहियां रकावटां लाने आहला कोई कनून बनाने कोला राज्य गी नेई रोकग।]

1. संविधान (इक सौ त्रै तरमीम), अधिनियम 2019 दी धारा 5 राहें जोड़ेआ गेआ।

2. संविधान (सताहनमीं तरमीम) अधिनियम, 2011 दी धारा 2 राहें (15-2-2012 थमां)

3. संविधान (चरतालमीं तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 2 राहें (20-6-1979 थमां) अंतरस्थापत।

4. संविधान (चरतालमीं तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 2 राहें (20-6-1979 थमां) उपखंड (घ) दा लोप कीता गेआ।

5. संविधान (पैहली तरमीम) अधिनियम, 1951 दी धारा 3 राहें (पुज्ज प्रभाव कन्नै) खंड 2 दी थाहरा पर प्रतिस्थापत।

6. संविधान (सोहलमीं तरमीम) अधिनियम, 1963 दी धारा 2 राहें अंतरस्थापत।

भारत दा संविधान
(भाग 3 — मौलिक अधिकार)

(3) आखे गेदे खंड दे उपखंड (ख) दी कोई गल्ल आखे गेदे उपखंड राहें दित्ते गेदे अधिकार दे प्रयोग पर ¹[भारत दी प्रभुता ते अनत्रुत्ता जां] लोक व्यवस्था दे हितें च जायज बंदषां जित्थूं तगर कोई मजूदा कनून लांदा ऐ उत्थूं तगर ओहदे चलन पर प्रभाव नेई पाहग जां उ'आं बंदषां लाने आह्ला कोई कनून बनाने कोला राज्य गी नेई रोकग ।

(4) आखे गेदे खंड दे उपखंड (ग) दी कोई गल्ल आखे गेदे उपखंड राहें दित्ते गेदे अधिकार दी बरतून पर ²[भारत दी प्रभुता ते अनत्रुत्ता जां] लोक व्यवस्था जां सदाचार दे हितें च जायज बंदषां जित्थूं तगर कोई मजूदा कनून लांदा ऐ उत्थूं तगर ओहदे चलन पर असर नेई पाहग जां उस चाल्ली दियां बंदषां लाने आह्ला कोई कनून बनाने कोला राज्य गी नेई रोकग ।

(5) आखे गेदे खंड दे ¹[उपखंड (घ) ते उपखंड (ङ) दी कोई गल्ल आखे गेदे उपखंड राहें दित्ते गेदे अधिकारें दी बरतून पर आम जनता दे हितें च जां कुसै अनुसूचित जनजाति दे हितें दी हिफाजत आस्तै जायज बंदषां जित्थूं तगर कोई मजूदा कनून लांदा ऐ उत्थूं तगर ओहदे चलन पर असर नेई पाहग जां उस चाल्ली रकावटां लाने आह्ला कोई कनून बनाने थमां राज्य गी नेई रोकग ।

(6) आखे गेदे उपखंड (छ) दी कोई गल्ल आखे गेदे उपखंड राहें दित्ते गेदे अधिकारें दी बरतून आम जनता दे हितें च जायज बंदषां जित्थूं तगर कोई मजूदा कनून लांदा ऐ उत्थूं तगर ओहदे चलन पर असर नेई पाहग जां उस चाल्ली दियां बंदषां लाने आह्ला कोई कनून बनाने थमां राज्य गी नेई रोकग ते खास करियै ²[आखे गेदे उपखंड दी कोई गल्ल —

(i) कोई व्यवसाय, रोजी-रुट्टी कमाने, बपार जां कारोबार करने आस्तै लोडचदियां व्यवसायिक जां तकनीकी योग्यताएं कन्नै, जां

(ii) राज्य आसेआ जां राज्य दी मलकीयत जां नियंत्रण च कुसै निगम आसेआ कोई बपार, कारोबार, उद्योग जां सेवा, नागरिकें दा पूरी चाल्ली जां आंषिक रूप च बाहर करियै जां फही चलाए जाने कन्नै, जित्थूं तगर कुसै मजूदा कनूनै दा सरबंध ऐ उत्थूं तगर ओहदे चलन पर असर नेई पाहग जां इस चाल्ली सरबंध रक्खने आह्ला कोई कनून बनाने थमां राज्य गी नेई रोकग ।]

20. अपराधें आस्तै दोशसिद्धि दे सरबंधे च संरक्षण — (1) कोई व्यक्ति कुसै अपराध आस्तै उसलै तगर दोषी नेई मन्नेआ जाहग, जिसलै तगर उ'न्ने नेहा कोई कम्म करदे बेल्लै, जेहड़ा अपराध दे रूप च लाया गेदा ऐ, कुसै लागू कनून दा उलंघन नेई कीते दा ऐ जां ओहदे थमां बद्ध स'जा दा हकदार नेई होग जेहड़ा उस अपराध दे कीते जाने बेल्लै लागू कनून दे तैहत दित्ती जाई सकदी ही ।

(2) कुसै व्यक्ति पर इक गै अपराध आस्तै इक बारी कोला बद्ध मकददमा ते स'जा नेई दित्ती जाहग ।

(3) कुसै अपराध आस्तै अपराधी कुसै व्यक्ति गी आपूं अपने बरुद्ध गवाही देने आस्तै मजबूर नेई करग ।

21. जीवन ते निजो स्वतंत्रता दा संरक्षण — कुसै व्यक्ति गी ओहदे प्राण जां निजी स्वतंत्रता कन्नै कनूनै राहें स्थापत प्रक्रिया मताबक गै मैहरूम कीता जाहग, नेई तां नेई ।

⁴[**21क. शिक्षा दा अधिकार** — रियासत छें ब'रें कोला लेइयै चौहदें ब'रें तगर दी उमरी आहले ज्यानें आस्तै मुख्त ते जरूरी शिक्षा देने दा नेह तरीके कन्नै, जेहड़ा राज्य कनूनै राहें, नर्धारत करै, प्रावधान करग ।]

22. किश मामलें च गिरफ्तारी ते नज़रबंदी थमां संरक्षण — (1) कुसै व्यक्ति गी जेहड़ा गिरफ्तार कीता गेआ ऐ, नेही गिरफ्तारी दे कारणें कन्नै तौले थमां तौले जानकारी दित्ते बगैर हिरासत च नज़रबंद जां अपनी मर्जी दे बकील कन्नै सलाह-सूत्तर ते अपना बचास करने दे अधिकार कोला वंचित नेई रक्खेआ जाहग ।

1. संविधान (सोहलमीं तरमीम) अधिनियम, 1963 दी धारा 2 राहें अंतरस्थापत ।

2. संविधान (चरतालमीं तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 2 राहें (20-6-1979 थमां) "उपखंड (घ), उपखंड (ङ) ते उपखंड (च)" दे थाहरा पर प्रतिस्थापत ।

3. संविधान (पैहली तरमीम) अधिनियम, 1951 दी धारा 3 राहें किष शब्दें दे थाहरा पर प्रतिस्थापत ।

4. संविधान (छ्यासिमीं तरमीम) अधिनियम, 2002 दी धारा 2 राहें (1-4-2010 थमां) अंतरस्थापत ।

भारत दा संविधान
(भाग 3 — मौलिक अधिकार)

(2) हर इक व्यक्ति गी जिसी गिरफ्तार कीता गोदा ऐ ते जिसी हिरासत च नज़रबंद रक्खेआ गोदा ऐ, गिरफ्तारी दे थाहर कोला मैजिस्ट्रेट दी अदालती तगर जाने आस्तै जरूरी समें गी छोड़ियै नेही गिरफ्तारी कोला चौहवी घँटें दी मुद्दत च नेड़में मैजिस्ट्रेट अगगें पेष कीता जाहग ते नेह कुसै व्यक्ति गी मैजिस्ट्रेट दे प्राधिकार दे बगैर आखी गोदी औद्ध थमां बद्ध औद्ध आस्तै कीती जाने आहली हिरासत च नज़रबंद नेई रक्खेआ जाहग।

(3) खंड (1) ते खंड (2) दी कोई गल्ल कुसै नेह मनुक्खै पर लागू नेई होग जेहड़ा —

(क) उस समें शत्रु गैरमुल्की ऐ; जां

(ख) निवारक नज़रबंदी दा प्रावधान करने आहले कुसै कनून दे तैहत् गिरफ्तार जां हिरासत च रक्खेआ गोदा ऐ।

* (4) निवारक नज़रबंदी दा प्रावधान करने आहला कोई कनून कुसै व्यक्ति दा त्र'ऊं म्हीनें थमां बद्ध औद्ध आस्तै नज़रबंद कीता जाना प्राधिकृत नेई करग जदू तगर जे —

(क) नेह व्यक्तियें कन्नै, जेहड़े उच्च अदालत दे जज्ज न जां जज्ज रेहदे न जां जज्ज नियुक्त होने आस्तै योग्य न, मिलियै बने दे सलाहकार बोर्ड ने त्र'ऊं म्हीनें दी आखी गोदी औद्ध दे मुक्कने थमां पैहलें एह रपोट नेई दिती दी ऐ जे उस दी राऽ च नेही नज़रबंदी आस्तै पर्याप्त कारण न :

पर इस उपखंड दी कोई गल्ल कुसै व्यक्ति दा उस बद्धो—बद्ध औद्ध थमां मती औद्ध आस्तै नज़रबंद कीता जाना प्राधिकृत नेई करग जेहड़ा खंड (7) दे उपखंड (ख) दे तैहत् संसद आसेआ बनाए गोदे कनूनै राहें नर्धारत कीती गोदी ऐ; जां

(ख) नेह व्यक्ति गी खंड (7) दे उपखंड (क) ते उपखंड (ख) दे तैहत् संसद आसेआ बनाए गोदे कनूनै दे प्रावधान मताबक नज़रबंद नेई कीता जंदा ऐ।

(5) नज़रबंदी दा प्रावधान करने आहले कुसै कनून दे तैहत् कीते गोदे हुकम दे अनुसरण च जिसलै कुसै व्यक्ति गी नज़रबंद कीता जंदा ऐ उसलै हुकम करने आहला प्राधिकारी तौले थमां तौले उस व्यक्ति गी एह सूचत करग जे ओह हुकम कु'नें अधारें पर कीता गोदा ऐ ते उस हुकमै दे खलाफ दरखास्त देने आस्तै उसी तौले थमां तौले मौका देहग।

(6) खंड (5) दी कुसै गल्लै कन्नै नेहा अदेश जेहड़ा उस खंड च दस्से दा ऐ, करने आहले प्राधिकारी आस्तै नेह तत्थें गी प्रकट करना जरूरी नेई होग जि'नेंगी प्रकट करना नेहा प्राधिकारी लोकहित दे खलाफ समझदा ऐ।

(7) संसद कनूनै राहें नर्धारत करी सकग जे —

** (क) कु'नें परिस्थितियें दे तैहत् ते कुस वर्ग जां वर्गें दे मामलें च कुसै व्यक्ति गी निवारक नज़रबंदी दा प्रावधान करने आहले कुसै कनूनै दे तैहत् त्र'ऊं म्हीनें थमां बद्ध औद्ध आस्तै खंड (4) दे उपखंड (क) दे प्रावधान दे मताबक सलाहकार बोर्ड दी राऽ हासल कीते बगैर नज़रबंद कीता जाई सकग;

* संविधान (चरतालामीं तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 3 राहें (अधिसूचना दी तरीक थमां, जेहड़ी अधिसूचित नेई होई दी ऐ) खंड 4 दे थाहर पर हेट लिखे दा प्रतिस्थापत कीता जाहग, —

(4) निवारक नज़रबंदी दा प्रावधान करने आहला कोई कनून कुसै व्यक्ति गी द'ऊं म्हीनें थमां बद्ध दी औद्ध आस्तै हिरासत च रक्खना प्राधिकृत नेई करग जिसलै तगर उचित उच्च अदालत दे मुख न्यांमूर्ति दी सफारष मताबक गठत सलाहकार बोर्ड ने आखे गोदे द'ऊं म्हीनें दी औद्ध दी समाप्ति थमां पैहलें एह दरखास्त नेई दिती दी ऐ जे ओहदी राऽ च इस चाल्ली दी हिरासत आस्तै पर्याप्त कारण न;

पर सलाहकार बोर्ड इक अध्यक्ष ते घट्टो—घट्ट दो होर सदस्यें कन्नै मिलियै बनग ते अध्यक्ष उचित उच्च अदालत दा सेवारत जज्ज होग ते बाकी सदस्य कुसै उच्च अदालत दे सेवारत जां सेवानिवृत्त जज्ज होडन;

पर एह होर जे इस खंड दी कोई गल्ल कुसै व्यक्ति दा उस बद्धो—बद्ध औद्ध आस्तै हिरासत च रक्खेआ जाना प्राधिकृत नेई करग जेहड़ी खंड (7) दे उपखंड (क) दे तैहत् संसद आसेआ बनाए गोदे कनूनै राहें नर्धारत कीती जा।

स्पष्टीकरण — इस खंड च, "उचित उच्च अदालत" दा मतलब ऐ —

(i) भारत सरकार जां उस सरकार दे अधीन कुसै अधिकारी जां प्राधिकारी आसेआ कीते गोदे रोक अदेश दे अनुसरण च हिरासत च रक्खे गोदे व्यक्ति दी सूरत च, दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र आस्तै उच्च अदालत;

(ii) (संघ राज्यक्षेत्र थमां बक्ख) कुसै रियासती सरकार आसेआ कीते गोदे रोक अदेश दे अनुसरण च, हिरासत च रक्खे गोदे व्यक्ति दी सूरत च उस रियासत आस्तै उच्च अदालत; ते

(iii) कुसै संघ राज्यक्षेत्र दे प्रशासक जां नेह प्रशासक दे अधीन कुसै अधिकारी जां प्राधिकारी आसेआ कीते गोदे रोक अदेश दे अनुसरण च हिरासत च रक्खे गोदे व्यक्ति दी सूरत च ओह उच्च अदालत जेहड़ी संसद आसेआ इस नमित्त बनाए गोदे कनूनै राहें जां ओहदे तैहत् दस्से जाहन।।

** संविधान (चरतालामीं तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 3 राहें (अधिसूचना दी तरीक थमां, जेहड़ी अजें अधिसूचित नेई होई दी ऐ) उपखंड (क) दा लोप कीता जाहग।

भारत दा संविधान
(भाग 3 — मौलिक अधिकार)

* (ख) कुसै वर्ग जां वर्ग दे मामलें च किन्नी बद्धो—बद्ध औद्ध लेई कुसै व्यक्ति आस्तै निवारक नज़रबंदी दा प्रावधान करने आहले कुसै कनून दे तैहत् नज़रबंद कीता जाई सकग; ते

(ग) **[खंड(4) दे उपखंड (क) दे तैहत् कीती जाने आहली पड़ताल च सलाहकार बोर्ड आसेआ अनुसरण कीती जाने आहली प्रक्रिया केह होग।

शोशन दे बरुद्ध अधिकार

23. मनुक्खं दी तस्करी ते जबरी कम्म कराने पर रोक — (1) मनुक्खें दी तस्करी ते बगार ते इससै चाल्ली दे होर जबरी कम्म आस्तै रोक लाई जंदी ऐ ते इस प्रावधान दा कोई बी उलंघन अपराध होग जेहड़ा कनून मताबक दंडजोग होग।

(2) इस अनुच्छेद दी कोई गल्ल राज्य गी सार्वजनक मकसदें आस्तै जरूरी सेवा लागू करने कोला नेई रोकग। इस चाल्ली दी सेवा लागू करने च राज्य सिर्फ धर्म, मूलवंष, जाति जां वर्ग जां इंदे चा कुसै बी अधार पर कोई भेद—भाव नेई करग।

24. कारखानें वगैरा च बच्चें दे कम्म करने पर रोक — चौहदें बरें कोला घट्ट उमरी दे कुसै ज्याने गी कुसै कारखाने जां खानै च कम्म करने आस्तै नेई रक्खेआ जाहग जां कुसै होर जोखम भरोचे कम्म च नेई लाया जाहग।

धर्म दी स्वतंत्रता दा अधिकार

25. अंतःकरण दी ते धर्म गी बरोक—टोक मन्नने, आचरण ते प्रचार करने दी स्वतंत्रता — (1) लोक व्यवस्था, सदाचार ते स्वास्थ ते इस भाग दे होरनें प्रावधानें दे तैहत् रौहदे होई सभनें लोकें गी अंतःकरण दी स्वतंत्रता दा ते धर्म गी बेरोक—टोक मन्नने, आचरण करने ते प्रचार करने दा बरोबर हक्क होग।

(2) इस अनुच्छेद दी कोई गल्ल कुसै नेह मजूदा कनून दे चलन पर असर नेई पाहग जां राज्य गी कोई नेहा कनून बनाने कोला नेई रोकग जेहड़ा —

(क) धार्मक आचरण कन्नै सरबंधत आर्थक, माल्ली, राजनीतक जां होर लौकिक क्रियाकलाप जां धर्मनिरपेख गतिविधियें दा विनियमन करदा ऐ जां रोकदा ऐ;

(ख) समाज कल्याण ते सुधार आस्तै जां हर चाल्ली दियें हिंदुयें दियें धार्मिक संस्थाएं गी हिंदुयें दे सब्भै वर्गें ते तबकें आस्तै खोहलने दा प्रावधान करदा ऐ।

स्पष्टीकरण 1 — कृपाण धारण करना ते लेइयै चलना सिक्ख धर्म गी मन्नने दा अंग समझेआ जाहग।

स्पष्टीकरण 2 — खंड (2) दे उपखंड (ख) च हिंदुयें दे प्रति हिदायत दा एह अर्थ लाया जाहग जे ओहदे तैहत् सिक्ख, जैन जां बौद्ध धर्म गी मन्नने आहले व्यक्तियें दे प्रति हिदायत ऐ ते हिंदुयें दियें धार्मिक संस्थाएं प्रति हिदायत दा अर्थ ओहदे मताबक लाया जाहग।

26. धार्मिक कम्म दे प्रबंध दी स्वतंत्रता — लोक व्यवस्था, सदाचार ते स्वास्थ दे तैहत् रौहदे होई, हर इक धार्मिक संप्रदाय जां ओहदे कुसै तबके गी —

(क) धार्मिक ते परोपकारी प्रयोजनें आस्तै संस्थाएं दी स्थापना ते पोषन दा,

(ख) अपने धर्म सरबंधी कम्म दा प्रबंध करने दा,

* संविधान (चरतालिसीं तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 3 राहें (अधिसूचना दी तरीक थमां, जेहड़ी अधिसूचित नेई होई दी ऐ) उपखंड (ख) गी उपखंड (क)) दे रूप च मुढी लिखेआ जाहग।

** संविधान (चरतालिसीं तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 3 राहें (अधिसूचना दी तरीक थमां, जेहड़ी अधिसूचित नेई होई दी ऐ) बड्डी ब्रेकट आहले शब्दें दे थाहर “खंड (4)” शब्द, ब्रेकट ते हिंसे रक्खे जाहडन।

भारत दा संविधान
(भाग 3 — मौलिक अधिकार)

- (ग) चल ते अचल संपत्ति दे अर्जन ते मलकीयत दा, ते
(घ) नेही संपत्ति दा कनून मताबक प्रशासन करने दा,
अधिकार होग।

27. कुसै धर्म बशेश दे बादधे आस्तै टैक्सं दे भुगतान बारै स्वतंत्रता — कुसै बी व्यक्ति गी नेह टैक्सं दा भुगतान करने आस्तै मजबूर नेई कीता जाहग जेहदे औने कनूँ कुसै खास धर्म जां धार्मक संप्रदाय दा बादधा जां पोषन च खर्च करने आस्तै खास तौरा पर दस्से गेदे रूपै कनूँ विनियोजित कीते जंदे न।

28. किश शिक्षा संस्थाएं च धार्मक शिक्षा जां धार्मक उपासना च हाजर रौहने बारै स्वतंत्रता — (1) राज्य-निधि कनूँ पूरी चाल्ली पोषत कुसै शिक्षा संस्था च कोई धार्मक शिक्षा नेई दिती जाहग।

(2) खंड (1) दी कोई गल्ल नेही शिक्षा संस्था पर लागू नेई होग जेहदा संचालन राज्य करदा ऐ पर जेहड़ी कुसै नेह स्थाई कोष जां ट्रस्ट दे तैहत स्थापत होई दी ऐ ते जेहदे मताबक उस संस्था च धार्मक शिक्षा देनी लाजमी ऐ।

(3) राज्य थमां मानता प्राप्त जां राज्य कोष थमां मदाद लैने आहली शिक्षा संस्था च हाजर होने आहले कुसै व्यक्ति गी नेही संस्था च दिती जाने आहली धार्मक शिक्षा च हिस्सा लैने आस्तै जां नेही संस्था च जां ओहदे कनूँ जुड़े दे थारै पर कीती जाने आहली धार्मक पूजा च हाजर होने आस्तै तद् तगर मजबूर नेई कीता जाहग जद् तगर उस व्यक्ति ने जां जेकर ओह नबालग ऐ तां ओहदे सरप्रस्त ने, एहदे आस्तै अपनी सैहमती नेई दिती दी ऐ।

संस्कृति ते शिक्षा सरबंधी अधिकार

29. घट्ट गिंतरी आहले वर्गे दे हितें दा संरक्षण — (1) भारत दे राज्यक्षेत्र जां ओहदे कुसै हिस्से दे निवासी नागरिकें दे कुसै तबके गी, जेहदी अपनी खास भाषा, लिपि जां संस्कृति ऐ, उसी बनाई रक्खने दा अधिकार होग।

(2) राज्य आसेआ पोषत जां राज्य कोष दी मदाद हासल करने आहली कुसै शिक्षा संस्था च दाखला लैने थमां कुसै बी नागरिक गी सिर्फ धर्म, मूलवंष, जाति, भाषा जां इंदे चा कुसै बी अधार पर मैहरूम नेई कीता जाहग।

30. शिक्षा संस्थाएं दी स्थापना ते प्रशासन करने दा घट्ट गिंतरी आहले वर्गे दा अधिकार — (1) धर्म जां भाषा पर अधारत सभनें घट्ट गिंतरी आहले वर्गे गी अपनी रुचि दियें शिक्षा संस्थाएं दी स्थापना ते प्रशासन दा अधिकार होग।

¹[(1क) खंड (1) च दस्से गेदे कुसै घट्ट गिंतरी आहले वर्ग आसेआ स्थापत ते संचालत शिक्षा संस्था दी संपत्ति दे जरूरी अर्जन आस्तै सरिस्ते करने आहला कनून बनांदे बेल्लै राज्य एह गल्ल पक्की करग जे नेही संपत्ति दे अर्जन आस्तै नेह कनून आसेआ तैऽ जां ओहदे तैहत निष्वित रकम इन्नी होऐ जे उस खंड दे तैहत दिते गेदे अधिकारें च रकावट नेई आवै जां खतम नेई होई जा।]

(2) शिक्षा संस्थाएं गी मदाद देने च राज्य कुसै शिक्षा संस्था दे खलाफ इस अधार पर भेद-भाव नेई करग जे ओह धर्म जां भाषा पर अधारत कुसै घट्ट गिंतरी आहले वर्ग दे प्रबंध च ऐ।

² * * *

31. [संपत्ति दा लाजमी अर्जन] — संविधान (चरतालिमी तरमीम) अधिनियम 1978 दी धारा 6 राहें (20-6-1979 थमां) रद्द।

1. संविधान (चरतालिमी तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 4 राहें (20-6-1979 थमां) अंतरस्थापत।

2. संविधान (चरतालिमी तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 5 राहें (20-6-1979 थमां) उपर्षीषक "संपत्ति दा अधिकार" दा लोप कीता गेआ।

भारत दा संविधान
(भाग 3 — मौलिक अधिकार)

¹[किश कनूनें दी किफायत]

²[31क. संपदा वगैरा दे अर्जन आस्तै प्रावधान करने आहले कनूनें दी किफायत — ³[(1) अनुच्छेद 13'च शामिल कुसै गल्लै दे होंदे होई बी, —

(क) कुसै संपदा दे जां उस'च कु'नें अधिकारें दे राज्य आसेआ अर्जन आस्तै जां कु'नें नेह अधिकारें दे उन्मूलन जां उ'दे'च तब्दीली आस्तै, जां

(ख) कुसै संपत्ति दा बंदोबस्त लोकहित च जां उस संपत्ति दा उचित बंदोबस्त पक्का करने दे मकसद कन्नै सीमत औद्ध आस्तै राज्य आसेआ लैते जाने आस्तै, जां

(ग) दो जां मते निगमें गी लोकहित 'च जां उ'नें निगमें चा कुसै दा ठीक बंदोबस्त पक्का करने दे मकसद कन्नै मलाइयै, जां

(घ) निगमें दे प्रबंध एजेंटें, सचिवें ते कोष-अध्यक्षें, प्रबंध निदेशकें, निदेशकें जां प्रबंधकें दे कु'ने अधिकारें जां उ'दे शेर-धारकें दे वोट देने दे कु'ने अधिकारें दे उन्मूलन जां उ'दे च तब्दीली आस्तै, जां

(ङ) कुसै खनिज जां खनिज तेल दी खोज करने जां उसी हासल करने दे मकसद आस्तै कुसै करार, पट्टे जां लाइसेंस दे अधार पर हासल होने आहले कु'ने अधिकारें दे उन्मूलन जां उ'दे च तब्दीली करने आस्तै जां कुसै नेह करार, पट्टे जां लाइसेंस गी समें थमां पैहलें समाप्त करने जां रद्द करने आस्तै,

प्रावधान करने आहला कनून इस अधार पर सिफर नेई समझेआ जाहग जे ओह ⁴[अनुच्छेद 14 जां अनुच्छेद 19] राहें दिते गेदे अधिकारें चा कुसै कन्नै बे-मेल ऐ जां उसगी खोंहदा ऐ जां घट्ट करदा ऐ :

पर जित्थै नेहा कनून कुसै रियासत दे विधान-मंडल आसेआ बनाया गेदा कनून ऐ, उत्थै इस अनुच्छेद दे प्रावधान उस कनूनै गी उसलै तगर लागू नेई होडन जिसलै तगर नेह कनूनै गी, जेहड़ा राष्ट्रपति दे विचार आस्तै मखसूस रक्खेआ गेआ ऐ, उसदी इजाजत हासल नेई होई गेई ऐ :]

⁵[पर एह होर जे जित्थै कुसै कनूनै च कुसै संपदा दे कुसै राज्य आसेआ अर्जन आस्तै कोई प्रावधान कीता गेआ ऐ ते जित्थै उस'च शामिल कोई जिमीं कुसै शख्स दी अपनी राही-बाही अधीन ऐ, उत्थै राज्य आस्तै नेही जिमीं दे नेह हिस्से गी, जेहड़ा कुसै उसलै लागू कनूनै तैहत उसगी लागू बद्धो-बद्ध हद्दें अंदर ऐ, जां उस पर बनी दी जां उस कन्नै जुड़ी दी कुसै इमारत जां ढांचे गी अर्जित करना उस हालती दे छुट कनूनी नेई होग जिस हालती'च नेही जिमीं, इमारत जां बनावट दे कब्जे कन्नै सरबंधत कनून उस दर कन्नै मुआवजे दे भुगतान आस्तै प्रावधान करदा ऐ, जेहड़ा उसदे बजार —मुल्लै थमां घट्ट नेई होग।]

(2) इस अनुच्छेद च, —

⁶[(क) "संपदा" पद दा कुसै स्थानी क्षेत्र दे सरबंध'च उ'ऐ अर्थ ऐ जेहड़ा उस पद दा जां उसदे बरोबर स्थानी पद दा उस क्षेत्र'च लागू बसालगिरियें कन्नै सरबंधत मजूदा कनूनै'च ऐ ते इसदे तैहत —

(i) कोई जगीर, इनाम जां मुआफी जां उ'ऐ जनेहा गै होर अनुदान ते ⁷[तमिलनाडु] ते केरल रियासतें च कोई जन्म अधिकार बी होग;

(ii) रैयतबाड़ी बंदोबस्त दे तैहत घेरी गेदी कोई जिमीं;

-
1. संविधान (बतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 3 राहें (3-1-1977 थमां) अंतरस्थापत।
 2. संविधान (पैहली तरमीम) अधिनियम, 1951 दी धारा 4 राहें (पिच्छु प्रभाव थमां) अंतरस्थापत।
 3. संविधान (चौथी तरमीम) अधिनियम, 1955 दी धारा 3 राहें (पिच्छु प्रभाव थमां) खंड (1) दे थारै पर प्रतिस्थापत।
 4. संविधान (चरतालामीं तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 7 राहें (20-6-1979 थमां) "अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 जां अनुच्छेद 31" दे थारै पर प्रतिस्थापत।
 5. संविधान (सताहरमीं तरमीम) अधिनियम, 1964 दी धारा 2 राहें अंतरस्थापत।
 6. संविधान (सताहरमीं तरमीम) अधिनियम, 1964 दी धारा 2 राहें (पिच्छु प्रभाव थमां) उपखंड (क) दे थारै पर प्रतिस्थापत।
 7. मद्रास रियासत (नांS तब्दील) अधिनियम, 1968 (1968 दा 53) दी धारा 4 राहें (14-1-1969 थमां) "मद्रास" दे थारै पर प्रतिस्थापत।

भारत दा संविधान
(भाग 3 — मौलिक अधिकार)

(iii) करसानी दे मकसदें आस्तै जां उसदे स्हायक मकसदें आस्तै घेरी गेदी जां पट्टे पर दित्ती गेदी कोई जिमी बी होग, जेह्दे तैह्त खेड़ी पेदी जिमी, जंगलै आहली जिमी, चरांद जां जिमी दे करसानें, करसानी मजदूरें ते ग्राई कारीगरें दे कब्जे'च इमारतें ते होर ढांचे दे थाहर न;]

(ख) "अधिकार" पद दे तैह्त, कुसै संपदा दे सरबंधे च, कुसै मालक, उप-मालक, मालक-मतैह्त, बुसालगिर, [रैयत, रैयत तैह्त] जां होर बचौले'च शामिल कोई अधिकार ते जिमी लगान दे सरबंधे'च कोई अधिकार जां खास-अधिकार होडन।]

²[31ख. किश अधिनियमें ते विनियमें गी कनूनी मानता — अनुच्छेद 31क च शामिल प्रावधानें दी व्यापकता पर उल्ट प्रभाव पाए बगैर, नौमी अनुसूची'च दस्से गेदे अधिनियमें ते विनियमें चा ते उं'दे प्रावधानें चा कोई इस अधार पर सिफर जां कदें सिफर होए दा नेई समझेआ जाह्ग जे ओह अधिनियम, विनियम जां प्रावधान इस भाग दे कु'नें प्रावधानें राहें दित्ते गेदे अधिकारें चा कुसै कन्ने मेल नेई खंदा ऐ जां उसगी खोंहदा ऐ जां घटांदा ऐ ते कुसै अदालत जां ट्रिब्यूनल दे कुसै प्रतिकूल फैसले, डिक्री जां हुकमै दे होंदे होई बी, आखे गेदे अधिनियमें ते विनियमें चा हर इक, उसगी रद्द जां तरमीम करने दे कुसै समर्थ विधान-मंडल दे अख्तेआरै तैह्त रोंहदे होई, चलन'च बनेआ रौह्ग।]

³[31ग. किश निदेशक तत्त्वे गी असरी बनाने आहले कनूनें दी किफायत — अनुच्छेद 13 च बावजूद एह्दे, कोई कनून, जेह्ड़ा ⁴[भाग 4 च आखे गेदे सबै जां कु'नें तत्त्वे] गी पक्का करने आस्तै रियासत दी नीति पर असर पाने आहला ऐ, इस अधार पर सिफर नेई समझेआ जाह्ग जे ओह ⁵[अनुच्छेद 14 जां अनुच्छेद 19] राहें दित्ते गेदे अधिकारें'चा कुसै कन्ने बे-मेल ऐ जां उसगी खोंहदा ऐ, जां घट्ट करदा ऐ ⁶ते कोई कनून, जिस'च एह् घोषणा ऐ जे ओह कुसै नीति गी असरी करने आस्तै ऐ, कुसै अदालत'च इस अधार पर सुआल नेई पुट्टेआ जाह्ग जे ओह नेही नीति पर असर नेई पांदा ऐ :

पर जित्थै नेहा कनून कुसै रियासत दे विधान-मंडल आसेआ बनाया जंदा ऐ उत्थै इस अनुच्छेद दे प्रावधान उस कनूनै गी उसलै तगर लागू नेई होडन, जिसलै तगर नेह कनूनै गी, जेह्ड़ा राष्ट्रपति दे विचार आस्तै मखसूस रक्खेआ गेदा ऐ, उसदी मंजूरी हासल नेई होई गई ऐ।]

⁷31घ. [राश्ट बरोधी गतिविधियें दे सरबंधे'च कनूनें दो किफायत] — संविधान (तरतालिमी तरमीम), 1977 दी धारा 2 राहें (13-4-1978 थमां) रद्द।

संविधानक सुधारें दा अधिकार

32. इस भाग राहें दित्ते गेदे अधिकारें गी लागू कराने आस्तै सुधार — (1) इस भाग राहें दित्ते गेदे अधिकारें गी लागू कराने आस्तै लोड्चदियें कारवाइयें राहें सर्वोच्च अदालती च जाने दे अधिकार दी गरंटी दित्ती जंटी ऐ।

1. संविधान (चौथी तरमीम) अधिनियम, 1955 दी धारा 3 राहें (पिच्छुं प्रभाव थमां) अंतरस्थापत।
2. संविधान (पैहली तरमीम) अधिनियम, 1951 दी धारा 5 राहें अंतरस्थापत।
3. संविधान (पंजिमी तरमीम) अधिनियम, 1971 दी धारा 3 राहें (20-4-1972 थमां) अंतरस्थापत।
4. संविधान (बतालिमी तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 4 राहें (3-1-1977 थमां) "अनुच्छेद 39, दे खंड (ख) जां खंड (ग) च चेचे दस्से दे सिद्धांतें" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत। धारा 4 गी सर्वोच्च अदालत आसेआ, **मिनर्वा मिल्स लि. ते होर बनाम भारत संघ ते होर (1980) 2 एस.सी.सी. 591** च गैरकनूनी घोषत करी दित्ता गेआ।
5. संविधान (चरतालिमी तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 8 राहें (20-6-1979 थमां) "अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 जां अनुच्छेद 31" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
6. सर्वोच्च अदालत ने **केशवानंद भारती बनाम केरल रियासत (1973)** अनुपूरक एस.सी.आर. 1 च त्रेडे टाइप च दित्ते गेदे प्रावधान गी गैरकनूनी घोषत करी दित्ता गेआ ऐ।
7. संविधान (बतालिमी तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 5 राहें (3-1-1977 थमां) अंतरस्थापत।

भारत दा संविधान

(भाग 3 — मौलिक अधिकार)

(2) इस भाग राहें दित्ते गेदे अधिकारें चा कुसै गी लागू कराने आस्तै सर्वोच्च अदालत गी नेहियां हिदायतां जां हुकम जां रिट, जिं दे तैह्त बंदी-प्रत्यक्षीकरण, परम-अदेष, मनाही, सुआल करने दा हक्क ते उत्प्रेषन लेख न, जेहड़ा बी ठीक होऐ, कड़ढने दा अख्तेआर होग।

(3) सर्वोच्च अदालत गी खंड (1) ते खंड (2) राहें दित्ते गेदे अख्तेआरें पर प्रतिकूल-प्रभाव पाए बगैर संसद, सर्वोच्च अदालत राहें खंड (2) दे तैह्त बरतूनजोग कुंनं जां सब्भै अख्तेआरें दा कुसै होर अदालतै गी अपनी अधिकारता गी मुकामी हद्दें अंदर इस्तेमाल करने आस्तै कनूनै राहें मजबूत करी सकग।

(4) इस संविधान राहें जां पही प्रावधान कीते छुट, इस अनुच्छेद राहें दित्ते गेदे अधिकारें दी गरंटी गी स्थगत नेई कीता जाहग।

¹32क. [राज्य दे कनूनं दी संविधानक वैधता पर अनुच्छेद 32 दे तैह्त कारवाइयें च विचार नेई कीता जाना] – संविधान (तरतालिमी तरमीम) अधिनियम, 1977 दी धारा 3 राहें (13-04-1978 थमां) रद्द।

²[33. इस भाग राहें दित्ते गेदे अधिकारें दा, बलें वगैरा गी लागू होने च, सुधार करने दा संसद दा अख्तेआर – संसद, कनूनै राहें, नर्धारत करी सकग जे इस भाग राहें दित्ते गेदे अधिकारें चा कोई, –

(क) सषस्त्र बलें दे सदस्यें गी, जां

(ख) लोक व्यवस्था बनाई रक्खने दा भार चुक्कने आहले बलें दे सदस्यें गी, जां

(ग) इंटैलीजेंस जां कौंटर इंटैलीजेंस दे मकसदें आस्तै रियासत आसेआ स्थापत कुसै ब्यूरो जां होर संगठन च नियुक्त व्यक्तियें गी, जां

(घ) खंड (क) थमां खंड (ग) च दस्से गेदे कुसै बल, ब्यूरो जां संगठन दे मकसदें आस्तै स्थापत दूरसंचार प्रणाली च जां उसदे सरबंघें च नियुक्त व्यक्तियें गी,

लागू होने च, किस हद्दें तगर रोकेआ जां रद्द कीता जा जिस कनूनै उं दे कर्तबबें दा ठीक पालन ते उं दे च अनुषासन बनेआ रौहना जकीनी रंवे]]

34. जिसलै कुसै क्षेत्र च सैन्य कनून चलन च ऐ उसलै इस भाग राहें दित्ते गेदे अधिकारें पर रोक – इस भाग दे पछेत्तरे प्रावधानें च बावजूद एह्दे, संसद कनूनै राहें संघ जां कुसै रियासत दी सेवा च कुसै व्यक्ति दी जां कुसै होर व्यक्ति दी कुसै नेह् कम्मै दे सरबंघें च घाटा पूरा करी सकग जेहड़ा उसने भारत दे राज्यक्षेत्र दे अंदर कुसै नेह् क्षेत्र च, जित्थै मार्शल-लॉ लागू हा, व्यवस्था दे बनाए रक्खने जां परती-स्थापना दे सरबंघें च कीता ऐ जां नेह् क्षेत्र च मार्शल-लॉ दे तैह्त पास दंड-अदेष, दित्ते गेदे दंड, लागू हुकमै गी बनाए रक्खने जां कीते गेदे होर कम्में गी कनूनी मानता देई सकग।

35. इस भाग दे प्रावधानें गी असरी करने आस्तै विधान – इस संविधान च बावजूद एह्दे बी, —

(क) संसद कोल अख्तेआर होग ते कुसै रियासत दे विधान-मंडल कोल अख्तेआर नेई होग जे ओह –

(i) जिं नें मामलें आस्तै अनुच्छेद 16 दे खंड (3), अनुच्छेद 32 दे खंड (3), अनुच्छेद 33 ते अनुच्छेद 34 दे तैह्त संसद कनूनै राहें प्रावधान करी सकग उं दे चा कुसै आस्तै, ते

1. संविधान (बतालिमी तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 6 राहें (3-1-1977 थमां) अंतरस्थापत।

2. संविधान (पंजाहमी तरमीम) अधिनियम, 1984 दी धारा 2 राहें अनुच्छेद 33 दे धाहरे पर प्रतिस्थापत।

भारत दा संविधान

(भाग 3 — मौलिक अधिकार)

(ii) नेह कम्मै आस्तै जेह्ङे इस भाग दे तैह्त् अपराध घोषत कीते गेदे न, दंड नर्धारत करने आस्तै, कनून बनाऽ ते संसद इस संविधान दे रम्भ दे परैत तौले थमां तौले नेह् कम्मै आस्तै जेह्ङे उपखंड (ii) च दस्से गेदे न, दंड नर्धारत करने आस्तै कनून बनाह्ग;

(ख) खंड (क) दे उपखंड (i) च दस्से गेदे मामलें च कुसै कन्नै सरबंधत जां उस खंड दे उपखंड (ii) च दस्से गेदे कुसै कम्मै आस्तै दंड दा सरिस्ता करने आह्ला कोई लागू कनून जेह्ङा भारत दे राज्यक्षेत्र च इस संविधान दे रम्भ कोला ठीक पैह्लें चलन च हा, ओह्दे निबंधनें दे ते अनुच्छेद 372 दे तैह्त् ओह्दे च कीते गेदे कु'नें अनुकूलनें ते सुधारें तैह्त् रौह्दे होई तदूं तगर चलन च रौह्ग जदूं तगर ओह्दे च संसद आसेआ तब्दीली जां खारज जां तरमीम नेई करी दिती जंदी।

स्पष्टीकरण — इस अनुच्छेद च “प्रचलत कनून” पद दा उ'ऐ अर्थ ऐ जेह्ङा अनुच्छेद 372 च ऐ।

भाग 4

राज्य दी नीति दे निदेशक तत्व

36. **परिभाषा** – इस भाग'च जिसलै तगर जे संदर्भ थमां जां पही लोड़ नेई होऐ, "राज्य" दा उ'ऐ अर्थ ऐ जेहड़ा भाग 3 च ऐ।

37. **इस भाग'च शामिल तत्वे दा लागू होना** – इस भाग'च शामिल प्रावधान कुसै अदालत आसेआ लागू नेई होउन पर पही बी इ'दे'च आखे गेदे तत्व देसै दे शासन च मूलभूत न ते कनून बनाने'च इ'नें तत्वे गी लागू करना राज्य दा कर्तब्व होग।

38. **राज्य लोक कल्याण दे बाढ़े आस्तै समाजक व्यवस्था बनाहग** – ¹[(1)] राज्य नेही समाजक व्यवस्था दी, जिस'च समाजक, आर्थक ते राजनीतक न्यांऽ राष्ट्री जीवन दी सभनें संस्थाएं गी अनुप्राणत करै, असरदार तरीके कन्ने स्थापना ते संरक्षण करियै लोकें दी भलाई-बेहतरी ते बाद्धे-बरोस दी कोष करग।

²[(2)] राज्य, खास तौरा उप्पर, आँदनी दी नां-बरोबरियें गी घट्ट करने दी कोष करग ते नां सिर्फ व्यष्टियें बषक्हार बल्के बक्ख-बक्ख क्षेत्रें च रौहने आहले ते बक्ख बक्ख व्यवसाएं च लग्गे दे लोकें दे समूहें बषक्हार बी प्रतिष्ठा, स्हूलतें ते मौकें दियां नां-बरोबरियां खतम करने दा प्रयास करग।

39. **राज्य आस्तै अपनानेजोग किश नीति तत्व** – राज्य अपनी नीति दा खास तौरा पर, इस चाल्ली संचालन करग जे पक्के तौरा कन्ने –

(क) मर्दे ते महिलाएं सभनें नागरिकें गी बरोबर रूपै च जीविका दे लोड़चदे साधन हासल करने दा अधिकार होऐ;

(ख) समुदाय दे भौतक संसाधनें दी मलकीयत ते नियंत्रण इस चाल्ली बंडोए दा होऐ जेहदे कन्ने सांझे हितै दा बड़ी शैल चाल्ली कन्ने साधन होऐ;

(ग) आर्थक व्यवस्था इस चाल्ली चलै जिस कन्ने धन ते पैदावार दे साधनें दा सर्व-सधारण आस्तै अहितकारी संकेंद्रण नेई होऐ;

(घ) मर्दे ते महिलाएं दौनें दी इक्कै जनेह् कम्मै आस्तै इक्कै जनेही तनखाह होऐ;

(ङ) मर्दे ते महिला कम्मगारें दी सेहत ते ताकत दा ते बच्चें दी सुकुमार अवस्था दा गलत इस्तेमाल नेई होऐ ते आर्थक जरूरतै थमां मजबूर होइयै नागरिकें गी नेह् रुजगारें च नेई जाना पवै जेहड़े उ'दी उमर जां शक्ति दे अनुकूल नेई होन;

³[(च) ज्यानें गी स्वतंत्र ते गरिमामय म्हौल च स्वस्थ विकास दे मौके ते स्हूलतां दितियां जाहन ते ज्यानें ते युवाएं दी शोषण कोला ते नैतक ते आर्थक परित्याग कोला रक्षा कीती जा।]

-
1. संविधान (चरतालिसीं तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 9 राहें (20-6-1979 थमां) अनुच्छेद 38 गी उसदे खंड (1) दे रूपै च मुद्दी गिनेआ गेआ।
 2. संविधान (चरतालिसीं तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 9 राहें (20-6-1979 थमां) अंतरथापत।
 3. संविधान (बतालिसीं तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 7 राहें (3-1-1977 थमां) खंड (च) दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।

भारत दा संविधान

(भाग 4 – राज्य दी नीति दे निदेशक तत्त्व)

¹[39क. **इक बरोबर न्यांऽ ते मुख्त कनूनी स्हायता** – राज्य एह निष्चत करग जे कनून व्यवस्था इस चाल्ली कम्म करै जे बरोबर मौकें दे अधार पर न्यांऽ थहोए ते ओह खास करी एह निष्चत करने आस्तै जे आर्थक जां कुसै होर असमर्थता कारण कोई नागरिक न्यांऽ हासल करने दे मौके कोला वंचित नेई रेही जा, उपयुक्त विधान जां स्कीम राहें जां कुसै होर तरीके कन्नै मुख्त कनूनी स्हायता दी व्यवस्था करग।

40. **ग्रांऽ पंचतें दा गठन** – राज्य ग्रांऽ पंचतें दा गठन करने आस्तै गैई चुक्कग ते उ'नेंगी नेह अख्तेआर ते प्राधिकार देहग जेहडे उ'नेंगी खुदमुख्तेआर शासन गी इकाइयें दे रूप च कम्म करने जोग बनाने आस्तै जरूरी होन।

41. **किश मामलें च कम्म, शिक्षा ते लोक स्हायता हासल करन दा अधिकार** – राज्य अपनी आर्थक समर्थ ते विकास दिवें हददें अंदर, कम्म थहोने, शिक्षा हासल करने ते बेकारी, बढेपा, बमारी ते विकलांगता ते होर नाह-न्हक्क जरूरत दे मामलें च लोक स्हायता हासल करने दे अधिकार गी हासल कराने दा असरी प्रावधान करग।

42. **कम्म दी न्यांऽ-संगत ते मानवोचित हलातें दा ते प्रसूति स्हायता दा प्रावधान** – राज्य कम्म दी न्यांऽ-संगत ते मानव उचित सूरतें गी निष्चत करने आस्तै ते प्रसूति स्हायता आस्तै प्रावधान करग।

43. **कम्मगारें आस्तै नबाह मजदूरी आदि** – राज्य, उपयुक्त विधान जां आर्थक संगठन आसेआ जां कुसै होर तरीके कन्नै राही-बाही दे, उद्योग दे जां होरनें चाल्लियें दे सभने कम्मगारें गी कम्म, नबाह मजूरी, स्हेई जीवन स्तर, ते छुट्टियें दे पूरे मौके निष्चत करने आहली कम्म दी सूरतें ते समाजक ते सांस्कृतक मौके हासल कराने दा जतन करग ते खास करी ग्राएं च कुटीर उद्योगें गी व्यक्तिगत जां सैहकारी अधार पर बधाने दा जतन करग।

²[43क. **उद्योगें दे प्रबंध च कम्मगारें दा हिस्सा लैना** – राज्य कुसै उद्योग च लग्गे दे उपक्रमें, संस्थान जां होर संगठनें दे प्रबंधें च कम्मगारें दे हिस्सा लैने गी निष्चत करने आस्तै उपयुक्त विधान राहें जां कुसै होर तरीके कन्नै गैई चुक्कग।]

³[43 ख. **सैहकारी समितियें दा बादधा-विकास** – राज्य, सैहकारी समितियें दा अपनी मर्जी कन्नै नर्माण करने, उं'दे खुदमुख्तेआरी कम्म करने, लोकतांत्रिक नियंत्रण ते पेपेवराना प्रबंधन गी बढावा देने दी कोष करग।]

44. **नागरिक आस्तै इक बरोबर सिविल संहिता** – राज्य, भारत दे सभनें राज्यक्षेत्रें च नागरिकें आस्तै इक बरोबर सिविल संहिता हासल कराने दा जतन करग।

⁴[45. **छें ब'रें थमां घट्ट उमरी दे ज्यानें आस्तै मुंढली बरेस दी दिक्ख-रिक्ख ते शिक्षा दा प्रावधान** – राज्य, सभनें ज्यानें आस्तै छें ब'रें दी बरेस पूरी होने तगर, मुंढले बचपन दी दिक्ख-रिक्ख ते शिक्षा देने आस्तै प्रावधान करने दा जतन करग।]

46. **अनुसूचित जातियें, अनुसूचित जनजातियें ते होर कमजोर वर्गें आस्तै शिक्षा ते धन-सरबंधी हितें च बादधा** – राज्य, जनता दे कमजोर वर्गें दे, खास करियें, अनुसूचित जातियें ते अनुसूचित जनजातियें दी शिक्षा ते अर्थ सरबंधी हितें दा खास ध्यानै कन्नै बादधा करग ते समाजक बेन्याई ते सभनें चाल्लियें दे शोषन थमां उं'दी रक्षा करग।

47. **खुराक दे स्तर ते जीवन दे स्तर गी उबडा चुक्कने ते लोक स्वास्थ दा सुधार करने दा राज्य दा कर्त्तब** – राज्य, अपने लोकें दे खुराक दे स्तर ते जीवन स्तर गी उबडा चुक्कने आस्तै ते लोक स्वास्थ दे सुधार गी अपने बुनियादी कर्त्तबें च मन्नाग ते राज्य खासतौर पर, नषीले पदार्थ ते सेहत आस्तै नुकसानदेह दोआइयें दे, दोआइयें दे मकसद कोला बक्ख, इस्तेमाल करने पर रोक लाने दा जतन करग।

48. **राही-बाही ते पशु पालन दा संगठन** – राज्य, राही-बाही ते पशु-पालन गी आधुनिक ते विज्ञानक ढंगें कन्नै संगठित करने दा जतन करग ते खास करियें गवें ते बच्छें ते होर दुधारू ते बाहने आहले पशुयें दी नसलें दी रक्षा ते सुधार आस्तै ते उं'दे वध गी रोकने आस्तै गैई चुक्कग।

1. संविधान (बतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 8 राहें (3-1-1977 थमां) अंतरस्थापत।

2. संविधान (बतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 9 राहें (3-1-1977 थमां) अंतरस्थापत।

3. संविधान (सताहनमीं तरमीम) अधिनियम, 2011 दी धारा 3 राहें (15-2-2012 थमां)

4. संविधान (छ्यासिमीं तरमीम) अधिनियम, 2002 दी धारा 3 राहें (1-4-2010 थमां) प्रतिस्थापत।

भारत दा संविधान
(भाग 4 – राज्य दी नीति दे निदेशक तत्त्व)

¹[48क. चपासम दा संरक्षण ते बादधा-विकास ते जंगलं ते जंगली जीवें दी रक्षा – राज्य, देश दे चपासम दे संरक्षण ते बाद्धे-विकास दा ते जंगलें ते जंगली जीवें दी रक्षा करने दा जतन करग।]

49. राश्ट्री म्हत्तव दे स्मारकें, थाहरें ते चीजें दा संरक्षण – ²[संसद आसेआ बनाए गेदे कनूनै राहें जां ओह्दे तैहत्] राश्ट्री म्हत्ता आह्ले ²[घोषत कीते गेदे] कलात्मक जां इतिहासक रुचि आह्ले हर इक स्मारक जां थाहर जां चीजै दा, स्थिति मताबक, बर्बाद करना, रूप बगाड़ना, बर्बादी, हटाना, बेचना जां नर्यात कोला हिफाजत करनी राज्य दी जिम्मेवारी होग।

50. कार्यपालिका थमां न्यांऽपालिका दा बक्खकरण – राज्य दी लोक सेवाएं च, न्यांपालिका गी कार्यपालिका कोला बक्ख करने आस्तै राज्य गैई पुट्टग।

51. अंतरराश्ट्री शांति ते सुरक्खेआ दा बादधा – राज्य, –

(क) अंतरराश्ट्री शांति ते सुरक्षा दे बादधे-बरोस दा,

(ख) राश्ट्रें बषक्हार न्यांऽसंगत ते सम्मानपूर्ण सरबंधें गी बनाई रक्खने दा,

(ग) संगठित लोकें दे इक दूए दे व्यह्वारें च अंतरराश्ट्री कनून ते संधि बाध्यताएं प्रति आदर बधाने दा, ते

(घ) अंतरराश्ट्री झगडें च मध्यस्थता राहें नपटारे आस्तै प्रोत्साहन देने दा, जतन करग।

1. संविधान (बतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 10 राहें (3-1-1977 थमां) अंतरस्थापत।

2. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 27 राहें "संसद आसेआ कनून राहें घोषत" दे थाहरा पर प्रतिस्थापत।

1[भाग 4क

मूल कर्तब्व

51क. मूल कर्तब्व – भारत दे हर इक नागरिक दा कर्तब्व होग जे ओह –

- (क) संविधान दा पालन करै ते ओहदे आदर्षे, संस्थाएं, राष्ट्री झंडे ते राष्ट्री-गान दा आदर करै;
- (ख) अज़ादी आस्तै साढ़े राष्ट्री अंदोलन गी प्रेरत करने आहले उच्च आदर्षे गी मनै च धारण करै ते उंदा पालन करै;
- (ग) भारत दी प्रभुता, इकजुटता ते अनत्रुटता दी रक्षा करै ते उसी बनाई रखै;
- (घ) देश दी रक्षा करै ते लोड़ पौने पर देश दी सेवा करै;
- (ङ) भारत दे सभनें लोकें च मेल-मलाप ते आपसी भाईचारे दी भावना दा नर्माण करै जेहड़ा धर्म, भाषा जां प्रदेश जां वर्ग पर आधारत हर चाल्ली दी फर्को-फर्की कोला दूर होऐ, नेहियें प्रथाएं दा त्याग करै जेहड़ियां महिलाएं दे सम्मान दे खलाफ न;
- (च) साढ़ी सांझी संस्कृति दी गौरवषाली परम्परा दी म्हत्ता समझै ते ओहदी सांभ-सम्हाल करै;
- (छ) प्राकृतक चपासम दी, जेहदे तैहत जंगल, सर, दरेआ ते जांगली जीव न, रक्षा करै ते ओहदा बादधा-बरोस करै ते सभनें जीवें पर दया-भाव रखै;
- (ज) विज्ञानक द्रिष्टीकोण, मानववाद ते ज्ञान अर्जन ते सुधार दी भावना दा विकास करै;
- (झ) सार्वजनक संपत्ति गी सुरक्खत रखै ते हिंसा कोला दूर र'वै;
- (ञ) व्यक्तिगत ते सामूहिक गतिविधियें दे सभनें क्षेत्रें च श्रेष्ठता अल बधने दा मतवातर जतन करै, जेहदे कन्नै राष्ट्र लगातार बद्धे जतनें ते उपलब्धियें दियें नमियें उच्चाइयें गी छुही लै;
- ²[(ट) जेकर माता-पिता जां सरप्रस्त होन छें ब'रें थमां चौहदें ब'रें दी उमरी तगर आहले अपने, स्थिति मताबक, ज्याने जां पालक आस्तै षिक्षा दे मौके प्रदान करन।]

1. संविधान (बतालिमी तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 11 राहें (3-1-1977 थमां) अंतरस्थापत।
 2. संविधान (छ्यासिमी तरमीम) अधिनियम, 2002 दी धारा 4 राहें (1-4-2010 थमां) अंतरस्थापत।

भाग 5
संघ

ध्याऽ 1 – कार्यपालिका
राष्ट्रपति ते उपराष्ट्रपति

52. भारत दा राष्ट्रपति – भारत दा इक राष्ट्रपति होग।

53. संघ दा कार्यपालिका अख्तेआर – (1) संघ दा कार्यपालिका अख्तेआर राष्ट्रपति कोल होग ते ओह एहदी बरतून इस संविधान मताबक आपूं जां अपने मतैहत अफसरें राहें करग।

(2) पछेत्तरे प्रावधानें दी व्यापकता पर प्रतिकूल असर पाए बगैर, संघ दे रक्षाबलें दी सभनें थमां बड्डी कमान राष्ट्रपति कोल होग ते ओहदी बरतून कनूनै राहें विनियमित होग।

(3) इस अनुच्छेद दी कोई गल्ल –

(क) कुसै मजूदा कनूनै राहें कुसै राज्य दी सरकार जां होर प्राधिकारी गी दित्ते गेदे कम्म राष्ट्रपति गी थांतरत करने आहले नेई समझे जाहडन; जां

(ख) राष्ट्रपति कोला बक्ख होर प्राधिकारियें गी कनूनै राहें कम्म प्रदान करने कोला संसद गी रोकग नेई।

54. राष्ट्रपति दा चनांऽ – राष्ट्रपति दा चनांऽ नेह चनांऽ-मंडल दे सदस्य करडन जेहदे च –

(क) संसद दे दौनें सदनें दे चनोए दे सदस्य; ते

(ख) रियासतें दियें विधान सभाएं दे चनोए दे सदस्य,

होडन।

1[स्पष्टीकरण – इस अनुच्छेद ते अनुच्छेद 55 च, “राज्य” दे तैहत दिल्ली राष्ट्री राजधानी राज्यक्षेत्र ते *पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र न।]

55. राष्ट्रपति दे चनांऽ दा तरीका – (1) जित्थूं तगर होई सकै, राष्ट्रपति दे चनांऽ च बक्ख-बक्ख रियासतें दी नुमायंदगी दे पैमाने च इकरूपता होग।

(2) रियासतें च आपूं च नेही इकरूपता ते सभै रियासतें ते संघ च इक बरोबरी हासल कराने आस्तै संसद ते हर इक रियासत दी विधान सभा दा हर इक चनोए दा सदस्य नेह चनांऽ च जिन्नें वोट देने दा हकदार ऐ उं दी गिंती हेठ लिखे दे ढंगे कन्नै निष्चित कीती जाहग, अर्थात् :-

(क) कुसै रियासत दी विधान सभा दे हर इक चनोए दे सदस्य दे उन्नें वोट होडन जिन्नें के कुसै रियासत दी जनसंख्या गी उस विधान सभा दे चनोए दे सदस्यें दी कुल संख्या कन्नै तकसीम करने पर औने आहले नतीजे गी इक ज्हार कन्नै जरब देने पर हासल होडन।

(ख) जेकर इक ज्हार कन्नै आखी गेदी जरब देने दे बाद बाकी पंज सौ कोला घट्ट नेई है तां उपखंड (क) च दस्से गेदे हर इक सदस्य दे वोटें दी संख्या च इक होर जोड़ी दित्ता जाहग;

1. संविधान (सहतरमीं तरमीम) अधिनियम, 1992 दी धारा 2 राहें (1-6-1995 थमां) अंतरस्थापत।

* पांडिचेरी (नांऽ तब्दील) अधिनियम, 2006 दी धारा 3 राहें (1-10-2006 थमां) हून एह पुडुचेरी ऐ।

भारत दा संविधान
(भाग 5 – संघ)

(ग) संसद दे हर इक सदन दे हर इक चनोए दे सदस्य दे वोटें दी संख्या ओह होग जेहड़ी उपखंड (क) ते उपखंड (ख) दे तैह्त रियासतें दियें विधान सभाएं दे सदस्यें आस्तै तैऽषुदा कुल वोटें दी संख्या गी, संसद दे दौनें सदनें दे चनोए दे सदस्यें दी कुल संख्या कन्नै तकसीम करने पर आवै, जेहदे च अद्धे कोला बद्ध बक्खरे गी इक गिनेआ जाहग ते होर जेहड़े बक्ख होडन उ'नेंगी नजर-अंदाज कीता जाहग।

(3) राष्ट्रपति दा चनांऽ आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति मताबक इक्कले बदलजोग वोटै राहें होग ते नेह चनांऽ दा मतदान गुप्त होग।

1[स्पष्टीकरण – इस अनुच्छेद च 'जनसंख्या' पद दा मतलब नेही खीरी पछेत्तरी जनगणना च निश्चित कीती गेदी जनसंख्या ऐ जेहदे सुसंगत आंकड़े प्रकाषित होई गेदे न :

पर इस स्पष्टीकरण च खीरी पछेत्तरी जनगणना दे प्रति, जेहदे सुसंगत आंकड़े प्रकाषित होई गेदे न निर्देश दा जिसलै तगर सन् ²[2026] दे परैत कीती गेदी पैहली जनगणना दे सुसंगत आंकड़े प्रकाषित नेई होई जंदे न, एह अर्थ लाया जाहग जे ओह 1971 दी जनगणना दे प्रति हिदायत ऐ।]

56. राष्ट्रपति दे औहदे दी औद्ध– (1) राष्ट्रपति अपना औहदा ग्रैहण करने दी तरीक थमां पं'जें ब'रें दी औद्ध तगर औहदा धारण करग :

पर –

(क) राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति गी संबोधत अपने दसखतें समेत लिखती रूपै च अपना इस्तीफा देई सकग;

(ख) संविधान दा उलंघन करने पर राष्ट्रपति गी अनुच्छेद 61 च उपबंधित तरीके कन्नै चलाए गेदे महाभियोग राहें औहदे थमां हटाया जाई सकग;

(ग) राष्ट्रपति अपने औहदे दी औद्ध समाप्त होई जाने पर बी उसलै तगर औहदा धारण करदा रौहग जिसलै तगर ओहदा उत्तराधिकारी अपना औहदा ग्रैहण नेई करी लैदा ऐ।

(2) खंड (1) दे परंतुक दे खंड (क) दे तैह्त उपराष्ट्रपति गी संबोधत इस्तीफे दी सूचना ओहदे आसेआ लोक सभा दे अध्यक्ष गी तुरंत दिती जाहग।

57. परती चनोने आस्तै योग्यतां – कोई व्यक्ति जेहड़ा राष्ट्रपति दे रूप च औहदा धारण करदा ऐ जां करी चुके दा ऐ, इस संविधान दे होरनें प्रावधानें दे तैह्त रौहदे होई उस औहदे आस्तै परती चनोने आस्तै योग्य होग।

58. राष्ट्रपति चनोने आस्त योग्यतां – (1) कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चनोने दे योग्य तां गै होग जिसलै के ओह –

(क) भारत दा नागरिक ऐ,

(ख) पै'तियें ब'रे दी बरेस पूरी करी चुके दा ऐ, ते

(ग) लोक सभा दा सदस्य चनोने आस्तै योग्य ऐ।

(2) कोई व्यक्ति जेहड़ा भारत सरकार दे जां कुसै रियासती सरकार दे तैह्त जां आखियें गेदियें सरकारें चा कुसै दे नियंत्रण च कुसै मुकामी जां होर प्राधिकारी दे तैह्त कोई लाह आहला औहदा धारण करदा ऐ, राष्ट्रपति चनोने दे योग्य नेई होग।

स्पष्टीकरण – इस अनुच्छेद दे मकसदें आस्तै, कोई व्यक्ति सिर्फ इस करी कोई लाह आहला औहदा धारण करने आहला नेई समझेआ जाहग जे ओह संघ दा राष्ट्रपति जां उपराष्ट्रपति जां कुसै रियासत दा राज्यपाल ³*** ऐ जां संघ दा जां कुसै रियासत दा मंत्री ऐ।

1. संविधान (बतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 12 राहें (3-1-1977 थमां) स्पष्टीकरण दे थाहरा पर प्रतिस्थापत।

2. संविधान (चरासिमीं तरमीम) अधिनियम, 2001 दी धारा 2 राहें "2000" दे थाहरा पर प्रतिस्थापत।

3. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूचि राहें "जां राजप्रमुख जां उप-राजप्रमुख" शब्दें दा लोप कीता गेआ।

भारत दा संविधान
(भाग 5 – संघ)

59. राष्ट्रपति दे औहदे आस्तै शर्ता – (1) राष्ट्रपति संसद दे कुसै सदन दा जां कुसै रियासत दे विधान-मंडल दे कुसै सदन दा सदस्य नेई होग ते जेकर संसद दे कुसै सदन दा जां कुसै रियासत दे विधान-मंडल दे कुसै सदन दा कोई सदस्य राष्ट्रपति चनोई जंदा ऐ तां एह समझेआ जाहग जे उ'न्ने सदन च अपना थाहर राष्ट्रपति दे रूप च अपना औहदा गैहण करने दी तरीक थमां खाल्ली करी दित्ता ऐ।

(2) राष्ट्रपति होर कोई लाह आह्ला औहदा धारण नेई करग।

(3) राष्ट्रपति बगैर कराया दित्ते, अपने सरकारी निवास दी बरतून दा हकदार होग ते नेह मेहनताने, भत्ते ते चेचे अधिकारें दा बी, जेहड़े संसद कनूनै राहें नर्धारत करै ते जिसलै तगर इस नमित्त इस चाल्ली प्रावधान नेई कीता जंदा उसलै तगर नेह मेहनताने, भत्ते, चेचे अधिकारें दा, जेहड़े दूई अनुसूची च चेचे तौर पर दस्से गोदे न, हकदार होग।

(4) राष्ट्रपति दे मेहनताने ते भत्ते ओहदे औहदे दी औद्ध दरान घट्ट नेई कीते जाहडन।

60. राष्ट्रपति आस्तै सघंद जां प्रतिज्ञा – हर इक राष्ट्रपति ते हर इक व्यक्ति, जेहड़ा राष्ट्रपति दे रूपै च कम्म करा करदा ऐ, जां ओहदे कम्मै गी नभाह करदा ऐ, अपना औहदा गैहण करने कोला पैहलें भारत दे मुख न्यामूर्ति जां ओहदी गैर-मजूदगी च सर्वोच्च अदालती दे उपलब्ध सारें कोला वरिष्ठ जज्ज दे सामनै हेठ लिखे दे फार्म मताबक सघंद चुक्कग जां प्रतिज्ञा लैहग ते ओहदे पर अपने दसखत करग, अर्थात् :-

ईष्वर दी सघंद चुक्कनां

"में फलाना जे में श्रद्धापूर्वक भारत दे राष्ट्रपति दे औहदे दा पालन सच्ची निष्ठा कन्नै प्रतिज्ञा करनां

(जां राष्ट्रपति दे कम्मै दा नर्बाह) करड ते अपनी पूरी योग्यता कन्नै संविधान ते कनूनै दा संरक्षण, रक्षा ते बचाऽ करड ते में भारत दी जनता दी सेवा ते भलाई-बेह्तरी आस्तै समर्पत रौहग।

61. राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने दी प्रक्रिया – (1) जिसलै संविधान दे उलंघन आस्तै राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना होऐ, तां उसलै संसद दा कोई सदन आरोप लाहग।

(2) नेहा कोई आरोप उसलै तगर नेई लाया जाहग जिसलै तगर जे –

(क) नेहा आरोप लाने दा प्रस्ताव कुसै नेह प्रस्ताव च शामिल नेई ऐ, जेहड़ा घट्टो-घट्ट चौहदें दिनें दी नेही लिखत सूचना दे दित्ते जाने परैत प्रस्ताव दे रूपै च रक्खेआ गेआ ऐ जेहदे पर उस सदन दी कुल सदस्य संख्या दे घट्टो-घट्ट इक चौथाई सदस्यें दसखत करिये उस प्रस्ताव गी पेष करने दी अपनी मंषा प्रकट कीती ऐ; ते

(ख) उस सदन दी कुल सदस्य संख्या दे घट्टो-घट्ट दो तिहाई बहुमत राहें नेहा प्रस्ताव पास नेई कीता गेआ ऐ।

(3) जिसलै आरोप संसद दे कुसै सदन आसेआ इस चाल्ली लाया गेआ ऐ उसलै दूआ सदन उस आरोप दी पड़ताल करग जां कराहग ते नेही पड़ताल च हाजर होने दा ते अपनी नुमायंदगी कराने दा राष्ट्रपति गी अधिकार होग।

(4) जेकर पड़ताल दे नतीजे दे रूप च एह घोषत करने आह्ला प्रस्ताव जे राष्ट्रपति दे खलाफ लाया गेदा आरोप सिद्ध होई गेआ ऐ, आरोप दी पड़ताल करने जां कराने आहले सदन दी कुल सदस्य संख्या दे घट्टो-घट्ट दो तिहाई बहुमत राहें पास करी दित्ता जंदा ऐ तां नेह प्रस्ताव दा प्रभाव ओहदे इस चाल्ली पास कीते जाने दी तरीक थमां राष्ट्रपति गी ओहदे औहदे थमां हटाना होग।

62. राष्ट्रपति दे खाल्ली थाहरै गी भरने आस्तै चनाऽ दा समां ते चान-चक्क खाल्ली होऐ दे थाहरै गी भरने आस्तै चनोए दे व्यक्ति दे औहदे दी औद्ध- (1) राष्ट्रपति दे औहदे दी औद्ध दी समाप्ति कारण होऐ दे खाल्ली थाहरै गी भरने आस्तै चनाऽ, औहदे दी औद्ध दे खतम होने थमां पैहलें गै पूरा करी लैता जाहग।

भारत दा संविधान
(भाग 5 – संघ)

(2) राष्ट्रपति दी मृत्यु, औहदे थमां इस्तीफा जां औहदे थमां हटाए जाने जां होर कुसै कारण होए दे ओहदे औहदे दे खाल्ली थाहर गी भरने आस्तै चनांS, खाल्ली होने दी तरीक परैत तौले थमां तौले ते हर सूरतै च छे म्हीने बीतने कोला पैहलें कीता जाहग ते खाल्ली थाहर गी भरने आस्तै चनोए दा व्यक्ति, अनुच्छेद 56 दे प्रावधानें तैहत् रौहदे होई, अपना औहदा ग्रैहण करने दी तरीक थमां पं'जें ब'रें दी औद्ध पूरी करने तगर औहदा धारण करने दा हकदार होग।

63. भारत दा उपराष्ट्रपति – भारत दा इक उपराष्ट्रपति होग।

64. उपराष्ट्रपति दा राज्य सभा दा पदेन सभापति होना – उपराष्ट्रपति, राज्य सभा दा पदेन सभापति होग ते होर कोई लाह आह्ला औहदा धारण नेई करग :

पर जेहड़ी कुसै औद्ध दरान उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 65 दे तैहत् राष्ट्रपति दे तौर पर कम्म करदा ऐ जां राष्ट्रपति दे कम्मै दा नर्बाह करदा ऐ, उस औद्ध दरान ओह राज्यसभा दे सभापति दे औहदे दे कर्तबबें दा पालन नेई करग ते ओह अनुच्छेद 97 दे तैहत् राज्य सभा दे सभापति गी दिती जाने आहली तनखाह जां भत्तें दा हकदार नेई होग।

65. राष्ट्रपति दे औहदे दे चान-चक्क खाल्ली होने दे दरान जां ओहदी गैर-मजूदगी च उपराष्ट्रपति दा राष्ट्रपति दे रूप च कम्म करना जां ओहदे कम्मं दा नर्बाह करना – (1) राष्ट्रपति दी मृत्यु, इस्तीफा जां औहदे थमां हटाए जाने जां होर कुसै कारण ओहदे औहदे दे खाल्ली थाहरै दी सूरत च उपराष्ट्रपति उस तरीक तगर राष्ट्रपति दे रूप च कम्म करग जिस तरीक गी नेह खाल्ली थाहरै गी भरने आस्तै इस ध्याS दे प्रावधानें अनुसार चनोए दा नमां राष्ट्रपति अपना औहदा ग्रैहण करदा ऐ।

(2) जिसलै राष्ट्रपति गैर-मजूदगी, बमारी जां कुसै होर कारण अपने कम्मं दा नर्बाह करने च असमर्थ ऐ उसलै उपराष्ट्रपति उस तरीक तगर ओहदे कम्मं दा नर्बाह करग जिस तरीक गी राष्ट्रपति अपने कर्तबबें गी परतियै सम्हालदा ऐ।

(3) उपराष्ट्रपति गी उस औद्ध दरान ते उस औद्ध दे सरबंभै च जिसलै ओह राष्ट्रपति दे रूपै च इस चाल्ली कम्म करा करदा ऐ जां ओहदे कम्मं दा नर्बाह करा करदा ऐ, राष्ट्रपति दे सारे अख्तेआर ते उन्मुक्तियां होंडन ते ओह नेह मेहनतानें, भत्तें ते बषे अधिकारें दा जेहड़ा संसद कनूनै राहें, नर्धारत करै ते जिसलै तगर इस नमित्त इस चाल्ली प्रावधान नेई कीता जंदा उसलै तगर नेह मेहनतानें, भत्तें ते बषे अधिकारें दा, जेहड़े दूई अनुसूची च दस्से दे न, हकदार होग।

66. उपराष्ट्रपति दा चनांS – (1) उपराष्ट्रपति दा चनांS ¹[संसद दे दौनें सदनें दे सदस्यें कन्नै मिलियै बनने आहले चनां-मंडल दे सदस्यें] राहें आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति मातबक इक्कले बदली आहले वोट राहें होग ते नेह चनांS च मतदान गुप्त होग।

(2) उपराष्ट्रपति संसद दे कुसै सदन दा जां कुसै रियासत दे विधान-मंडल दे कुसै सदन दा सदस्य नेई होग ते जेकर संसद दे कुसै सदन दा जां कुसै रियासत दे विधान-मंडल दे कुसै सदन दा कोई सदस्य उपराष्ट्रपति चनोई जंदा ऐ तां एह समझेआ जाहग जे उ'न्ने उस सदन च अपना थाहर उपराष्ट्रपति दे रूपै च अपना औहदा ग्रैहण करने दी तरीक थमां खाल्ली करी दिता ऐ।

(3) कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति चनोने दे योग्य तां गै होग जिसलै ओह –

(क) भारत दा नागरिक ऐ,

(ख) पै'तियें ब'रें दी बरेस पूरी करी चुके दा ऐ, ते

(ग) राज्य सभा दा सदस्य चनोने योग्य ऐ।

1. संविधान (जांहरमीं तरमीम) अधिनियम, 1961 दी धारा 2 राहें "संसद दे दौनें सदनें दे सदस्यें दी सांझी बैठक" दे थाहरा पर प्रतिस्थापत।

भारत दा संविधान
(भाग 5 – संघ)

(4) कोई व्यक्ति, जेहड़ा भारत सरकार दे जां कुसै रियासती सरकार दे मतैहत जां आखी गेदी सरकारें चा कुसै दे नियंत्रण च कुसै मुकामी जां होर प्राधिकारी दे मतैहत कोई लाह आहला औहदा धारण करदा ऐ, उपराष्ट्रपति चनोने दे योग्य नेई होग।

स्पष्टीकरण – इस अनुच्छेद दे मकसदें आस्तै, कोई व्यक्ति सिर्फ इस कारण कोई लाह दा औहदा धारण करने आहला नेई समझेआ जाहग जे ओह संघ दा राष्ट्रपति जां उपराष्ट्रपति जां कुसै रियासत दा राज्यपाल ¹*** ऐ जां संघ दा जां कुसै रियासत दा मंत्री ऐ।

67. उपराष्ट्रपति दे औहदे दी औद्ध— उपराष्ट्रपति अपना औहदा ग्रैहण करने दी तरीक थमां पंजें बरें दी औद्ध तगर औहदा धारण करग:

पर –

(क) उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति गी संबोधत अपने दसखतें सनें लिखती रूपै च अपना इस्तीफा देई सकग;

(ख) उपराष्ट्रपति, राज्य सभा दे नेह प्रस्ताव राहें अपने औहदे थमां हटाया जाई सकग जिसी राज्य सभा दे उस समें दे सभनें सदस्ये दे बहुमत कन्ने पास कीता गेआ ऐ ते जेहदे कन्ने लोक सभा सैहमत ऐ; पर इस खंड दे मकसद आस्तै कोई प्रस्ताव तदूं तगर पेष नेई कीता जाहग जदूं तगर उस प्रस्ताव गी पेष करने दी मंषा दी घट्टो-घट्ट चौहदें दिनें दी सूचना नेई दिती गेदी होऐ;

(ग) उपराष्ट्रपति अपने औहदे दी औद्ध मुक्की जाने पर, उसलै तगर औहदा धारण कीते दा रक्खग जिसलै तगर ओहदा उत्तराधिकारकी अपना औहदा ग्रैहण नेई करी लैदा ऐ।

68. उपराष्ट्रपति दे खाल्ली होए दे औहदे गी भरने आस्त चनांS कराने दा समां जां चान-चक्क खाल्ली होए दे थाहरै गी भरने आस्तै चनाए दे व्यक्ति दे औहदे दी औद्ध— (1) उपराष्ट्रपति दे औहदे दी औद्ध मुक्कने करी होए दे खाल्ली थाहरै गी भरने आस्तै चनांS, औहदे दी औद्ध मुक्कने कोला पैहलें गै पूरा करी लैता जाहग।

(2) उपराष्ट्रपति दी मृत्यु, इस्तीफा, जां औहदे थमां हटाए जाने जां कुसै होर कारण कन्ने होए दे ओहदे औहदे दे खाल्ली थाहरै गी भरने आस्तै चनांS, थाहर खाल्ली होने परैत तौले थमां तौले कीता जाहग ते खाल्ली थाहरै गी भरने आस्तै चनाए दा व्यक्ति अनुच्छेद 67 दे प्रावधाने तैहत रौहदे होई, अपना औहदा ग्रैहण करने दी तरीक थमां पंजें बरें दी पूरी औद्ध तगर औहदा धारण करने दा हकदार होग।

69. उपराष्ट्रपति आसेआ सघंद जां प्रतिज्ञा – हर इक उपराष्ट्रपति अपना औहदा ग्रैहण करने थमां पैहलें राष्ट्रपति जां ओहदे आसेआ इस नमित्त नियुक्त कुसै व्यक्ति दे सामनै हेठ लिखे दे फार्म मताबक सघंद चुक्कग जां प्रतिज्ञा लैहग ते ओहदे पर अपने दसखत करग, अर्थात् :-

ईषर दी सघंद चुक्कना

“में फलाना जे में कनूनै राहें स्थापत भारत दे संविधान दे प्रति सच्ची

सच्ची निष्ठा कन्ने प्रतिज्ञा करनां

श्रद्धा ते निष्ठा रक्खड ते जिस औहदे गी में ग्रैहण करने आहला आं ओहदे कर्तबे गी श्रद्धापूर्वक नभाड।”

70. होर चान-चक्किये च राष्ट्रपति दे कर्मे दा नर्बाह – संसद, नेही कुसै चान-चक्की च जेहड़ी इस ध्याऽ च नेई दरसी गेदी ऐ, राष्ट्रपति दे कर्मे दे नर्बाह आस्तै नेहा प्रावधान करी सकग जेहड़ा ओह ठीक समझै।

1. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें “जां राजप्रमुख जां उप-राजप्रमुख” शब्दे दा लोप कीता गेआ।

भारत दा संविधान
(भाग 5 – संघ)

1[71. राष्ट्रपति जां उपराष्ट्रपति दे चनांऽ कन्नै सरबंधत जां जुड़े दे विशे – राष्ट्रपति जां उपराष्ट्रपति दे चनांऽ थमां पैदा होए दे जां ओहदे कन्नै जुड़े दे सभनें सेंसें ते झगड़ें दी पड़ताल कीती जाहग ते फैसला सर्वोच्च अदालती आसेआ कीता जाहग ते ओहदा फैसला खीरी फैसला होग।

(2) जेकर सर्वोच्च अदालती आसेआ कुसै व्यक्ति दे राष्ट्रपति जां उपराष्ट्रपति दे रूपै च चनांऽ गी अमान्य करार दित्ता जंदा ऐ तां ओहदे आसेआ, स्थिति मताबक, राष्ट्रपति जां उपराष्ट्रपति दे ओहदे दे अख्तेआरें दे प्रयोग ते कर्त्तबें दे पालन च सर्वोच्च अदालत दे फैसले दी तरीक गी जां उस थमां पैहलें कीते गेदे कम्म, उस घोषणा कारण कनूनी तौर पर मान्य होउन।

(3) इस संविधान दे प्रावधानें तैहत् रौहदे होई, राष्ट्रपति जां उपराष्ट्रपति दे चनांऽ कन्नै सरबंधत जां ओहदे मतल्लक कुसै मामले दा विनियमन संसद कनूनै राहें करी सकग।

(4) राष्ट्रपति जां उपराष्ट्रपति दे रूपै च कुसै व्यक्ति दे चनांऽ गी उस चुनने आहले चनांऽ-मंडल दे सदस्यें चा कुसै बी कारण मजूद कुसै खाल्ली थाहरै दे अधार पर सुआल नेई पुट्टेआ जाहग।]

72. राष्ट्रपति दा किश मामलें च माफी वगैरा, स्थगन, घट्ट करना जां स'जा देने दा अख्तेआर –

(1) राष्ट्रपति गी, कुसै अपराध आस्तै दोषी सिद्ध होए दे कुसै व्यक्ति दी स'जा दी माफी, ओहदा मोत्तल, रोक जां छूट देने दी जां स'जा दे हुकम दे मोत्तल, छूट जां उसी घट्ट करने दा –

(क) उ'नें सभनें मामलें च जेहदे च स'जा जां स'जा दा हुकम फौजी अदालती ने दित्ते दा ऐ,

(ख) उ'नें सभनें मामलें च, जि'दे च स'जा दा हुकम नेह मामले सरबंधी कुसै कनूनै दे खलाफ अपराध आस्तै दित्ता गेदा ऐ जिस मामले तगर संघ दी कार्यपालिका दे अख्तेआर दा विस्तार ऐ,

(ग) उ'नें सभनें मामलें च, जि'दे च स'जा दा हुकम, मौत दी स'जा दा हुकम ऐ, अख्तेआर होग।

(2) खंड (1) दे उपखंड (क) दी कोई गल्ल संघ दे सषस्त्र बल दे कुसै अफसर दी फौजी अदालत आसेआ दित्ते गेदे दंड दे हुकम गी स्थगत, छूट जां घट्ट करने दे कनून आसेआ दित्ते गेदे अख्तेआर पर असर नेई पाहग।

(3) खंड (1) दे उपखंड (ग) दी कोई गल्ल उस बेल्लै चलन च कुसै कनूनै तैहत् कुसै रियासत दे राज्यपाल²*** आसेआ बरती जाई सकने आहली मौत दी स'जा दे हुकम गी मोत्तल करने, छूट देने जां घट्ट करने दे अख्तेआर पर असर नेई पाहग।

73. संघ दी कार्यपालिका दे अख्तेआर दा विस्तार – (1) इस संविधान दे प्रावधानें दे तैहत् रौहदे होई, संघ दी कार्यपालिका दे अख्तेआरें दा विस्तार –

(क) जि'नें विषे दे सरबंधे च संसद गी कनून बनाने दा अख्तेआर ऐ उ'दे तगर, ते

(ख) कुसै संधि जां करार दे अधार पर भारत सरकार आसेआ बरतूनजोग अधिकारें, प्राधिकारें ते अधिकारता दे प्रयोग तगर,

होग:

पर इस संविधान च जां संसद आसेआ बनाए गेदे कुसै कनून च जकरोए दे जि'यां प्रावधान दे इलावा, उपखंड (क) च दस्से गेदे कार्यपालिका दे अख्तेआरें दा विस्तार कुसै ³*** रियासतें दे नेह मामलें च नेई होग जि'दे सरबंधे च उस रियासत दे विधान-मंडल गी बी कनून बनाने दा अख्तेआर ऐ।

1. अनुच्छेद 71, संविधान (उंतालिमी तरमीम) अधिनियम, 1975 दी धारा 2 राहें(10-8-1975 थमां) ते ओहदे परेंत संविधान (चरतालिमी तरमीम) अधिनियम 1978 दी धारा 10 राहें(20-6-1979 थमां) तरमीम होइयै उप्पर आखे गेदे रूप च आया।
2. संविधान (सतमी तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें "जां राजप्रमुख" शब्दें दा लोप कीता गेआ।
3. संविधान (सतमी तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें "पैहली अनुसूची दे भाग क ते भाग ख च लखोए दे" शब्दें ते अक्खरें दा लोप कीता गेआ।

भारत दा संविधान
(भाग 5 – संघ)

(2) जिसलै तगर संसद कोई होर सरिस्ता नेई करै उसलै तगर इस अनुच्छेद च कुसै गल्लै दे होंदे होई बी, कोई रियासत ते रियासत दा कोई अधिकारी जां प्राधिकारी उ'नें मामलें च, जेह्दे सरबंधै च संसद गी उस रियासत आस्तै कनून बनाने दा अख्तेआर ऐ, नेह् कार्यपालिका अख्तेआर दा जां कम्मं दा इस्तेमाल करी सकग, जिं'दा प्रयोग ओह् रियासत जां ओह्दे अफसर जां प्राधिकारी इस संविधान दे रम्भ कोला ठीक पैहलें करी सकदा हा।

मंत्रि-परिशद

74. राष्ट्रपति गी मदाद ते सलाह देने आस्तै मंत्रि-परिशद – ¹[(1) राष्ट्रपति गी मदाद ते सलाह देने आस्तै इक मंत्रि-परिशद होग, जेह्दा प्रधान, प्रधानमंत्री होग ते राष्ट्रपति अपने अधिकारें दा प्रयोग करने च इस चाल्ली दी सलाह मताबक कम्म करग:]

²[पर राष्ट्रपति मंत्रि-परिशद कन्नै इ'यै जनेही सलाह उप्पर आमतौर पर जां इ'यां बी परतियै विचार करने दी मेद करी सकग ते राष्ट्रपति इस चाल्ली दे परतियै कीते गेदे विचार परैत दिती गेदी सलाह मताबक कम्म करग।]

(2) इस सुआलै दी कुसै अदालत च जांच नेई कीती जाह्ग जे क्या मंत्रियें राष्ट्रपति गी कोई सलाह दिती ते जे दिती तां केह् दिती।

75. मंत्रियें दे बार च होर प्रावधान – (1) प्रधानमंत्री दी नियुक्ति राष्ट्रपति करग ते होरेनें मंत्रियें दी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दी सलाह कन्नै करग।

³[(1क) मंत्रि-परिशद च प्रधानमंत्री समेत मंत्रियें दी कुल संख्या लोक सभा दे सदस्यें दी कुल गितरी दे पंदरां फीसदी कोला बद्ध नेई होग।

(1ख) कुसै राजनीतक दल दा संसद दे कुसै सदन दा कोई सदस्य, जेह्ड़ा दसमीं अनुसूची दे पै'रा 2 दे तैहत उस सदन दा सदस्य होने आस्तै अयोग्य ऐ, अपनी अयोग्यता दी तरीक दे शुरू होने आहली ते उस तरीक तगर, जिसी इस चाल्ली दे सदस्य दे रूप च ओह्दे ओह्दे दी औद्ध खतम होग जां जित्थै ओह् इस चाल्ली दी औद्ध दी समाप्ति कोला पैहलें संसद दे कुसै सदन आस्तै चनांS लड़दा ऐ, उस तरीक तगर जदूं ओह् जेत्तू घोषत कीता जंदा ऐ, इ'ंदे चा जेहड़ा बी पैहलें होऐ, दी औद्ध दरान, खंड (1) दे तैहत बतौर मंत्री नियुक्त कीते जाने आस्तै बी अयोग्य होग।]

(2) मंत्री राष्ट्रपति दी इच्छा कन्नै अपने औह्दे गी धारण करडन।

(3) मंत्रि-परिशद लोक सभा आस्तै सांझे तौर पर जिम्मेवार होग।

(4) कुसै मंत्री आसेआ अपना औह्दा ग्रैहण करने कोला पैहलें राष्ट्रपति त्री अनुसूची च इस मकसद आस्तै दित्ते गेदे फार्मे मताबक उसी ओह्दे औह्दे ते राजदारी दी सघंद चकाह्ग।

(5) कोई मंत्री, जेह्ड़ा मतवातर छें म्हीनें दी औद्ध तगर संसद दे कुसै सदन दा सदस्य नेई ऐ, उस औद्ध दे मुक्कने पर मंत्री नेई रौह्ग।

(6) मंत्रियें दी तनखाह ते भत्ते इस चाल्ली दे होडन जेह्ड़े संसद, कनूनै राहें, समें-समें पर नर्धारत करै ते जिसलै तगर संसद इस चाल्ली दा नर्धारण नेई करदी उसलै तगर उ'आं होडन जेह्ड़े दूई अनुसूची च दस्से गेदे न।

भारत दा महान्यांवादी

76. भारत दा महान्यांवादी – (1) राष्ट्रपति, उस व्यक्ति गी भारत दा महान्यांवादी नियुक्त करग जेह्दे च सर्वोच्च अदालत दा जज्ज नियुक्त होने दी काबलियत होग।

1. संविधान (बतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 13 राहें(3-1-1977 थमां) खंड (1) दे थाहरा पर प्रतिस्थापत।
2. संविधान (चरतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 11 राहें (20-6-1979 थमां) अंतरस्थापत।
3. संविधान (काहनमीं तरमीम) अधिनियम, 2003 दी धारा 2 राहें अंतरस्थापत

भारत दा संविधान
(भाग 5 – संघ)

(2) महान्यांवादी दा कर्त्तब्वे होगे जे ओह भारत सरकार दे कनून सरबन्धी नेह मामलें पर सलाह देऐ ते कनून सरबन्धी नेह कर्त्तब्वे दा पालन करै जेहड़े राष्ट्रपति उसी बेल्लै-बेल्लै सिर निर्देश देऐ जां सौंपे ते उ'नें कम्मं गी नभाऽ जेहड़े उसी इस संविधान जां उस समें चलन च कुसै होर कनून राहें जां ओहदे तैहत् उसी सौंपे गेदे होन।

(3) महान्यांवादी गी अपने कर्त्तब्वे दे पालन च भारत दे राज्यक्षेत्रें दी सभनें अदालतें च सुनवाई दा अधिकार होग।

(4) महान्यांवादी, राष्ट्रपति दी खुषरजाई कन्नै औहदा ग्रैहण करग ते ओह उन्ना मेहनताना हासल करग जिन्ना राष्ट्रपति नर्धारत करग।

सरकारी कम्मै दा संचालन

77. भारत सरकार दे कम्मै दा संचालन – (1) भारत सरकार दी सबूरी कार्यपालिका दी कारवाई राष्ट्रपति दे नांऽ कन्नै होई दी मिथी जाहग।

(2) राष्ट्रपति दे नांऽ कन्नै कीते गेदे ते अमल च आहने गेदे हुकमं ते होरनें लिखतें गी इस चाल्ली प्रमाणत कीता जाहग जेहड़े राष्ट्रपति आसेआ बनाए जाने आहले नियमें च टकोहदे तौर पर दस्से जाहने ते इस चाल्ली प्रमाणत हुकम जां लिखत दी कनूनी मानता पर इस अधार पर सोआल नेई चुक्केआ जाहग जे ओह राष्ट्रपति आसेआ कीता गेदा जां अमल च आहनेआ गेदा हुकम जां लिखत नेई ऐ।

(3) राष्ट्रपति, भारत सरकार दे कम्मै गी होर मती स्हूलती आहला बनाने आस्तै ते मंत्रियें च आखे गेदे कम्मै दी बंड आस्तै नियम बनाहग।

2 * * * * *

78. राष्ट्रपति गी जानकारी देने वगैरा दे सरबन्धै च प्रधानमंत्री दे कर्त्तब्वे – प्रधानमंत्री दा एह कर्त्तब्वे होगे जे ओह –

(क) संघ दे कम्मै-काजै दे प्रषासन सरबन्धी ते विधान सरबन्धी प्रस्तावें दे बारै मंत्रि-परिषद् दे सब्भै फौसलें दी जानकारी राष्ट्रपति गी देऐ;

(ख) संघ दे कम्मै-काजै दे प्रषासन सरबन्धी ते विधान सरबन्धी प्रस्तावें दे बारै जेहड़ी जानकारी राष्ट्रपति मंगै ओह देऐ; ते

(ग) कुसै विषे पर जिस पर कुसै मंत्री ने फौसला करी ओड़े दा ऐ पर मंत्रि-परिषद् ने विचार नेई कीते दा ऐ, जेकर राष्ट्रपति चाह तां परिषद् दे सामनै विचार आस्तै रक्खै।

ध्याऽ 2- संसद

सधारण

79. संसद दा गठन – संघ आस्तै इक संसद होगे जेहड़ी राष्ट्रपति ते द'ऊं सदनें कन्नै मिलियै बनग, जि'दे नांऽ राज्य सभा ते लोक सभा होडन।

-
1. दिक्खो मौके-मौके पर जि'यां तरमीम होई दी अधिसूचना सं.का.आ. 2297 तरीक 3 नवम्बर, 1958 भारत दी गजट, असधारण, 1958, भाग 2, अनुभाग 3 (ii) सफा 1315
 2. संविधान (बतालिमी तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 14 राहें (3-1-1977 थमां) खंड (4) अंतरस्थापत कीता गेआ ते संविधान (चरतालिमी तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 12 राहें (20-6-1979 थमां) ओहदा लोप कीता गेआ।

भारत दा संविधान
(भाग 5 – संघ)

80. राज्य सभा दी संरचना – (1) ¹[²*** राज्य सभा] –

- (क) राष्ट्रपति आसेआ खंड (3) दे प्रावधानें मताबक नामज़द कीते जाने आहले बाहरें सदस्यें , ते
(ख) रियासतें दे ³[ते संघ राज्यक्षेत्रें दे] दो सौ ठती प्रतिनिधियें कोला बद्ध नेई होडन, कन्नै मिलियै बनग।

(2) राज्य सभा च रियासतें दे ⁴[ते संघ राज्यक्षेत्रें दे] प्रतिनिधियें आसेआ भरी जाने आहलियें सीटें दी बंड चौथी अनुसूची च इस नमित्त शामिल प्रावधानें अनुसार होग।

(3) राष्ट्रपति ओसआ खंड (1) दे उपखंड (क) दे तैह्त नामज़द कीते जाने आहले सदस्य नेह व्यक्ति होडन जि'नेंगी ख'ल्ल लिखे दे विषे बारै बषे ज्ञान जां व्यवहारक तजर्बा होग, अर्थात् साहित्य, विज्ञान, कला ते समाज सेवा।

(4) राज्य सभा च हर इक ⁵*** रियासत दे प्रतिनिधियें दा चनांस उस रियासत दी विधान सभा दे चनोए दे सदस्यें आसेआ आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति मताबक इककले बदली जोग वोट राहें कीता जाहग।

(5) राज्य सभा च ⁶[संघ राज्यक्षेत्र] दे नुमायंदे इस चाल्ली कन्नै चुने जाहडन जि'यां संसद कन्नै राहें नर्धारत करै। ⁷[81. लोक सभा दी संरचना – (1) ⁸[अनुच्छेद 331 दे प्रावधानें दे तैह्त रौहदे होई ⁹***]लोक सभा –

(क) रियासतें दे इलाकाई चनांस-क्षेत्रें थमां परतक्ख चनांस राहें चनोए दे ¹⁰[पंज सौ त्रीह]थमां अनबधीक ¹⁰[सदस्य] ते

(ख) संघ राज्यक्षेत्रें दी नुमायंदगी करने आस्तै इस चाल्ली चुने जाहडन जि'यां संसद कन्नै राहें नर्धारत करै। चनोए दे ¹¹[बीहें] ¹¹[सदस्यें] थमां बद्ध नेई होडन, कन्नै मिलियै बनग।

(2) खंड (1) दे उपखंड (क) दे मकसदें आस्तै, –

(क) हर इक रियासत दी लोक सभा च सीटें दी बंड इस चाल्ली कन्नै कीती जाहग जे सीटें दी संख्या कन्नै उस रियासत दी जनसंख्या दा अनुपात सभनें रियासतें आस्तै जिन्ना मुमकन होऐ, इककै जनेहा होऐ, ते

1. संविधान (पैत्तिमी तरमीम) अधिनियम, 1974 दी धारा 3 राहें (1-3-1975 थमां) "राज्य सभा" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
2. संविधान (छित्तिमी तरमीम) अधिनियम, 1975 दी धारा 5 ते अनुसूची राहें (26-4-1975 थमां) "दसमी अनुसूची दे पैरा 4 दे प्रावधानें दे तैह्त रौहदे होई" शब्दें दा लोप कीता गेआ ऐ।
3. संविधान (सतमी तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 3 राहें (1-11-1956 थमां) जोड़ेआ गेआ।
4. संविधान (सतमी तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 3 राहें (1-11-1956 थमां) अंतरस्थापत।
5. संविधान (सतमी तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 3 राहें "पैहली अनुसूची दे भाग क जां भाग ख च चेचे दस्से गेदे" शब्दें ते अक्खरें दा लोप कीता गेआ।
6. संविधान (सतमी तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 3 राहें "पैहली अनुसूची दे भाग ग च चेची दस्सी गेदियें रियासतें" दे थाहर पर प्रतिस्थापत।
7. संविधान (सतमी तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 4 राहें अनुच्छेद 81 ते अनुच्छेद 82 दे थाहरा पर प्रतिस्थापत।
8. संविधान (पैत्तिमी तरमीम) अधिनियम, 1974 दी धारा 4 राहें (1-3-1975 थमां) "अनुच्छेद 331 दे प्रावधानें दे तैह्त रौहदे होई" दे थाहरा पर प्रतिस्थापत।
9. संविधान (छित्तिमी तरमीम) अधिनियम, 1975 दी धारा 5 राहें (26-4-1975 थमां) "ते दसमी अनुसूची दे पैरा 4" शब्दें ते अक्खरें दा लोप कीता गेआ।
10. गोवा, दमण ते दीव मुद्द-गठन अधिनियम, 1987 (1987 दा 18) दी धारा 63 राहें (30-5-1987 थमां) "पंज सौ पंजी सदस्य" दे थाहरा पर प्रतिस्थापत।
11. संविधान (कत्तिमी तरमीम) अधिनियम, 1973 दी धारा 2 राहें "पंजी सदस्य" दे थाहर पर प्रतिस्थापत।

भारत दा संविधान
(भाग 5 – संघ)

(ख) हर इक रियासत गी इलाकाई चनांS-क्षेत्रें च इस ढंगे कन्नै बंडेआ जाहग जे हर इक चनांS-क्षेत्र दी जनसंख्या दा उस गी बंडी दियें सीटें दी संख्या दा अनुपात पूरी रियासत च जि'यां कीता जाई सकै इक्कै जनेहा होऐ :

¹[पर इस खंड दे उपखंड (क) दे प्रावधान कुसै रियासत दी लोक सभा दियें सीटें दी बंड दे मकसद आस्तै तदूं तगर लागू नेई होउन जदूं तगर उस रियासत दी जनसंख्या सट्ट लक्ख कोला बद्ध नेई होई जंदी ऐ।]

(3) इस अनुच्छेद च, "जनसंख्या" पद दा मतलब नेही खीरी पछेत्तरी जनगणना ऐ जेह्दे सुसंगत आंकड़े प्रकाषत होई गोदे न :

²[पर इस खंड च खीरी पछेत्तरी जनगणना दे प्रति, जेह्दे सुसंगत आंकड़े प्रकाषत होई गोदे न, हिदायत दा, जिसलै तगर ³[2026] दे परैत कीती गोदी पैहली जनगणना दे सुसंगत आंकड़े प्रकाषत नेई होई जंदे, ⁴[एह अर्थ लाया जाहग जे ओह, –

(i) खंड (2) दे उपखंड (क) ते उस खंड दे परंतुक दे मकसदें आस्तै 1971 दी जनगणना दे प्रति हिदायत ऐ; ते

(ii) खंड (2) दे उपखंड (ख) दे मकसदें आस्तै ⁵[2001] दी जनगणना दे प्रति हिदायत ऐ।]]

⁶[82. हर इक जनगणना परैत परती समायोजन – हर इक जनगणना दे मुक्कने पर रियासतें गी लोक सभा च सीटें दी बंड ते हर इक रियासत दे इलाकाई चनांS-क्षेत्र च बंड दे नेह प्राधिकारी आसेआ ते नेह ढंगे कन्नै परती समायोजन कीता जाहग जिसी संसद कन्नै राहें नर्धारत करै :

पर नेह परती समायोजन कन्नै लोक सभा च नुमायंदगी पर उसलै तगर कोई असर नेई पौग जिसलै तगर उस बेल्लै मजूदा लोक सभा भंग नेई होई जंदी ऐ :

⁷[पर बावजूद एह्दे नेहा परती समायोजन उस तरीक कोला असरी होग जेह्ड़ा राष्ट्रपति हुकमै राहें चेचे तौरै पर दस्सै ते नेह परती समायोजन दे असरी होने तगर लोकसभा आस्तै कोई चनांS उ'नें इलाकाई चनांS-क्षेत्रें दे अधार पर होई सकग जेह्ड़े नेह परती समायोजन कोला पैहलें मजूद न :

पर बावजूद एह्दे जे जिसलै तगर सन् ⁸[2026] दे परैत कीती गोदी पैहली जनगणना दे सुसंगत आंकड़ें प्रकाषत नेई होई जंदे न उसलै तगर ⁹[इस अनुच्छेद दे तैहत, –

(i) रियासतें गी लोक सभा च 1971 दी जनगणना दे अधार पर परती समायोजित सीटें दी बंड दा; ते

(ii) हर इक रियासत दे इलाकाई चनांS-क्षेत्रें च बंड दा, जेह्ड़ा ¹⁰[2001] दी जनगणना दे अधार पर परती समायोजित कीते जाहन, परती समायोजन जरूरी नेई होग।]]

-
1. संविधान (कतिमी तरमीम) अधिनियम, 1973 दी धारा 2 राहें अंतरस्थापत।
 2. संविधान (बतालिमी तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 15 (3-1-1977 थमां) अंतरस्थापत।
 3. संविधान (चरासिमी तरमीम) अधिनियम, 2001 दी धारा 3 राहें "2000" दे थाहर पर प्रतिस्थापत।
 4. संविधान (चरासिमी तरमीम) अधिनियम, 2001 दी धारा 3 राहें किष शब्दें दे थाहर पर प्रतिस्थापत।
 5. संविधान (सतासिमी तरमीम) अधिनियम, 2003 दी धारा 2 राहें "1991" दे थाहर पर प्रतिस्थापत।
 6. संविधान (सतमी तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 4 राहें (1-11-1956) राहें प्रतिस्थापत।
 7. संविधान (बतालिमी तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 16 राहें (3-1-1977 थमां) अंतरस्थापत।
 8. संविधान (चरासिमी तरमीम) अधिनियम, 2001 दी धारा 4 राहें "2000" दे थाहर पर प्रतिस्थापत।
 9. संविधान (चरासिमी तरमीम) अधिनियम, 2001 दी धारा 4 राहें किष शब्दें दे थाहर पर प्रतिस्थापत।
 10. संविधान (सतासिमी तरमीम) अधिनियम, 2003 दी धारा 3 राहें "1991" दे थाहर पर प्रतिस्थापत।

भारत दा संविधान
(भाग 5 – संघ)

83. संसद दे सदनें दी औद्ध- (1) राज्य सभा गी भंग नेई कीता जाहग पर एहदे सदस्ये चा नेडमां जिन्ना संभव होऐ सदस्ये दा त्रिया हिस्सा, संसद आसेआ कनूनै राहें इस नमित्त कीते गेदे प्रावधाने दे अनुसार, जि'यां बी होऐ, हर दूए ब'रे दी समाप्ति उप्पर तौले थमां तौले रिटायर होई जाहग।

(2) लोक सभा गी जेकर पैहले भंग नेई कीता जंदा तां अपने पैहले इजलास लेई तैऽ तरीक कोला ¹[पं'जे ब'रे] तगर बनी दी रौहग, इस थमां बद्ध नेई ते [पंज ब'रे] दी आखी गेदी औद्ध दी समाप्ति दा नतीजा लोक सभा दा भंग होना मन्नेआ जाहग।

पर आखी गेदी औद्ध च जिसलै अमरजैसी दी उद्घोषणा लागू ऐ तां संसद कनूनै राहें, नेही औद्ध आस्तै बधाई सकग जेहड़ी इक बारी च इक ब'रे थमां बद्ध नेई होग ते उद्घोषणा दे चलन च नेई रौहने परैत ओहदा विस्तार कुसै बी सूरतै च छे म्हीनें दी औद्ध थमां बद्ध नेई होग।

84. संसद दी सदस्यता आस्तै योग्यता – कोई व्यक्ति संसद दी कुसै थाहरै गी भरने आस्तै तां गै योग्य मन्नेआ जाहग जेकर –

²[(क) ओह भारत दा नागरिक ऐ ते उ'न्ने चनांऽ आयोग आसेआ इस नमित्त प्राधिकारी सामनै त्री अनुसूची च, इस मकसद आस्तै बनाए गेदे फार्म दे मताबक सघंद चुक्की दी ऐ जां प्रतिज्ञा लेइयै अपने दसखत कीते दे न;]

(ख) ओह राज्य सभा च सीट आस्तै घट्टो-घट्ट त्रीहें ब'रें दी उमरी दा ते लोक सभा च सीट आस्तै घट्टो घट्ट पंजियें ब'रें दी उमरी दा ऐ;

(ग) ओह होर बी योग्यतां रखदा होऐ, जेहड़ियां संसद आसेआ कुसै बी कनूनै राहें जां ओहदे तैह्त इस नमित्त नर्धारत कीतियां जाहन।

³[**85. संसद द सत्र, सत्र स्थगन ते भंग** – (1) राष्ट्रपति समें-समें उप्पर संसद दे हर इक सदन गी नेह समें ते थाहरा पर जिसी ओह ठीक समझै इजलास आस्तै बलाई सकदा ऐ, पर इक इजलास दी खीरी बैठक ते अगले इजलास दी पैहली बैठक आस्तै तैऽषुदा तरीक बषक्हार छे म्हीनें दा अंतर नेई होग।]

(2) राष्ट्रपति, समें-समें पर –

(क) सदनें गी, जां कुसै सदन गी स्थगत करी सकग;

(ख) लोक सभा गी भंग करी सकग।]

86 सदनें गी संबोधन दा ते सनेह भेजने दा राष्ट्रपति दा अधिकार – (1) राष्ट्रपति संसद दे कुसै इक सदन गी जां किट्टे होए दे दौनें सदनें गी सांझे तौर उप्पर संबोधत करी सकग ते इस मकसद आस्तै लोडचदे सदस्ये दी हाजरी जरूरी होग।

(2) राष्ट्रपति, संसद च उसलै बकाया पेदे कुसै बिल्लै दे सरबंधै च सनेह जां कोई होर सनेह, संसद दे कुसै सदन गी भेजी सकग ते जिस सदन गी इस चाल्ली दा कोई सनेहा भेजेआ गेदा ऐ, ओह सदन उस सनेह राहें विचार करने आस्तै लोडचदे विषे उप्पर अपनी सुविधा मताबक तौले थमां तौले विचार करग।

-
1. संविधान (चरतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 13 राहें (20-6-1979 थमां) "छे ब'रें शब्दे दी थाहर उप्पर प्रतिस्थापत। संविधान (बतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 17 राहें (3-1-1977 थमां) "पंज ब'रे" मूल शब्दे दी थाहरै पर "छे: ब'रे" शब्द प्रतिस्थापत कीते गे हे।
 2. संविधान (सोहलमीं तरमीम) अधिनियम, 1963 दी धारा 3 राहें खंड (क) दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 3. संविधान (पैहली तरमीम) अधिनियम, 1951 दी धारा 6 राहें अनुच्छेद 85 दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।

भारत दा संविधान
(भाग 5 – संघ)

87. राष्ट्रपति आसेआ बशेश भाशन – (1) राष्ट्रपति, ¹[लोक सभा दे हर इक आम चनाएं परैंत लग्गने आहले पैहले इजलास] दे शुरू च ¹[ते हर बरे दे पैहले इजलास दे रम्भ होने पर] सांझे संसद दे दौनों सदनों गी संबोधत करग ते संसद गी उसी सद्ने दा कारण दस्सग।

(2) हर इक सदन दी प्रक्रिया गी चलाने आहले नियमें राहें इस चाल्ली दे संबोधन च जकरोए दे विषें उप्पर चर्चा करने आस्तै समां तैऽ करने आस्तै ²*** प्रावधान कीता जाहग।

88. सदनों दे बारे च मंत्रियें ते महान्यावादी दे अधिकार – हर मंत्री ते भारत दे महान्यावादी कोल एह अधिकार होग जे ओह कुसै बी सदन च, सदनों दी कुसै बी सांझी बैठक च ते संसद दी कुसै बी समिति च, जेह्दे च ओहदा नांऽ सदस्य दे तौर उप्पर दित्ता गोदा ऐ, बोल्लै ते दुइयें कारवाइयें च हिस्सा लैने दा अधिकार होग, पर इस अनुच्छेद दे अधार उप्पर ओह वोट देने दा हकदार नेई होग।

संसद दे अधिकारी

89. राज्य सभा दा सभापति ते उपसभापति – (1) भारत दा उपराष्ट्रपति राज्य सभा दा पदेन सभापति होग।

(2) राज्य सभा, तौले थमां तौले, अपने कुसै सदस्य गी अपना उपसभापति चुनग ते जिसलै—जिसलै बी उपसभापति दी थाहर खाल्ली होंदी ऐ उसलै—उसलै राज्य सभा कुसै होर सदस्य गी अपना उपसभापति चुनग।

90 उपसभापति दा औहदा खाल्ली होना, औहदे थमां इस्तीफा ते औहदे थमां हटाया जाना – राज्य सभा दे उपसभापति दे तौर उप्पर औहदा धारण करने आहला सदस्य –

(क) जेकर कोई सदस्य राज्य सभा दा सदस्य नेई रौहदा तां ओह अपना औहदा छोड़ी देहग;

(ख) कुसै बेल्लै बी सभापति गी संबोधत करियै, अपने दसखत सनें लिखत इस्तीफा देई सकदा ऐ; ते

(ग) राज्य सभा दे उस बेल्लै दे सभनें सदस्यें दे बहुमत कन्ने पास कीते गोदे प्रस्ताव राहें, अपने औहदे थमां हटाया जाई सकग:

पर खंड (ग) दे मकसदें आस्तै दित्ता गोदा कोई बी प्रस्ताव उन्नै चिर पेष नेई कीता जाहग, जिन्नै चिर उस प्रस्ताव दे कारण उप्पर विचार आस्तै घट्टो—घट्ट चौहदें दिनें दा नोटिस नेई दित्ता गोदा होऐ।

91. उपसभापति जां कुसै होर व्यक्ति दा अपने कर्तबबें दा पालन करने जां सभापति दे तौर पर कम्म करने दा अख्तेआर – (1) जिसलै सभापति दा थाहर खाल्ली होऐ जां उस औद्ध दरान जिसलै उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति दे तौर उप्पर कम्म करा'रदा होऐ जां ओहदे कम्मं गी नबाह करदा होऐ, उसलै उपसभापति जां जेकर उपसभापति दा थाहर बी खाल्ली ऐ तां, राज्य सभा दा नेहा सदस्य एह कर्तबब नबाहग, जिसी राष्ट्रपति इस कम्म आस्तै नियुक्त करग।

(2) राज्य सभा दी कुसै बैठका दरान, सभापति दे गैर—हाजर होने पर उपसभापति, जां जेकर ओह बी गैर—हाजर होऐ तां नेहा कोई व्यक्ति, जिसी राज्यसभा दी प्रक्रिया दे नियमें दे मताबक नर्धारत कीता जा, जां जेकर इ'यै नेहा कोई व्यक्ति हाजर नेई ऐ तां नेहा कोई होर व्यक्ति जेह्दा राज्य सभा आसेआ नर्धारत कीता जा, सभापति दे तौर उप्पर कम्म करग।

92. जिसलै सभापति जां उपसभापति गी औहदे थमां हटाने दा कोई प्रस्ताव विचाराधीन ऐ उसलै ओहदा पीठासीन नेई होना – (1) राज्य सभा दी कुसै बैठका च, जिसलै उपराष्ट्रपति गी ओहदे औहदे थमां हटाने दे कुसै

1. संविधान (पैहली तरमीम) अधिनियम, 1951 दी धारा 7 राहें "हर इक सत्र" दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।

2. संविधान (पैहली तरमीम) अधिनियम, 1951 दी धारा 7 राहें ते "सदन दे होर दूर कम्मं पर इस चर्चा गी पैहल देने आस्तै" शब्दें दा लोप कीता गोआ।

भारत दा संविधान
(भाग 5 – संघ)

प्रस्ताव उप्पर विचार कीता जा'रदा होऐ तां सभापति, जां जिसलै उपसभापति गी ओह्दे औह्दे थमां हटाने लेई प्रस्ताव विचार हेठ होऐ तां उपसभापति, बषक्क उत्थै हाजर होऐ, बैठक दी अध्यक्षता नेई करी सकदा ते अनुच्छेद 91 दे खंड 2 ते प्रावधान इस चाल्ली दी हर बैठकै दे सरबंधे च उ'आं गै लागू होडन जि'यां ओह् उस बैठकै दे सरबंधे च लागू होंदे न, जेह्दे कन्नै, स्थिति मताबक, सभापति जां उपसभापति गैर-हाजर होंदे न।

(2) जिसलै उपराष्ट्रपति गी ओह्दे औह्दे थमां हटाने लेई कोई प्रस्ताव राज्य सभा च विचार हेठ होऐ तां उसलै सभापति गी राज्य सभा च बोल्लने जां ओह्दी कारवाइयें च हिस्सा लैने दा अधिकार होग, पर ओह् उसी अनुच्छेद 100 दे तैहत, कुसै गल्लै दे होंदे होई बी पर इ'यै नेह् प्रस्तावें उप्पर जां इ'यै नेही कारवाई दरान कुसै होर विषे उप्पर वोट देने दा बिल्लकुल हक्क नेई होग।

93. लोक सभा दा अध्यक्ष ते उपाध्यक्ष – लोक सभा, तौले गै, अध्यक्ष ते उपाध्यक्ष दे तौर उप्पर सदन दे द'ऊं सदस्यें गी चुनग ते जदू-जदू बी अध्यक्ष जां उपाध्यक्ष दी थाहर खाल्ली होग, तदू-तदू लोक सभा कुसै होर सदस्य गी, स्थिति मताबक, अध्यक्ष जां उपाध्यक्ष चुनग।

94. अध्यक्ष ते उपाध्यक्ष दा औह्दा खाल्ली होना, औह्दे थमां इस्तीफा ते औह्दे थमां हटाय़ा जाना – लोक सभा च अध्यक्ष ते उपाध्यक्ष दे तौर उप्पर औह्दा धारण करने आह्ला सदस्य –

- (क) जेकर लोक सभा दा सदस्य नेई रौहदा तां ओह् अपनी थाहर खाल्ली करी देह्ग;
- (ख) कुसै बी बेल्लै जेकर ओह् सदस्य अध्यक्ष ऐ तां उपाध्यक्ष गी संबोधत ते जेकर ओह् सदस्य उपाध्यक्ष ऐ तां अध्यक्ष गी संबोधत अपने दसखत सनें लिखती राहें अपना औह्दा खाल्ली करी सकग; ते
- (ग) लोक सभा च उसलै उत्थै मजूद सब्भै सदस्यें दे बहुमत कन्नै पास कीते गेदे प्रस्ताव राहें उसी औह्दे थमां हटाय़ा जाई सकग:

पर खंड (ग) दे मकसद आस्तै कोई प्रस्ताव उसलै तगर पेष नेई कीता जाह्ग, जिसलै तगर उस प्रस्ताव दे पेष करने दी मंषा दी घट्टो-घट्ट चौह्दें दिनें दी सूचना नेई दिती गेदी होग:

जिसलै बी लोक सभा गी भंग कीता जंदा ऐ तां भंग होने परैत होने आह्ले लोक सभा दे पैहले इजलास दे ठीक पैहलें तगर अध्यक्ष अपनी थाहर खाल्ली नेई करग।

95. उपाध्यक्ष जां कुसै होर व्यक्ति दा अपने कर्तबबें दा पालन करने जां उध्यक्ष दे तौर पर कम्म करने दा अख्तआर – (1) जिसलै अध्यक्ष दा थाहर खाल्ली ऐ तां उपाध्यक्ष, जां जेकर उपाध्यक्ष दा थाहर खाल्ली ऐ तां लोक सभा दा नेहा सदस्य, जिसी राष्ट्रपति इस मकसद आस्तै नियुक्त करै, उस औह्दे दे कर्तबबें दा पालन करग।

(2) लोक सभा दी कुसै बैठक दे अध्यक्ष दी गैर-हाजरी च उपाध्यक्ष जां जेकर ओह् बी हाजर नेई होऐ तां नेहा व्यक्ति, जेह्दा लोक सभा दे कम्म-काज आस्तै नर्धारत कीते गेदे नियमें मताबक निष्वत कीता जा, जां जेकर नेहा व्यक्ति बी गैर-हाजर होऐ तां नेहा गै कोई होर व्यक्ति, अध्यक्ष दे तौर उप्पर कम्म-काज करग, जिसी लोक सभा आसेआ नर्धारत कीता जा।

96. जिसलै अध्यक्ष जां उपाध्यक्ष गी औह्दे थमां हटाने दा कोई प्रस्ताव विचाराधीन ऐ उसलै ओह्दा पीठासीन नेई होना – (1) लोक सभा दी कुसै बैठक च, जिसलै अध्यक्ष गी हटाने दे प्रस्ताव उप्पर विचार कीता जारदा होऐ तां अध्यक्ष जां जिसलै उपाध्यक्ष गी हटाने लेई प्रस्ताव उप्पर विचार कीता जारदा होऐ तां उपाध्यक्ष, बषक्क उत्थै मजूद बी होऐ, पीठासीन नेई होग ते अनुच्छेद 95 दे खंड (2) दे प्रावधान नेही हर इक बैठकै दे सरबंधे च उ'आं गै लागू होडन जि'यां ओह् उस बैठकै दे सरबंधे च लागू होंदे न जिस कन्नै, स्थिति मताबक, अध्यक्ष जां उपाध्यक्ष गैर-हाजर ऐ।

भारत दा संविधान
(भाग 5 – संघ)

(2) जिसलै अध्यक्ष गी ओहदे ओहदे थमां हटाने दा कोई प्रस्ताव लोक सभा च विचार हेठ ऐ तां उसी लोक सभा च बोल्लने ते ओहदी कारवाइयें च जां पही हिस्सा लैने दा अधिकार होग ते ओह अनुच्छेद 100 च कुसै गल्ला दे होंदे होई बी, नेह प्रस्ताव उप्पर जां नेहियें कारवाइयें दरान कुसै होर विषे उप्पर सारें कोला पैहलें वोट देने दा हकदार होग, पर वोट बरोबर होने दी सूरतै च वोट देने दा हकदार नेई होग।

97. सभापति ते उपसभापति ते अध्यक्ष ते उपाध्यक्ष दी तनखाह ते भत्ते – राज्य सभा दे सभापति ते उपसभापति गी ते लोक सभा दे अध्यक्ष ते उपाध्यक्ष गी नेही तनखाह ते भत्ते गी जि'नेंगी संसद कनूनै राहें, तैऽ करै, ते जिन्नै चिर इस सरबंधे च कुसै चाल्ली दा कोई प्रावधान नेई कीता जंदा, उन्नै चिर नेही तनखाह ते भत्ते जेहडे दूई अनुसूची च खास तौरा उप्पर दस्से गेदे न, उ'ऐ दित्ते जाहडन।

98. संसद दा सचिवालय – (1) संसद दे हर इक सदन च बक्खरा सचिवी अमला होग :

पर इस खंड दी कुसै गल्लै दा एह मतलब नेई लाया जाहग जे ओह संसद दे दौनें सदनें आस्तै किट्टे ओहदें दी सिरजना उप्पर रोक लांदी ऐ।

(2) संसद, कनूनै राहें, संसद दे हर इक सदन दे सचिवी अमले च भर्ती दा ते नियुक्त व्यक्तियें दी सेवा दियें शर्ते दा विनियमन करी सकग।

(3) जिन्नै चिर संसद खंड (2) दे तैहत प्रावधान नेई करदी ऐ, उन्नै चिर राष्ट्रपति, स्थिति मताबक, लोक सभा दे अध्यक्ष जां राज्य सभा दे सभापति कन्नै सलाह करने दे बाद लोक सभा दे जां राज्य सभा दे सचिवी अमले च भर्ती दे ते नियुक्त व्यक्तियें दियें सेवा दियें शर्ते दे विनियमन आस्तै नियम बनाई सकग ते इस चाल्ली बनाए गेदे नियम आखे गेदे खंड दे तैहत बनाए गेदे कुसै कनून दे प्रावधानें दे तैहत असरदार होडन।

कम्म संचालन

99. सदस्यें आसेआ सघंद जां प्रतिज्ञा – संसद दे हर इक सदन दा हर इक सदस्य अपना थाहर ग्रैहण करने थमां पैहलें, राष्ट्रपति जां उस आसेआ इस कम्म आस्तै नियुक्त कीते गेदे व्यक्ति दे सामनै त्री अनुसूची च इस मकसद आस्तै दित्ते गेदे फार्म दे मताबक सघंद चुक्कग जां प्रतिज्ञा लैहग ते अपने दसखत करग।

100. सदनें च मतदान, खाल्ली थाहरें ते कोरम दे नेई होंदे होई बी सदनें दा कम्म-काज करने दा अख्तेआर – (1) इस संविधान च जि'यां जां पही उपबंधित दे सिवाय, हर इक सदन दी बैठक जां सदनें दी सांझी बैठक च सभने सुआलें दा नर्धारण, अध्यक्ष गी जां सभापति जां अध्यक्ष दे रूप च कम्म करने आहले व्यक्ति गी छोड़ियै हाजर ते वोट देने आहले सदस्यें दे बहुमत कन्नै कीता जाहग।

सभापति जां अध्यक्ष, जां उस रूपै च कम्म करने आहला व्यक्ति, पैहलें मतदान नेई करग, पर वोट बरोबर होने दी सूरत च ओहदा वोट फ़ैसलाकुन होग जेहदा ओह इस्तेमाल करी सकग।

(2) संसद दे कुसै सदन दी सदस्यता च कोई थाहर खाल्ली होने पर बी, उस सदन गी कारवाई करने दा अख्तेआर होग ते जेकर मगरा एह पता लगदा ऐ जे कोई व्यक्ति, जेहडा नेहा करने दा हकदार नेई हा, कारवाइयें च हाजर रेहा ऐ, जां उ'न्नै अपने वोट दा प्रयोग कीता ऐ, जां इ'यां गै हिस्सा लैता ऐ तां बी संसद दी कोई कारवाई कनूनी तौर उप्पर मान्य होग।

(3) जिन्नै चिर संसद कनूनै राहें जेकर प्रावधान नेई करै उन्नै चिर संसद दे हर इक सदन दा अधिवेशन गठत करने आस्तै कोरम सदन दे सदस्यें दी कुल गिंतरी दा दसमां हिस्सा होग।

(4) जेकर सदन दे इजलास आस्तै कुसै बेल्लै कोरम पूरा नेई ऐ तां सभापति जां अध्यक्ष जां इस रूपै च कम्म करने आहले व्यक्ति दा एह कर्तब्व होग जे ओह सदन गी स्थगत करी देऐ जां इजलास गी उन्नै चिर निलंबत करी देऐ, जिन्नै चिर कोरम पूरा नेई होई जंदा ऐ।

भारत दा संविधान
(भाग 5 – संघ)

सदस्ये दियां अयोग्यतां

101. सीटें दा खाल्ली होना – (1) कोई व्यक्ति संसद दे दौनें सदनें दा सदस्य नेई होग ते जेहड़ा व्यक्ति दौनें सदनें दा सदस्य चुनी लैता जंदा ऐ तां ओहदे इक जां दूए सदन च थाहर खाल्ली करने आस्तै संसद कनूनै राहें प्रावधान करग।

(2) कोई व्यक्ति संसद ते कुसै ¹*** रियासत दे विधान-मंडल दे कुसै सदन, दौनें दा सदस्य नेई होग ते जेकर कोई व्यक्ति संसद ते ²[कुसै रियासत] दे विधान-मंडल दे कुसै सदन, दौनें दा सदस्य चुनी लैता जंदा ऐ तां नेही औद्ध दी समाप्ति परैत जेहड़े राष्ट्रपति आसेआ बनाए गेदे नियमें³ च दस्सेआ जा, संसद च नेह व्यक्ति दा थाहर खाल्ली होई जाहग जेकर उसने रियासत दे विधान-मंडल च अपने थाहरै गी पैहलें गै नेई छोड़ी दित्ता ऐ।

(3) जेकर संसद दे कुसै सदन दा सदस्य –

(क) ⁴[अनुच्छेद 102 दे खंड (1) जां खंड (2)] च वर्णत कुसै अयोग्यता थमां ग्रस्त होई जंदा ऐ, जां

⁵[(ख) स्थिति मताबक, सभापति जां अध्यक्ष गी संबोधित अपने दसखत सनें लिखती राहें अपनी थाहरा गी छोड़ी दिंदा ऐ ते ओहदा इस्तीफा, स्थिति मताबक, सभापति जां अध्यक्ष आसेआ मंजूर करी लैता जंदा ऐ,] तां नेहा होने उप्पर ओहदी थाहर खाल्ली होई जाहग :

⁶[पर उपखंड (ख) च दस्से गेदे इस्तीफे दी सूरतै च, जेकर थहोई दी जानकारी थमां ते जां फही नेही पड़ताल करने दे बाद, जो ओह ठीक समझै, स्थिति मताबक, सभापति जां अध्यक्ष गी एह संतुष्टी होई जंदा ऐ जे नेहा इस्तीफा अपनी इच्छा कन्नै जां असली नेई ऐ तां ओह नेह इस्तीफे गी मंजूर नेई करग।]

(4) जेकर संसद दे कुसै सदन दा कोई सदस्य सट्टें दिनें दी औद्ध तगर सदन दी इजाजत बगैर ओहदी सभनें बैठकें थमां गैर-हाजर रौहदा ऐ, तां सदन ओहदी थाहरै गी खाल्ली घोषत करी सकग :

पर सट्टें दिनें दी आखी गेदी औद्ध दी गिंतरी करने च कुसै नेही औद्ध गी स्हाब च नेई गिनेआ जाहग, जिस दरान सदन मुलतवी होऐ जां लगातार च'ऊं दिनें थमां मते दिनें आस्तै स्थगत रौहदा ऐ।

102. सदस्यता आस्तै अयोग्यतां – (1) कोई व्यक्ति संसद दे कुसै सदन दा सदस्य चुने जाने आस्तै ते सदस्य होने आस्तै अयोग्य होग –

(क) जेकर ओह भारत सरकार दे जां कुसै रियासती सरकार दे तैहत नेह औहदे गी छोड़ियै, जिसी धारण करने आहले दा अयोग्य नेई होना संसद ने कनूनै राहें घोषत कीते दा ऐ, कोई लाह आहला औहदा सम्हालदा ऐ।

(ख) ओहदी दमागी हालत ठीक नेई ऐ ते समर्थ अदालत दी नेही घोषना मजद ऐ;

(ग) जेकर ओह अनछुडकेआ दिवालियां ऐ;

(घ) जेकर ओह भारत दा नागरिक नेई ऐ जां उ'न्ने कुसै बदेषी राज्य दी नागरिकता अपनी इच्छा कन्नै हासल करी लैती दी ऐ जां कुसै बदेषी राज्य आस्तै निष्ठा जां समर्थन गी स्वीकार करी चुके दा ऐ।

(ङ) जेकर ओह संसद आसेआ बनाए गेदे कुसै कनूनै राहें जां ओहदे तैहत इस चाल्ली अयोग्य करी दित्ता जंदा ऐ।

1. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें "पैहली अनुसूची दे भाग क जां भाग ख च चेचे तौर पर दस्से गेदे" शब्दें ते अखरें दा लोप कीता गेआ।
2. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें "नेह कुसै राज्य" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
3. दिक्खो, कनून मंत्रालय दी अधिसूचना संख्या एफ, 46/50-सी, तरीक 26 जनवरी 1950, भारत दी गजट, असधारण, सफा नं. 678 च प्रकाषत किट्टी सदस्यता दे नियम 1950।
4. संविधान (बुंजमीं तरमीम) अधिनियम, 1985 दी धारा 2 राहें (1-3-1985 थमां) "अनुच्छेद 102 दे खंड (1)" दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।
5. संविधान (तेत्तिमीं तरमीम) अधिनियम, 1974 दी धारा 2 राहें उपखंड (ख) दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।
6. संविधान (तेत्तिमीं तरमीम) अधिनियम, 1974 दी धारा 2 राहें अंतरस्थापत।

भारत दा संविधान
(भाग 5 – संघ)

¹[स्पष्टीकरण – इस खंड दे मकसदें आस्तै,] कोई व्यक्ति छड़ा इस गल्ला भारत सरकार जां कुसै रियासत दी सरकार दे अधीन लाह आहला औहदा धारण करने आहला नेई समझेआ जाहग जे ओह संघ दा जां नेही रियासत दा मंत्री ऐ।

²[(2) कोई व्यक्ति संसद दे कुसै सदन दा सदस्य होने आस्तै अयोग्य होग जेकर ओह दसमी अनुसूची दे तैह्त इस चाल्ली अयोग्य होई जंदा ऐ।]

103. ³[सदस्यें दियें अयोग्यताएं कनै सरबंधत सुआल पर फैसला – (1) जेकर एह सुआल पटोंदा ऐ जे संसद दे कुसै सदन दा कोई सदस्य अनुच्छेद 102 दे खंड (1) च लखोई दी कुसै अयोग्यता कारण अयोग्य होई गेदा ऐ जां नेई तां ओह सुआल राष्ट्रपति दे फैसले आस्तै भेजेआ जाहग ते ओहदा फैसला खीरी होग।

(2) नेह कुसै सुआलै पर फैसला करने कोला पैहलें राष्ट्रपति चनांऽ आयोग दी राऽ लैहग ते नेही राऽ दे मताबक कम्म करग।]

104. अनुच्छेद 99 दे तैह्त सघंद चुक्कने जां प्रतिज्ञा करने कोला पैहलें जां योग्य नेई होंदे होई जां अयोग्य कीते जाने पर बौहने ते वोट देने आस्तै डन्न – जेकर संसद दे कुसै सदन च कोई व्यक्ति अनुच्छेद 99 दी लोडें दा पालन करने कोला पैहलें जां एह जानदे होई जे में ओहदी सदस्यता दे योग्य नेई आं जां अयोग्य करार दित्ता गेदा आं जां संसद आसेआ बनाए गेदे कुसै कनून दे प्रावधान राहें नेहा करने थमां रोकी दित्ता गेआ आं, बतौर सदस्य बौहदा ऐ जां वोट पांदा ऐ तां ओह हर इक दिनै आस्तै, जदूं ओह इस चाल्ली बौहदा ऐ जां वोट पांदा ऐ, पंज सौ रपेऽ डन्न देना पौग जेहड़ा संघ गी देने जोग कर्जे दे रूप च बसूल कीता जाहग।

संसद ते ओहदे सदस्यें दे अख्तेआर, चेचे अधिकार ते उन्मुक्तियां

105. संसद दे सदनें, उंदे सदस्यें ते समितियें दे अख्तेआर, चेचे अधिकार वगैरा – (1) इस संविधान दे प्रावधानें ते संसद दे कम्मै-काजै गी चलाने आहले नियमें ते स्थाई अदेषें दे तैह्त रौहदे होई, संसद च बोल्लने दी अजादी होग।

(2) संसद च जां ओहदी कुसै समिति च संसद दे कुसै सदस्य आसेआ आखी गेदी कोई गल्ल जां दित्ते गेदे कुसै वोट दे सरबंधे च ओहदे खलाफ कुसै अदालती च कोई कारवाई नेई कीती जाहग ते कुसै व्यक्ति दे खलाफ संसद दे कुसै सदन दे प्राधिकार राहें जां ओहदे तैह्त कुसै रपोट, चिट्ठी, वोट जां कारवाइयें दे प्रकाषन दे सरबंधे च इस चाल्ली दी कोई कारवाई नेई कीती जाहग।

(3) होरनें गल्लें च संसद दे हर सदन दी ते हर सदन दे सदस्यें ते समितियें दे अख्तेआर, खास अधिकार ते उन्मुक्तियां इस चाल्ली दियां होडन जेहड़ियां संसद मौके-मौके पर, कनूनै राहें निष्वत करै ते जिसलै तगर ओह इस चाल्ली पक्कियां नेई कीतियां जंदियां उसलै तगर ⁴[उंऐ होडन जेहड़ियां संविधान (चरतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 15 दे लागू होने कोला ठीक पैहलें उस सदन दी ते ओहदे सदस्यें ते समितियें दियां हियां]।

(4) जिंनें व्यक्तियें गी इस संविधान दे अधार पर संसद दे कुसै सदन जां ओहदी कुसै समिति च बोल्लने दा ते ओहदियें कारवाइयें च जां पही हिस्सा लैने दा अधिकार ऐ, उंदे सरबंधे च खंड (1), खंड (2) ते खंड (3) दे प्रावधान उससै चाल्ली लागू होडन जिस चाल्ली ओह संसद दे सदस्यें दे सरबंधे च लागू होंदे न।

1. संविधान (बुंजमीं तरमीम) अधिनियम, 1985 दी धारा 3 राहें (1-3-1985 थमां) “(2) इस अनुच्छेद दे मकसदें आस्तै” दी थाहर पर प्रतिस्थापत।

2. संविधान (बुंजमीं तरमीम) अधिनियम, 1985 दी धारा 3 राहें (1-3-1985 थमां) अंतरस्थापत।

3. अनुच्छेद 103, संविधान (बतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 20 राहें (3-1-1977 थमां) ते ओहदे परेंत संविधान (चरतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 14 राहें (20-6-1979 थमां) तरमीम होइयै उप्पर आखे गेदे रूपै च आया।

4. संविधान (चरतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 15 राहें (20-6-1979 थमां) किष शब्दें दे धाहरै पर प्रतिस्थापत।

भारत दा संविधान
(भाग 5 – संघ)

106 सदस्यें दियां तनखाहीं ते भत्ते – संसद दे हर इक सदन दे सदस्य दी तनखाह ते भत्ते, जिनेंगी संसद, समें-समें पर, कनून राहें नर्धारत करै ते जिसलै तगर इस सरबंधें च नेहा कोई प्रावधान नेई कीता जंदा ऐ उसलै तगर नेह भत्ते, नेहियें दरें कन्नै ते नेहियें शर्तें पर, जेहड़ियां भारत डोमिनियन दी संविधान सभा दे सदस्यें गी इस संविधान दे शुरू थमां ठीक पैहलें लागू हियां, हासल करने दे हकदार होडन।

विधायी प्रक्रिया

107. बिल्लं दे पेश करने ते पास कीते जाने दे सरबंधें च प्रावधान – (1) धन बिल्लें ते होर माल्ली बिल्लें दे सरबंधें च अनुच्छेद 109 ते अनुच्छेद 117 दे प्रावधान दे तैहत, कोई बिल्ल संसद दे कुसै बी सदन च रम्भ होई सकग।

(2) अनुच्छेद 108 ते अनुच्छेद 109 दे प्रावधानें दे तैहत कोई बिल्ल संसद दे सदनें आसेआ उसलै तगर पास कीता गेदा नेई समझेआ जाहग जिसलै तगर तरमीम दे बगैर जां छड़ी नेही तरमीम समेत जिं दे पर दोऐ सदन सैहमत होई गेदे न, ओहदे पर दोऐ सदन सैहमत नेई होई जंदे न।

(3) संसद च बकाया पेदा बिल्ल, सदनें दे सत्र स्थगत होई जाने कारण रद्द नेई होग।

(4) राज्य सभा च बकाया पेदा बिल्ल, जिसी लोक सभा ने पास नेई कीते दा ऐ, लोकसभा दे भंग होने पर रद्द नेई होग।

(5) कोई बिल्ल, जेहड़ा लोक सभा च बकाया पेदा ऐ जां जेहड़ा लोक सभा आसेआ पास करी दित्ता गेदा ऐ ते राज्य सभा च बकाया ऐ, अनुच्छेद 108 दे प्रावधान दे तैहत लोक सभा दे भंग होने पर रद्द होई जाहग।

108. किश सूरतें च दौनें सदनें दी सांझी बैठक – (1) जेकर कुसै बिल्ल दे इक सदन आसेआ पास कीते जाने ते दूए सदन गी भेजे जाने परैत्त, –

(क) दूए सदन आसेआ बिल्ल ना-मंजूर करी दित्ता गेआ ऐ, जां

(ख) बिल्ल च कीतियें जाने आहलियें तरमीमें दे बारे च दोऐ सदन खीरै च सैहमत नेई होए न, जां

(ग) दूए सदन गी बिल्ल थहोने दी तरीक कोला, ओहदे आसेआ बिल्ल पास कीते बगैर छें म्हीनें कोला बद्ध समां होई गेदा ऐ,

तां नेही स्थिति दे इलावा, जेहदे च लोक सभा भंग होने करी बिल्ल रद्द होई गेदा ऐ, राष्ट्रपति बिल्ल पर सोच बचार करने ते वोट देने दे मकसद आस्तै, संसद च सांझी बैठक च शामिल होने आस्तै सदनें दी सूचना, जेकर ओह बैठे दे न तां सनेहा देइयै ते जेकर ओह बैठक च नेई बैठे दे तां लोक अधिसूचना राहें देहग :

पर उस खंड दी कोई गल्ल धन बिल्ल पर लागू नेई होग।

(2) छें म्हीनें दी नेही औद्ध दी गितरी करने च जेहड़ा खंड (1) च दस्सेआ गेदा ऐ, कुसै नेही औद्ध गी स्हाबै च नेई लैता जाहग, जेहदे च आखे गेदे खंड दे उपखंड (ग) च दस्से गेदे सदन मुलतवी जां लगातार च'ऊं कोला बद्ध दिनें आस्तै स्थगत करी दित्ता जंदा ऐ।

(3) जेकर राष्ट्रपति ने खंड (1) दे तैहत सदनें दी सांझी बैठक च शामिल होने आस्तै सदनें दी अपनी इच्छा दी सूचना देई ओड़ी दी ऐ तां कोई बी सदन बिल्ल पर अगें कारवाई नेई करग पर राष्ट्रपति अपनी अधिसूचना दी तरीक परैत्त कुसै बेल्लै सदनें दी अधिसूचना च दस्से गेदे मकसद आस्तै सांझी बैठक च शामिल होने आस्तै सददी सकग ते जेकर ओह इयां करदा ऐ तां सदन दी बैठक उं दे मताबक होग।

(4) जेकर सदनें दी सांझी बैठक च बिल्ल नेहियें तरमीमें सनें, जेकर कोई हैन, जिं दे पर सांझी बैठक च इक राऽ बनी जंदी ऐ, दौनें सदनें दे हाजर ते वोट देने आहले सदस्यें दी कुल गितरी दे बहुमत कन्नै पास होई जंदा ऐ तां इस

भारत दा संविधान
(भाग 5 – संघ)

संविधान दे मकसदें आस्तै ओह दौनें सदनें आसेआ पास कीता गेदा समझेआ जाहग :

पर सांझी बैठक च –

(क) जेकर बिल्ल इक सदन आसेआ पास कीते जाने पर दूए सदन आसेआ तरमीम सनें पास नेई करी दित्ता गेआ ऐ ते उस सदन गी जेहदे च ओहदा रम्भ होआ हा, परताई नेई दित्ता गेदा ऐ तां नेहियें तरमीमें कोला बक्ख (जेकर कोई होन) जेहड़े बिल्ल दे पास होने च चिर लगने कारण जरूरी होई गे न, बिल्ल च कोई होर तरमीम प्रस्तावत नेई कीती जाहग;

(ख) जेकर बिल्ल इस चाल्ली पास करी दित्ता गेआ ऐ ते परताई दित्ता गेआ ऐ तां बिल्ल च छड़ियां उप्पर आखियां गेदियां तरमीमां ते नेहियां होर तरमीमां, जेहड़ियां उ'नें मामलें कन्नै शैल मेल खंदियां न, जि'दे पर सदनें च इक राऽ नेई बनी दी ऐ, प्रस्तावत कीतियां जाहडन,

ते पीठासीन व्यक्ति दा इस बारे च फैसला खीरी होग जे केहड़ियां तरमीमां इस खंड च स्वीकार जोग न।

(5) सदनें दी सांझी बैठक च शामिल होने आस्तै सदनें दी अपनी इच्छा गी राष्ट्रपति दी सूचना परेंत, लोक सभा बिच्च गै भंग होई जाने पर बी, इस अनुच्छेद दे तैहत सांझी बैठक होई सकग ते ओहदे च बिल्ल पास होई सकग।

109. धन-बिल्लं दे सरबंधै च बशेश प्रक्रिया – (1) धन बिल्ल राज्य सभा च पेश नेई कीता जाहग।

(2) धन बिल्ल लोक सभा आसेआ पास कीते जाने परेंत राज्य सभा गी ओहदियें सफारषें आस्तै भेजेआ जाहग ते राज्य सभा बिल्ल दी प्राप्ति दी तरीक कोला चौहदें दिनें दी औद्ध दे अंदर बिल्ल गी अपनियें सफारषें समेत लोक सभा गी परताई देहग ते इ'यां होने पर लोक सभा, राज्य सभा दियें सभनें जां किष सफारषें गी मंजूर जां ना-मंजूर करी सकग।

(3) जेकर लोक सभा, राज्य सभा दी कुसै सफारष गी मंजूर करी लैंदी ऐ तां धन सरबंधी बिल्ल राज्य सभा आसेआ सफारष कीते गेदे ते लोकसभा आसेआ मंजूर कीतियें गेदियें तरमीमें समेत दौनें सदनें आसेआ पास कीता गेदा समझेआ जाहग।

(4) जेकर लोक सभा राज्य सभा दी कुसै बी सफारष गी मंजूर नेई करदी ऐ तां धन बिल्ल, राज्य सभा आसेआ सफारष कीते गेदे कुसै तरमीम दे बगैर, दौनें सदनें आसेआ उस रूप च पास कीता गेदा समझेआ जाहग जेहदे च लोक सभा आसेआ पास कीता गेआ हा।

(5) जेकर लोक सभा आसेआ पास कीता गेदा ते राज्य सभा गी ओहदियें सफारषें आस्तै भेजेआ गेदा धन बिल्ल आखे गेदे चौहदें रोजें दी औद्ध दे अंदर लोक सभा गी परताई नेई दित्ता जंदा ऐ तां आखी गेदी औद्ध दे मुक्कने पर ओह दौनें सदनें आसेआ, उस रूप च पास कीता गेदा समझेआ जाहग जिस च ओह लोक सभा आसेआ पास कीता गेदा हा।

110 "धन बिल्ल" दी परिभाशा – इस ध्याऽ दे मकसदें आस्तै, कोई बिल्ल धन बिल्ल समझेआ जाहग जेकर ओहदे च हेठ लिखे दे सभै जां कु'नें मामलें कन्नै सरबंधत प्रावधान न, अर्थात् :-

(क) कोई टैक्स लाना, हटाना, माफ करना, बदलना, विनियमत करना;

(ख) भारत सरकार आसेआ धन दोहार लैने दा जां कोई गरंटी देने दा विनियमन जां भारत सरकार आसेआ अपने उप्पर लैती गेदी जां लैतियें जाने आहलियें कु'नें माल्ली रकावटें सरबंधी कन्नै दी तरमीम;

भारत दा संविधान
(भाग 5 – संघ)

(ग) भारत दे कठेरमें कोष जां चान-चक्की कोष दी हिफाजत, नेह कुसै खजाने च पैहा ज'मा करना जां ओहदे चा पैहा कड़वाना;

(घ) भारत दे कठेरमे कोष चा धन दा विनियोग;

(ङ) कुसै खर्चे गी भारत दे कठेरमें कोष पर भार पाने आह्ला खर्चा घोषत करना जां नेह धन दी हिफाजत जां ओहदा निकास जां राज्य दे लेखे दा आडिट; जां

(च) भारत दे कठेरमें कोष जां भारत दे लोक खाते चा धन हासल करना जां नेह धन दी हिफाजत जां ओहदी निकासी जां संघ जां रियासत दे लेखे दा आडिट; जां

(छ) उपखंड (क) दे उपखंड (च) च दस्से गेदे कुसै मामले दा घटनात्मी कोई मामला ।

(2) कोई बिल्ल सिर्फ इस करी धन-बिल्ल नेई समझेआ जाहग जे ओह जरमाने जां होर धन सरबन्धी डन्ने दे लाने दा जां लाइसेंस आस्तै फीसें दी जां कीती गेदी सेवाएं आस्तै फीसें दी मंग दा जां उं'दे भुगतान दा प्रावधान करदा ऐ जां इस करी धन-बिल्ल नेई समझेआ जाहग जे ओह कुसै मुकामी अधिकारी जां अदारे आसेआ मुकामी मकसदे आस्तै कुसै टैक्स गी लाने, हटाने, घटाने, फेर-बदल करने जां कुसै टैक्स दा विनियमन दा प्रावधान करदा ऐ ।

(3) जेकर एह सोआल उठदा ऐ जे कोई बिल्ल धन-बिल्ल है जां नेई तां ओहदे पर लोक सभा दे अध्यक्ष दा फैसला खीरी फैसला होग ।

(4) जिसलै धन-बिल्ल अनुच्छेद 109 दे तैहत राज्य सभा गी भेजेआ जंदा ऐ ते जिसलै ओह अनुच्छेद 111 दे तैहत मंजूरी आस्तै राष्ट्रपति दे अगें पेश कीता जंदा ऐ तां हर इक धन-बिल्ल लोक सभा दे अध्यक्ष दे दसखतें समेत एह प्रमाण पृष्ठांकित कीता जाहग जे एह धन-बिल्ल ऐ ।

111. बिल्लें गो मंजूरी – जिसलै कोई बिल्ल संसद दे सदनें आसेआ पास करी दित्ता गेआ ऐ फही ओह राष्ट्रपति अगें पेश कीता जाहग ते राष्ट्रपति घोषत करग जे ओह बिल्ल पर मंजूरी दिंदा ऐ जां मंजूरी रोकी लेंदा ऐ ।

पर राष्ट्रपति अनुमति आस्तै अपने सामने बिल्ल पेश कीते जाने परैत, तौले थमां तौले उस बिल्ल गी, जेकर ओह धन-बिल्ल नेई ऐ तां, सदनें गी इस सनेह कन्ने परताई सकग जे ओह बिल्ल पर जां कु'ने दस्से गेदे प्रावधानें पर परतियै विचार करन ते खास तौरा पर कु'ने नेह संघोधनें गी परती पेश करने दी लोड़ पर विचार करन जि'दी उ'न्ने अपने सनेह च सफारष कीती दी ऐ ते जिसलै बिल्ल इस चाल्ली परताई दित्ता जंदा ऐ उसलै सदन बिल्ल पर ओहदे मताबक परतियै विचार करडन ते जेकर बिल्ल सदनें आसेआ तरमीम समेत जां ओहदे बगैर परतियै पास करी दित्ता जंदा ऐ तां राष्ट्रपति दे सामने मंजूरी आस्तै पेश कीता जंदा ऐ तां राष्ट्रपति ओहदे पर मंजूरी नेई रोकग ।

माल्ली मामलं सरबन्धी प्रक्रिया

112. सलाना माल्ली ब्यौरा –(1) राष्ट्रपति हर इक ब'रे दे सरबन्धे च संसद दे दौनें सदनें सामने भारत सरकार दी उस ब'रे आस्तै अनुमानित प्राप्तियां ते खर्चे दा ब्यौरा रखोआहग, जिसी इस भाग च "सलाना माल्ली ब्यौरा" आखेआ गेदा ऐ ।

(2) सलाना माल्ली ब्यौरे च दित्ते गेदे खर्चे दे अनुमानें च –

(क) इस संविधान च भारत दे कठेरमें कोष पर भार पाने आहले खर्चे दे रूप च वर्णत खर्चे दी पूर्ति आस्तै लोड़चदियां धन-राषियां, ते

(ख) भारत दे कठेरमे कोष चा कीते जाने आस्तै प्रस्तावत होर खर्चे दी पूर्ति आस्तै लोड़चदियां धन-राषियां, बक्ख-बक्ख दरिसियां जाहडन ते राजस्व लेखे होने आहले खर्चे दा होरनें खर्चे कोला फर्क कीता जाहग ।

भारत दा संविधान
(भाग 5 – संघ)

(3) हेठ लिखेआ गेदा खर्चा भारत दे कठेरमे कोष पर भार पाने आह्ला खर्चा होग, अर्थात् :-

- (क) राष्ट्रपति दे मेहनताने ते भत्ते ते ओहदे ओहदे कन्नै सरबंधत होर खर्चे;
 (ख) राज्य सभा दे सभापति ते उपसभापति दी ते लोकसभा दे अध्यक्ष ते उपाध्यक्ष दी तनखाह ते भत्ते;
 (ग) नेह रिण भार, जिं दी जिम्मेवारी भारत सरकार पर ऐ, जिं दे तैह्त ब्याज, डुब्बे दे कोष दा भार ते निष्क्रय भार ते दोहार लैने ते रिण सेवा ते रिण मुक्ति कन्नै सरबंधत होर खर्चे न;
 (घ) (i) सर्वोच्च अदालत दे जज्जे गी जां उं दे सरबंधे च दित्ती जाने आहली तनखाह, भत्ते ते पैषन;
 (ii) फेडरल अदालतें दे जज्जे गी जां उं दे सरबंधे च दित्ती जाने आहली पैषन;
 (iii) उस उच्च अदालत दे जज्जे गी जां उं दे सरबंधे च दित्ती जाने आहली पैषन, जेहड़ी भारत दे राज्यक्षेत्र दे तैह्त कुसै क्षेत्र दे सरबंधे च अधिकारता दा प्रयोग करदा ऐ जां जेहड़ा ¹[भारत डोमिनियन दे राज्यपाल आहले प्रांत] दे तैह्त कुसै क्षेत्र दे सरबंधे च इस संविधान दे शुरू होने कोला पैहलें कुसै बी बेल्लै अधिकारता दा प्रयोग करदा हा;
 (ङ) भारत दे नियंत्रक-महालेखापारखी गी, जां ओहदे सरबंधे च, दित्ती जाने आहली तनखाह, भत्ते ते पैषन;
 (च) कुसै अदालत जां माध्यस्थम ट्रिब्यूनल दे फौसले, डिक्री जां डन्न दी तसल्ली आस्तै लोडचदियां रकमां;
 (छ) कोई होर खर्च जेहड़ा इस संविधान राहें जां संसद आसेआ कन्नूने राहें, इस चाल्ली भार पाने आह्ला घोषत कीता जंदा ऐ।

113. संसद च अनुमानें दे सरबंधे च प्रक्रिया – (1) अनुमानें चा जिन्ने अनुमान भारत दे कठेरमें कोष पर भार पाने आहले खर्चे कन्नै सरबंधत न ओह संसद च वोट पाने आस्तै नेई रक्खे जाहडन, पर इस खंड दी कुसै बी गल्लै दा एह मतलब नेई लाया जाहग जे ओह संसद दे कुसै सदन च उं नें अनुमानें चा कुसै अनुमान पर चर्चा गी रोकदी ऐ।

(2) आखे गेदे अनुमानें चा जिन्ने अनुमान होरनें खर्चे कन्नै सरबंधत न ओह लोक सभा दे सामनै अनुदान दी मंग दे रूपै च रक्खे जाहडन ते लोक सभा गी अखेआर होग जे ओह कुसै मंग गी मंजूरी देऐ जां नांह करी ओडै जां कुसै मंग गी, ओहदे च दस्सी गेदी रकम गी घट्ट करियै, मंजूरी देई ओडै।

(3) कुसै अनुदान दी मंग राष्ट्रपति दी सफारष पर गै कीती जाहग, नेई तां नेई।

114. विनियोग बिल्ल – लोक सभा आसेआ अनुच्छेद 113 दे तैह्त अनुदान कीते जाने परैत्त, तौले थमां तौले, भारत दे कठेरमे कोष चा –

(क) लोक सभा आसेआ इस चाल्ली कीते गेदे अनुदानें दी, ते

(ख) भारत दे कठेरमे कोष पर भार पाने आहले, पर संसद दे सामनै पैहलें रक्खे गेदे ब्यौरे च दस्सी गेदी रकम थमां कुसै बी सूरत च बद्ध खर्च दी नेई,

पूर्ति आस्तै लोडचदियें सभनें धनराषियें दे विनियोग दा प्रावधान करने आस्तै बिल्ल पेष कीता जाहग।

(2) इस चाल्ली कीते गेदे कुसै अनुदान दी रकम च बदलाव करने जां अनुदान दे उद्देश्य गी बदलने जां भारत दे कठेरमे कोष पर भार पाने आहले खर्चे दी रकम च बदलाव करने दा प्रभाव रक्खने आहली कोई तरतीम, नेह कुसै बिल्ल गी

1. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें "पैहली अनुसूची दे भाग क च दस्से गेदे रियासत दे उस-थाहरी प्रांत" दे थाहरै उप्पर प्रतिस्थापत।

भारत दा संविधान
(भाग 5 – संघ)

संसद दे कुसै सदन च नेई रक्खेआ जाहग ते पीठासीन व्यक्ति दा इस बारे फैसला खीरी फैसला होग जे कोई तरमीम इस खंड दे तैहत् ग्रैहण करने जोग है जां नेई।

(3) अनुच्छेद 115 ते अनुच्छेद 116 दे प्रावधानें दे तैहत्, भारत दे कठेरमें कोष चा इस अनुच्छेद दे प्रावधानें दे मताबक पास कनूनै राहें कीते गेदे विनियोग दे तैहत् गै कोई धन कड्डेआ जाहग नेई तां नेई।

115. जिमनी, बादधू जां मता अनुदान – (1) जेकर –

(क) अनुच्छेद 114 दे प्रावधानें मताबक बनाए गेदे कुसै कनूनै राहें कुसै खास सेवा उप्पर चालू माल्ली ब'रे आस्तै खर्च कीते जाने आस्तै प्राधिकृत कोई रकम उस ब'रे दे मकसदें आस्तै नाकाफी पाई जंदी ऐ जां उस ब'रे दे सलाना माल्ली ब्यौरे च नेई दित्ती गेदी कुसै नमीं सेवा पर जिमनी जां बादधू खर्च दी चालू माल्ली ब'रे दरान जरूरत पैदा होई गेदी ऐ, जां

(ख) कुसै माल्ली ब'रे दरान कुसै सेवा उप्पर उस ब'रे ते उस सेवा आस्तै दित्ती गेदी माल्ली मदाद थमां बह कोई धन खर्च होई गेआ ऐ,

तां राष्ट्रपति, स्थिति मताबक, संसद दे दौनें सदनें दे सामनें उस खर्च दी अनुमानत रकम गी दस्सने आह्ला दूआ ब्यौरा रखोआहग जां लोक सभा च नेह बादधे आस्तै मंग पेष करोआहग।

(2) नेह कुसै ब्यौरे ते खर्च जां मंग दे सरबंधे च ते भारत दे कठेरमें कोष चा नेह खर्च जां नेही मंग कन्नै सरबंधत माल्ली मदाद दी पूर्ति आस्तै धन दा विनियोग प्राधिकृत करने आस्तै बनाए जाने आहले कुसै कनूनै दे सरबंधे च बी, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 113 ते अनुच्छेद 114 दे प्रावधान उ'आं गै असरी होडन जि'यां ओह सलाना माल्ली ब्यौरे ते ओहदे च वर्णत खर्च जां कुसै अनुदान दी कुसा मंग दे सरबंधे च ते भारत दे कठेरमें कोष चा नेह खर्च जां अनुदान दी पूर्ति आस्तै धनै दा विनियोग प्राधिकृत करने आस्तै बनाए जाने आहले कनूनै दे सरबंधे च असरी न।

116. लेखा अनुदान, ज'माखाता अनुदान ते अपवाद अनुदान पर मतदान – (1) इस ध्याऽ दे पछेत्तरे प्रावधानें च बावजूद एहदे, लोक सभा गी –

(क) कुसै माल्ली ब'रे दे हिस्से आस्तै अंदाजन खर्च दे सरबंधे च कोई अनुदान, उस अनुदान आस्तै मतदान करने लेई अनुच्छेद 113 च दस्सी गेदी प्रक्रिया दे पूरे होने तगर ते उस खर्च दे सरबंधे च अनुच्छेद 114 दे प्रावधानें दे मताबक कनूनै दे पास होने तगर पेषगी देने दी;

(ख) जिसले कुसै सेवा दी म्हत्ता जां ओहदे अनिश्चित रूपै दे कारण मंग नेह ब्यौरे कन्नै वर्णत नेई कीती जाई सकदी ऐ जेहड़ी सलाना माल्ली ब्यौरे च आमतौर उप्पर दित्ता जंदा ऐ उसलै भारत दे जायदाद सरबंधी स्रोतें उप्पर ना-मेदी मंग दी पूर्ति आस्तै माल्ली मदाद करने दी;

(ग) कुसै माल्ली ब'रे दी चालू सेवा दा जेहड़ा अनुदान हिस्सा नेई ऐ, नेहा कोई अपवाद-अनुदान करने दा, अख्तेआर होग ते जि'नें मकसदें आस्तै आखे गेदे अनुदान कीते गेदे न, उ'दे आस्तै भारत दे कठेरमें कोष चा, धन कड्डना कनूनै राहें प्राधिकृत करने दा संसद गी अख्तेआर होग।

(2) खंड (1) दे तैहत् कीते जाने आहले कुसै अनुदान ते उस खंड दे तैहत् बनाए जाने आहले कुसै कनूनै दे सरबंधे च अनुच्छेद 113 ते अनुच्छेद 114 दे प्रावधान उ'आं गै असरी होडन जि'यां ओह सलाना माल्ली ब्यौरे च वर्णत कुसै खर्च दे बारे च कोई अनुदान करने दे सरबंधे च ते भारत दे कठेरमें कोष चा नेह खर्च दी पूर्ति आस्तै धनै दा विनियोग प्राधिकृत करने आस्तै बनाए जाने आहले कनूनै दे सरबंधे च असरी न।

117. माल्ली बिल्लें बारै चेचे प्रावधान – (1) अनुच्छेद 110 दे खंड (1) दे उपखंड (क) थमां उपखंड (च) च चेचे दस्से गेदे कुसै मामले आस्तै प्रावधान करने आहला बिल्ल जां तरमीम राष्ट्रपति दी सफारष कन्नै गै पेष जां प्रस्तावित कीती जाहग नेई तां नेई ते नेहा प्रावधान करने आहला बिल्ल राज्य सभा च पेष नेई कीता जाहग :

भारत दा संविधान
(भाग 5 – संघ)

पर कुसै टैक्स दे घटाने जां लोप आस्तै प्रावधान करने आहली कुसै तरमीम दे प्रस्ताव आस्तै इस खंड दे तैह्त सफारष दी लोड़ नेई होग।

(2) कोई बिल्ल जां तरमीम आखे गेदे मामलें चा कुसै आस्तै प्रावधान करने आहली सिर्फ इस कारण नेई समझी जाहग जे ओह जरमाने जां होर धनै सरबंधी डन्न गी लाने दी जां लाइसेंस आस्तै फीसं दी जां कीती गेदी सेवाएं आस्तै फीसं दी मंग दी जां उ'नेंगी दित्ते जाने दा प्रावधान करदी ऐ जां इस कारण नेई समझी जाहग जे ओह कुसै मुकामी प्राधिकारी जां अदारें आसेआ मुकामी मकसदें आस्तै कुसै टैक्स गी लाने, खतम करने, माफ करने, फेर-बदल जां विनियमन करने दा प्रावधान करदी ऐ।

(3) जिस बिल्लै गी अधिनियमित ते चलन च आहनेने आस्तै भारत दे कठेरमे कोष चा खर्च करना पोग ओह बिल्ल संसद दे कुसै सदन आसेआ उसलै तगर पास नेई कीता जाहग जिसलै तगर नेह बिल्लै उप्पर बचार करने आस्तै उस सदन गी राष्ट्रपति ने सफारष नेई कीती दी ऐ।

आमतौरै पर अपनाई जाने आहली प्रक्रिया

118. प्रक्रिया दे नियम – (1) इस संविधान दे प्रावधानें तैह्त संसद दा हर इक सदन अपनी प्रक्रिया '[***] ते अपने कम्म संचालन दे विनियमन आस्तै नियम बनाई सकग।

(2) जिसलै तगर खंड (1) दे तैह्त नियम नेई बनाए जंदे न, उसलै तगर इस संविधान दे रम्म थमां ठीक पैहलें भारत डोमिनियन दे विधान-मंडल दे सरबंधे च जेहड़ी प्रक्रिया दे नियम ते स्थाई अदेष चलन च हे ओह नेह सुधारें ते अनुकूलनें दे तैह्त संसद दे सरबंधे च असरी होडन जि'नेंगी, स्थिति मताबक, राज्य सभा दा सभापति जां लोक सभा दा अध्यक्ष उ'दे च करै।

(3) राष्ट्रपति, राज्य सभा ते लोक सभा दे अध्यक्ष कन्नै सलाह-सूतर करने परैत, दौनें सदनें दी सांझी बैठकें कन्नै सरबंधत ते उ'दे आपसी संचार कन्नै सरबंधत प्रक्रिया दे नियम बनाई सकग।

(4) दौनें सदनें दी सांझी बैठक च लोक सभा दा अध्यक्ष जां उ'दी गैर-हाजरी च नेहा व्यक्ति पीठासीन होग जेहदा खंड (3) दे तैह्त बनाई गेदी प्रक्रिया दे नियमं दे मताबक नर्धारण कीता जा।

119. संसद च माल्ली कम्मै सरबंधी प्रक्रिया दा कन्नै राहें विनियमन – संसद माल्ली कम्मै गी समें दे अंदर पूरा करने दे मकसद आस्तै कुसै माल्ली मामले कन्नै सरबंधत जां भारत दे कठेरमे कोष चा धनै दे विनियोग आस्तै कुसै बिल्लै कन्नै सरबंधत, संसद दे हर इक सदन दी प्रक्रिया ते कम्म संचालन दा विनियमन कन्नै राहें करी सकग ते जेकर ओह जित्थूं तगर इस चाल्ली बनाए गेदे कुसै कन्नै दा कोई प्रावधान अनुच्छेद 118 दे खंड (1) दे तैह्त संसद दे कुसै सदन आसेआ बनाए गेदे नियम कन्नै जां उस अनुच्छेद दे खंड (2) दे तैह्त संसद दे सरबंधे च प्रभावी कुसै नियम जां स्थाई अदेष कन्नै बे-मेल ऐ तां ते उत्थूं तगर नेहा प्रावधान चलन च होग।

120. संसद च बरतोन आहली भाशा – (1) भाग 17 च बावजूद एहदे अनुच्छेद 348 दे प्रावधानें दे तैह्त, संसद च कम्म हिंदी जां अंग्रेजी च कीता जाहग :

पर, स्थिति मताबक, राज्य सभा दा सभापति जां लोक सभा दा अध्यक्ष जां उस रूपै च कम्म करने आहला व्यक्ति कुसै सदस्य गी, जेहड़ा हिंदी जां अंग्रेजी च अपनी पूरी चाल्ली अभिव्यक्ति नेई करी सकदा ऐ, अपनी मात्तरी भाषा च सदन गी संबोधत करने दी इजाजत देई सकग।

(2) जिसलै तगर संसद कन्नै राहें जां प्रावधान नेई करै उसलै तगर इस संविधान दे रम्म दे प'दरें ब'रें दी औद्ध दी समाप्ति दे बाद एह अनुच्छेद इ'यां असरदार होग जि'यां आखो "जां अंग्रेजी च" शब्दें दा ओहदे चा लोप करी दित्ता गेआ होऐ।

121. संसद च चर्चा पर रोक – सर्वोच्च अदालत जां कुसै उच्च अदालतें दे कुसै जज्जै दे, अपने कर्तबबें दे नर्बाह आस्तै कीते गेदे आचरण दे सरबंधे च संसद च कोई चर्चा, एहदे च जां एहदे बाद उपबंधित तरीके कन्नै उस जज्जै गी हटाने दी प्रार्थना करने आहले प्रस्तावै गी राष्ट्रपति अगमें पेष करने दे प्रस्ताव उप्पर गै होग नेई तां नेई।

1. संविधान (चरतालिमीं तरमीम) राहें शब्दें "सदन दी बैठक आस्तै कोरम गी शामिल करना" शब्दें दा लोप कीता गेआ। अधिनियम 1978 दी धारा 45 राहें

भारत दा संविधान
(भाग 5 – संघ)

122. अदालतें आसेआ संसद दियें कारवाइयें दी पड़ताल नेई कीती जानी –(1) संसद दी कुसै कारवाई दी कनूनी मानता दी प्रक्रिया उप्पर कुसै तथाकथित बेकायदगी दे अधार उप्पर सुआल नेई पुट्टेआ जाहग।

(2) संसद दा कोई अधिकारी जां सदस्य, जेह्दे कोल इस संविधान राहें जां एह्दे तैह्त संसद च प्रक्रिया जां कम्म संचालन दा विनियमन करने दे जां व्यवस्था बनाई रक्खने दे अख्तेआर हासल न, उ'नें अख्तेआरें गी अपने आसेआ इस्तेमाल दे मामले च कुसै अदालतें दी अधिकारता दे अधीन नेई होग।

ध्याऽ 3 – राष्ट्रपति दे विधाई अख्तेआर

123. संसद दे बसांऽकाल च अध्यादेश जारी करने द राष्ट्रपति द अख्तेआर– (1) उस समें गी छोड़िये जिसलै संसद दे दौनें सदनें च सत्र चला'रदा ऐ, जेकर कुसै लै राष्ट्रपति गी एह् संतुष्टी होई जंदी ऐ जे नेह हलात पैदा होई गेदे न जि'दे कारण फौरी कारवाई करना ओह्दे आस्तै जरूरी होई गेआ ऐ तां ओह् नेह अध्यादेश लागू करी सकग जेह्दे उसी उ'नें हलातें च लोड़चदे मसूस होन।

(2) इस अनुच्छेद दे तैह्त लागू अध्यादेश दा उ'ऐ बल ते असर होग, जेह्ड़ा संसद दे अधिनियम दा होंदा ऐ, पर हर इक नेहा अध्यादेश –

(क) संसद दे दौनें सदनें दे अगें रक्खेआ जाहग जे संसद दे परतियै किट्टे होने दे छें हपतें दी समाप्ति पर जां जेकर उस औद्ध दी समाप्ति थमां पैह्लें दवैं सदन ओह्दी ना–मंजूरी दा प्रस्ताव पास करी लैंदे न तां, इ'दे चा दूए प्रस्ताव दे पास होने पर चलन च नेई रौहग; ते

(ख) राष्ट्रपति आसेआ कुसै बेल्लै बी बापस लैता जाई सकग।

स्पष्टीकरण – जित्थै संसद दे दवैं सदन, बक्ख–बक्ख तरीकें उप्पर परतियै किट्टे होने आस्तै सददे जंदे न, उत्थै इस खंड दे मकसदें आस्तै छें हपतें दी औद्ध दी गिंती उ'नें तरीकें चा परैत्तरी तरीकें थमां कीती जाहग।

(3) जेकर होर इत्थै तगर जे इस अनुच्छेद दे तैह्त अध्यादेश कोई नेहा प्रावधान करदा ऐ जिसी अधिनियमित करने आस्तै संसद इस संविधान दे तैह्त समर्थ नेई ऐ तां उत्थूं तगर ओह् अध्यादेश सिफर होग।

¹

*

*

*

*

ध्याऽ 4 – संघ दी न्यांपालिका

124. सर्वोच्च अदालत दी स्थापना ते गठन – (1) भारत दी इक सर्वोच्च अदालत होग जेह्ड़ी भारत दे मुख् न्यांमूर्ति ते जिसलै तगर संसद कनूनै राहें मती गिंतरी नर्धारत नेई करदी ऐ, उसलै तगर बद्धो–बद्ध सत्तें² होर जज्जें कनू मिलियै बनग।

(2) सर्वोच्च अदालत दे ते रियासतें दियें उच्च अदालतें दे नेह जज्जें कनू सलाह–सूत्तर करने परैत्त जि'दे कनू राष्ट्रपति इस मकसद आस्तै सलाह करना जरूरी समझै, राष्ट्रपति अपने दसखत ते मोहर सनें अधिकार–पत्तर राहें सर्वोच्च अदालत दे हर इक जज्जै गी नियुक्त करग ते ओह् जज्ज उसलै तगर औहदा धारण करग जिसलै तगर ओह् पैहठें ब'रें दा नेई होई जंदा।

पर मुख् न्यांमूर्ति थमां बक्ख कुसै जज्जै दी नियुक्ति दी सूरत च भारत दे मुख् न्यांमूर्ति कनू म्हेषां सलाह–सूत्तर कीता जाहग।

पर एह होर जे –

(क) कोई जज्ज, राष्ट्रपति गी संबोधत अपने दसखत सनें लिखती राहें अपना औहदा छोड़ी सकग;

1. संविधान (ठत्तिमीं तरमीम) अधिनियम 1975 दी धारा 2 राहें (पछेत्तरे रूपै'नै) खंड (4) अंतरस्थापत कीता गेआ ते संविधान (चरतालिमी तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 16 राहें (20–6–1979 थमां) ओह्दा लोप कीता गेआ।

2. सर्वोच्च अदालत (जज्ज संख्या) तरमीम अधिनियम 2008 (2009 दा 11) दी धारा 2 दे मताबक हून एह गिंतरी ग्रीह ऐ।

भारत दा संविधान
(भाग 5 – संघ)

(ख) कुसै जज्जै गी खंड (4) च दस्से गेदे तरीके कन्नै ओहदे औहदे थमां हटाया जाई सकग।

¹[(2(क) सर्वोच्च अदालतै दे जज्जै दी उमर नेह प्राधिकारी आसेआ ते नेह तरीके कन्नै नर्धारत कीती जाहग जेहदा संसद कन्नै राहें प्रावधान करै।]

(3) कोई व्यक्ति सर्वोच्च अदालतै दे जज्जै दे रूपै च नियुक्ति आस्तै तां गै योग्य होग जिसलै ओह भारत दा नागरिक ऐ ते –

(क) कुसै उच्च अदालत दा जां नेही द'ऊं जां मतियें अदालतें दा लगातार घट्टो-घट्ट पंजें बरें तगर जज्ज रेहदा ऐ; जां

(ख) कुसै उच्च अदालत दा जां नेही द'ऊं जां मतियें अदालतें दा लगातार घट्टो-घट्ट दस्से बरें तगर बकील रेहदा ऐ; जां

(ग) राष्ट्रपति दी राऽ च नामी कन्नदान ऐ।

स्पष्टीकरण 1 – इस खंड च, “उच्च अदालत” दा मतलब ओह उच्च अदालत ऐ जेहड़ी भारत दे राज्यक्षेत्र दे कुसै हिस्से च अधिकारता दा प्रयोग करदी ऐ, जां इस संविधान दे रम्भ थमां ठीक पैहलें कुसै बेल्लै बी इस्तेमाल करदी ही।

स्पष्टीकरण 2 – इस खंड दे मकसद आस्तै, कुसै व्यक्ति दे बकील होने दी औद्ध दी गितरी करने च ओहकड़ी औद्ध बी शामिल कीती जाहग जिस दरान कुसै व्यक्ति ने बकील होने दे बाद नेहा कोई न्यांकारी ओहदा धारण कीता ऐ जेहड़ा जि'ला जज्ज दे ओहदे थमां घट्ट नई ऐ।

(4) सर्वोच्च अदालतै च कुसै जज्ज गी ओहदे औहदे परा उसलै तगर नई हटाया जाहग, जिसलै तगर साबत गलत व्यवहार जां असमर्थता दे अधार उप्पर इ'यां हटाए जाने आस्तै संसद दे हर इक सदन आसेआ अपनी कुल सदस्य संख्या दे बहुमत राहें ते हाजर वोट देने आहले सदस्यें दे घट्टो-घट्ट दो बटा त्रै बहुमत राहें, समर्थन आहले प्रस्ताव गी राष्ट्रपति सामनै उस्सै सत्र च रक्खे जाने पर राष्ट्रपति ने हुकम नई देई दिता ऐ।

(5) संसद खंड (4) दे तैहत, कुसै प्रस्ताव दे रक्खे जाने दी ते जज्ज आसेआ गलत व्यवहार जां असमर्थता दी पड़ताल ते साबत करने दी प्रक्रिया दा कन्नै राहें विनियमन करी सकग।

(6) सर्वोच्च अदालती दा जज्ज नियुक्त होने आस्तै, नियुक्त हर इक व्यक्ति, अपना ओहदा धारण करने थमां पैहलें राष्ट्रपति जां ओहदे आसेआ इस नमित्त नियुक्त व्यक्ति दे सामनै, त्री अनुसूची च इस मकसद आस्तै दित्ते गेदे फार्म दे मताबक सघंद चुक्कग जां प्रतिज्ञा लैहग ते उस उप्पर अपने दसखत करग।

(7) कोई व्यक्ति जि'न्ने सर्वोच्च अदालती दे जज्जै दे रूपै च ओहदा धारण कीते दा ऐ, भारत दे राज्यक्षेत्र दे अंदर कुसै अदालती च जां कुसै प्राधिकारी दे सामनै दलील देहग जां कम्म नई करग।

¹[**124 क राष्ट्री न्यायिक नियुक्ति आयोग** (1) राष्ट्री न्यायिक नियुक्ति आयोग नांऽ दा इक आयोग होग, जेहड़ा हेठ लिखे दे कन्नै मिलियै बनग, जि'यां के :-

(क) भारत दा मुख न्यांमूर्ति – अध्यक्ष, पदेन;

(ख) भारत दे प्रमुख न्यांमूर्ति कोला ठीक हेठले सर्वोच्च अदालत दे दो होर बड्डे जज्ज – सदस्य, पदेन;

(ग) कन्न ते न्यांऽ दा कम्म-काज दिक्खने आहला केंदरी मंत्री – सदस्य, पदेन;

(घ) प्रधानमंत्री, भारत दा मुख न्यांमूर्ति ते लोकसभा च विपक्ष दे नेता जां जित्थै नेहा कोई विपक्ष दा नेता नई ऐ उत्थै, लोकसभा च सभनें थमां बड्डे एकल विपक्षी दल दे नेता कन्नै मिलियै बनने आहली समिति आसेआ नामजद कीते जाने आहले दो मन्ने-परमन्ने दे आदमी – सदस्य;

पर मन्ने-परमन्ने दे आदमियें चा इक आदमी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, होरनें पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग दे व्यक्तियें जां महिलाएं चा नामजद कीता जाहग :

पर एह होर जे मन्ने-परमन्ने दा व्यक्ति त्र'ऊं बरें दी औद्ध आस्तै नामजद कीता जाहग ते परती नामजदगी आस्तै योग्य नई होग।

1. संविधान (पं'दरमी तरमीम) अधिनियम, 1963 दी धारा 2 राहें अंतरस्थापत।

भारत दा संविधान

(भाग 5 – संघ)

(2) राष्ट्री न्यायिक नियुक्ति आयोग दा कोई कम्म जां कारवाइयां, सिर्फ इस अधार पर सुआलें दे घरे च नेई आंहदियां जाहडन जां गैर कनूनी नेई होडन जे आयोग च कोई खाल्ली थाहर ऐ जां उसदे गठन च कोई त्रुटी ऐ।

*¹[124 ख आयोग दे कम्म-काज — राष्ट्री न्यायिक नियुक्ति आयोग दे हेठ लिखे दे कर्तबब होडन –

(क) भारत दे मुख्ख न्यांमूर्ति, सर्वोच्च अदालत दे जज्जें, उच्च अदालतें दे मुख्ख न्यांमूर्तियें ते उच्च अदालतें दे होरनें जज्जें दे रूप च नियुक्ति आस्तै व्यक्तियें दी सफारष करना;

(ख) उच्च अदालतें दे मुख्ख न्यांमूर्तियें ते होरनें जज्जें दा इक उच्च अदालत थमां कुसै होर उच्च अदालत च तबादला करने दी सफारष करना; ते

(ग) एह पक्का करना जे ओह आदमी, जिसदी सफारष कीती गई ऐ, समर्थ ते सत्यनिष्ठ ऐ।

*¹[124 ग संसद दा कनून बनाने दा अख्तेआर – संसद, कनून राहें, भारत दे मुख्ख न्यांमूर्ति ते सर्वोच्च अदालत दे होरनें जज्जें ते उच्च अदालतें दे मुख्ख न्यांमूर्तियें ते होरनें जज्जें दी नियुक्ति दी प्रक्रिया विनियमित करी सकग ते आयोग गी विनियम राहें उसदे कम्म दे नर्बाह, नियुक्ति आस्तै व्यक्तियें दी चोन दा ढंग-तरीका ते नेह मामलें आस्तै, जेहडे उसदे आसेआ जरूरी समझे जाह्न।]

व्याख्या – [संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956, धारा 16 (1-11-1956 थमां) रद्द]

125. जज्जें दियां तनखाहों वगैरा – ²[(1) सर्वोच्च अदालती दे जज्जें गी नेहियां तनखाहीं दित्तियां जाहडन जेहडियां संसद, कनून राहें, नर्धारत करै ते जिसलै तगर इस नमित्त इस चाल्ली प्रावधान नेई कीता जंदा ऐ उसलै तगर नेहियां तनखाहीं दित्तियां जाहडन जेहडियां दूई अनुसूचि च दस्सियां गेदियां न।]

(2) हर इक जज्ज नेह खास अधिकारें ते भत्तें दा ते गैर-हाजरी छुट्टी ते पैषन दे सरबंधे च नेह अधिकारें दा जेहडे संसद आसेआ बनाए गेदे कनून राहें जां ओहदे तैहत्त समें-समें पर नर्धारत कीते जाह्न ते जिसलै तगर इस चाल्ली नर्धारत नेई कीते जंदे उसलै तगर नेह खास-अधिकारें, भत्तें ते अधिकारें दा जेहडे दूई अनुसूची च दस्से गेदे न, हकदार होग।

पर कुसै जज्जै दे खास अधिकारें ते भत्तें च ते गैर-हाजरी छुट्टी जां पैषन दे सरबंधे च ओहदे अधिकारें च ओहदी नियुक्ति दे बाद ओहदे आस्तै अलाहकारी तब्दीली नेई कीती जाहग।

126. कार्यकारी मुख्ख न्यांमूर्ति दी नियुक्ति – जिसलै भारत दे मुख्ख न्यांमूर्ति दा औहदा खाल्ली ऐ जां जिसलै मुख्ख न्यांमूर्ति दी गैर-हाजरी दे कारण जां, जां पही अपने औहदे दे कर्तबबें दे पालन करने च असमर्थ ऐ, उसलै अदालती दे होरनें जज्जें चा नेहा इक जज्ज जिसी राष्ट्रपति इस मकसद आस्तै नियुक्त करै, उस औहदे दे कर्तबबें दा पालन करग।

127. अडहाक जज्जें दी नियुक्ति – (1) जेकर कुसैलै सर्वोच्च अदालत दे सत्र गी अयोजित करने जां चालू रक्खने आस्तै, उस अदालत दे जज्जें दा कोरम पूरा नेई होऐ तां ³[राष्ट्रपति दी पैहलकी मंजूरी कनै भारत दे मुख्ख न्यांमूर्ति दी सफारष उप्पर राष्ट्री न्यायिक नियुक्ति आयोग] ते सरबंधत उच्च अदालत दे मुख्ख न्यांमूर्ति कनै सलाह-सूतर करने दे बाद, कुसै उच्च अदालत दे कुसै नेह जज्जै कोला, जेहडा सर्वोच्च अदालत दा जज्ज नियुक्त होने आस्तै पूरी चाल्ली योग्य ऐ ते जिसी भारत दा मुख्ख न्यां मूर्ति नामजद करै, अदालतें दी बैठकें च उन्नी औद्ध आस्तै, जिन्नी जरूरी होऐ, अडहाक जज्ज दे रूपे च मजूद रौहने आस्तै लिखत रूपे च अनुरोध करी सकग।

(2) इस चाल्ली नामजद जज्जै दा कर्तबब होग जे ओह अपने औहदे दे होरनें कर्तबबें पर पैहल देइयै उसलै ते उस औद्ध आस्तै, जेहदे आस्तै ओहदी मजूदगी लोडदी ऐ, सर्वोच्च अदालत दी बैठकें च हाजर होऐ ते जिसलै ओह इस चाल्ली मजूद रौहदा ऐ, उसलै उसी सर्वोच्च अदालत दे जज्ज दे सब्भे अधिकार, अख्तेआर ते चेचे अधिकार होडन, ते ओह आखे गेदे जज्जै दे कर्तबबें दा नर्बाह करग।

128. सर्वोच्च अदालत दियें बैठकें च सेवानिवृत्त जज्जें दी मजूदगी – इस ध्याऽ च बावजूद ⁴[राष्ट्री नियुक्ति आयोग] एहदे, भारत दा मुख्ख न्यांमूर्ति कुसै बेल्लै बी, राष्ट्रपति दी पैहलें लैती दी सैहमती कनै कुसै व्यक्ति कोला,

1. संविधान (नडि'नमीं तरमीम) अधिनियम, 2014 दी धारा 3 (13-4-2015) राहें अंतरस्थापत
2. संविधान (चरु'जमी तरमीम) अधिनियम, 1986 दी धारा 2 राहें (1-4-1986 थमां) खंड (1) दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।
3. संविधान (नडि'नमीं तरमीम) अधिनियम, 2014 दी धारा 4 राहें प्रतिस्थापत।
4. संविधान (नडि'नमीं तरमीम) अधिनियम, 2014 दी धारा 4 राहें अंतरस्थापत।

भारत दा संविधान
(भाग 5 – संघ)

जेहड़ा सर्वोच्च अदालत जां फेडरल अदालती दे जज्ज दा औहदा धारण करी चुके दा ऐ। ¹[जां जेहड़ा उच्च अदालती दे जज्जै दा औहदा धारण करी चुके दा ऐ ते सर्वोच्च अदालती दा जज्ज नियुक्त होने लेई पूरी चाल्ली योग्य ऐ,] सर्वोच्च अदालतै दे जज्जै दे रूपै च बौहने ते कम्म करने दा अनुरोध करी सकग ते हर इक नेहा व्यक्ति जेहदे अगें इस चाल्ली दा अनुरोध कीता जंदा ऐ, इस चाल्ली बौहने ते कम्म करने दरान, नेह भत्तें दा हकदार होग जेहड़े राष्ट्रपति हुकमै राहें नर्धारत करै ते उसी उस अदालत दे जज्जै दे सब्भै हक्क, अख्तेआर ते चेचे अधिकार होडन, पर उसी नेई तां उस अदालत दा जज्ज नेई समझेआ जाहग।

पर जिसलै तगर जि'यां के पैहलें आखेआ जाई चुके दा व्यक्ति उस अदालती दे जज्जै दे रूपै च बौहने ते कम्म करने दी सैहमती नेई दिंदा उसलै तगर इस अनुच्छेद दी कोई गल्ल उसी नेहा करने दी मेद करने आहली नेई समझी जाहग।

129. सर्वोच्च अदालत दा रिकार्ड अदालत होना – सर्वोच्च अदालत रिकार्ड अदालत होग ते उसी अपनी अवमानना आसतै दंड देने दे अख्तेआर सनें नेही अदालतै दे सब्भै अख्तेआर होडन।

130. सर्वोच्च अदालत दा थाहर – सर्वोच्च अदालत दिल्ली च जां नेह कुसै होर थाहर जां थाहरें पर लगग, जि'नेंगी भारत दा मुख्य न्यामूर्ति, राष्ट्रपति दी सैहमती पर समें-समें पर नर्धारत करै।

131 सर्वोच्च अदालत दो बुनियादी अधिकारता– इस संविधान दे प्रावधानें तैह्त, –

(क) भारत सरकार ते इक जां मतियें रियासतें बषक्हार, जां

(ख) इक पाससै भारत सरकार ते कुसै रियासत जां रियासतें ते दूई बक्खी इक जां मतियें होर रियासतें बषक्हार, जां

(ग) द'ऊं जां मतियें रियासतें बषक्हार,

कुसे विवाद च, जेकर ते जित्थूं तगर उस विवाद च (कनून दा जां तत्थ दा) नेहा कोई सुआल शामिल ऐ जिस पर कुसे कनूनी अधिकार दा बजुद जां विस्तार निर्भर ऐ तां उत्थूं तगर दुइयें अदालतें गी छोड़िये सर्वोच्च अदालत गी बुनियादी अधिकारता होग:

²[पर आखी गेदी अधिकारता दा विस्तार उस विवाद उप्पर नेई होग जेहड़ा कुसै नेही संधि, करार, प्रण, वचनबद्ध, सनद जां इ'यै नेही होर लिखतै थमां उपजे दा होऐ, जेहड़ा इस संविधान दे रम्भ थमां पैहलें कीती गेदी ही जां चलन च ही ते नेह रम्भ दे बाद चलन च ऐ जां जेहड़ी एह प्रावधान करदी ऐ जे आखी गेदी अधिकारता दा विस्तार नेह विवाद उप्पर नेई होग।]

³**131 क.[केंदरो कनूनों दी संविधानक मानता कन्नै सरबंघत सआलें दे बारे च सर्वोच्च अदालत दी खास अधिकारिता।]** – संविधान (तरतालिमी तरमीम) अधिनियम, 1977 दी धारा 4 राहें (13-4-1978) थमां रह।

132. किश मामले च उच्च अदालतें थमां अपीलें दा सर्वोच्च अदालत दा अपीलो अधिकार – (1) भारत दे राज्यक्षेत्र च कुसै उच्च अदालत दी सिवल, दंड देने आहली जां होर कारवाई च दित्ते गेदे कुसै फैसले, डिक्री जां खीरी हुकमै दी अपील सर्वोच्च अदालत च होग ⁴[जेकर ओह उच्च अदालत अनुच्छेद 134क दे तैह्त प्रमाणत करी दिंदी ऐ] जे उस मामले च इस संविधान दी व्याख्या दे बारे च कनून दा कोई सार्थक सुआल शामिल ऐ।

⁵*

*

*

*

*

1. संविधान (पं'दरमी तरमीम) अधिनियम, 1963 दी धारा 3 राहें अंतरथापत।
2. संविधान (सतमी तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 5 राहें परंतुक दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।
3. संविधान (बतालिमी तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 23 राहें (1-2-1977 थमां) अंतरस्थापत।
4. संविधान (चरतालिमी तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 17 राहें (1-8-1979 थमां) "जेकर उच्च अदालत साबत करी देऐ" शब्दें दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।
5. संविधान (चरतालिमी तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 17 राहें (1-8-1979 थमां) खंड (2) दा लोप कीता गोआ।

भारत दा संविधान
(भाग 5 – संघ)

(3) जित्थै नेहा प्रमाण-पत्र देई दित्ता गोआ ऐ ^{1***} उत्थै उस मामले च कोई पक्खकार इस अधार उप्पर सर्वोच्च अदालत च अपील करी सकग जे पैहलें आखे गेदे कुसै सुआलै दा फैसला गलत कीता गोआ ऐ ^{1***} ।

स्पष्टीकरण – इस अनुच्छेद दे मकसदें आस्तै “खीरी हुकम” पद दे तैहत् नेह् मुद्दे दा फैसला करने आह्ला हुकम ऐ जेह्ड़ा जेकर अपीलकर्ता दे पक्खै च फैसला कीता जंदा ऐ तां, उस मामले च खीरी नपटारे आस्तै काफी होग ।

133. उच्च अदालतें थमां सिवल मामलें कन्नै सरबंधत अपीलें दा सर्वोच्च अदालत दा अपीलो अधिकार – ²[(1) भारत दे राज्यक्षेत्र च कुसै उच्च अदालतै दी सिवल कारवाई च दित्ते गेदे कुसै फैसले, डिक्री जां खीरी हुकमै दी अपील सर्वोच्च अदालत च होग ³[जेकर उच्च अदालत अनुच्छेद 134क दे तैहत् प्रमाणत करी दिंदी ऐ जे] –

(क) उस मामले च कन्नू दे व्यापक म्हत्तव दा कोई सार्थक सुआल शामिल ऐ; ते

(ख) उच्च अदालत दी राऽ च उस सुआलै दा, सर्वोच्च अदालत आसेआ फैसला जरूरी ऐ ।]

(2) अनुच्छेद 132 च बावजूद एह्दे, सर्वोच्च अदालत च खंड (1) दे तैहत् अपील करने आह्ला कोई पक्खकार नेही अपील दे अधारें च एह् अधार बी दस्सी सकग जे इस संविधान दी व्याख्या दे बारे च कन्नू दे कुसै सार्थक सुआलै दा फैसला गलत कीता गोआ ऐ ।

(3) इस अनुच्छेद च बावजूद एह्दे, उच्च अदालत दे इक जज्ज दे फैसले, डिक्री जां खीरी फैसले दी अपील सर्वोच्च अदालतै च उसलै तगर नेई होग, जिसलै तगर संसद कन्नू राहें जां फही प्रावधान नेई करै ।

134. अपराधक मामलें कन्नै सरबंधत सर्वोच्च अदालत दा अपीलो अधिकार – (1) भारत दे राज्यक्षेत्र च कुसै उच्च अदालतै दी दंड आह्ली कारवाई च दित्ते गेदे कुसै फैसले, खीरी हुकम जां दंड दे हुकमै दी अपील सर्वोच्च अदालत च होग जेकर –

(क) उस उच्च अदालत ने अपील च कुसै आरोपी दे दोष मुक्ति दे हुकमै गी पलटाई दित्ता ऐ ते उसी मौती दी स’जा दा हुकम दित्ता ऐ; जां

(ख) उस उच्च अदालत ने अपने अख्तेआर दे तैहत् कुसै अदालत दे कुसै मामले गी विचारने आस्तै अपने कोल नोआई लेआ ऐ ते नेह् विचार च आरोपी गी दोष सिद्ध ठैहराया गेदा ऐ ते उसी मौती दी स’जा दा हुकम दित्ता गेदा ऐ; जां

1. संविधान (चरतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 17 राहें (1–8–1979 थमां) किष शब्दें दा लोप कीता गोआ ।
2. संविधान (त्रीहमीं तरमीम) अधिनियम, 1972 दी धारा 2 राहें (27–2–1973 थमां) खंड (1) दी थाहरै पर प्रतिस्थापत ।
3. संविधान (चरतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 18 राहें (1–8–1979 थमां) “जेकर उच्च अदालत प्रमाणत करै” दी थाहरै पर प्रतिस्थापत ।

भारत दा संविधान
(भाग 5 – संघ)

(ग) ओह उच्च अदालत ¹[अनुच्छेद 134क दे तैहत् प्रमाणत करी ओड़दी ऐ] जे मामला सर्वोच्च अदालत च अपील कीते जाने जोग ऐ :

पर उपखंड (ग) दे तैहत् अपील नेह प्रावधानें दे तैहत् रौहदे होई होग जेहड़े अनुच्छेद 145 दे खंड (1) दे तैहत् इस नमित्त बनाए जाहन ते नेहियें शर्तें दे अधीन होग जेहड़ियां उच्च अदालत तैऽ करै जां जरूरी समझै ।

(2) संसद कनूनै राहें सर्वोच्च अदालत गी भारत दे राज्यक्षेत्र च कुसै उच्च अदालत दी दंड आहली कारवाई च दित्ते गेदे कुसै फैसले, खीरी हुकम जां दंड आहले हुकमै दी अपील नेहियें शर्तें ते हदें दे अधीन रौहदे होई, जेहड़े नेह कनूनै च दस्से जाहन, ग्रैहण करने ते सुनने दे बादधू अख्तेआर देई सकग ।

²[134क. सर्वोच्च अदालत च अपील आस्तै प्रमाण-पत्तर – हर इक उच्च अदालत, जेहड़ी अनुच्छेद 132 दे खंड (1) जां अनुच्छेद 133 दे खंड (1) जां अनुच्छेद 134 खंड (1) च दस्से गेदे फैसले, डिक्री, खीरी हुकम जां दंड दा अदेष पास करदा ऐ जां दिंदा ऐ, इस चाल्ली पास कीते जाने जां दित्ते जाने दे बाद तौले शा तौले इस सुआलै दा नर्धारण जे उस मामले दे सरबंधै च, स्थिति मताबक, अनुच्छेद 132 दे खंड (1) जां अनुच्छेद 133 दे खंड (1) जां अनुच्छेद 134 दे खंड (1) दे उपखंड (ग) च दित्ती गेदी किस्मा दा प्रमाण-पत्तर दित्ता जा, जां नेई, –

(क) जेकर ओह नेहा करना ठीक समझदा ऐ तां ओह अपनी प्रेरणा कन्नै करी सकग; ते

(ख) जेकर नेहा फैसला, डिक्री, खीरी हुकम जां दंड आहला हुकम पास कीते जाने जां दित्ते जाने दे ठीक बाद च पीड़ित पक्खकार आसेआ जां ओहदे आसेआ मूह-जबानी दरखास्त कीती जंदी ऐ तां करग ।]

135. मजूदा कनून तैहत् फेडरल अदालतें दो अधिकारिता ते अख्तेआरें दा सर्वोच्च अदालत आसेआ बरतूनजोग होना – जिसलै तगर संसद कनूनै राहें, जां फही प्रावधान नेई करै, उसलै तगर सर्वोच्च अदालत गी बी कुसै नेह मामले दे सरबंधै च, जिस गी अनुच्छेद 133 जां अनुच्छेद 134 दे प्रावधान लागू नेई होंदे न, अधिकारता ते अख्तेआर होडन जेकर उस मामले दे सरबंधै च इस संविधान दे रम्भ थमां ठीक पैहलें कुसै मजूदा कनूनै दे तैहत् अधिकारता ते अख्तेआर फेडरल अदालत आसेआ बरतून च हे ।

136. अपील आस्तै सर्वोच्च अदालत दी खास मंजूरी – (1) इस ध्याऽ च बावजूद एहदे बी, सर्वोच्च अदालत अपनी स्यानप मताबक भारत दे राज्यक्षेत्र च कुसै अदालत जां ट्रिब्यूनल आसेआ कुसै झमेले जां मामले च पास कीते गेदे जां दित्ते गेदे कुसै फैसले, डिक्री, निष्चे, दंड दा हुकम जां हुकमै दी अपील आस्तै खास इजाज़त देई सकग ।

(2) खंड (1) दी कोई गल्ल सषस्त्र बलें कन्नै सरबंधत कुसै कनूनै राहें जां ओहदे तैहत् गठत कुसै अदालत जां ट्रिब्यूनल आसेआ पास कीते गेदे जां दित्ते गेदे कुसै फैसले, निष्चे, दंड दे हुकम जां हुकमै उप्पर लागू नेई होग ।

137. फैसलें जां हुकमें दो सर्वोच्च अदालत आसेआ नज़रसानी – संसद आसेआ बनाए गेदे कुसै कनून दे जां अनुच्छेद 145 दे तैहत् बनाए गेदे नियमं दे प्रावधानें तैहत्, सर्वोच्च अदालत गी, अपने आसेआ सनाए गेदे फैसले जां दित्ते गेदे हुकमै दी नज़रसानी करने दा अख्तेआर होग ।

138. सर्वोच्च अदालत दी अधिकारिता दा बादधा – (1) सर्वोच्च अदालत गी संघ सूची दे मामलें चा कुसै दे सरबंधै च नेही बादधू अधिकारता ते अख्तेआर होडन, जेहड़े संसद कनूनै राहें प्रदान करे ।

(2) जेकर संसद कनूनै राहें सर्वोच्च अदालत आसेआ नेही अधिकारता ते अख्तेआरें दे इस्तेमाल दा प्रावधान करदी ऐ तां सर्वोच्च अदालत गी कुसै मामले दे सरबंधै च नेह बादधू आधिकार ते अख्तेआर होडन जेहड़े भारत सरकार गी कुसै रियासत दी सरकार खास करार राहें प्रदान करै ।

139. सर्वोच्च अदालत गी किश रिट्टां जारी करने दे अख्तेआरें दा दित्ता जाना – संसद कनूनै राहें सर्वोच्च अदालत गी अनुच्छेद 32 दे खंड (2) च वर्णत प्रयोजनं थमां बक्ख कुंनं प्रयोजनं आस्तै नेह निर्देष, हुकम जां रिट

1. संविधान (चरतालिसीं तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 19 राहें (1-8-1979 थमां) "परमाणत करदा ऐ" शब्दें दी थाहरै पर प्रतिस्थापत ।

2. संविधान (चरतालिसीं तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 20 राहें (1-8-1979 थमां) अंतरस्थापत ।

भारत दा संविधान

(भाग 5 – संघ)

जिं दे तैह्त बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम अदेष, बंदी पेषकारी, सुआल करने दा हक्क, ते उत्प्रेषण रिट ऐ जां उं दे चा कोई जारी करने दा अख्तेआर देई सकग।

139क. किश मामलें दा तबादला – ²[(1) जेकर नेह मामले, जिं दे च कनूनै आंहगर जां उं ऐ जनेह सुआल शामिल न, सर्वोच्च अदालत दे होर इक जां मतियें उच्च अदालतें अगें बकाया न ते सर्वोच्च अदालत दी अपनी मर्जी जां भारत दे महान्यांवादी आसेआ जां नेह कुसै मामले च कुसै पक्खकार आसेआ उस उच्च अदालत जां उं नें उच्च अदालतें अगें बकाया मामले जां मामलें गी अपने कोल नोआई सकग ते उं नें सभनें मामलें गी आपूं नबेड़ी सकग:

पर सर्वोच्च अदालत इस चाल्ली नोआए गेदे मामले गी आखे गेदे कनूनै दे सोआलें दा नर्धारण करने परैंत, नेह सुआलें पर अपने फैसले दी नकल सनें उस उच्च अदालत गी, जेह्दे थमां मामला नेआया गेदा ऐ, परताई सकग ते ओह उच्च अदालत उसी हासल करने पर उस मामले गी नेह फैसले दे मताबक नबेड़ने आस्तै अगड़ी कारवाई करग।]

(2) जेकर सर्वोच्च अदालत न्यांऽ दे उद्देष्य दी पूर्ति आस्तै नेहा करना उचित समझदी ऐ तां ओह कुसै उच्च अदालत कोल बकाया पेदे कुसै मामले, अपील जां होर कारवाई दा तबादला कुसै होर उच्च अदालतै गी करी सकग।]

140. सर्वोच्च अदालत दे बादधू अख्तेआर – संसद, कनूनै राहें, सर्वोच्च अदालतै गी नेह जिमनी अख्तेआर देने आस्तै प्रावधान करी सकग, जेह्दे इस संविधान दे प्रावधानें चा कुसै कन्नै असंगत नेई होन ते जेह्दे उस अदालतै गी इस संविधान आसेआ जां एह्दे अधीन दिल्ली गेदी अधिकारता दा मते असरदार ढंगै कन्नै प्रयोग करने जोग बनाने आस्तै जरूरी जां लोड़चदे सेही होन।

141. सर्वोच्च अदालत आसेआ घोशत कनून दा सभनें अदालतें आसेआ मन्नना लाजमी होना – सर्वोच्च अदालत आसेआ घोषत कनून, भारत दे राज्यक्षेत्र दे अंदर सभनें अदालतें उप्पर लागू होना लाजमी होग।

142. सर्वोच्च अदालत दियें डिक्रियें ते हुकमें गी लागू करने ते सामनै आहनने वगैरा दे बारै हुकम –
(1) सर्वोच्च अदालत अपनी अधिकारता दा इस्तेमाल करदे होई नेही डिक्री पास करी सकग जां नेहा अदेष करी सकग जेह्दा ओह्दे सामनै बकाया कुसै विवाद जां मामले च पूरी चाल्ली न्यांऽ करने आस्तै जरूरी होऐ ते इस चाल्ली पास डिक्री जां कीता गेदा अदेष भारत दे राज्यक्षेत्र च हर जगह नेह तरीके नै, जेह्दा संसद आसेआ बनाए गेदे कुसै कनूनै राहें जां ओह्दे तैह्त दस्सेआ जा, ते जिसलै तगर इस मकसद आस्तै इस चाल्ली प्रावधान नेई कीता जंदा ऐ, उसलै तगर, नेह तरीके नै, जिसी राष्ट्रपति अदेष³ राहें दस्सै, लागू होग।

(2) संसद आसेआ इस नमित्त बनाए गेदे कुसै कनूनै दे प्रावधानें तैह्त, सर्वोच्च अदालतै गी भारत दे सबूरे राज्यक्षेत्र दे बारे च कुसै व्यक्ति गी हाजर कराने दे, कुं नें दस्तावेजें गी सामनै आहनने जां पेष कराने दे जां अपनी कुसै अवमानना दी खोज करने जां दंड देने दे प्रयोजन आस्तै कोई हुकम देने दा पूरा ते हर इक अख्तेआर होग।

143. सर्वोच्च अदालत कन्नै सलाह करने दा राष्ट्रपति दा अख्तेआर – (1) जेकर कुसै लै राष्ट्रपति गी एह सेही होंदा ऐ जे कनून जां तत्थ दा कोई सुआल पैदा होए दा ऐ जां पैदा होने दी संभावना ऐ, जेह्दा इस किसमै दा ते नेह व्यापक म्हत्तव दा ऐ जे उस उप्पर सर्वोच्च अदालतै दी राऽ लैना मनासब ऐ तां ओह उस सुआलै उप्पर विचार करने आस्तै उस अदालतै गी हिदायत देई सकग ते ओह अदालत, नेही सुनवाई परैंत जिसी ओह ठीक समझदी ऐ, राष्ट्रपति गी उस उप्पर अपनी राऽ भेजी सकग।

(2) राष्ट्रपति अनुच्छेद 131⁴*** दे परंतुक च बावजूद एह्दे, इस चाल्ली दे विवाद गी, जेह्दा ⁵[आखे गेदे परंतुक] च वर्णत ऐ, राऽ देने आस्तै सर्वोच्च अदालत गी हिदायत देई सकग ते सर्वोच्च अदालत, नेही सुनवाई परैंत जिसी ओह ठीक समझदी ऐ, राष्ट्रपति गी उस पर अपनी रपोट भेजग।

1. संविधान (बतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 24 राहें (1-2-1977 थमां) अंतरस्थापत।

2. संविधान (चरतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 21 राहें (1-8-1979 थमां) खंड (1) दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।

3. सर्वोच्च अदालत (डिक्री ते अदेष) लागू अदेष 1954 (सं.आ. 47) दिक्खो।

4. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें "दे खंड (1)" शब्दें, ब्रेकटें ते हिंसें दा लोप कीता गेआ।

5. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें "आखे गेदे खंड" दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।

भारत दा संविधान
(भाग 5 – संघ)

144. सिवल ते न्यायिक प्राधिकारिये आसेआ सर्वोच्च अदालत दी मदाद च कम्म कीता जाना – भारत दे राज्यक्षेत्र दे सब्भै सिविल ते न्यायिक प्राधिकारी सर्वोच्च अदालत दी मदाद कन्नै कम्म करडन।

¹144क. [कनूनें दी संविधानक मानता कन्नै सरबंधत सुआले दे नबेडे दे बारे च खास प्रावधान।] – संविधान (तरतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1977 दी धारा 5 राहें (13-4-1978) थमां रदद।

145. अदालत दे नियम वगैरा – (1) संसद आसेआ बनाए गेदे कुसै कनूनें दे प्रावधानें तैह्त, सर्वोच्च अदालत बेल्लै-बेल्लै सिर, राष्ट्रपति दी मंजूरी कन्नै अदालत दे तौर-तरीके ते प्रक्रिया दे आमतौर पर विनियमन आस्तै नियम बनाई सकग जेहदे तैह्त हेठ लिखे दे बी शामिल होडन, अर्थात् :-

- (क) उस अदालत च कनूनी पेसा करने आहले लोकें दे बारै नियम;
- (ख) अपीलां सुनने आस्तै प्रक्रिया दे बारै ते अपीलें सरबंधी होरनें मामलें दे बारै, जिं दे तैह्त ओह समां बी ऐ, जेहदे अंदर अपीलां उस अदालत च ग्रैहण कीतियां जानियां न, नियम;
- (ग) भाग 3 आसेआ दिते गेदे अधिकारें चा कुसै गी लागू कराने आस्तै, उस अदालत च कारवाइयें दे बारै नियम;
- ²[(गग) ³[अनुच्छेद 139 क] दे तैह्त, उस अदालत च कारवाइयें दे बारै नियम;]
- (घ) अनुच्छेद 134 दे खंड (1) दे उपखंड (ग) दे तैह्त अपीलें गी हासल कीते जाने दे बारै नियम;
- (ङ) उस अदालत आसेआ सनाए गेदे कुसै फौसले जां कीते गेदे अदेष दा जिं नें शर्ते तैह्त परती समीक्षा कीती जाई सकग उं दे बारै ते नेही परती समीक्षा आस्तै प्रक्रिया दे बारै, जेहदे तैह्त ओह समां बी ऐ, जेहदे अंदर नेही परती समीक्षा आस्तै दरखास्तां उस अदालत च ग्रैहण कीतियां जानियां न, नियम;
- (च) उस अदालत च कुं नें कारवाइयें दे ते उं दे घटनात्मी खर्चे दे बारै, ते ओहदे च कारवाइयें दे सरबंधे च भरी जाने आहलिये फीसें दे बारै नियम;
- (छ) जमानत मंजूर करने दे बारै नियम;
- (ज) कारवाइयें गी रोकने दे बारै नियम;
- (झ) जिस अपील दे बारै उस अदालत गी एह मसूस होंदा ऐ जे ओह तुच्छ जां तंग करने आहली जां चिर लाने दे मकसद कन्नै कीती गेदी ऐ, ओहदे संक्षिप्त नर्धारण आस्तै प्रावधान करने आहले नियम;
- (ञ) अनुच्छेद 317 दे खंड (1) च दरसी गेदी पड़तालें आस्तै प्रक्रिया दे बारै नियम।

2. ⁴[⁵*** खंड (3) दे प्रावधानें] दे तैह्त, इस अनुच्छेद दे तैह्त बनाए गेदे नियम, उं नें जज्जे दी घट्टो-घट्ट गिंतरी तैऽ करी सकडन, जेहडे कुसै मकसद आस्तै बौहडन ते इक्कले जज्जे ते खंड अदालतें दे अखेआरें आस्तै प्रावधान करी सकडन।

3. जिस मामले च इस संविधान दे चनांऽ दे बारै कनून दा कोई बड़ा जरूरी सुआल शामिल ऐ ओहदा फौसला करने दे मकसद आस्तै जां इस संविधान दे अनुच्छेद 143 दे तैह्त हिदायत दी सुनवाई करने आस्तै बौहने आहले जज्जे दी ⁶[⁵*** घट्टो-घट्ट संख्या] पंज होग।

पर जित्थै अनुच्छेद 132 थमां बकख इस ध्याऽ दे प्रावधानें दे तैह्त अपील दी सुनवाई करने आहली अदालत पं'जे थमां घट्ट जज्जे कन्नै मिलिये बनी दी ऐ ते अपील दी सुनवाई दरान उस अदालती दा फौसला होई जंदा ऐ जे अपील च

-
1. संविधान (बतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 25 राहें (1-2-1977 थमां) अंतरस्थापत।
 2. संविधान (बतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 26 राहें (1-2-1977 थमां) अंतरस्थापत।
 3. संविधान (तरतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1977 दी धारा 6 राहें (13-4-1978 थमां) "अनुच्छेद 131 क ते अनुच्छेद 139 क" दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 4. संविधान (बतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 26 राहें (1-2-1977 थमां) "खंड (3) दे प्रावधानें" दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 5. संविधान (तरतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1977 दी धारा 6 राहें (13-4-1978 थमां) किष शब्दें, हिंसें ते अखरें दा लोप कीता गेआ।
 6. संविधान (बतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 26 राहें (1-2-1977 थमां) "घट्टो-घट्ट संख्या" दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।

भारत दा संविधान

(भाग 5 – संघ)

संविधान दी व्याख्या दे बारे कनून दा नेहा बड़ा जरूरी सुआल शामिल ऐ जेहदा नर्धारण अपील दे नबेड़े आस्तै जरूरी ऐ उत्थे ओह अदालत नेह सुआलै गी उस अदालत गी, जेहड़ी नेह सुआलै गी शामिल करने आहले कुसै मामले दे फैसले आस्तै इस खंड दी लोड़ मताबक गठित कीती जंदी ऐ, ओहदी राऽ आस्तै हिदायत देहग ते नेही राऽ दी प्राप्ति उप्पर उस अपील गी उस राऽ दे मताबक नबेड़ग।

4. सर्वोच्च अदालत हर इक फैसला खुल्ली अदालत च गै सनाहग, नेई तां नेई ते अनुच्छेद 143 दे तैहत हर इक रपोट खुल्ली अदालत च सनाई गोदी राऽ दे मताबक गै दित्ती जाहग नेई तां नेई।

5. सर्वोच्च अदालत आसेआ हर इक फैसले ते नेही हर इक राऽ, मामले दी सुनवाई च मजूद जज्जे दी बद् गिंतरी दी मंजूरी कन्नै गै दित्ती जाहग, नेई तां नेई, पर इस खंड दी कोई गल्ल कुसै नेह जज्जे गी, जेहड़ा सैहमत नेई ऐ, अपनी असैहमती आहला फैसला जां राऽ देने थमां नेई रोकग।

146. सर्वोच्च अदालत दे अधिकारी ते सेवक ते खर्चा – (1) सर्वोच्च अदालत दे अधिकारिये ते सेवके दियां नियुक्तियां भारत दा मुख् न्यांमूर्ति करग जां उस अदालत दा नेहा होर कोई जज्जे जां अधिकारी करग जिसी ओह हिदायत देरे,

पर राष्ट्रपति नियमै राहें एह मेद करी सकग जे नेहिये कु'नें सूरते च, जेहड़ियां नियम च दस्सिया जाहन, कुसै नेह व्यक्ति गी, जेहड़ा पैहलें थमां गै अदालतै कन्नै जुड़े दा नेई ऐ, अदालतै कन्नै सरबंधत कुसै ओहदे पर संघ लोक सेवा आयोग कन्नै सलाह-सूतर करिये गै नियुक्त कीता जाहग, नेई तां नेई।

(2) संसद आसेआ बनाए गोदे कनूनै दे प्रावधानें दे तैहत, सर्वोच्च अदालतै दे अधिकारिये ते सेवके दियां सेवा दियां शर्तां नेहियां होडन जेहड़ियां भारत दे मुख् न्यांमूर्ति जां उस अदालतै दे नेह होर जज्जे जां अधिकारी आसेआ, जिसी भारत दे मुख् न्यांमूर्ति ने इस मकसद आस्तै नियम बनाने लेई अधिकार दित्ते दा ऐ, बनाए गोदे नियमें राहें नर्धारत कीतियां जाहन;

पर इस खंड दे तैहत बनाए गोदे नियमें आस्तै, जिथूं तगर ओह तनखाह, भत्ते, छुट्टी जां पैषन कन्नै सरबंधत न, राष्ट्रपति दी मंजूरी दी लोड़ होग।

(3) सर्वोच्च अदालत दे प्रशासनक खर्चे, जि'दे तैहत, उस अदालत दे अधिकारिये ते सेवके गी जां उ'दे सरबंधे च दित्तियां जाने आहलियां सब्भै तनखाहीं, भत्ते ते पैषन न, भारत दे कठेरमे कोष चा भरे जाहडन ते उस अदालत आसेआ लैतियां गोदियां फीसां ते होर दूआ धन उस कोष दा हिस्सा होग।

147. व्याख्या – इस ध्याऽ च ते भाग 6 दे ध्याऽ 5 च इस संविधान दी व्याख्या दे बारे च कनूनै दे कुसै बड़े जरूरी सुआला दे प्रति हिदायतें दा एह मतलब लाया जाहग ते उ'दे तैहत भारत शासन अधिनियम 1935 दे (जेहदे तैहत उस अधिनियम दी तरमीम जां अनुपूरक कोई अधिनियमिति ऐ) जां कुसै परिषद् दा अदेष जां ओहदे तैहत बनाए गोदे कुसै अदेष दे जां भारती स्वतंत्रता अधिनियम 1947 दे जां ओहदे तैहत बनाए गोदे कुसै अदेष दी व्याख्या दे बारे च कनून दे कुसे बड़े जरूरी सुआलै आस्तै हिदायतां न।

ध्याऽ 5 – भारत दा नियंत्रक-महालेखापारखी

148. भारत दा नियंत्रक-महालेखापारखी – (1) भारत दा इक नियंत्रक-महालेखापारखी होग, जिसी राष्ट्रपति अपने दसखत ते मोहर सनें अधिकार-पत्तर देइये नियुक्त करग ते उसी उस ओहदे थमां सिर्फ उस तरीके'नै ते उ'नें अधारे पर हटाया जाहग, जिस तरीके'नै ते जि'नें अधारे पर सर्वोच्च अदालत दे जज्जे गी हटाया जंदा ऐ।

(2) हर इक व्यक्ति, जेहड़ा भारत दा नियंत्रक-महालेखापारखी नियुक्त कीता जंदा ऐ अपना ओहदा ग्रैहण करने थमां पैहलें, राष्ट्रपति जां ओहदे आसेआ इस मकसद आस्तै नियुक्त व्यक्ति दे सामनै, त्री अनुसूची च इस मकसद आस्तै दित्ते गोदे फार्म दे मताबक सघंद चुक्कग जां प्रतिज्ञा करग ते उस उप्पर अपने दसखत करग।

(3) नियंत्रक-महालेखापारखी दी तनखाह ते सेवा दियां होर शर्तां नेहियां होडन जि'नेंगी संसद कनूनै राहें, तैऽ करै ते जिसलै तगर ओह इस चाल्ली तैऽ नेई कीतियां जदियां, उसलै तगर, नेहियां होडन जेहड़ियां दूई अनुसूची च दस्सियां गोदियां न।

भारत दा संविधान
(भाग 5 – संघ)

पर नियंत्रक-महालेखापारखी दी तनखाह च ते गैर-हाजरी आहली छुट्टी, पैषन जां रिटायर होने आहली उमरी दे सरबंधे च, उसदे अधिकारें च ओहदी नियुक्ति परैत, ओहदे आस्तै अलाहकारी तब्दीली नेई कीती जाहग।

(4) नियंत्रक-महालेखापारखी, अपने औहदे उप्पर नेई रौहने परैत, भारत सरकार दे जां कुसै रियासत दी सरकार हेत कुसै होर औहदे उप्पर कम्म नेई करी सकग।

(5) इस संविधान दे ते संसद आसेआ बनाए गेदे कुसै कन्नूने दे प्रावधानें तैहत, भारती लेखापरीक्षा ते लेखा विभाग च कम्म करने आहले व्यक्तियें दियें सेवा दियें शर्ते ते नियंत्रक-महालेखापारखी दे प्रषासनक अख्तेआर नेह होडन, जेहडे नियंत्रक-महालेखापारखी कन्नै मषवरे परैत राष्ट्रपति आसेआ बनाए गेदे नियमें राहें नर्धारत कीते जाहन।

(6) नियंत्रक-महालेखापारखी दे दफतरै दे प्रषासनक खर्चे, जिं दे च उस दफतरै च कम्म करने आहले व्यक्तियें गी, उं दे सरबंधे च दित्तियां जाने आहलियां सब्भै तनखाहीं, भत्ते ते पैषनां शामिल न, भारत दे कठेरमें कोष चा भरियां जाहडन।

149. नियंत्रक-महालेखापारखी दे कर्तबब ते अख्तेआर – नियंत्रक-महालेखापारखी संघ दे ते रियासतें दे ते कुसै होर प्राधिकारी जां मुकामी अदारें दे लेखे दे सरबंधे च, नेह कर्तबबें दा पालन ते नेह अधिकारें दा प्रयोग करग, जिं नेंगी संसद आसेआ बनाए गेदे कन्नूने राहें जां ओहदे तैहत नर्धारत कीता जा ते जिसलै तगर इस नमित्त इस चाल्ली दा सरिस्ता नेई कीता जंदा, उसलै तगर संघ दे ते रियासतें दे लेखे दे सरबंधे च नेह कर्तबबें दा पालन ते नेह अख्तेआरें दा प्रयोग करग, जेहडे इस संविधान दी शुरुआत थमां ठीक पैहलें तरतीबन भारती डोमिनियन दे ते प्रांतें दे लेखे दे सरबंधे च, भारत दे महालेखापारखी गी दित्ते गेदे हे, जां ओहदे आसेआ बरते जाने आहले हे।

150. ¹[संघ दे ते रियासतें दे लेखे दा फार्म – संघ दे ते रियासतें दे लेखे गी नेह फार्म च रक्खेआ जाहग, जिसी राष्ट्रपति, भारत दे नियंत्रक-महालेखापारखी ²[दी सलाह उप्पर] नर्धारत करै।]

151. आडिट रपोट – (1) भारत दे नियंत्रक-महालेखापारखी दे संघ दे लेखे सरबंधी रपोटें गी राष्ट्रपति अगमें पेष कीता जाहग जेहड़ा उं नेंगी संसद दे हर इक सदन अगमें रखोआहग।

(2) भारत दे नियंत्रक-महालेखापारखी दे कुसै रियासत दे लेखे सरबंधी रपोटें गी उस रियासत दे राज्यपाल ³*** अगमें रक्खेआ जाहग, जेहड़ा उं नेंगी रियासत दे विधान-मंडल दे सामनै रखोआहग।

1. संविधान (बतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 27 राहें (1-4-1977 थमां) अनुच्छेद 150 दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।

2. संविधान (चरतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 22 राहें (20-6-1979 थमां) "कन्नै मषवरे परैत" दी थाहरा पर प्रतिस्थापत।

3. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूचि राहें "जां राज प्रमुख" शब्दें दा लोप कीता गेआ।

1***रियासतां

ध्याऽ 1 – सधारण

152. परिभाशा – इस हिस्से च जिसलै तगर संदर्भ च जेकर लोड़ नेई होऐ, “रियासत” पद ²[दे तैह्त जम्मू-कष्मीर राज्य नेई ऐ।]

ध्याऽ 2 – कार्यपालिका

राज्यपाल

153. रियासतें दे राज्यपाल – हर इक रियासत आस्तै इक राज्यपाल होग :

³[पर इस अनुच्छेद कोई गल्ल इक गै व्यक्ति गी दो जां इस थमां बद्ध रियासतें दा राज्यपाल होने कोला नेई रोकग।]

154. रियासत दे कार्यपालिका अख्तेआर (1) रियासत दी कार्यपालिका दा अख्तेआर राज्यपाल कोल होग ते ओह एह्दा प्रयोग इस संविधान दे मताबक आपूं जां अपने मतैह्त अधिकारियें राहें करग।

(2) इस अनुच्छेद दी कोई गल्ल –

(क) कुसै मजूदा कनूनै राहें जां कुसै होर प्राधिकारी गी दित्ते गेदे कम्म राज्यपाल गी थांतरत करने आहले नेई समझे जाह्दन; जां

(ख) राज्यपाल दे मतैह्त कुसै प्राधिकारी गी कनूनै राहें कम्म देने कोला संसद जां राज्य दे विधान-मंडल गी नेई रोकग।

155. राज्यपाल दी नियुक्ति – रियासत दे राज्यपाल गी राष्ट्रपति अपने दसखत ते मोहर सनें अधिकार-पत्तर राहें नियुक्त करग।

156. राज्यपाल दे औहदे दी औद्ध- (1) राज्यपाल, राष्ट्रपति दी मर्जी कन्नै गै अपना औहदा धारण करग।

(2) राज्यपाल, राष्ट्रपति गी संबोधत करियै अपने दसखत सनें लिखती राहें अपना इस्तीफा देई सकग।

(3) इस अनुच्छेद च पछेत्तरे सरिस्तें तैह्त, राज्यपाल अपना औहदा ग्रैहण करने दी तरीक थमां, पं'जे ब'रें दी औद्ध तगर औहदा धारण करग।

पर राज्यपाल अपने औहदे दी औद्ध मुक्कने पर बी, उसलै तगर औहदे पर बने दा रौहग जिसलै तगर ओहदा उत्तराधिकारी अपना औहदा ग्रैहण नेई करी लैदा।

157. राज्यपाल नियुक्त होने आस्तै योग्यतां – कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने दा पात्र तां गै होग जेकर ओह भारत दा बसनीक होग ते पैं'तियें ब'रे दी उमर पूरी करी चुके दा होग।

158. राज्यपाल दे औहदे आस्तै शर्तां – (1) राज्यपाल संसद दे कुसै सदन दा जां पैहली अनुसूची च दित्ते गेदे कुसै रियासत दे विधान-मंडल दे कुसै सदन दा सदस्य नेई होग ते जेकर संसद दे कुसै सदन जां इ'यां गै कुसै रियासत दे विधान-मंडल दे कुसै सदन दा कोई सदस्य, राज्यपाल नियुक्त होई जंदा ऐ, तां एह समझेआ जाहग जे उ'न्ने उस सदन च अपनी थाहर बतौर राज्यपाल औहदा धारण करने दी तरीक थमां खाल्ली करी दित्ती ऐ।

-
1. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें “पैहली अनुसूची दे भाग क च दे” शब्दें दा लोप कीता गोआ।
 2. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें “दा अर्थ पैहली अनुसूची दे भाग क च दस्सी गेदी रियासत ऐ” दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 3. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 6 राहें जोड़ेआ गोआ।

भारत दा संविधान
(भाग 6 – रियासतां)

(2) राज्यपाल कोई होर लाह आह्ला औहदा धारण नेई करग।

(3) राज्यपाल, बिजन कराया दित्ते दे, अपने सरकारी निवास दे इस्तेमाल दा हकदार होग ते नेह मेहनताने, भत्ते ते बषे अधिकारें दा बी जेहड़े संसद, कनूनै राहें नर्धारत करग ते जिन्नै चिरै तगर इस नमित्त इस चाल्ली दा कोई प्रावधान नेई कीता जंदा, उन्नै चिरै तगर नेह मेहनताने, भत्ते ते बषे अधिकारें दा जेहड़े दूई अनुसूची च दित्ते गेदे न, उं'दा हकदार होग।

¹[(3क) जित्थै इक गै व्यक्ति गी द'ऊं जां द'ऊं थमां बद्ध रियासतें दा राज्यपाल नियुक्त कीता जंदा ऐ, उत्थै उस राज्यपाल गी दित्ते जाने आहले नेह मेहनताने ते भत्ते उ'नें रियासतें बषकहार नेह अनुपात च बंडे जाहडन जेहड़े राष्ट्रपति अदेष राहें तैऽ करग।]

(4) राज्यपाल दे मेहनताने ते भत्ते ओहदे औहदे दी औद्ध दरान घट्ट नेई कीते जाहडन।

159. राज्यपाल आसेआ सघंद चुक्कना जां प्रतिज्ञा –हर इक राज्यपाल ते हर इक व्यक्ति जेहड़ा राज्यपाल दे कम्म-भार दा नर्बाह करारदा ऐ, अपना औहदा ग्रैहण करने थमां पैहलें उस रियासत दे सरबंधे च अख्तेआरें दा प्रयोग करने आहली उच्च अदालतें दे मुख् न्यांमूर्ति जां ओहदी गैर-हाजरी च, उस अदालतें च मजूद सभनें थमां वरिष्ठ जज्ज सामनै हेठ लिखे दे फार्म च सघंद चुक्कना जां प्रतिज्ञा लैहग ते ओहदे उप्पर अपने दसखत करग, अर्थात् :-

परमात्मा दी सघंद चुक्कनां

“में फलानाजे में श्रद्धापूर्वक

सच्ची निष्ठा कन्नै प्रतिज्ञा करनां

(रियासत दा नांऽ) दे राज्यपाल दे औहदे दा कम्मै दा पालन (जां राज्यपाल दे कम्मै दा नर्बाह) करड ते अपनी पूरी योग्यता कन्नै संविधान ते कनूनै दी राखी-हिफाजत, बचाऽ ते सांभ-समहाल करड ते में (रियासतें दा नांऽ) दी जनता दी सेवा ते भलाई-बेह्तरी च लगगेआ रौहड।”

160. किश चान-चक्की स्थितियें च राज्यपाल दे कम्में दा नर्बाह – राष्ट्रपति नेही कुसै चानकी लोड़ै च, जेहदा इस ध्याऽ च प्रावधान नेई ऐ, रियासतें दे राज्यपाल दे कम्में दे नर्बाह आस्तै नेहा प्रावधान करी सकग जेहड़ा ओह ठीक समझदा ऐ।

161. राज्यपाल दा किश मामलें च माफी वगैरा, स्थगन, घट्ट करना जां स'जा देने दा अख्तेआर – कुसै रियासत दे राज्यपाल गी उस मामले कन्नै सरबंधत, जिस मामले पर उस रियासत दी कार्यपालिका दे अख्तेआरें दा विस्तार ऐ, कुसै कनूनै दे खलाफ कुसै अपराध आस्तै दोषी सिद्ध होए दे कुसै व्यक्ति दी स'जा गी, उसी माफी देने, किष चिरै लेई टालने जां स'जा गी खतम, स्थगत जां घट्ट करने दा अधिकार होग।

162. रियासत दी कार्यपालिका अख्तेआर दा विस्तार – इस संविधान दे प्रावधानें तैहत् कुसै रियासतें दी कार्यपालिका दे अख्तेआरें दा विस्तार उ'नें मामलें उप्पर होग, जिं'दे सरबंधे च, उस रियासत दे विधान-मंडल गी कनून बनाने दा अख्तेआर ऐ:

पर जिस मामले दे सरबंधे च रियासतें दा विधान-मंडल ते संसद गी कनून बनाने दा अख्तेआर ऐ, ओहदे च रियासतें दा कार्यपालिका अख्तेआर इस संविधान आसेआ, जां संसद आसेआ बनाए गेदे कुसै कनूनै राहें, संघ जां ओहदे प्राधिकारियें गी स्पष्ट रूपै च दित्ता गेदा कार्यपालिका दे अख्तेआर दे तैहत् ते ओहदी हद्दा च होग।

मंत्रि-परिशद्

163. राज्यपाल गो मदद ते सलाह देने आस्तै मंत्रि-परिशद्- (1) मुख्मंत्री दी अध्यक्षता च इक मंत्रि-परिशद् होग जेहड़ी राज्यपाल गी अपने अख्तेआरें दा इस्तेमाल करने लेई मदद करग ते सलाह देहग, एहदे इलावा, जिं'यां के उस थमां मेद कीती जंदी ऐ, ओह संविधान तैहत् अपनी स्यानप मताबक कम्म-काज करग।

1. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 7 राहें अंतरस्थापत।

भारत दा संविधान
(भाग 6 – रियासत)

(2) जेकर कोई सुआल उठदा ऐ जे कोई मामला नेहा है जां नेई जेहदे सरबंधे च इस संविधान आसेआ जां एहदे तैहत् राज्यपाल थमां एह मेद कीती जंदी ऐ जे ओह अपनी स्यानप मताबक कम्म करै ते राज्यपाल दा अपनी स्यानप कन्नै लैता गेदा फ़ैसला खीरी होग, ते राज्यपाल आसेआ कीती गेदी कुसै गल्लै दी कनूनी मानता उप्पर इस अधार उप्पर सुआल नेई पुट्टेआ जाहग जे उसी अपनी समझ मताबक कम्म करना चाहिदा हा जां नेई।

(3) इस सुआलै दी कुसै अदालतै च पुच्छ-पड़ताल नेई कीती जाहग जे क्या मंत्रियें राज्यपाल गी कोई सलाह दिक्ती ते जेकर दिक्ती तां के सलाह दिक्ती।

164. मंत्रियें दे बारे च होर प्रावधान – (1) मुख्मन्त्री दी नियुक्ति राज्यपाल करग ते होरनें मंत्रियें दी नियुक्ति राज्यपाल, मुख्मन्त्री दी सलाह पर करग ते मंत्री, राज्यपाल दी खुषरजाई कन्नै अपना औहदा धारण करडन।

पर ¹[छत्तीसगढ़, झारखंड], मध्य प्रदेश ते उड़ीसा रियासतें च जनजातियें दी भलाई-बेहतरी दा जिम्मेवार इक मंत्री होग जेहड़ा एहदे कन्नै गै अनुसूचित जातियें दे पिछड़े वर्गें दी भलाई-बेहतरी दा जां कुसै होर कम्मै दा बी जिम्मेवार होई सकग।

² [(1क) कुसै रियासत दी मंत्रि-परिषद् च मुख्मन्त्री सनें मंत्रियें दी कुल गिंतरी उस रियासत दी विधान सभा दे सदस्यें दी कुल गिंतरी दे पंदरां फीसदी थमां बढ़ नेई होग:

पर कुसै रियासत दे मुख्मन्त्री सनें मंत्रियें दी गिंतरी बाहरें थमां घट्ट नेई होग:

पर एह होर जे जित्थै संविधान (काहनमीं तरमीम) अधिनियम, 2003 दे रम्भ पर कुसै रियासत दी मंत्रि-परिषद् च मुख्मन्त्री सनें मंत्रियें दी संख्या, स्थिति मताबक, आखे गेदे पंदरां फीसदी जां पैहले परंतुक च दस्सी गेदी संख्या कोला बद्ध ऐ उत्थै उस रियासत च मंत्रियें दी कुल संख्या नेही तरीक³ थमां, जेहड़ी राष्ट्रपति लोक अधिसूचना राहें निष्चत करै, छें म्हीनें दे अंदर इस खंड दे प्रावधानें अनुसार आंहदी जाहग।

(1ख) कुसै राजनीतक दल दा कुसै रियासतै दी विधान सभा दा जां कुसै रियासत दे विधान-मंडल दे कुसै सदन दा जेहदे च विधान परिषद् ऐ, कोई सदस्य, जेहड़ा दसमीं अनुसूची दे पैरा 2 दे तैहत् उस सदन दा सदस्य होने दे अयोग्य ऐ, अपनी अयोग्यता दी तरीक थमां शुरू होने आहली उस तरीक तगर जिसी नेह सदस्य दे रूपै च, ओहदे ओहदे दी औद्ध खतम होग जां जित्थै ओह नेही औद्ध दे मुक्कने थमां पैहलें, स्थिति मताबक, कुसै रियासत दी विधान सभा आस्तै जां विधान परिषद् आहले कुसै रियासत दे विधान-मंडल दे कुसै सदन आस्तै कोई चनांऽ लड़दा ऐ तां उस तरीक तगर जदूं ओह चनोए दा घोषत कीता जंदा ऐ, इंदे चा जेहड़ा बी पैहलें होऐ, दी औद्ध दरान, खंड (1) दे तैहत् मंत्री दे रूपै च नियुक्त कीते जाने आस्तै बी अयोग्य होग।]

(2) मंत्रि-परिषद् रियासत दी विधान सभा आस्तै सांझे रूपै च जिम्मेवार होग।

(3) कुसै मंत्री आसेआ अपना औहदा सम्हालने थमां पैहलें राज्यपाल त्री अनुसूची च इस मकसद आस्तै दित्ते गेदे फार्में दे मताबक औहदे ते राजदारी दी सघंद चकाहग।

(4) कोई मंत्री, जेहड़ा लगातार छें म्हीनें दी औद्ध तगर राज्य दे विधान-मंडल दा सदस्य नेई ऐ, उस औद्ध दे मुक्कने पर मंत्री नेई रौहग।

(5) मंत्रियें दी तनखाह ते भत्ते नेह होडन जेहड़े उस रियासत दा विधान-मंडल, कनूनै राहें बेल्लै-बेल्लै सिर तैऽ करै ते जिसलै तगर उस रियासत दा विधान-मंडल इस चाल्ली इ'नेंगी तैऽ नेई करदा उसलै तगर नेह होडन जेहड़े दूई अनुसूची च दर्ज न।

1. संविधान (चराहनमीं तरमीम) अधिनियम, 2006 दी धारा 2 राहें 'बिहार' दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।
2. संविधान (काहनमीं तरमीम) अधिनियम, 2003 दी धारा 3 राहें अंतरस्थापत।
3. 7-1-2004, दिक्खो क.अ. 21(अ), तरीक 7-1-2004।

भारत दा संविधान
(भाग 6 – रियासतां)

रियासत आस्तै महाधिवक्ता

165. रियासत आस्तै महाधिवक्ता – (1) हर रियासत दा राज्यपाल, उच्च अदालत दा जज्ज नियुक्त होने आस्तै कुसै काबल व्यक्ति गी रियासत दा महाधिवक्ता नियुक्त करग।

(2) महाधिवक्ता दा एह फर्ज होग जे ओह उस रियासती सरकार गी कनून सरबन्धी नेह मामलें उप्पर सलाह देरे ते कनूनी स्वरूप दे नेह दूए कर्तबबे दा पालन करै जेहड़े राज्यपाल उसी बेल्लै-बेल्लै सिर निर्देषत करै जां सौंपे ते उ'ने कम्मं दा नर्बाह करै जेहड़े उसी इस संविधान जां उसलै लागू कुसै होर कनूनै राहें जां ओहदे तैहत दित्ते गेदे होन।

(3) महाधिवक्ता राज्यपाल दी मर्जी मताबक ओहदा सम्हालग ते उन्नीं तनखाह हासल करग जेहड़ी राज्यपाल तैऽ करग।

सरकारी कम्मै दा संचालन

166. रियासत दी सरकार दे कम्मै दा संचालन –(1) कुसै रियासतै दी सरकार दी सबूरी कार्यपालिका कारवाई, राज्यपाल दे नांऽ कन्नै कीती दी आखी जाहग।

(2) राज्यपाल दे नांऽ कन्नै बनाए गेदे ते तमील कीते गेदे हुकमं ते होर दुइयें लिखतें गी इस तरीके कन्नै प्रमाणत कीता जाहग जेहड़े राज्यपाल आसेआ बनाए जाने आहले नियमें च टकोहदे तौर उप्पर दरसे जाहन ते इस चाल्ली प्रमाणत मानता उप्पर इस अधार उप्पर सुआल नेई पुट्टेआ जाहग जे ओह राज्यपाल आसेआ हुकम जां लिखत नेई ऐ।

(3) राज्यपाल, रियासती सरकार दा कम्म-काज मती स्हूलत कन्नै करने आस्तै ते जित्थूं तगर ओह कम्म नेहा कम्म नेई है, जेहदे मामले च इस संविधान आसेआ जां एहदे तैहत राज्यपाल थमां एह मेद कीती जंदी ऐ जे ओह अपनी स्थानप कन्नै कम्म करै ते उत्थूं तगर मंत्रियें च आखे गेदे कम्मै दी बंड आस्तै नियम बनाहग।

¹

*

*

*

*

*

167. राज्यपाल गी जानकारी देने वगैरा दे सरबन्धै च मुख्मन्त्री दे कर्तबब – हर इक रियासत दे मुख्मन्त्री दा कर्तबब होग जे ओह –

(क) रियासतै दे कम्मं दे प्रशासन सरबन्धी ते विधान कन्नै जुड़े दे प्रस्तावें सरबन्धी मंत्रि-परिषद् दे सब्भै फैंसलें बारै राज्यपाल गी सूचना देरे;

(ख) रियासतै दे कम्मं दे प्रशासन सरबन्धी ते विधान कन्नै जुड़े दे प्रस्तावें सरबन्धी जेहड़ी जानकारी राज्यपाल मंगे ओह देरे; ते

(ग) कुसै मामले गी जिस उप्पर कुसै मंत्री ने फैंसला करी दित्ता ऐ पर मंत्रि-परिषद् ने विचार नेई कीता ऐ, राज्यपाल आसेआ जरूरी समझने उप्पर परिषद् दे सामनै विचार आस्तै रक्खै।

ध्याऽ 3 – रियासत दा विधान-मंडल

सधारण

168. रियासतें दे विधान-मंडलें दा गठन – (1) हर इक रियासत आस्तै इक विधान-मंडल होग जेहड़ा राज्यपाल ते –

1. संविधान (बतालिमी तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 28 राहें (3-1-1977 थमां) खंड 4 अंतरस्थापत कीता गेआ हा ते संविधान (चरतालिमी तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 23 राहें (20-6-1979 थमां) ओहदा लोप कीता गेआ।

भारत दा संविधान
(भाग 6 – रियासतों)

(क) ¹*** ²[आंध्र प्रदेश], बिहार ³*** ⁴[मध्य प्रदेश] ⁵*** ⁶[महाराष्ट्र], ⁷[कर्नाटक] ⁸*** ⁹[***], ¹⁰[ते उत्तर प्रदेश] रियासतें दे द'ऊं सदनें कन्नै;

(ख) होरनें रियासतें च इक सदन कन्नै,

मिलियै बनग।

(2) जित्थै कुसै रियासतें दे विधान-मंडल दे दो सदन न, उत्थै इक दा नांS विधान परिषद् ते दूए दा नांS विधान सभा होग ते जित्थै छड़ा इक सदन होग उत्थै ओहदा नांS विधान सभा होग।

169. रियासतें च विधान परिशदें दा समापन जां सिरजन – (1) अनुच्छेद 168 च बावजूद एहदे संसद कनून राहें कुसै विधान परिषद् आहली रियासतें च विधान परिषद् दे समापन आस्तै जां नेही रियासत च जेहदे च विधान परिषद् नेई ऐ, विधान परिषद् दी सिरजना आस्तै प्रावधान करी सकग, जेकर उस रियासतें दी विधान सभा ने इस मकसद आस्तै प्रस्ताव विधान सभा दी कुल सदस्ये दी गितरी दे बहुमत राहें मजूद ते वोट देने आहले सदस्ये दी गितरी दे घटो-घट्ट दो बटा त्रै दे बहुमत कन्नै पास करी ओड़ेआ ऐ।

(2) खंड (1) च दस्से गेदे कुसै कनून च इस संविधान दी तरमीम आस्तै नेह प्रावधान शामिल होडन जेहड़े उस कनून दे प्रावधाने गी असरदार करने आस्तै जरूरी होन ते नेह जिमनी, घटनात्मी ते नतीजक प्रावधान बी मजूद होई सकडन जि'नेगी संसद जरूरी समझै।

(3) पैहलें आखेआ गेदा कोई कनून अनुच्छेद 368 दे प्रयोजनें आस्तै इस संविधान दी तरमीम नेई समझी जाहग।

¹¹[170. विधान सभाएं दी संरचना – (1) अनुच्छेद 333 दे प्रावधाने तैहत् हर इक रियासतें दी विधान सभा, उस रियासतें च इलाकाई चनांS-क्षेत्रे थमां प्रतकख चनांS राहें चनोए दे बद्धो-बद्ध पंज सौ ते घटो-घट्ट स'ट्टें सदस्ये कन्नै रलियै बनग।

(2) खंड (1) दे प्रयोजनें आस्तै हर इक रियासत गी इलाकाई चनांS-क्षेत्रे च इस चाल्ली नै बंडेआ जाहग जे हर इक चनांS-क्षेत्र दी अबादी दा ओहदी अलाट सीटें दी गितरी दा अनुपात सभनें रियासतें च यथासाध इक्कै जनेहा होऐ।

¹²[स्पष्टीकरण – इस खंड च “जनसंख्या” दा मतलब नेही खीरली पछेत्तरी जनगणना च तैS कीती गेदी जनसंख्या ऐ, जेहदे सुसंगत आंकड़े प्रकाशत होई गेदे न।

-
1. “आंध्र प्रदेश” शब्दें दा आंध्र प्रदेश विधान परिषद् (समापन) अधिनियम, 1985 (1985 दे 34) दी धारा 4 राहें (1-6-1985 थमां) लोप कीता गेआ।
 2. आंध्र प्रदेश विधान परिषद् अधिनियम, 2005 (2006 दे 1) दी धारा 3 राहें (30-3-2007 थमां) अंतरस्थापत।
 3. मुंबई मुद्द-गठन अधिनियम, 1960 (1960 दे 11) दी धारा 20 राहें (1-5-1960 थमां) “मुंबई” शब्द दा लोप कीता गेआ।
 4. इस उपखंड च “मध्यप्रदेश” शब्दें दे अंतरथापन आस्तै संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 8 (2) दे तैहत् कोई तरीक तैS नेई कीती गेई ऐ।
 5. तमिलनाडु विधान परिषद् (समापन) अधिनियम, 1986 (1986 दे 40) दी धारा 4 राहें (1-11-1986 थमां) “तमिलनाडु” शब्द दा लोप कीता गेआ।
 6. मुंबई मुद्द-गठन अधिनियम, 1960 (1960 दे 11) दी धारा 20 राहें (1-5-1960 थमां) अंतरस्थापत।
 7. मैसूर रियासत (नांS तब्दील) अधिनियम, 1973 (1973 दे 31) दी धारा 4 राहें (1-11-1973 थमां) ‘मैसूर’ दी थाहरै पर प्रतिस्थापत, जिसी संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 8 (1) राहें अंतरस्थापत कीता गेआ हा।
 8. पंजाब विधान परिषद् (समापन) अधिनियम, 1969 (1969 दे 46) दी धारा 4 राहें (7-1-1970 थमां) “पंजाब” शब्द दा लोप कीता गेआ।
 9. तमिलनाडु विधान परिषद् अधिनियम 2010 (2010 दे 16) दी धारा 3 राहें (जेहड़ी अजे लागू नेई होई ऐ, तरीक बाद च सूचित कीती जाहग) अंतरस्थापत।
 10. पच्छिमी बंगाल विधान परिषद् (समापन) अधिनियम, 1969 (1969 दे 20) दी धारा 4 राहें (1-8-1969 थमां) “उत्तर प्रदेश ते पच्छिमी बंगाल” दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 11. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 9 राहें अनुच्छेद 170 दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 12. संविधान (बतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 29 राहें (3-1-1977 थमां) स्पष्टीकरण दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।

भारत दा संविधान
(भाग 6 – रियासतां)

पर इस स्पष्टीकरण च खीरली पछेत्तरी जनगणना आस्तै जेहदे सुसंगत आंकड़े प्रकाशत होई गेदे न, हिदायत दा, जिसलै तगर सन् ¹[2026] परैत कीती गेदी पैहली जनगणना दे सुसंगत आंकड़े प्रकाशत नेई होई जंदे न, एह मतलब लाया जाहग जे ओह ²[2001] दी जनगणना आस्तै हिदायत ऐ।]

(3) हर इक जनगणना दे मुक्कने पर हर इक रियासतै दी विधान सभा च सीटें दी कुल गिंतरी ते हर इक रियासतै दे इलाकाई चनांS-क्षेत्रें च बंड दा नेह प्राधिकारी आसेआ ते नेह तरीके कन्नै परतियै समायोजन कीता जाहग जेहड़ा संसद कन्नै राहें नर्धारत करै:

पर नेह परती समायोजन कन्नै विधान सभा च नुमायंदगी आहले औहदे पर उसलै तगर कोई असर नेई पौग जिसलै तगर उस बेल्लै दी मजूदा विधान सभा भंग नेई होई जंदी ऐ:]

³[पर बावजूद एहदे जनेहा परती समायोजन उस तरीक थमां असरी होग जिसी राष्ट्रपति हुकमै राहें टकोहदा दस्सै ते नेह परती समायोजन दे असरी होने तगर विधान सभा आस्तै कोई चनांS उ'नें इलाकाई चनांS-क्षेत्रें दे अधार उप्पर होई सकग जेहड़े नेह परती समायोजन थमां पैहलें मजूद न:

पर बावजूद एहदे जे जदू तगर सन् ¹[2026] परैत कीती गेदी पैहली जनगणना दे सुसंगत आंकड़े प्रकाशत नेई होई जंदे अदू तगर ⁴[इस खंड दे तैहत, –

(i) हर इक रियासत दी विधान सभा च 1971 दी जनगणना दे अधार पर परती समायोजित सीटें दी कुल गिंतरी दा; ते

(ii) नेही रियासतै दे इलाकाई चनांS-क्षेत्रें च बंड दा जेहड़े ²[2001] दी जनगणना दे अधार उप्पर समायोजित कीते जाहन, परती समायोजन जरूरी नेई होग।]

171. विधान परिशदें दी संरचना – (1) विधान परिषद् आहली रियासतें दी विधान परिषद् दे सदस्यें दी कुल गिंतरी उस रियासतै दी विधान सभा दे सदस्यें दी कुल गिंतरी दी ⁵[इक तेहाई] थमां बढ नेई होग:

पर कुसै रियासतै दी विधान परिषद् दे सदस्यें दी कुल गिंतरी कुसै हालती च बी चाहलियें थमां घट्ट नेई होग।

(2) जिसलै तगर संसद कन्नै राहें कोई होर प्रावधान नेई करै, उसलै तगर कुसै रियासतै दी विधान परिषद् दी बनावट खंड (3) च दस्से गेदे तरीके कन्नै होग।

(3) कुसै रियासतै दी विधान परिषद् दे सदस्यें दी कुल गिंतरी दा –

(क) लगभग इक तेहाई हिस्सा उस रियासतै दी नगरपालिकाएं, जि'ला बोर्डें ते होर नेह मुकामी प्राधिकारियें दे, जि'नेंगी संसद कन्नै राहें टकोहदा दस्सै, सदस्यें कन्नै रलियै बनने आहले चनांS-मंडलें राहें चुनेआ जाहग;

(ख) लगभग बाहरमां हिस्सा, उस रियासतै दे रौहने आहले नेह लोकें कन्नै रलियै बनने आहले चनांS-मंडलें आसेआ चुनेआ जाहग, जेहड़े भारत दे राज्यक्षेत्र च कुसै विष्वविद्यालय दे घट्टो-घट्ट त्र'ऊं ब'रें दे स्नातक न जां जि'दे कोल घट्टो-घट्ट त्र'ऊं ब'रें थमां नेहियां योग्यतां न जि'नेंगी संसद आसेआ बनाए गेदे कुसै कन्नू जां ओहदे तैहत नेह कुसै विष्वविद्यालय दे स्नातक दी योग्यताएं दे बरोबर दस्सियां गेदियां होन;

(ग) लगभग बाहरमां हिस्सा नेह व्यक्तियें कन्नै रलियै बनने आहले चनांS-मंडलें आसेआ चुनेआ जाहग जेहड़े रियासतै दे अंदर माध्यमिक शिक्षण संस्थाएं च घट्टो-घट्ट त्र'ऊं ब'रें थमां पढ़ा'रदे न ते जि'दा स्तर सकैंडरी

-
1. संविधान (चरासिमी तरमीम) अधिनियम, 2001 दी धारा 5 राहें तरतीबन "2000" ते "1971" दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 2. संविधान (सतासिमी तरमीम) अधिनियम, 2003 दी धारा 4 राहें "1991" दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 3. संविधान (बतासिमी तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 29 राहें (3-1-1977 थमां) अंतरस्थापत।
 4. संविधान (चरासिमी तरमीम) अधिनियम, 2001 दी धारा 5 राहें किष शब्दें दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 5. संविधान (सतमी तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 10 राहें "इक चौथाई" दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।

भारत दा संविधान
(भाग 6 – रियासतां)

स्कूलें थमां घट्ट नेईं ऐ; ते जेहड़े संसद आसेआ बनाए गेदे कुसै कनूनै राहें जां ओहदे तैहत् नर्धारत कीते जाहन;
(घ) लगभग इक तेहाई हिस्सा, रियासत दी विधान सभा दे सदस्ये आसेआ नेह व्यक्तिये चा चुनेआ जाहग, जेहड़े विधान सभा दे सदस्य नेईं हैन;
(ङ) बाकी सदस्य राज्यपाल आसेआ खंड (5) दे प्रावधाने दे मताबक नामजद कीते जाहडन।

(4) खंड (3) दे उपखंड (क), उपखंड (ख) ते उपखंड (ग) दे तैहत् चुने जाने आहले सदस्य नेह इलाकाई चनांS-क्षेत्रे च चुने जाहडन जेहड़े संसद आसेआ बनाए गेदे कनूनै राहें जां ओहदे तैहत् नर्धारत कीते जाहन ते आखे गेदे उपखंडे दे ते उप्पर आखे गेदे खंडे दे उपखंड (घ) दे तैहत् चनांS, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति अनुसार इककले बदली जोग वोट राहें होडन।

(5) राज्यपाल आसेआ खंड (3) दे उपखंड (ङ) तैहत् नामजद कीते जाने आहले सदस्य नेह व्यक्ति होडन जि'नेंगी हेठ लिखे दे विषे दे सरबंघे च खास ज्ञान जां व्यवहारक तजर्बा ऐ, अर्थात् :-

साहित्य, विज्ञान, कला, सैहकारी अंदोलन ते समाज सेवा।

172. रियासते दे विधान-मंडले दी औद्ध- (1) हर इक रियासत दी हर इक विधान सभा जेकर पैहले गे भंग नेईं करी दित्ती जंदी ऐ तां अपने पैहले इजलास आस्तै तैऽशुदा तरीक थमां ¹[पं'जे ब'रे] तगर बनी रौहग, इस थमां बद्ध नेईं ते ¹[पं'जे ब'रे] दी आखी गेदी औद्ध दे मुकने दा नतीजा विधान सभा दा भंग होना होग:

पर आखी गेदी औद्ध गी, जिसलै अमरजैसी दी उद्घोषना चलन च ऐ, उसलै संसद कनूनै राहें नेह समे आस्तै औद्ध गी बधाई सकग, जेहड़ी इक बारी च इक ब'रे थमां बद्ध नेईं होग ते उद्घोषना दे जारी नेईं रौहने परैत कुसै बी सूरतै च ओहदा विस्तार छे म्हीने दी औद्ध थमां बद्ध नेईं होग।

(2) रियासते दी विधान परिषद् भंग नेईं होग पर ओहदे सदस्ये चा, जिन्ना मुमकन होऐ लगभग इक तेहाई सदस्य, संसद आसेआ बनाए गेदे कनूनै राहें इस नमित्त बनाए गेदे प्रावधाने दे मताबक हर इक दूए ब'रे दे मुकने पर तौले थमां तौले रिटायर होई जाहडन।

173. रियासत दे विधान-मंडल दी सदस्यता आस्तै योग्यता – कोई व्यक्ति कुसै रियासत च विधान-मंडल दी कुसै सीटै गी भरने आस्तै चुने जाने आस्तै तां गै योग्य होग जिसलै –

²[(क) ओह भारत दा नागरिक ऐ ते चनांS आयोग आसेआ इस नमित्त प्राधिकृत कुसै व्यक्ति दे सामने त्री अनुसूची च इस मकसद आस्तै दित्ते गेदे फार्म दे मताबक सघंद चुकदा ऐ जां प्रतिज्ञा करदा ऐ ते ओहदे उप्पर अपने दसखत करदा ऐ;]

(ख) ओह विधान सभा च सीट आस्तै घट्टो-घट्ट पं'जीए ब'रे दी उमरी दा ते विधान परिषद् च सीट आस्तै घट्टो-घट्ट त्रीहें ब'रे दी उमरी दा ऐ; ते

(ग) ओहदे कोल नेहियां होर योग्यतां न, जेहड़ियां इस नमित्त संसद आसेआ बनाए गेदे कुसै कनूनै राहें जां ओहदे तैहत् दस्सियां जाहन।

³**174. रियासत दे विधान-मंडल दे सत्र, सत्र स्थगन ते सत्र भंग** – (1) राज्यपाल, बेल्लै-बेल्लै सिर रियासतै दे विधान-मंडल दे सदन जां हर इक सदन गी नेह समे ते थाहरै पर जिसी ओह ठीक समझै, इजलास आस्तै

-
1. संविधान (चरतालामी तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 24 राहें (6-9-1979 थमां) "छे ब'रे" दी थाहरै पर प्रतिस्थापत। संविधान (बतालिमी तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 30 राहें (3-1-1977 थमां) मूल शब्दे "पंज ब'रे" दी थाहरै पर "छे ब'रे" प्रतिस्थापत कीते गे हे।
 2. संविधान (सोहलमी तरमीम) अधिनियम, 1963 दी धारा 4 राहें खंड (क) दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 3. संविधान (पैहली तरमीम) अधिनियम, 1951 दी धारा 8 राहें अनुच्छेद 174 दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।

भारत दा संविधान
(भाग 6 – रियासतां)

बलाह्ग पर ओह्दे इक सत्र दी खीरी बैठक ते औने आह्ले सत्र दी पैहली बैठक आस्तै मिथी गेदी तरीक बषक्हार छें म्हीनें दा अंतर होग।

(2) राज्यपाल बेल्लै-बेल्लै सिर –

(क) सदन गी जां कुसै सदन दे सत्र गी स्थगत करी सकग;

(ख) विधान सभा गी भंग करी सकग।

175. सदन जां सदन च भाशन दा ते उ'नेंगी सनेहा भेजने दा राज्यपाल दा अधिकार – (1) राज्यपाल विधान सभा च जां विधान परिषद् आहली रियासतै दी स्थिति च उस रियासतै दे विधान-मंडल दे कुसै इक सदन च जां किट्टे इक्कै बारी दौनें सदनं च भाषन करी सकग ते इस मकसद आस्तै सदस्ये दी मजूदगी दी मेद करी सकग।

(2) राज्यपाल, रियासत दे विधान-मंडल च उसलै बकाया पेदे कुसै बिल्लै दे सरबंधे च सनेह जां कोई होर सनेह, उस रियासत दे विधान-मंडल दे सदन जां सदनं गी भेजी सकग ते जिस सदन गी कोई सनेहा इस चाल्ली भेजेआ गेदा होऐ, सदन उस सनेह राहें लोड़चदे मामले पर स्हूलत मताबक विचार करग।

176. राज्यपाल आसेआ बशेश भाशन – (1) राज्यपाल ¹[विधान सभा आस्तै हर इक आम चनांS परैत्त पैह्ले सत्र दे रम्भ च ते हर इक ब'रे दे पैह्ले सत्र दे रम्भ च] विधान सभा च जां विधान परिषद् आहली रियासतै दी सूरतै च, किट्टे दौनें सदनं च चेचा भाषन देह्ग ते विधान-मंडल गी, उसी सद्ने दे कारण दस्सग।

(2) सदन जां हर इक सदन दी प्रक्रिया दा विनियमन करने आह्ले नियमें राहें नेह् चेचे भाषन च दस्से गेदे विषे दी चर्चा आस्तै समां तैS करने आस्तै ^{2****} प्रावधान कीता जाह्ग।

177. सदनं दे बारे च मंत्रिये ते महाधिवक्ता दे अधिकार – हर इक मंत्री ते रियासत दे महाधिवक्ता गी एह अधिकार होग जे ओह् उस रियासत दी विधान सभा च जां विधान परिषद् आहली रियासत दी सूरत च दौनें सदनं च बोल्लै ते उं'दिये कारवाइये च जां पही हिस्सा लै ते विधान-मंडल दी कुसै कमेटी च, जेह्दे च ओह्दा नांS सदस्य दे रूपै च दित्ता गेदा ऐ, बोल्लै ते उं'दिये कारवाइये च जां पही हिस्सा लै, पर इस अनुच्छेद दे अधार पर ओह् वोट देने दा हकदार नेई होग।

रियासत दे विधान-मंडल दे अधिकारी

178. विधान सभा दा अध्यक्ष ते उपाध्यक्ष – हर इक रियासत दी विधानसभा तौले थमां तौले, अपने द'ऊं सदस्ये गी अपना अध्यक्ष ते उपाध्यक्ष चुनग ते जदू-जदू बी अध्यक्ष जां उपाध्यक्ष दा औहदा खाल्ली होंदा ऐ, तदू-तदू विधान सभा कुसै होर सदस्य गी, स्थिति मताबक, अध्यक्ष जां उपाध्यक्ष चुनग।

179. अध्यक्ष ते उपाध्यक्ष दा औहदा खाल्ली होना, इस्तीफा ते औहदे थमां हटाया जाना – विधान सभा दे अध्यक्ष जां उपाध्यक्ष दे रूपै च औहदा धारण करने आह्ला सदस्य –

(क) जेकर विधान सभा दा सदस्य नेई रौहदा ऐ तां अपना औहदा खाल्ली करी देह्ग;

(ख) कुसै बेल्लै बी, जेकर ओह् सदस्य अध्यक्ष ऐ तां उपाध्यक्ष गी संबोधत ते जेकर ओह् सदस्य उपाध्यक्ष ऐ तां अध्यक्ष गी संबोधत, अपने दसखत सनें लिखत रूपै च अपना औहदा छोड़ी सकग; ते

(ग) विधान सभा दे उसलै दे सभनें सदस्ये दे बहुमत कन्नै पास होए दे प्रस्तावे राहें अपने औहदे थमां हटाया जाई सकग:

1. संविधान (पैहली तरमीम) अधिनियम, 1951 दी धारा 9 राहें "हर इक सत्र" दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।

2. संविधान (पैहली तरमीम) अधिनियम, 1951 दी धारा 9 राहें "ते सदन दे होरनें कम्मं पर इस चर्चा गी पैहल देने आस्तै"

भारत दा संविधान
(भाग 6 – रियासतां)

पर खंड (ग) दे मकसद आस्तै कोई प्रस्ताव उसलै तगर पेश नेई कीता जाहग, जिसलै तगर उस प्रस्ताव गी पेश करने दे मकसद दी घट्टो-घट्ट चौहदें दिनें दी सूचना नेई दित्ती गेदी होऐ:

पर बावजूद एहदे, जदूं कदें विधान सभा गी भंग कीता जंदा ऐ ते भंग होने परैत होने आहले विधान सभा दे पैहले इजलास दे ठीक पैहलें तगर अध्यक्ष, अपने औहदे गी खाल्ली नेई करग।

180. उपाध्यक्ष जां कुसै होर व्यक्ति दा अपने कर्तबबे दा पालन करने जां अध्यक्ष दे तौर पर कम्म करने दा अख्तेआर – (1) जिसलै अध्यक्ष दा औहदा खाल्ली ऐ तां उपाध्यक्ष, जां जेकर उपाध्यक्ष दा औहदा बी खाल्ली ऐ तां विधान सभा दा नेहा सदस्य, जिसी राज्यपाल इस मकसद आस्तै नियुक्त करै, उस औहदे दे कर्तबबे दा पालन करग।

(2) विधान सभा दी कुसै बैठकै च अध्यक्ष दी गैर हाजरी च उपाध्यक्ष, जां जेकर ओह बी गैर हाजर ऐ तां नेहा व्यक्ति, जेहड़ा विधान सभा दी प्रक्रिया दे नियमें राहें नर्धारत कीता जा, जां नेहा कोई व्यक्ति हाजर नेई ऐ तां नेहा होर व्यक्ति, जेहड़ा विधान सभा आसेआ नर्धारत कीता जा, अध्यक्ष दे रूपै च कम्म करग।

181. जिसलै अध्यक्ष जां उपाध्यक्ष गी औहदे थमां हटाने दा कोई प्रस्ताव विचार अधीन ऐ उसलै ओहदा पीठासीन नेई होना – (1) विधान सभा दी कुसै बैठकै च, जिसलै अध्यक्ष गी ओहदे औहदे थमां हटाने दा कोई प्रस्ताव विचाराधीन ऐ तां उसलै अध्यक्ष, जां जिसलै उपाध्यक्ष गी ओहदे औहदे थमां हटाने दा कोई प्रस्ताव विचार अधीन ऐ उसलै उपाध्यक्ष, हाजर रौहने पर बी, पीठासीन नेई होग ते अनुच्छेद 180 दे खंड (2) दे प्रावधान नेही हार इक बैठकै दे सरबंधे च लागू होडन, जि'यां ओह उस बैठक दे सरबंधे च लागू होंदे न जिस कन्नै, स्थिति मताबक, अध्यक्ष जां उपाध्यक्ष गैर-हाजर ऐ।

(2) जिसलै अध्यक्ष गी ओहदे औहदे थमां हटाने दा कोई प्रस्ताव विधान सभा च विचाराधीन ऐ उसलै उसी विधान सभा च बोल्लने ते ओहदी कारवाइयें च जां पही हिस्सा लैने दा अधिकार होग ते ओह अनुच्छेद 189 च बावजूद एहदे बी, नेह प्रस्ताव पर जां नेहियें कारवाइयें दरान, कुसै होर विषे पर पैहल दे अधार पर वोट देने दा अधिकार होग पर वोट बराबर होने दी सूरतै च वोट देने दा अधिकार नेई होग।

182. विधान परिषद दा सभापति ते उपसभापति – विधान परिषद् आहली हर इक रियासतै दी विधान परिषद्, तौले थमां तौले अपने द'ऊं सदस्यें गी अपना सभापति ते उपसभापति चुनग ते जदूं-जदूं सभापति ते उपसभापति दा औहदा खाल्ली होंदा ऐ तदूं-तदूं परिषद् कुसै होर सदस्य गी, स्थिति मताबक, सभापति जां उपसभापति चुनग।

183. सभापति ते उपसभापति दा थाहर खाल्ली होना, औहदे थमां इस्तीफा ते औहदे थमां हटाया जाना – विधान परिषद् दे सभापति जां उपसभापति दे रूपै च औहदा धारण करने आहला सदस्य –

(क) जेकर विधान परिषद् दा सदस्य नेई रौहदा ऐ तां अपना औहदा खाल्ली करी देहग;

(ख) कुसै बेल्लै बी, जेकर ओह सदस्य सभापति ऐ तां उपसभापति गी संबोधत ते जेकर ओह सदस्य उपसभापति ऐ तां सभापति गी संबोधत अपने दसखत सनें लिखत रूपै च अपना औहदा खाल्ली करी सकग; ते

(ग) विधान परिषद् दे उसलै दे सभनें सदस्यें दे बहुमत कन्नै पास प्रस्ताव राहें अपने औहदे थमां हटाया जाई सकग;

पर खंड (ग) दे मकसद आस्तै कोई प्रस्ताव तदूं तगर पेश नेई कीता जाहग जदूं तगर उस प्रस्ताव गी पेश करने दी मंषा दी घट्टो-घट्ट चौहदें दिनें दी सूचना नेई दित्ती गेदी होऐ।

184. उपसभापति जां कुसै होर व्यक्ति दा अपने कर्तबबे दा पालन करने जां सभापति दे तौर पर कम्म करने दा अख्तेआर – (1) जिसलै सभापति दा औहदा खाल्ली ऐ तां उपसभापति, जेकर उपसभापति दा बी औहदा खाल्ली ऐ तां विधान परिषद् दा नेहा सदस्य, जिसी राज्यपाल इस मकसद आस्तै नियुक्त करै उस औहदे दे कर्तबबे दा नर्बाह करग।

भारत दा संविधान
(भाग 6 – रियासत)

(2) विधान परिषद् दी कुसै बैठकै च सभापति दी गैर-हाजरी च उपसभापति जां जेकर ओह बी गैर-हाजर ऐ तां नेहा व्यक्ति, जेहड़ा विधान परिषद् दी प्रक्रिया दे नियम राहें नर्धारत कीता जा, जां जेकर नेहा कोई व्यक्ति हाजर नेई ऐ ते नेहा होर व्यक्ति, जेहड़ा विधान परिषद् आसेआ नर्धारत कीता जा, सभापति दे तौर उप्पर कम्म करग।

185. जिसलै सभापति जां उपसभापति गी ओहदे थमां हटाने दा कोई प्रस्ताव विचार अधीन ऐ उसलै ओहदा पीठासीन नेई होना – (1) विधान परिषद् दी कुसै बैठका च जिसलै सभापति गी ओहदे ओहदे थमां हटाने दा कोई प्रस्ताव विचार अधीन ऐ, उसलै सभापति जां जिसलै उपसभापति गी ओहदे ओहदे थमां हटाने दा कोई प्रस्ताव विचार अधीन ऐ उसले उपसभापति मजुद रौहने पर बी पीठासीन नेई होग ते अनुच्छेद 184 दे खंड (2) दे प्रावधान नेही हर इक बैठकै दे सरबंधै च उ'आं गै लागू होउन जि'यां ओह उस बैठकै दे सरबंधै च लागू होंदे न, जिस कन्नै, स्थिति मताबक, सभापति जां उपसभापति गैर-हाजर ऐ।

(2) जिसलै सभापति गी ओहदे ओहदे थमां हटाने दा कोई प्रस्ताव विधान परिषद् च विचार अधीन ऐ उसलै उसी विधान परिषद् च बोल्लने ते जां फही ओहदियें कारवाइयें च हिस्सा लैने दा अधिकार होग ते ओह अनुच्छेद 189 च कुसै गल्लै दे होंदे होई बी, नेह प्रस्ताव पर जां नेहियें कारवाइयें दरान कुसै होर मामले पर पैहल दे अधार पर वोट देने दा हकदार होग, पर वोट बराबर होने दी सूरत च वोट देने दा हकदार नेई होग।

186. अध्यक्ष ते उपाध्यक्ष ते सभापति ते उपसभापति दी तनखाह ते भत्ते – विधान सभा दे अध्यक्ष ते उपाध्यक्ष गी ते विधान परिषद् दे सभापति ते उपसभापति गी नेही तनखाह ते भत्ते, जेहड़ा रियासतै दा विधान-मंडल कन्नूने राहें तैऽ करै ते जिसलै तगर इस नमित्त इस चाल्ली कोई प्रावधान नेई कीता जंदा ऐ, उसलै तगर नेही तनखाह ते भत्ते जेहड़े दूई अनुसूची च टकोहदे दस्से गेदे न, दित्ते जाहडन।

187. रियासत दे विधान-मंडल दा सचिवालय – (1) रियासतै दे विधान-मंडल दे सदन दा जां हर इक सदन दा बक्खरा सचिवी अमला होग :

पर विधान परिषद् आहली रियासतै दे विधान मंडल दी सूरतै च इस खंड दी कुसै गल्लै दा एह मतलब नेई लाया जाहग जे ओह नेह विधान-मंडल दे दौनें सदनें आस्तै सांझे ओहदें दे सिरजन गी रोकदी ऐ।

(2) रियासतै दा विधान-मंडल कन्नूने राहें रियासतै दे विधान-मंडल दे सदन जां सदनें दे सचिवी अमले च भर्ती दा ते नियुक्त व्यक्तियें दियें सेवा दियें शर्तें दा विनियमन करी सकग।

(3) जिसलै तगर रियासतै दा विधान-मंडल खंड (2) दे तैहत प्रावधान नेई करदा ऐ, उसलै तगर राज्यपाल, स्थिति मताबक, विधान सभा दे अध्यक्ष जां विधान परिषद् दे सभापति कन्नै सलाह-सूत्तर करने परैत विधान सभा दे जां विधान परिषद् दे सचिवी अमले च भर्ती दे ते नियुक्त व्यक्ति दी सेवा दियें शर्तें दे विनियमन आस्तै नियम बनाई सकग ते इस चाल्ली बनाए गेदे नियम आखे गेदे खंड दे तैहत बनाए गेदे कुसै कन्नूने दे प्रावधान तैहत असरी होउन।

कम्म संचालन

188. सदस्ये आसेआ सघंद चुक्कना जां प्रतिज्ञा – रियासतै दी विधान सभा जां विधान परिषद् दा हर इक सदस्य अपनी सीट ग्रैहण करने थमां पैहलें राज्यपाल जां ओहदे आसेआ इस नमित्त नियुक्त व्यक्ति दे सामनै, त्री अनुसूची च इस मकसद आस्तै दित्ते गेदे फार्म दे मताबक सघंद चुक्कग जां प्रतिज्ञा लैहग ते ओहदे पर अपने दसखत करग।

189. सदनें च मतदान, खाल्ली थाहरें ते कोरम दे नेई होंदे होई बी सदनें दा कम्म-काज करने दा अख्तेआर – (1) इस संविधान च जि'यां जां फही प्रावधान दे इलावा कुसै रियासतै दे विधान-मंडल दे कुसै सदन दी बैठक

भारत दा संविधान
(भाग 6 – रियासतां)

च सभनें सुआलें गी अध्यक्ष जां सभापति गी जां उस रूपै च कम्म करने आहले व्यक्ति गी छोड़ियै हाजर ते वोट देने आहले सदस्ये दे बहुमत कन्ने नर्धारत कीता जाहग।

अध्यक्ष जां सभापति, जां उस रूपै च कम्म करने आहला व्यक्ति पैहलें वोट नेई देहग पर वोट बराबर होने दी सूरतै च ओहदा फ़ैसलाकुन वोट होग ते ओह ओहदा प्रयोग करग।

(2) रियासतै दे विधान-मंडल दे कुसै सदन दी सदस्यता च कोई थाहर खाल्ली होने पर बी, उस सदन कोल कम्म करने दा अख्तेआर होग ते जेकर बाद च एह पता लगदा ऐ जे कोई व्यक्ति जेहड़ा नेहा करने दा हकदार नेई हा, कारवाइयें च हाजर रेहा ऐ जां उसने वोट दित्ता ऐ जां पही हिस्सा लैता ऐ तां बी रियासतै दे विधान-मंडल दी कारवाई कनूनी तौर उप्पर मान्य होग।

(3) जिसलै तगर रियासतै दा विधान-मंडल कनूनै राहें जां पही कोई होर प्रावधान नेई करै, उसलै तगर रियासत दे विधान-मंडल दे कुसै सदन दा इजलास लाने आस्तै कोरम दस सदस्य जां सदन दे सदस्ये दी कुल गिंतरी दा दसमां हिस्सा, एहदे चा जेहड़ा बी बद्ध होऐ, होग।

(4) जेकर रियासतै दी विधान सभा जां विधान परिषद् दे इजलास च कुसै लै कोरम पूरा नेई ऐ तां अध्यक्ष जां सभापति जां उस रूपै च कम्म करने आहले व्यक्ति दा एह कर्तब्व होग जे ओह सदन गी स्थगत करी देऐ जां इजलास गी उसलै तगर स्थगत करी देऐ, जिसलै तगर कोरम पूरा नेई होई जंदा।

सदस्ये दियां अयोग्यतां

190. सीटें दा खाल्ली होना – (1) कोई व्यक्ति रियासतै दे विधान-मंडल दे दौनें सदनं दा सदस्य नेई होग ते जेहड़ा व्यक्ति दौनें सदनं दा सदस्य चुनी लैता जंदा ऐ ओहदे इक जां दूए सदन दी सीटै गी खाल्ली करने आस्तै उस रियासतै दा विधान-मंडल कनूनै राहें प्रावधान करग।

(2) कोई व्यक्ति पैहली अनुसूची च दस्से गेदे दो जां मतियें रियासतें दे विधान-मंडलें दा सदस्य नेई होग ते जेकर कोई व्यक्ति दो जां बद्ध रियासतें दे विधान-मंडलें दा सदस्य चुनी लैता जंदा ऐ तां नेही औद्ध दे खतम होने दे बाद, जेहड़ी राष्ट्रपति आसेआ बनाए गेदे नियमें¹ च दस्सी जा, नेहियें सभनें रियासतें दे विधान-मंडलें च नेह व्यक्ति दी सीट खाल्ली होई जाहग जेकर उ'न्ने इक रियासतै गी छोड़ियै होर रियासतें दे विधान-मंडलें च अपने थाहरै गी पैहलें गै नेई छोड़ी दित्ते दा ऐ:

(3) जेकर रियासतै दे विधान-मंडल दे कुसै सदन दा सदस्य –

(क) ²[अनुच्छेद 191 दे खंड (2)] च वर्णत कुसै अयोग्यता कन्ने ग्रस्त होई जंदा ऐ, जां

³[(ख) स्थिति मताबक, अध्यक्ष जां सभापति गी संबोधत कीते दे अपने दसखतें सनें, लिखत रूपै च सीटै दा त्याग करदा ऐ ते ओहदा इस्तीफा, स्थिति मताबक, अध्यक्ष जां सभापति आसेआ मंजूर करी लैता जंदा ऐ] तां नेहा होने पर ओहदी सीट खाल्ली होई जाहग:

⁴[पर उपखंड (ख) च दस्से गेदे इस्तीफे दी सूरत च जेकर हासल जानकारी थमां जां पही होर कुसै चाल्ली जां नेही पड़ताल करने दे बाद जेहड़ा ओह ठीक समझै, अध्यक्ष जां सभापति गी, स्थिति मताबक, जेकर संतुष्टी होई जंदा ऐ जे नेहा इस्तीफा अपनी मर्जी कन्ने जां जायज नेई है तां ओह नेह इस्तीफे गी मंजूर नेई करग।]

(4) जेकर कुसै रियासतै दे विधान-मंडल दे कुसै सदन दा सदस्य स'ट्टें दिनें दी औद्ध तगर सदन दी इजाजत बगैर ओहदे सभनें इजलासें थमां गैर-हाजर रौहदा ऐ तां सदन ओहदी सीटै गी खाल्ली घोषत करी सकग;

1. दिक्खो कनून मंत्रालय दी अधिसूचना सं.एफ. 46/50-सी तरीक 26 जनवरी 1950, भारत दी गजट, असधारण, सफा 678 च प्रकाषत समसामयिक सदस्यता रोक नियम, 1950।
2. संविधान (बुं'जमीं तरमीम) अधिनियम, 1985 दी धारा 4 राहें (1-3-1985 थमां) "अनुच्छेद 191 दे खंड (1)" दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।
3. संविधान (तेत्तिमीं तरमीम) अधिनियम, 1974 दी धारा 3 राहें उपखंड (ख) दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।
4. संविधान (तेत्तिमीं तरमीम) अधिनियम, 1974 दी धारा 3 राहें अंतरस्थापत।

भारत दा संविधान
(भाग 6 — रियासतां)

पर स'ट्टे दिनें दी आखी गेदी औद्ध दी गिंतरी करने च कुसै नेही औद्ध गी स्हाबै च नेई लैता जाहग, जेहदे दरान सदन मुलतवी जां लगातार च'ऊं थमां बद्ध दिनें आस्तै स्थगत रौहदा ऐ।

191. सदस्यता आस्तै अयोग्यतां — (1) कोई व्यक्ति कुसै रियासत दी विधान सभा जां विधान परिषद दा सदस्य चुने जाने आस्तै ते सदस्य होने आस्तै अयोग्य होग —

(क) जेकर ओह भारत सरकार दे जां पैहली अनुसूची च चेची दस्सी गेदी कुसै रियासती सरकार दे तैह्त नेह औहदे गी छोड़िये जिसी धारण करने आहले दा अयोग्य नेई होना रियासत दे विधान—मंडल दे कनूनै राहें घोषत कीते दा ऐ, कोई लाह आहला औहदा धारण करदा ऐ;

(ख) जेकर ओह दमागी तौर उप्पर तंदरुस्त नेई ऐ ते समर्थ अदालतै दी नेही घोषना मजुद ऐ;

(ग) जेकर ओह अनछुड़केआ दिवालिया ऐ;

(घ) जेकर ओह भारत दा नागरिक नेई ऐ जां उ'न्ने कुसै बदेपी राज्य दी नागरिकता अपनी मर्जी कन्नै हासल करी लैती दी ऐ जां उ'न्ने कुसै बदेपी मुल्खा दे प्रति निष्ठा जां श्रद्धा गी अंगीकार कीते दा ऐ;

(ङ) जेकर ओह संसद आसेआ बनाए गेदे कुसै कनूनै राहें जां ओहदे तैह्त इस चाल्ली अयोग्य करार देई दित्ता जंदा ऐ।

1[स्पष्टीकरण — इस खंड दे मकसदें आस्तै] कोई व्यक्ति इस कारण भारत सरकार दे जां पैहली अनुसूची च चेचे तौर उप्पर दस्से गेदे कुसै रियासती सरकार दे तैह्त लाह आहला औहदा धारण करने आहला नेई समझेआ जाहग जे ओह संघ दा जां नेही रियासतै दा मंत्री ऐ।

2[(2) कोई व्यक्ति दसमीं अनुसूची दे तैह्त इस चाल्ली अयोग्य होई जंदा ऐ तां ओह कुसै रियासतै दी विधान सभा जां विधान परिषद दा सदस्य होने आस्तै अयोग्य होग]]

3[192. सदस्यें दियें अयोग्यताएं कन्नै सरबंधत सुआलें पर फैसला — (1) जेकर एह सुआल उठदा ऐ जे कुसै रियासत दे विधान—मंडल दे कुसै सदन दा कोई सदस्य अनुच्छेद 191 दे खंड (1) च वर्णत कुसै अयोग्यता कन्नै ग्रस्त होई गेआ ऐ जां नेई तां फैसले आस्तै सुआल राज्यपाल गी भेजेआ जाहग ते ओहदा फैसला खीरी मन्नेआ जाहग।

(2) कुसै सुआलै उप्पर फैसला करने थमां पैहलें राज्यपाल चनांS आयोग दी राS लैहग ते नेही राS दे मताबक कम्म करग।

193. अनुच्छेद 188 दे तैह्त सघंद चुक्कने जां प्रतिज्ञा करने थमां पैहलें जां योग्यता दे नेई होंदे होई जां अयोग्य कीते जाने पर बौहने ते वोट देने आस्तै डन्न — जेकर कुसै रियासत दी विधान सभा जां विधान परिषद च कोई व्यक्ति अनुच्छेद 188 दी जरूरतें गी पूरा करने थमां पैहलें जां एह जानदे होई जे, में ओहदी सदस्यता आस्तै योग्य नेई आं, जां अयोग्य करी दित्ता गेआं जां संसद जां रियासत दे विधान—मंडल आसेआ बनाए गेदे कुसै कनूनै दे प्रावधानें राहें नेहा करने थमां रोकेआ गेआ आं तां जेकर ओह सदस्य दे रूपे च बौहदा ऐ जां वोट दिंदा ऐ तां ओह हर इक दिन आस्तै, जिसलै ओह इस चाल्ली बौहदा जां वोट दिंदा ऐ, पंज सौ रपेS डन्न दा भागी होग जेहड़ा रियासत गी देना, कर्ज दे रूपे च बसूल कीता जाहग।

रियासतें दे विधान—मंडलें त उ'दे सदस्यें दे अख्तेआर, चेचे अधिकार ते उन्मुक्तियां

194. विधान—मंडलें दे सदनें द ते उ'दे सदस्यें ते समितियों दे अख्तेआर, चेचे अधिकार वगैरा — (1) इस संविधान दे प्रावधानें दे ते विधान—मंडल दी प्रक्रिया दा विनियमन करने आहले नियमें ते स्थाई हुकमें तैह्त हर इक रियासतै दे विधान—मंडल च बोल्लने दी अज़ादी होग।

(2) रियासतै दे विधान—मंडल च जां ओहदी कुसै समिति च विधान—मंडल दे कुसै सदस्य आसेआ आखी गेदी कुसै गल्लै दा जां दित्ते गेदे कुसै वोट दे सरबंधे च ओहदे खलाफ कुसै अदालतै च कोई कारवाई नेई कीती जाहग ते कुसै

1. संविधान (बु'जमीं तरमीम) अधिनियम, 1985 दी धारा 5 राहें (1-3-1985 थमां) "(2) इस अनुच्छेद दे मकसदें आस्तै" दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।

2. संविधान (बु'जमीं तरमीम) अधिनियम, 1985 दी धारा 5 राहें (1-3-1985 थमां) अंतरस्थापत।

3. अनुच्छेद 192, संविधान (बतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 33 राहें (3-1-1977 थमां) ते मगरा संविधान (चरतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 25 राहें (20-6-1979 थमां) तरमीम होइयै उप्पर आखे गेदे रूपे च आया।

भारत दा संविधान
(भाग 6 — रियासतां)

व्यक्ति खलाफ नेह विधान—मंडल दे कुसै सदन दे प्राधिकारी आसेआ जां ओहदे तैहत कुसै रपोट, पत्र, वोटें जां कारवाइयें दे प्रकाषन दे सरबंधें च इस चाल्ली दी कोई कारवाई नेई कीती जाहग।

(3) होरनें मामलें दे सरबंधें च रियासतें दे विधान—मंडल दे कुसै सदन दी ते नेह विधान—मंडल दे कुसै सदन दे सदस्यें ते समितियें दे अख्तेआर, खास अधिकार ते उन्मुक्तियां नेहियां होडन जेहड़ियां विधान—मंडल समें—समें पर कनूनै राहें निष्चित करै ते जिसलै तगर ओह इस चाल्ली निष्चित नेई कीतियां जंदियां न उसलै तगर ¹[उ'ऐ होडन जेहड़ियां संविधान (चरतालामी तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 26 दे चलन च होने थमां ठीक पैहलें उस सदन दी ते ओहदे सदस्यें ते समितियें दियां हियां।]

(4) जि'नें व्यक्तियें गी इस संविधान दे अधार पर रियासतें दे विधान—मंडल दे कुसै सदन जां ओहदी कुसै समिति च बोल्लने दा ते ओहदी कारवाइयें च जां पही हिस्सा लैने दा अधिकार ऐ, उ'दे सरबंधें च खंड (1), खंड (2) ते खंड (3) दे प्रावधान उससै चाल्ली लागू होडन, जिस चाल्ली ओह उस विधान—मंडल दे सदस्यें दे सरबंधें च लागू होंदे न।

195. सदस्यें दियां तनखाहीं ते भत्ते — रियासतें दी विधान सभा ते विधान परिषद् दे सदस्य नेही तनखाह ते भत्ते लैने दे हकदार होडन जि'नें गी रियासतें दे विधान—मंडल आसेआ कनूनै राहें बेल्लै—बेल्लै सिर तैऽ कीता गेदा होग ते जदूं तगर इस सरबंधें च इस चाल्ली दा कोई प्रावधान नेई कीता जंदा ऐ तदूं तगर नेही तनखाह ते भत्ते नेहियें दरें ते नेहियें शर्तें पर जेहड़े उस थाहरै दे प्रांते दी विधान सभा दे सदस्यें गी इस संविधान दे रम्भ थमां ठीक पैहलें लागू हे हासल करने दे हकदार होडन।

विधायी प्रक्रिया

196. बिल्लं दे पेश ते पास कीते जाने दे सरबंधें च प्रावधान —(1) धन बिल्लें ते वित्त बिल्लें दे सरबंधें च अनुच्छेद 198 ते अनुच्छेद 207 दे प्रावधानें तैहत, कोई बिल्ल विधान परिषद् आहली रियासतें दे विधान—मंडल दे कुसै बी सदन च रम्भ होई सकग।

(2) अनुच्छेद 197 ते अनुच्छेद 198 दे प्रावधानें तैहत कोई बिल्ल विधान परिषद् आहली रियासतें दे विधान—मंडल दे सदनें आसेआ उसलै तगर पास कीता गेदा नेई समझेआ जाहग, जिसलै तगर तरमीम बगैर जां छडी नेही तरमीमें सनें, जि'दे पर दवै सदन सैहमत होई गेदे न, उस पर दवै सदन सैहमत नेई होई जंदे न।

(3) कुसै रियासतें दे विधान—मंडल च बकाया बिल्ल ओहदे सदन जां सदनें दे सत्रें दे स्थगन दे कारण रद्द नेई होग।

(4) कुसै रियासत दी विधान परिषद् च बकाया बिल्ल, जिसी विधान सभा ने पास नेई कीते दा ऐ विधान सभा दे भंग होने पर रद्द नेई होग।

(5) कोई बिल्ल जेहड़ा कुसै रियासतें दी विधान सभा च बकाया ऐ जां जिसी विधान सभा ने पास करी दित्ते दा ऐ ते विधान परिषद् च बकाया ऐ, विधान सभा दे भंग होने पर रद्द होई जाहग।

197. धन बिल्लं थमां बक्ख बिल्लं दे बारे च विधान परिषद् दे अख्तेआरें पर रोक — (1) जेकर विधान परिषद् आहली रियासत दी विधान सभा आसेआ कुसै बिल्लै दे पास कीते जाने ते विधान परिषद् गी भेजी दित्ते जाने दे बाद —

(क) विधान परिषद् आसेआ बिल्ल ना—मंजूर करी दित्ता जंदा ऐ, जां

(ख) विधान परिषद् अगमें बिल्ल रक्खे जाने दी तरीक थमां उस आसेआ बिल्ल पास कीते बगैर त्र'ऊं म्हीने थमां बद्ध बीती गेदे न, जां

(ग) विधान परिषद् आसेआ बिल्ल नेही तरमीमें सनें पास कीता जंदा ऐ जि'दे'ने विधान सभा सैहमत नेई हुंदी ऐ, तां विधान सभा बिल्लै गी अपनी प्रक्रिया दा विनियमन करने आहले नियमें दे अधीन रौहदे होई उसी कुसै परैत्तरी सत्र च नेहियें तरमीमें सनें जां ओहदे बगैर जेकर कोई होन, जेहड़े विधान परिषद् ने कीते दे न, सुझाए न

1. संविधान (चरतालामी तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 26 राहें (20—6—1979 थमां) किष षब्दें दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।

भारत दा संविधान
(भाग 6 – रियासतां)

जां जिंदे कन्नै विधान परिषद् सैहमत ऐ, परतियै पास करी सकग ते उसलै इस चाल्ली पास कीते गेदे बिल्लै गी विधान परिषद् गी भेजी सकग।

(2) जेकर विधान सभा आसेआ बिल्ल इस चाल्ली परतियै पास करी दित्ते जाने ते विधान परिषद् गी भेजे जाने परैत्त

(क) विधान परिषद् आसेआ बिल्ल ना-मंजूर करी दित्ता जंदा ऐ, जां

(ख) विधान परिषद् अगं बिल्ल रक्खे जाने दी तरीक थमां, इस आसेआ बिल्ल पास कीते बगैर, म्हीने थमां बद्ध बीती गेआ ऐ, जां

(ग) विधान परिषद् आसेआ बिल्ल नेही तरमीमें सनें पास कीता जंदा ऐ जिंदे कन्नै विधान सभा सैहमत नेई हुंदी ऐ,

तां बिल्ल रियासतै दे विधान-मंडल दे सदनें आसेआ नेही तरमीमें सनें, जेकर कोई होन, जेहड़ियां विधान परिषद् ने कीतियां न जां सुझाइयां न ते जिंदे कन्नै विधान सभा सैहमत ऐ, उस रूपै च पास कीता गेदा समझेआ जाहग जिस च ओह विधान सभा आसेआ परतियै पास कीता गेआ हा।

(3) इस अनुच्छेद दी कोई गल्ल धन बिल्लै उप्पर लागू नेई होग।

198. धन बिल्लं दे सरबंधै च चेची प्रक्रिया – (1) धन बिल्ल विधान परिषद् च पेष नेई कीता जाहग।

(2) धन सरबंधी बिल्ल विधान परिषद् आहली रियासतै दी विधान सभा आसेआ पास कीते जाने परैत्त विधान परिषद् गी ओहदी सफारषें आस्तै भेजेआ जाहग ते विधान परिषद्, बिल्ल हासल होने दी तरीक थमां चौहदें दिनें दी औद्ध दे अंदर बिल्लै गी अपनी सफारषें सनें विधान सभा गी परताई देहग ते नेहा होने पर विधान सभा, विधान परिषद् दियें सभनें जां कुंन सफारषें गी मंजूर जां ना-मंजूर करी सकग।

(3) जेकर विधान सभा, विधान परिषद् दी कुसै सफारष गी मंजूर करी लैदी ऐ तां धन बिल्ल विधान परिषद् आसेआ सफारष कीते गेदे ते विधान सभा आसेआ मंजूर कीतियें गेदियें तरमीमें सनें दौनें सदनें आसेआ पास कीता गेदा समझेआ जाहग।

(4) जेकर विधान सभा, विधान परिषद् दी कुसै बी सफारष गी मंजूर नेई करदी तां धन बिल्ल, विधान परिषद् आसेआ सफारष कीती गेदी कुसै तरमीमें बगैर दौनें सदनें आसेआ उस्सै रूपै च पास कीता गेदा समझेआ जाहग जेहदे च ओह विधान सभा आसेआ पास कीता गेआ हा।

(5) जेकर विधान सभा आसेआ पास ते विधान परिषद् गी ओहदी सफारषें आस्तै भेजेआ गेदा धन बिल्ल आखी गेदी चौहदें दिनें दी औद्ध दे अंदर बापस विधान सभा च नेई परताया जंदा ऐ तां आखी गेदी औद्ध दी समाप्ति पर ओह दौनें सदनें राहें उस्सै रूपै च पास कीता गेदा समझेआ जाहग, जेहदे च ओह विधान सभा आसेआ पास कीता गेआ हा।

199. "धन बिल्ल" दी परिभाशा – (1) इस ध्याऽ दे मकसदें आस्तै कोई बिल्ल धन बिल्ल समझेआ जाहग जेकर ओहदे च छडे हेठ लिखे दे सभनें जां कुंन विषें कन्नै सरबंधत प्रावधान न, अर्थात् :-

(क) कुसै टैक्स गी लाना, खतम करना, माफ करना, फेर-बदल करना जां नियमित करना;

(ख) रियासतै आसेआ धन दोहार लैने दा जां कोई गरंटी देने दा विनियमन जां रियासतै आसेआ अपने पर लैती गेदी जां लैती जाने आहली कुंन माल्ली मजबूरियें कन्नै सरबंधत कन्नै दी तरमीम;

भारत दा संविधान
(भाग 6 – रियासतां)

- (ग) राज्य दे कठेरमें कोष जां चान-चक्की कोष दी हिफाजत, नेह कुसै कोष च धन ज'मा करना जां ओहदे चा धन कडढना;
- (घ) राज्य दे कठेरमें कोष चा धनै दा विनियोग;
- (ङ) कुसै खर्च गी रियासतै दे कठेरमे कोष उप्पर भार पाने आह्ला खर्चा घोषत करना जां नेह कुसै खर्च दी रकमै गी बधाना;
- (च) राज्य दे कठेरमे कोष जां रियासतै दे सार्वजनक खातें राहें धन हासल करना जां नेह धनै दी हिफाजत जां उसी जारी करना ; जां
- (छ) उपखंड (क) थमां उपखंड (च) च चेचे दस्से गेदे कुसै विषे दा घटनात्मी कोई मामला ।
- (2) कोई बिल्ल सिर्फ इस लेई धन बिल्ल नेई समझेआ जाहग जे ओह जरमाने जां होर दूर धन सरबन्धी डन्न गी लाने दा जां लाइसैंसें आस्तै फीसैं दी जां दित्ती गेदी सेवाएं आस्तै फीसैं दी मंग दा जां उं'दे भुगतान दा प्रावधान करदा ऐ जां इस कारण धन बिल्ल नेई समझेआ जाहग जे ओह कुसै मुकामी प्राधिकारी जां अदारे आसेआ प्रयोजनं आस्तै कुसै टैक्स गी लाने, खतम करने, माफ करने, फेर-बदल करने जां विनियमन करने दा प्रावधान करदा ऐ ।
- (3) जेकर एह सुआल उठदा ऐ जे विधान परिषद् आहली कुसै रियासतै दे विधान-मंडल च पेष कीता गेदा कोई बिल्ल धन बिल्ल ऐ जां नेई तां उस उप्पर उस रियासतै दी विधान सभा दे अध्यक्ष दा फौसला खीरी होग ।
- (4) जिसलै धन बिल्ल अनुच्छेद 198 दे तैहूत विधान परिषद् आहली कुसै रियासतै दी विधान परिषद् गी भेजेआ जंदा ऐ ते जिसलै ओह अनुच्छेद 200 दे तैहूत इजाजत आस्तै राज्यपाल अगमें पेष कीता जंदा ऐ तां हर इक धन बिल्लै उप्पर विधान सभा दे अध्यक्ष दे दसखतें सनें एह प्रमाण-पत्तर दित्ता जाहग जे ओह धन बिल्ल ऐ ।

200. बिल्ल गी मंजूरी – जिसलै कोई बिल्ल रियासतै दी विधान सभा आसेआ जां विधान परिषद् आहली रियासतै च विधान-मंडल दे दौनें सदनें आसेआ पास करी दित्ता गेआ ऐ उसलै ओह राज्यपाल अगमें पेष कीता जाहग ते राज्यपाल घोषत करग जे ओह बिल्लै पर मंजूरी दिंदा ऐ जां मंजूरी रोककी लैंदा ऐ जां ओह बिल्लै गी राष्ट्रपति दे विचार आस्तै मखसूस रखदा ऐ:

पर राज्यपाल मंजूरी आस्तै अपने अगमें बिल्ल पेष कीते जाने परैत तौले गै उस बिल्लै गी, जेकर ओह धन बिल्ल नेई है तां सदनें जां सदनें गी इस सनेह कन्ने परताई सकग जे सदनें जां दोऐ सदनें बिल्ल उप्पर जां ओहदे कुनें चेचे दस्से गेदे प्रावधानें उप्पर परती विचार करन ते खास तौर उप्पर कुनें नेही तरमीमें गी पेष करने दी जरूरत उप्पर विचार करन जिं'दी उं'ने अपने सनेह च सफारष कीती दी ऐ । ते जिसलै बिल्ल इस चाल्ली परताई दित्ता जंदा ऐ उसलै सदनें जां दोऐ सदनें बिल्ल उप्पर, स्थिति मताबक, परती विचार करडन ते जेकर बिल्ल सदनें जां सदनें आसेआ तरमीम सनें जां ओहदे बगैर परतियै पास करी दित्ता जंदा ऐ ते राज्यपाल उस पर मंजूरी गी नेई रोकग:

पर एह होर जे जिस बिल्लै कन्ने, ओहदे कनून बनी जाने पर राज्यपाल दी राऽ च उच्च अदालत दे अख्तेआरें दा नेहा घट्ट होना होग जे ओह थाहर जेहदी पूर्ति आस्तै, ओह अदालत इस संविधान आसेआ परिकल्पित ऐ, उस पर खतरा बनी जाहग, उस बिल्ल उप्पर राज्यपाल मंजूरी नेई देहग, पर उसी राष्ट्रपति दे विचार आस्तै मखसूस रखग ।

201. विचार आस्तै आरक्षित बिल्ल – जिसलै कोई बिल्ल राज्यपाल आसेआ राष्ट्रपति दे विचार आस्तै मखसूस रखी लैता जंदा ऐ उसलै राष्ट्रपति घोषत करग जे ओह बिल्ल उप्पर मंजूरी दिंदा ऐ जां मंजूरी रोककी लैंदा ऐ:

पर जित्थै बिल्ल, धन बिल्ल नेई ऐ उत्थै राष्ट्रपति, राज्यपाल गी एह हिदायत देई सकग जे ओह बिल्ल गी, स्थिति मताबक, रियासत दे विधान-मंडल दे सदनें जां सदनें गी नेह सनेह कन्ने जेहड़ा अनुच्छेद 200 दे पैहले परंतुक च वर्णत ऐ, परताई देऐ ते जिसलै कोई बिल्ल इस चाल्ली परताई दित्ता जंदा ऐ उसलै नेहा सनेहा थहोने दी तरीक थमां छें म्हीने दी औद्ध दे अंदर, सदनें जां सदनें आसेआ उस उप्पर, ओहदे मताबक, परतियै विचार कीता जाहग ते जेकर ओह सदनें जां सदनें आसेआ तरमीम सनें जां ओहदे बगैर फही पास करी दित्ता जंदा ऐ तां उसी राष्ट्रपति अगमें ओहदे विचार आस्तै परतियै पेष कीता जाहग ।

भारत दा संविधान
(भाग 6 – रियासतां)

माल्ली मामलें दे सरबंध च प्रक्रिया

202. सलाना माल्ली ब्यौरा – (1) राज्यपाल हर इक माल्ली ब'रे दे सरबंधे च रियासतै दे विधान-मंडल दे सदन जां सदनें अगें उस रियासतै दी उस ब'रे आस्तै अंदाजन पावतियें ते खर्चे दा ब्यौरा रखोआहग जिसी इस हिस्से च "सलाना माल्ली ब्यौरा" आखेआ गेदा ऐ।

(2) सलाना माल्ली ब्यौरे च दित्ते गेदे खर्चे दे अंदाजें च –

(क) इस संविधान च राज्य दे कठेरमे कोष उप्पर भार आहले खर्चे दे रूपै च दस्से गेदे खर्चे दी पूर्ति आस्तै लोडचदियां रकमां, ते

(ख) राज्य दे कठेरमें कोष चा कीते जाने आस्तै प्रस्तावत दूए खर्चे दी पूर्ति आस्तै लोडचदियां रकमां बकख-बकख दस्सियां जाहडन ते राजस्व लेखे होने आहले खर्चे दा होर दूए खर्चे थमां फर्क कीता जाहग।

(3) हेठ लिखे दा खर्चा हर इक रियासतै दे कठेरमे कोष पर भार पाने आहला खर्चा होग, अर्थात् :-

(क) राज्यपाल दे मेहनताने ते भत्ते ते ओहदे औहदे कन्नै सरबंधत होर दूए खर्चे;

(ख) विधान सभा दे अध्यक्ष ते उपाध्यक्ष दे ते विधान परिषद् आहली रियासतै दी सूरतै च विधान परिषद् दे सभापति ते उपसभापति दी बी तनखाह ते भत्ते;

(ग) नेह कर्ज-भार जिं दी जिम्मेवारी रियासतै उप्पर ऐ, जिं दे तैह्त ब्याज, डुबदे खजाने दा भार, रकम देइयै कर्ज छडाने आहला भार ते दोहार लैने ते कर्ज सेवा ते कर्ज छडाने कन्नै सरबंधत खर्चे न;

(घ) कुसै उच्च अदालतै दे जज्जें दियें तनखाहियें ते भत्ते दे सरबंधे च खर्चे;

(ङ) कुसै अदालत जां मध्यस्थता करने आहली अदालतै दे फैसेले, डिक्री जां स'जा दी तसल्ली आस्तै लोडचदियां रकमां;

(च) कोई होर खर्चा जेहड़ा इस संविधान आसेआ जां रियासतै दे विधान-मंडल आसेआ कन्नै राहें इस चाल्ली भार पौने आहला घोषत कीता जंदा ऐ।

203 विधान-मंडल च अनुमानें दे सरबंधे च प्रक्रिया – (1) अनुमानें चा जिन्नं बी अनुमान रियासतै दे कठेरमे कोष उप्पर भार पौने आहले खर्चे कन्नै सरबंधत न, ओह विधान सभा च मतदान आस्तै नेई रक्खे जाहडन, पर इस खंड दी कुसै गल्लै दा एह अर्थ नेई लाया जाहग जे ओह विधान-मंडल च उ'नें अनुमानें चा कुसै अनुमान उप्पर चर्चा गी रोकदी ऐ।

(2) आखे गेदे अनुमानें चा जिन्नं अनुमान होर खर्चे कन्नै सरबंधत न, ओह विधान सभा अगें अनुदानें दी मंगें दे रूपै च रक्खे जाहडन ते विधान सभा गी अख्तेआर होग जे ओह कुसै मंगै गी मंजूरी देरे जा मंजूरी देने थमां इंकार करी देरे, जां कुसै मंगै गी ओहदे च चेची दस्सी गेदी रकमै गी घट्ट करियै मंजूरी देरे।

(3) कुसै अनुदान दी मंग राज्यपाल दी सफारष उप्पर गै कीती जाहग नेई तां नेई।

204. विनियोग बिल्ल – (1) विधान सभा आसेआ अनुच्छेद 203 दे तैह्त अनुदान कीते जाने परैत तौले थमां तौले रियासतै दे कठेरमे कोष चा –

(क) विधान सभा आसेआ इस चाल्ली कीते गेदे अनुदानें दी, ते

भारत दा संविधान
(भाग 6 – रियासतां)

(ख) राज्य दे कठेरमे कोष उप्पर भार पाने आहली, पर सदन जां सदनं अगं पैहलें रक्खे गेदे ब्यौरे च दस्सी गेदी रकमै चा, कुसै बी सूरतै च घट्ट खर्चै दी पूर्ति आस्तै लोडचदी सारी रकमं दे विनियोग दा सरिस्ता करने आस्तै बिल्ल पेष कीता जाहग।

(2) इस चाल्ली कीते गेदे कुसै अनुदान दी रकमै च तब्दीली करने जां अनुदान दे लक्ष्य गी बदलने जां राज्य दे कठेरमे कोष उप्पर भार पाने आहले खर्चै दी रकमै च तब्दीली करने दा असर रक्खने आहली कोई तरमीम, नेह कुसै बिल्लै च रियासतै दे विधान—मंडल दे सदन च जां कुसै सदन च प्रस्तावत नेई कीती जाहग ते पीठासीन व्यक्ति दा इस बारै फैसला खीरी होग जे कोई तरमीम इस खंड दे तैहत ग्रैहण करने जोग है जां नेई।

(3) अनुच्छेद 205 ते अनुच्छेद 206 दे प्रावधानें तैहत रियासत दे कठेरमे कोष चा इस अनुच्छेद दे प्रावधानें दे मताबक पास कनूनै राहें कीते गेदे विनियोग दे तैहत गै कोई रकम कड्डी जाहग, नेई तां नेई।

205. जिमनी, बादधू जां मता अनुदान – (1) जेकर –

(क) अनुच्छेद 204 दे प्रावधानें मताबक बनाए गेदे कुसै कनूनै राहें कुसै खास सेवा उप्पर चालू माल्ली ब'रे आस्तै खर्च कीते जाने आस्तै प्राधिकृत कोई रकम उस ब'रे दे मकसदें आस्तै नाकाफी पाई जंदी ऐ जां उस ब'रे दे सलाना माल्ली ब्यौरे च ध्यानै च नेई रक्खी गेदी कुसै नमीं सेवा उप्पर जिमनी जां बादधू खर्चै दी चालू माल्ली ब'रे दरान जरूरत पैदा होई गेदी ऐ, जां –

(ख) कुसै माल्ली ब'रे दरान कुसै सेवा उप्पर उस ब'रे ते उस सेवा आस्तै अनुदान कीती गेदी रकमै थमां मता कोई धन खर्च होई गेआ ऐ,

तां राज्यपाल, स्थिति मताबक, रियासती विधान—मंडल दे सदन जां सदनं अगं उस खर्चै दी अंदाजन रकमै गी दस्सने आहला दूआ ब्यौरा रखोआहग जां रियासती विधान सभा च नेह बादधे आस्तै मंग पेष करोआहग।

(2) नेह कुसै ब्यौरे ते खर्च जां मंग दे सरबंधै च ते रियासतै दे कठेरमे कोष चा नेह खर्च जां नेही मंग कन्नै सरबंधत अनुदान दी पूर्ति आस्तै धनै दे विनियोग प्राधिकृत करने आस्तै बनाए जाने आहले कुसै कनूनै दे सरबंधै च बी अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 203 ते अनुच्छेद 204 दे प्रावधान उ'आं गै असरी होउन जि'यां ओह सलाना माल्ली ब्यौरे ते ओहदे च वर्णत खर्चै दे सरबंधै च जां कुसै अनुदान दी कुसै मंगै दे सरबंधै च ते रियासतै दे कठेरमे कोष चा नेह खर्चै जां अनुदान दी पूर्ति आस्तै धनै दे विनियोग प्राधिकृत करने आस्तै बनाए जाने आहले कनूनै दे सरबंधै च असरी न।

206. लेखा अनुदान, ज'मा खाता अनुदान ते अपवाद अनुदान – (1) इस ध्याऽ दे पछेत्तरे प्रावधानें च बावजूद एहदे कुसै रियासत दी विधान सभा गी –

(क) कुसै माल्ली ब'रे दे हिस्से आस्तै अंदाजन खर्चै दे सरबंधै च कोई अनुदान, उस अनुदान आस्तै मतदान करने आस्तै अनुच्छेद 203 च शामिल प्रक्रिया दे पूरा होने तगर ते उस खर्चै दे सरबंधै च अनुच्छेद 204 दे प्रावधानें दे मताबक कनूनै दे पास होने तगर पैहलें देने दी;

(ख) जिसलै कुसै सेवा दी म्हत्ता जां ओहदे चानकी रूपै कारण मंग नेह ब्यौरे कन्नै वर्णत नेई कीती जाई सकदी ऐ जेहड़ा सलाना माल्ली ब्यौरे च आमतौर पर दित्ता जंदा ऐ, उसलै रियासतै दी जायदाद दे स्रोतें पर चानकी मंगै दी पूर्ति आस्तै अनुदान करने दी;

(ग) कुसै माल्ली ब'रे दी चालू सेवा दा जेहड़ा अनुदान हिस्सा नेई ऐ नेहा कोई अपवाद अनुदान करने दा अख्तेआर होग ते जि'नं मकसदें आस्तै आखे गेदे अनुदान कीते गे न, उ'दे आस्तै रियासतै दे कठेरमे कोष चा धन कड्डना, कनूनै राहें प्राधिकृत करने दा रियासती विधान—मंडल कोल अख्तेआर होग।

भारत दा संविधान
(भाग 6 – रियासतां)

(2) खंड (1) दे तैहत् कीते जाने आहले कुसै अनुदान ते उस खंड दे तैहत् बनाए जाने आहले कुसै कनूनै दे सरबंधे च अनुच्छेद 203 ते अनुच्छेद 204 दे प्रावधान उ'आं गै असरी होडन जि'यां ओह सलाना माल्ली ब्यौरे च वर्णत कुसै खर्चे दे बारे च कोई अनुदान करने दे सरबंधे च ते रियासतै दे कठेरमे कोष चा नेह खर्चे दी पूर्ति आस्तै धनै दा विनियोग प्राधिकृत करने आस्तै बनाए जाने आहले कनूनै दे सरबंधे च असरी न।

207. माल्ली बिल्लं दे बारे च चेचे प्रावधान – (1) अनुच्छेद 199 दे खंड (1) दे उपखंड (क) थमां उपखंड (च) च चेचे दस्से गेदे कुसै मामले आस्तै प्रावधान करने आहला बिल्ल जां तरमीम राज्यपाल दी सफारष कन्नै गै पेष जां प्रस्तावत कीता जाहग जां पही नेई, ते नेहा प्रावधान करने आहला बिल्ल विधान परिषद् च पेष नेई कीता जाहग:

पर कुसै टैक्स दे घटाने जां खतम करने आस्तै प्रावधान करने आहली कुसै तरमीम दे प्रस्ताव आस्तै इस खंड दे तैहत् सफारष दी लोड़ नेई होग।

(2) कोई बिल्ल जां तरमीम आखे गेदे कुसै मामले आस्तै प्रावधान करने आहला छड़ा इस कारण नेई समझेआ जाहग जे ओह जरमाने जां होर धन सरबंधी डन्न दे लाने दा जां लाइसेंस आस्तै फीसें दी जां कीती गेदी सेवाएं आस्तै फीसें दी मंग दा जां उ'नेंगी दित्ते जाने दा प्रावधान करदा ऐ जां इस कारण नेई समझेआ जाहग जे ओह कुसै मुकामी प्राधिकारी जां अदारे आसेआ मुकामी मकसदें आस्तै कुसै टैक्स गी लाने, खतम करने, माफ करने, फेर-बदल जां विनियमित करने दा प्रावधान करदा ऐ।

(3) जिस बिल्ल गी अधिनियमित ते फेर-बदल करने पर रियासतै दे कठेरमे कोष चा खर्च करना पौग ओह बिल्ल रियासतै दे विधान-मंडल दे कुसै सदन आसेआ उसलै तगर पास नेई कीता जाहग जिसलै तगर नेह बिल्ल उपपर विचार करने आस्तै उस सदन थमां राज्यपाल ने सफारष नेई कीती ऐ।

आमतौरै पर अपनाई जाने आहली प्रक्रिया

208 प्रक्रिया द नियम – (1) इस संविधान दे प्रावधानें दे तैहत् रौहदे होई, रियासती विधान-मंडल दा कोई सदन अपनी प्रक्रिया ते अपने कम्मै दे संचालन दे विनियमन आस्तै नियम बनाई सकग।

(2) जिसलै तगर खंड (1) दे तैहत् नियम नेई बनाए जंदे न, उसलै तगर इस संविधान दे रम्भ थमां ठीक पैहलें उस-थाहरी प्रांत दे विधान-मंडल दे सरबंधे च जेहड़ी प्रक्रिया दे नियम ते स्थाई हुकम लागू हे ओह नेह सुधारें ते अनुकूलनं दे तैहत् रौहदे होई उस रियासत दे विधान-मंडल दे सरबंधे च असरी होडन जि'नेगी, स्थिति मताबक, विधान सभा दा अध्यक्ष जां विधान परिषद् दा सभापति तैऽ करै।

(3) राज्यपाल, विधान परिषद् आहली रियासत च विधान सभा दे अध्यक्ष ते विधान परिषद् दे सभापति कन्नै सलाह-सूत्र करने परैत्त, दौनें सदनें च आपसी संचार कन्नै सरबंधत प्रक्रिया दे नियम बनाई सकग।

209. रियासती विधान-मंडल च माल्ली कम्मै सरबंधी प्रक्रिया दा कनून राहें विनियमन – कुसै रियासतै दा विधान-मंडल, माल्ली कम्मै गी बेल्लै सिर पूरा करने दे मकसद आस्तै कुसै माल्ली मामले कन्नै सरबंधत जां रियासतै दे कठेरमे कोष चा धनै दा विनियोग करने आस्तै कुसै बिल्लै कन्नै सरबंधत, रियासतै दे विधान-मंडल दे सदन जां सदनें दी प्रक्रिया ते कम्म संचालन दा विनियमन कनूनै राहें करी सकग ते जेकर ते जित्थूं तगर इस चाल्ली बनाए गेदे कनूनै दा कोई प्रावधान अनुच्छेद 208 दे खंड (1) दे तैहत्, रियासतै दे विधान-मंडल दे सदन जां कुसै सदन आसेआ बनाए गेदे नियम कन्नै जां उस अनुच्छेद दे खंड (2) दे तैहत् रियासतै दे विधान-मंडल दे सरबंधे च असरी कुसै नियम जां स्थाई हुकमै कन्नै असंगत ऐ तां ते उत्थूं तगर नेहा प्रावधान लागू होग।

210. विधान-मंडल च बरतोने आहली भाशा – (1) भाग 17 च बावजूद एहदे, पर अनुच्छेद 348 दे प्रावधानें दे तैहत् रौहदे होई, रियासती विधान-मंडल च कम्म रियासत दी राजभाषा जां राजभाषाएं च जां हिंदी जां अंग्रेजी च कीता जाहग:

भारत दा संविधान
(भाग 6 – रियासतां)

पर, स्थिति मताबक, विधान सभा दा अध्यक्ष जां विधान परिषद् दा सभापति जां कोई उस रूपे च कम्म करने आह्ला शख्स, कुसै सदस्य गी जेहड़ा पैहलें आखी गेदी भाषाएं च अपनी स्हेई अभिव्यक्ति नेई करी सकदा ऐ, अपनी मात्तरी भाषा च सदन गी संबोधत करने दी आज्ञा देई सकग।

(2) जिसलै तगर रियासतै दा विधान-मंडल कनूनै राहें जां पही प्रावधान नेई करै उसलै तगर इस संविधान दे रम्भ थमां पं'दरें ब'रें दी औद्ध दे मुक्कने परैत एह अनुच्छेद इ'यां असरी होग, जि'यां आखो "जां अंग्रेजी च" शब्दें दा ओहदे च लोप करी दित्ता गोआ होऐ;

¹[पर ²[हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय ते त्रिपुरा रियासतें दे विधान-मंडलें]] दे सरबंधे च एह खंड इस चाल्ली असरी होग, जि'यां एहदे च औने आहले "पंदरां ब'रे" शब्दें दे थाहरै पर "पं'जी ब'रे" शब्द रक्खी दित्ते गे होन :]

³[पर बावजूद एहदे ⁴[अरुणाचल प्रदेश, गोआ ते मिजोरम ⁵[रियासतें दे विधान-मंडलें]] दे सरबंधे च एह खंड इस चाल्ली असरी होग जि'यां आखो इस च औने आहले "पंदरां ब'रे" शब्दें दी थाहर "चाहली ब'रे" शब्द रक्खी दित्ते गेदे होन।]

211. विधान-मंडल च चर्चा पर रोक — सर्वोच्च अदालतै जां कुसै उच्च अदालतै दे कुसै जज्जै दे अपने कर्तबे दे पालन च कीते गेदे, आचरण दे मामले च रियासतै दे विधान-मंडल च कोई चर्चा नेई होग।

212. अदालतें आसेआ विधान-मंडल दियें कारवाइयें दी पड़ताल नई कीती जानो — (1) रियासतै दे विधान-मंडल दी कुसै कारवाई दी कनूनी मानता दी प्रक्रिया उप्पर कुसै तथाकथित अनियमितता दे अधार उप्पर सुआल नेई पुट्टेआ जाहग।

(2) रियासत दे विधान-मंडल दा कोई अधिकारी जां सदस्य, जेहदे कोल संविधान आसेआ जां एहदे तैहत उस विधान-मंडल च प्रक्रिया जां कम्म संचालन दा विनियमन करने दा जां व्यवस्था बनाई रक्खने दा अधिकार प्राप्त ऐ, उ'नें अख्तेआरें दे अपने आसेआ बरतून दे मामले च कुसै अदालतै दी अधिकारता दे तैहत नेई होग।

ध्याऽ 4 – राज्यपाल दे विधायी अख्तेआर

213. विधान-मंडल दे बसांऽ-काल च अध्यादेश जारी करने दा राज्यपाल दा अख्तेआर — (1) उस समें गी छोड़िये जिसलै कुसै रियासत दी विधान सभा दा सत्र जारी ऐ जां विधान परिषद् आहली रियासत च विधान-मंडल दे दवें सदन, सत्र च न, जेकर कुसै'लै राज्यपाल गी एह संतुष्टी होई जंदी ऐ जे नेह हलात मजूद न जि'दे कारण उससै'लै कारवाई करना ओहदे आस्तै जरूरी होई गोआ ऐ तां ओह नेह अध्यादेश जारी करी सकग जेहड़े उसी उ'नें हलातें च लोड़चदे मसूस होन :

पर राज्यपाल, राष्ट्रपति दी हिदायतें बगैर कोई नेहा अध्यादेश जारी नेई करग जेकर —

(क) उ'ऐ नेह प्रावधान शामिल करने आहले बिल्ल गी विधान-मंडल च पेष कीते जाने आस्तै राष्ट्रपति दी पुज्ज मंजूरी दी लोड़ इस संविधान तैहत हुंदी; जां

(ख) ओह उ'ऐ जनेह गै प्रावधान शामिल करने आहले बिल्ल गी राष्ट्रपति दे विचार आस्तै मख्सूस रक्खना जरूरी समझदा ऐ; जां

-
1. हिमाचल प्रदेश रियासत अधिनियम, 1970 (1970 दे 53) दी धारा 46 राहें (25-1-1971 थमां) अंतरस्थापत।
 2. पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुढ-गठन) अधिनियम, 1971 (1971 दे 81) दी धारा 71 राहें (21-1-1972 थमां) हिमाचल प्रदेश रियासत दे विधान-मंडल दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 3. मिजोरम रियासत अधिनियम, 1986 (1986 दे 34) दी धारा 39 राहें (20-2-1987 थमां) अंतरस्थापत।
 4. अरुणाचल प्रदेश रियासत अधिनियम, 1986 (1986 दे 69) दी धारा 42 राहें (20-2-1987 थमां) "मिजोरम रियासत दे विधान-मंडल" दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 5. गोआ, दमन ते दीव मुढ-गठन अधिनियम, 1987 (1987 दे 18) दी धारा 63 राहें (30-5-1987 थमां) "अरुणाचल प्रदेश ते मिजोरम" दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।

भारत दा संविधान
(भाग 6 – रियासतां)

(ग) उ'आं हर प्रावधान शामिल करने आहली रियासतें दे विधान-मंडल दा अधिनियम इस संविधान दे तैहत् उसलै तगर कनूनी तौर उप्पर मंजूर नेई होग, जिसलै तगर राष्ट्रपति दे विचार आस्तै मखसूस रक्खे जाने पर उसी राष्ट्रपति दी मंजूरी हासल नेई होई गेदी होग।

(2) इस अनुच्छेद दे तैहत् लागू अध्यादेश दी उ'ए ताकत ते असर होग जेहड़ा रियासतें दे विधान-मंडल दे नेह अधिनियम दा होंदा ऐ जिसी राज्यपाल ने मंजूरी देई दिल्ली दी ऐ, पर हर इक नेहा अध्यादेश –

(क) रियासतें दी विधान सभा अगें ते विधान परिषद् आहली रियासत दे दौनें सदनें दे अगें रक्खेआ जाहग ते विधान-मंडल दे परतियै किट्टे बौहने थमां छें हपतें दे मुकने पर जां जेकर उस औद्ध दे मुकने थमां पैहलें विधान सभा ओहदी गैर-मंजूरी दा प्रस्ताव पास करी दिंदी ऐ ते जेकर विधान परिषद् ऐ, तां ओह उस कनै सैहमत होई जंदी ऐ तां, स्थिति मताबक, प्रस्ताव दे पास होने पर जां विधान परिषद् आसेआ प्रस्ताव कनै सैहमत होने पर चलन च नेई सौहग; ते

(ग) राज्यपाल आसेआ कुसै'लै बी बापस लैता जाई सकग।

स्पष्टीकरण – जित्थै विधान परिषद् आहली रियासतें दे विधान-मंडल दे सदन, बक्ख-बक्ख तरीकें उप्पर परतियै किट्टे बौहने आस्तै, सद्दे जंदे न उत्थै इस खंड दे मकसदें आस्तै छें हपतें दी औद्ध दी गितरी उ'नें तरीकें चा परैतरी तरीक कोला कीती जाहग।

(3) जेकर ते जित्थूं तगर इस अनुच्छेद दे तैहत् अध्यादेश कोई ऐसा प्रावधान करदा ऐ जेहड़ा रियासत दे विधान-मंडल दे नेह अधिनियम च जिसी राज्यपाल ने मंजूरी दिल्ली दी ऐ, नियमित कीते जाने पर कनूनी तौर पर मंजूर नेई होंदा तां उत्थै एह अध्यादेश सिफर होई जाहग;

पर रियासतें दे विधान-मंडल दे नेह अधिनियम दे, जेहड़े समवर्ती सूची च दर्ज कुसै विषे दे बारे च संसद दे कुसै अधिनियम जां कुसै मजूदा कनूनें दे खलाफ ऐ, प्रभाव कनै सरबंधत इस संविधान दे प्रावधानें दे मकसदें आस्तै एह ऐ जे कोई अध्यादेश, जेहड़ा राष्ट्रपति दी हिदायतें दे पालन च इस अनुच्छेद दे तैहत् लागू कीता जंदा ऐ, रियासत दे विधान-मंडल दा नेहा अधिनियम समझेआ जाहग जेहड़ा राष्ट्रपति दे विचार आस्तै मखसूस रक्खेआ गेआ हा ते जिसी उ'नें मंजूरी देई दिल्ली दी ऐ।

¹ * * * * *

ध्याऽ 5 – रियासतें दियां उच्च अदालतां

214. रियासतें आस्तै उच्च अदालतां – ²*** हर इक रियासत आस्तै इक उच्च अदालत होग।

³ * * * * *

215. उच्च अदालतें दा रिकार्ड अदालत होना – हर इक उच्च अदालत रिकार्ड अदालत होग ते उसी अपनी अवमानना आस्तै स'जा देने दे अख्तेआर सनें नेही अदालत दे सब्भै अख्तेआर होउन।

216. उच्च अदालतें दा गठन – हर इक उच्च अदालत मुख न्यांमूर्ति ते नेह होर जज्जें कनै मिलियै बनग जि'नेंगी राष्ट्रपति समें-समें पर नियुक्त करना जरूरी समझै।

⁴ * * * * *

-
1. संविधान(दलितमी तरमीम) अधिनियम, 1975 दी धारा 3 राहें (पछेत्तरे प्रभाव थमां) खंड (4) अंतरस्थापत कीता गेआ ते संविधान (चरतालितमी तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 27 राहें (20-6-1979 थमां) ओहदा लोप करी दिता गेआ।
 2. संविधान (सतमी तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें ब्रैकट ते हिंसा "(1)" दा लोप कीता गेआ।
 3. संविधान (सतमी तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें खंड (2 ते 3) दा लोप कीता गेआ।
 4. संविधान (सतमी तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 11 राहें परंतुक दा लोप कीता गेआ।

भारत दा संविधान
(भाग 6 – रियासतां)

¹217. उच्च अदालतै दे जज्जै दो नियुक्ति ते ओहदे औहदे दियां शर्ता – (1) भारत दे मुख् न्यामूर्ति थमां, उस रियासतै दे राज्यपाल थमां ते मुख् न्यामूर्ति थमां बक्ख कुसै जज्जै दी नियुक्ति दी सूरतै च उस उच्च अदालत दे मुख् न्यामूर्ति कन्ने सलाह-सूतर करने परैत, राष्ट्रपति अपने दसखत ते मोहर सनें अधिकार-पत्तर ²[राष्ट्री न्यायिक नियुक्ति आयोग दी सफारष उप्पर] राहें उच्च अदालतै दे हर इक जज्जै गी नियुक्त करग ते ओह जज्ज ³[अतिरिक्त जां कार्यकारी जज्जै दी सूरतै च अनुच्छेद 224 दे प्रावधाने दे रूपै च औहदा धारण करग ते कुसै होर सूरतै च उसलै तगर औहदा धारण करग, जिसलै तगर ओह ⁴[बाहठें बरें] दी उमरी दा नेई होई जंदा।]

पर –

(क) कोई जज्ज, राष्ट्रपति गी संबोधत अपने दसखतें सनें लिखत रूपै च अपना औहदा छोड़ी सकग;

(ख) कुसै जज्जै गी सर्वोच्च अदालतै दे जज्ज गी हटाने आस्तै अनुच्छेद 124 दे खंड (4) च प्रावधान कीते गेदे तरीकाकार कन्ने ओहदे औहदे थमां राष्ट्रपति आसेआ हटाय जाई सकग;

(ग) कुसै जज्ज दा औहदा, राष्ट्रपति आसेआ उसी सर्वोच्च अदालतै दा जज्ज नियुक्त कीते जाने पर जां राष्ट्रपति आसेआ उसी भारत दे राज्यक्षेत्र च कुसै होर उच्च अदालतै गी मुंतकिल कीते जाने पर खाल्ली होई जाहग।

(2) कोई व्यक्ति कुसै उच्च अदालतै दे जज्ज दे रूपै च नियुक्ति आस्तै तां गै योग्य होग जिसलै ओह भारत दा नागरिक ऐ ते –

(क) भारत दे राज्यक्षेत्र च घट्टो-घट्ट दस्सें बरें तगर न्यायिक औहदा धारण करी चुके दा ऐ; जां

(ख) कुसै ⁵*** उच्च अदालतै दा जां नेही द'ऊं जां मतियें अदालतें दा लगातार घट्टो-घट्ट दस्सें बरें तगर बकील

रेहदा ऐ; ⁶***

स्पष्टीकरण – इस खंड दे मकसदें आस्तै –

⁷[(क) भारत दे राज्यक्षेत्र च न्यायिक औहदा धारण करने दी औद्ध दी गितरी करने च, ओह औद्ध बी शामिल कीती जाहग, जेहदे दरान कोई व्यक्ति न्यायिक औहदा धारण करने दे बाद कुसै उच्च अदालतै दा बकील रेहा ऐ जां उ'न्ने कुसै ट्रिब्यूनल दे सदस्य दा औहदा धारण कीते दा ऐ जां संघ जां रियासत दे तैहत कोई नेहा औहदा धारण कीता ऐ जेहदे आस्तै कनूनै दा खास ज्ञान होना लाजमी ऐ;]

⁸[(कक)] कुसै उच्च अदालतै दा बकील रौहने दी औद्ध दी गितरी करने च ओह औद्ध बी शामिल कीती जाहग जेहदे दरान कुसै व्यक्ति ने बकील होने दे बाद ⁹[न्यायिक औहदा धारण कीता ऐ जां कुसै ट्रिब्यूनल दे सदस्य दा औहदा धारण कीता ऐ जां संघ जां रियासत दे तैहत कोई नेहा औहदा धारण कीता ऐ जेहदे आस्तै कनूनै दा खास ज्ञान लाजमी ऐ];

(ख) भारत दे राज्यक्षेत्र च न्यायिक औहदा धारण करने जां कुसै उच्च अदालती दा बकील रौहने दी औद्ध दी गितरी करने च इस संविधान दे रम्भ थमां पैहलें दी औद्ध बी शामिल कीती जाहग जिस दरान कुसै व्यक्ति ने,

1. जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र ते लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र आस्तै जम्मू-कश्मीर उच्च अदालत संविधान दे अनुच्छेद 217 ते अनुच्छेद 219 च निर्देष्ट "राज्य दे राज्यपाल" दा "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र दे उपराज्यपाल" दे प्रति निर्देष्ट दे रूपै च अर्थ लाया जाहग ते संविधान दे भाग 6 दे ध्याऽ 6 च निर्देष्ट "राज्य दा राज्यपाल" दा "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र दा उपराज्यपाल" दे प्रति निर्देष्ट दे रूपै च अर्थ लाया जाहग। [संख्या क. अ. 1233 (अ), तरीक, 31 मार्च 2020 राहें, भारत दी गजट, गैर-ममूली, भाग-II, धारा-3, उप-धारा (ii), तरीक, 31 मार्च, 2020 च प्रकाषत।]
2. संविधान (नडि'नमीं तरमीम) अधिनियम 2014, दी धारा 6 राहें प्रतिस्थापत।
3. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 12 राहें "अदू तगर औहदा धारण करग जिसलै तगर ओह सठें बरें दा नेई होई जंदा" दी थाहरें पर प्रतिस्थापत।
4. संविधान (पं'दरमीं तरमीम) अधिनियम, 1963 दी धारा 4 राहें "सठ बरें" दी थाहर पर प्रतिस्थापत।
5. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें "पैहली अनुसूची च दस्से गेदे कुसा राज्य च दे" शब्दें दा लोप कीता गेआ।
6. संविधान(बतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 36 राहें (3-1-1977 थमां) शब्द "जां" ते उपखंड (ग) अंतरस्थापत कीते गे ते संविधान (चरतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 28 राहें (20-6-1979 थमां) उ'दा लोप कीता गेआ।
7. संविधान (चरतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 28 राहें (20-6-1979 थमां) अंतरस्थापत।
8. संविधान (चरतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 28 राहें (20-6-1979 थमां) खंड (क) गी खंड (कक) दे रूपै च मुढी लिखेआ गेआ।
9. संविधान(बतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 36 राहें (3-1-1977 थमां) "न्यायिक औहदा धारण कीता होऐ" दी थाहरें पर प्रतिस्थापत।

भारत दा संविधान
(भाग 6 – रियासतां)

स्थिति मताबक, नेह क्षेत्र च जेहड़ा 15 अगस्त 1947 थमां पैहलें भारत शासन अधिनियम, 1935 च परिभाषत भारत च शामिल हा, न्यायिक औहदा धारण कीता ऐ जां ओह नेह कुसै क्षेत्र च उच्च अदालतै दा बकील रेहदा ऐ।

¹[(3) जेकर उच्च अदालतै दे कुसै जज्ज दी उमर दे बारे च कोई सुआल पटोंदा ऐ तां उस सुआलै दा फैसला भारत दे मुख न्यामूर्ति कन्नै सलाह-सूत्र करने परैत राष्ट्रपति दा फैसला खीरी होग।]

218. सर्वोच्च अदालतै कन्नै सरबंधत किश प्रावधानें दा उच्च अदालतें पर लागू होना – अनुच्छेद 124 दे खंड (4) ते खंड (5) दे प्रावधान, जित्थै-जित्थै उं दे च सर्वोच्च अदालत आस्तै निर्देष्ट ऐ, उत्थै-उत्थै उच्च अदालत आस्तै हिदायत प्रतिस्थापत करियै, उच्च अदालतै दे सरबंधे च उं आं गै लागू होउन जिंयां ओह सर्वोच्च अदालत दे सरबंधे च लागू होंदे न।

* **219. उच्च अदालतें दे जज्जे आसेआ सघंद जां प्रतिज्ञा – ²*** उच्च अदालत दा जज्ज होने आस्तै नियुक्त हर इक व्यक्ति, अपना औहदा ग्रहण करने थमां पैहलें, उस रियासतै दे राज्यपाल जां उस आसेआ इस नमित्त नियुक्त व्यक्ति दे सामनै त्री अनुसूची च इस मकसद आस्तै दित्ते गेदे फार्म दे मताबक सघंद चुक्कग जां प्रतिज्ञा करग ते उस उप्पर अपने दसखत करग।**

³[**220. स्थाई जज्ज होई जान परैत कनूनी व्यवसाय पर रोक –** कोई व्यक्ति जिंनै इस संविधान दे रम्भ होने दे बाद कुसै उच्च अदालत दे स्थाई जज्ज दे रूपै च औहदा धारण कीते दा ऐ, सर्वोच्च अदालत ते होर उच्च अदालतें दे सवाए भारत च कुसै अदालत जां कुसै प्राधिकारी अगं बकालत जां कम्म नेई करग।

स्पष्टीकरण – इस अनुच्छेद च “उच्च अदालत” पद दे तैहत संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम 1956 दे रम्भ⁴ थमां पैहलें मजदू पैहली अनुसूची दे भाग (ख) च चेची दस्सी गेदी रियासत दी उच्च अदालत नेई ऐ।]

221. जज्जे दियां तनखाहों वगैरा – ⁵[(1) हर इक उच्च अदालत दे जज्जे गी ओह तनखाह दित्ती जाहग जेहड़ी संसद, कनूनै राहें नर्धारत करै ते जिसलै तगर इस नमित्त इस चाल्ली दा प्रावधान नेई कीता जंदा ऐ उसलै तगर नेही तनखाह दित्ती जाहग जेहड़ी दूई अनुसूची च दस्सी गेदी ऐ।]

(2) हर इक जज्ज नेह भत्तें दा ते गैर-हाजरी आहली छुट्टी ते पैषन दे सरबंधे च नेह अधिकारें दा जेहड़े संसद आसेआ बनाए गेदे कनूनै राहें जां ओहदे तैहत समें-समें पर नर्धारत कीते जाहन ते जिसलै तगर इस चाल्ली नर्धारत नेई कीते जंदे, उसले तगर नेह भत्तें ते अधिकारें दा जेहड़े दूई अनुसूची च दस्से गेदे न, हकदार होग:

पर कुसै जज्ज दे भत्तें च ते दूई गैर-हाजरी आहली छुट्टी जां पैषन दे सरबंधे च ओहदे अधिकारें च ओहदी नियुक्ति परैत ओहदे आस्तै अलाहकारी तब्दीली नेई कीती जाहग।

222. कुसै जज्ज दा इक उच्च अदालत थमां दूई उच्च अदालत च तबादला – (1) राष्ट्रपति, **[अनुच्छेद 124क च दर्षाए गेदे राष्ट्री न्यायिक आयोग दी सफारष उप्पर] कुसै जज्जे दा इक उच्च अदालतै थमां दूई उच्च अदालतै च तबादला करी सकग।⁶***

⁷[(2) जिसलै कुसै जज्जे दा इस चाल्ली तबादला कीता गेआ होऐ जां कीता जंदा ऐ, उसलै ओह उस औद्ध दरान, जेहदे दरान ओह संविधान (पं'दरमीं तरमीम) अधिनियम 1963 दे रम्भ दे बाद दूई उच्च अदालता दे जज्ज दे रूपै च सेवा करदा ऐ, अपनी तनखाह दे इलावा नेहा मुआवजी भत्ता, जेहड़ा संसद कनूनै राहें नर्धारत करै ते जिसलै तगर इस

1. संविधान (पं'दरमीं तरमीम) अधिनियम, 1963 दी धारा 4 राहें (पछत्तरे प्रभाव थमां) अंतरस्थापत।

2. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें “कुसै राज्य च” शब्दें दा लोप कीता गेआ।

* जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र ते लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र आस्तै जम्मू-कश्मीर उच्च अदालत संविधान दे अनुच्छेद 217 ते अनुच्छेद 219 च निर्देष्ट “राज्य दे राज्यपाल” दा “जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र दे उपराज्यपाल” दे प्रति निर्देष्ट दे रूपै च अर्थ लाया जाहग ते संविधान दे भाग 6 दे ध्याऽ 6 च निर्देष्ट “राज्य दा राज्यपाल” दा “जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र दा उपराज्यपाल” दे प्रति निर्देष्ट दे रूपै च अर्थ लाया जाहग। [संख्या क.अ. 1233 (अ), तरीक, 31 मार्च 2020 राहें, भारत दी गजट, गैर-ममूली, भाग-II, धारा-3, उप-धारा (ii), तरीक, 31 मार्च, 2020 च प्रकाषत।]

3. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 13 राहें अनुच्छेद 220 दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।

4. 1 नवंबर 1956।

5. संविधान (चरुंजमीं तरमीम) अधिनियम, 1986 दी धारा 3 राहें (1-4-1986 थमां) खंड (1) दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।

** संविधान (नडिं'नमीं तरमीम) अधिनियम, 2014 दी धारा 7 राहें प्रतिस्थापत

6. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 14 राहें “भारत दे राज्यक्षेत्र च दे” शब्दें दा लोप कीता गेआ।

7. संविधान (पं'दरमीं तरमीम) अधिनियम, 1963 दी धारा 5 राहें अंतरस्थापत। संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 14 राहें मूल खंड (2) दा लोप कीता गेआ।

भारत दा संविधान
(भाग 6 – रियासतां)

चाल्नी नर्धारण नेई कीता जंदा, उसलै तगर नेहा मुआवजी भत्ता जेहड़ा राष्ट्रपति हुकमै राहें तैऽ करै, हासल करने दा हकदार होग।

223. कार्यकारी मुख् न्यांमूर्ति दी नियुक्ति – जिसलै कुसै उच्च अदालतै दे मुख् न्यांमूर्ति दा औहदा खाल्नी ऐ जां जिसलै नेहा मुख् न्यांमूर्ति गैर हाजरी दे कारण जां पही अपने औहदे दे कर्त्तबें दा पालन करने च असमर्थ ऐ उसलै अदालत दे होर जज्जें चा नेहा इक जज्ज, जिसी राष्ट्रपति इस मकसद आस्तै नियुक्त करै, उस औहदे दे कर्त्तबें दा पालन करग।

¹[**224. अतिरिक्त ते कार्यकारी जज्जें दी नियुक्ति** – (1) जेकर कुसै उच्च अदालत दे कम्म च कुसै आरजी बादधे दे कारण जां ओहदे च कम्म दे बकाया होने दे कारण राष्ट्रपति गी एह मसूस होंदा ऐ जे उस अदालती दे जज्जें दी गिंतरी गी उसलै बधाई देना चाहिदा तां राष्ट्रपति * [राष्ट्री न्यायिक नियुक्ति अयोग कन्नै सलाह-सूत्र करियें] पूरी चाल्नी योग्य व्यक्तियें गी द'ऊं ब'रें दी घट्टो-घट्ट नेही औद्ध आस्तै जि'नेंगी ओह चेचे दस्सै, उस अदालतै दे अतिरिक्त जज्ज नियुक्त करी सकग।

(2) जिसलै कुसै उच्च अदालत दे मुख् न्यांमूर्ति थमां बक्ख कोई जज्ज गैर-हाजरी दे कारण जां होर वजह कन्नै अपने औहदे दे कर्त्तबें दा पालन करने च असमर्थ ऐ जां मुख् न्यांमूर्ति दे रूपै च आरजी तौर उप्पर कम्म करने आस्तै नियुक्त कीता जंदा ऐ उसलै राष्ट्रपति ** [राष्ट्री न्यायिक नियुक्ति अयोग दे मषवरे कन्नै] पूरी चाल्नी योग्य कुसै व्यक्ति गी उसलै तगर उस अदालत दे जज्ज दे रूपै च कम्म करने आस्तै नियुक्त करी सकग जिसलै तगर पक्का जज्ज अपने कर्त्तबें गी परतियै नेई सम्हाली लेंदा ऐ।

(3) उच्च अदालत दे अतिरिक्त जां कार्यकारी जज्ज दे रूपै च नियुक्त कोई व्यक्ति ²[बाहटें ब'रें]दी उमरी दा होने परैत औहदा धारण नेई करग।]

³[**224क. उच्च अदालतें दियें बैठकें च सेवानिवृत्त जज्जें दी नियुक्ति** – इस ध्याऽ च बावजूद एहदे *** [राष्ट्रपति दी पैहलकी मंजूरी कन्नै राष्ट्री न्यायिक नियुक्ति अयोग कुसै रियासत आस्तै कुसै उच्च न्यायालय दे मुख् न्यांधीष दी सफारष उप्पर] कुसै व्यक्ति कन्नै जेहड़ा उस उच्च अदालत जां कुसै होर उच्च अदालत दे जज्ज दा औहदा धारण करी चुके दा ऐ, उस रियासत दी उच्च अदालत दे जज्ज दे रूपै च बौहने ते कम्म करने दा अनुरोध करी सकग ते हर इक नेहा व्यक्ति, जेहदे अगमें इस चाल्नी दा अनुरोध कीता जंदा ऐ, इस चाल्नी बौहने ते कम्म करने दरान नेह भत्तें दा हकदार होग जेहड़ा राष्ट्रपति हुकमै राहें नर्धारत करै ते उसी उस उच्च अदालतै दे जज्जें दी सारी अधिकारता, अख्तेआर ते खास अधिकार होडन, पर उसी जां पही, उस उच्च अदालत दा जज्ज नेई समझेआ जाहग;

पर जिसलै तगर जि'यांक पैहलें आखेआ गोदा व्यक्ति उस उच्च अदालत दे जज्ज दे रूपै च बौहने ते कम्म करने दी सैहमती नेई देई दिंदा ऐ उसलै तगर इस अनुच्छेद दी कोई गल्ल उसी नेहा करने दी मेद आहली नेई समझी जाहग।]

225. मजूदा उच्च अदालतें दा अधिकार क्षेत्र – इस संविधान दे प्रावधानें तैहत् ते इस संविधान आसेआ सबूरे विधान-मंडल गी दित्ते गोदे अख्तेआरें दे अधार उप्पर उस विधान-मंडल आसेआ बनाए गोदे कुसै कन्नूने दे प्रावधानें दे तैहत् कुसै मजूद उच्च अदालत दी अधिकारता ते ओहदे च प्रषासकी कन्नूने ते उस अदालत च न्याऽ प्रषासन दे सरबंधे च ओहदे जज्जें गी अपने-अपने अख्तेआरें, जि'दे तैहत् अदालत दे नियम बनाने दे अख्तेआर ते उस अदालत ते ओहदे सदस्यें दी बैठकें दा भाएं ओह इक्कले बौहन जां खंड अदालतें च बौहन विनियमन करने दे अख्तेआर, उ'ऐ गै होडन जेहड़े इस संविधान दे रम्म थमां ठीक पैहलें हे:

⁴[पर राजस्व सरबंधी जां उसी कठेरने लेई, दित्ते गोदे कुसै हुकम जां कीते गोदे कुसै कम्मै सरबंधी मामले आस्तै, उच्च अदालतें चा कुसै दी मुंढली अधिकारता दी बरतून, इस संविधान दे रम्म थमां ठीक पैहलें, जिस कुसै रोक दे तैहत् ही ओह रोक नेही अधिकारता दे प्रयोग दे नेह रम्म दे बाद लागू नेई होग।]

1. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 15 राहें अनुच्छेद 224 दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।

* संविधान (नडि'नमीं तरमीम) अधिनियम, 2014 दी धारा 8(क) राहें प्रतिस्थापत

** संविधान (नडि'नमीं तरमीम) अधिनियम, 2014 दी धारा 8(क) राहें प्रतिस्थापत

*** संविधान (नडि'नमीं तरमीम) अधिनियम, 2014 दी धारा 8(क) राहें प्रतिस्थापत

2. संविधान (पं'दरमीं तरमीम) अधिनियम, 1963 दी धारा 6 राहें (सड ब'रे) दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।

3. संविधान (पं'दरमीं तरमीम) अधिनियम, 1963 दी धारा 7 राहें अंतरस्थापत।

4. संविधान (चरतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 29 राहें (20-6-1979 थमां) अंतरस्थापत। संविधान (बतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 37 राहें (1-2-1977 थमां) मूल परंतुक दा लोप कीता गोआ हा।

भारत दा संविधान
(भाग 6 – रियासतां)

¹[226. किश रिट्टां जारी करने दा उच्च अदालत दा अख्तेआर – (1) अनुच्छेद 32 च बावजूद एह्दे ²***, हर इक उच्च अदालत गी उ'नें राज्यक्षेत्रे च हर पाससै, जि'दे सरबंधे च ओह् अपनी अधिकारता दा प्रयोग करदा ऐ, ³[भाग 3 राहें दित्ते गेदे अधिकारें चा कुसै गी तब्दील कराने आस्तै ते कुसै होर मकसद आस्तै] उ'नें राज्यक्षेत्रे दे अंदर कुसै व्यक्ति जां प्राधिकारी गी जां मनासब मामलें च कुसै सरकार गी नेही हिदायत, हुकम जां रिट्ट जि'दे तैह्त् ³[बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमअदेष, मनाही, सुआल करने दा हक्क ते उत्प्रेषण लेख आह्लियां रिट्टां न, जां उ'दे चा कोई] कड्ढने दा अख्तेआर होग।]

(2) कुसै सरकार, प्राधिकारी जां व्यक्ति गी हिदायत, हुकम जां रिट्ट जारी करने दा खंड (1) आसेआ दित्ते गेदे अख्तेआर दी बरतून उ'नें राज्यक्षेत्रे दे सरबंधे च, जि'दे अंदर नेह् अख्तेआरें दे प्रयोग आस्तै कार्यकारण पूरी चाल्ली जां आंषिक पैदा हुंदा ऐ, अधिकारता दी बरतून करने आह्ले कुसै उच्च अदालत आसेआ बी बावजूद एह्दे कीता जाई सकग जे नेही सरकार जां प्राधिकारी दी थाहर जां नेह् व्यक्ति दी रिहायष उ'नें राज्यक्षेत्रे दे अंदर नेई ऐ।

⁴[(3) जित्थै कोई पक्खकार जेह्दे खलाफ खंड (1) दे तैह्त् कुसै अर्जी उप्पर जां उस कन्नै सरबंधत कुसै कारवाई च चेचे हुकमै दे रूपै च जां रोक दे रूपै च जां कुसै होर तरीके कन्नै कोई अंतरिम अदेष –

(क) नेह् पक्खकार गी नेही अर्जी दी ते नेह् अंतरिम अदेष आस्तै दलीलै दे समर्थन च सभनें दस्तावेजें दियां नकलां ते

(ख) नेह् पक्खकार गी सुनवाई दा मौका, दित्ते बगैर कीता गेआ ऐ, नेह् हुकमै गी रद्द कराने आस्तै उच्च अदालत गी दरखास्त दिंदा ऐ ते नेही दरखास्त दी इक नकल उस पक्खकार गी जेह्दे पक्ख च नेहा हुकम कीता गेआ ऐ जां ओह्दे कौंसल गी दिंदा ऐ उत्थै उच्च अदालत ओह्दी प्राप्ति दी तरीक थमां जां नेही दरखास्त दी नकल इस चाल्ली दित्ते जाने दी तरीक थमां द'ऊं हफतें दी औद्ध अंदर इ'दे च जेह्ड़ा बी परैतरी होऐ, जां जित्थै उच्च अदालत उस औद्ध दे खीरले ध्याड़े बंद ऐ, उत्थै ओह्दे ठीक बाद आह्ले दिनै दी समाप्ति थमां पैह्लें जिस दिन उच्च अदालत खु'ल्ली ऐ, दरखास्त गी नबेडग ते जेकर दरखास्त इस चाल्ली नेई नबेडी जंदी ऐ तां अंतरिम अदेष, स्थिति मताबक, आखी गेदी औद्ध दी जां आखे गेदे ठीक बाद आह्ले दिनै दे मुक्कने पर रद्द होई जाह्ग।]

⁵[(4) इस अनुच्छेद आसेआ उच्च अदालत गी दित्ते गेदे अख्तेआर कन्नै अनुच्छेद 32 दे खंड (2) राहें सर्वोच्च अदालतै गी दित्ता गेदा अख्तेआर घट्ट नेई होग।]

⁶226क. [अनुच्छेद 226 दे तैह्त् कारवाइयें च केंदरो कनूनें दी संविधानक मानता उप्पर विचार नेई कीता जाना।] – संविधान (तरतालामी तरमीम) अधिनियम, 1977 दी धारा 8 राहें (13-4-1978 थमां) रद्द।

227. सभनें अदालतें दे अधीक्षण दा उच्च अदालत दा अख्तेआर – ⁷[(1) हर इक उच्च अदालत उ'नें राज्यक्षेत्रे च हर पाससै, जि'दे सरबंधे च ओह् अपनी अधिकारता दा प्रयोग करदा ऐ, सभनें अदालतें ते ट्रिब्यूनल दा अधीक्षण करग।]

(2) पछेत्तरे प्रावधान दी व्यापकता उप्पर उल्ट असर पाए बगैर उच्च अदालत –

(क) नेही अदालतें थमां ब्यौरा नोआई सकग;

1. संविधान (बतालिमी तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 38 राहें (1-2-1977 थमां) अनुच्छेद 226 दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।
2. संविधान (तरतालामी तरमीम) अधिनियम, 1977 दी धारा 7 राहें (13-4-1978 थमां) "पर अनुच्छेद 131क ते अनुच्छेद 226क दे प्रावधानें दे तैह्त्" शब्दें, हिंसें ते अक्खरें दा लोप कीता गेआ।
3. संविधान (चरतालामी तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 30 राहें (1-8-1979 थमां) "जि'दे तैह्त् बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमअदेष, सुआल करने दा हक ते उत्प्रेषण चाल्ली दे लेख बी हैन जां उ'दे च कुसै गी" शब्दें थमां रंभ होइयै "न्यांS दी सारवान असफलता होई ऐ, कुसै नुक्सान दी अवैधता आस्तै" शब्दें दे कन्नै खतम होने आह्ले हिस्से दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
4. संविधान (चरतालामी तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 30 राहें (1-8-1979 थमां) खंड (3) खंड (4) खंड (5) ते खंड (6) दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
5. संविधान (चरतालामी तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 30 राहें (1-8-1979 थमां) खंड (7) गी खंड (4) दे रूपै च मुडी गिनेआ गेआ।
6. संविधान (बतालिमी तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 39 राहें (1-2-1977 थमां) अंतरस्थापत।
7. खंड (1), संविधान (बतालिमी तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 40 राहें (1-2-1977 थमां) ते ओह्दे बाद च संविधान (चरतालामी तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 31 राहें (20-6-1979 थमां) प्रतिस्थापत होइयै उप्पर आखे गेदे रूपै च आया।

भारत दा संविधान
(भाग 6 – रियासतां)

(ख) नेहियें अदालतें दा तरीका ते कारवाइयें दे विनियमन आस्तै सधारण नियम ते फार्म बनाई सकग, ते जारी करी सकग, ते लागू करी सकग; ते

(ग) कु'नें नेहियें अदालतें दे अधिकारियें आसेआ रक्खी जाने आहली कताबें, इंदराजें ते लेखे दे फार्म नर्धारत करी सकग।

(3) उच्च अदालत उ'नें फीसें दियां सारणियां बी तैऽ करी सकग जेहड़ियां नेहियें अदालतें दे शेरिफ गी ते सभनें क्लर्कें ते अधिकारियें गी ते उ'दे च कनूनी पेसा करने आहले अटार्नियें, बकीलें ते प्लीडरें गी देना बनदियां होन:

पर खंड (2) जां खंड (3) दे तैह्त बनाए गेदे कोई नियम नर्धारत कीते गेदे कुसै फार्म जां तैऽ कीती गेदी कोई सारणी उसलै लागू कुसै कनूनै दे प्रावधान कन्नै असंगत नेई होग ते इ'दे आस्तै राज्यपाल दी पुज्ज मंजूरी दी लोड़ होग।*

(4) इस अनुच्छेद दी कोई गल्ल उच्च अदालतै गी सषस्त्र बलें कन्नै सरबंधत कुसै कनूनै राहें जां ओहदे तैह्त बनाई गेदी कुसै अदालत जां ट्रिब्यूनल उप्पर अधीक्षण दे अख्तेआर देने आहली नेई समझी जाहग।

¹ * * * * *

228. किश मामलें दा उच्च अदालत गी तबादला – जेकर उच्च अदालतै गी एह संतुष्टी होई जंदी ऐ जे ओहदे तैह्त कुसै अदालतै च बकाया पेदे कुसै मामले च संविधान दी व्याख्या दे बारे च कनून दा कोई बड़ा जरूरी सुआल शामिल ऐ, जेहदा तैऽ होना मामले दे नबेड़े आस्तै लाजमी ऐ ²[तां ओह ³*** उस मामले गी अपने कोल नोआई लैहग ते –]

(क) मामले गी आपूं नबेड़ी सकग, जां

(ख) आखे गेदे कनूनै दे सुआलै दा नर्धारण करी सकग ते उस मामले गी नेह प्रज्ज पर फैसले दी कॉपी समेत उस अदालतै गी, जेहदे थमां मामला इस चाल्ली नोआई लैता गेआ ऐ, परताई सकग ते आखी गेदी अदालत ओहदे हासल होने पर उस मामले गी नेह फैसले दे मताबक नबेड़ने आस्तै अगड़ी कारवाई करग।

⁴228क. [रियासती कनूनें दी संविधानक वैधता कन्नै जुड़े दे सुआलें दे नबेड़े दे बारे च चेचे प्रावधान] – संविधान (तरतालिमीं तरमीम) अधिनियम 1977 दी धारा 10 राहें (13-4-1978 थमां) रद्द।

229. उच्च अदालत दे अधिकारी, सेवक ते खच – (1) कुसै उच्च अदालत दे अधिकारियें ते सेवकें दियां नियुक्तियां उस अदालतै दा मुख्ख न्यांमूर्ति करग जां उस अदालतै दा नेहा होर जज्ज जां अधिकारी करग जिसी ओह निर्देश देरे :

पर उस रियासतै दा राज्यपाल ⁵*** नियमै राहें एह मेद करी सकग जे नेहियें कु'नें सूरतें च जेहड़ियां नियम च दरिसियां जाहन, कुसै नेह व्यक्ति गी, जेहड़ा पैहलें थमां अदालती कन्नै जुड़े दा नेई ऐ, अदालती कन्नै सरबंधत कुसै औहदे पर रियासतै दे लोक सेवा आयोग कन्नै सलाह-सूत्तर करियै गै नियुक्त कीता जाहग, नेई तां नेई।

(2) रियासत दे विधान-मंडल आसेआ बनाए गेदे कनूनै दे प्रावधानें दे तैह्त, उच्च अदालत दे अधिकारियें ते सेवकें दियां शर्तां नेहियां होउन, जेहड़ियां उस अदालतै दे मुख्ख न्यांमूर्ति जां उस अदालतै दे नेह कुसै होर जज्जै जां अधिकारी आसेआ जिसी मुख्ख न्यांमूर्ति ने इस मकसद आस्तै नियम बनाने लेई अधिकार दिते दा ऐ, बनाए गेदे नियमं राहें नर्धारत कीतियां जाहन:

-
1. संविधान (बतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 40 राहें (1-2-1977 थमां) खंड (5) अंतरस्थापत कीता गेआ ऐ ते संविधान (चरतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 31 राहें (20-6-1979 थमां) ओहदा लोप कीता गेआ।
 - * जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र ते लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र आस्तै जम्मू-कश्मीर उच्च अदालत संविधान दे अनुच्छेद 227 दे खंड (3) दे परंतुक च निर्देशत "राज्यपाल" दा "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र दे उपराज्यपाल" दे प्रति निर्देश दे रूपे च अर्थ लाया जाहग ते संविधान दे अनुच्छेद 237 च निर्देशत "राज्यपाल" दा जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र दा उपराज्यपाल" दे प्रति निर्देश दे रूपे च अर्थ लाया जाहग। [संख्या क. अ. 1233 (अ), तरीक, 31 मार्च 2020 राहें, भारत दी गजट असधारण, भाग-II, धारा-3, उप-धारा (ii), तरीक, 31 मार्च, 2020 च प्रकाषत।]
 2. संविधान (बतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 41 राहें (1-2-1977 थमां) "ते ओह उस मामले गी अपने कोल नोआई लैहग ते" दी थाहरै उप्पर प्रतिस्थापत।
 3. संविधान (तरतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1977 दी धारा 9 राहें (13-4-1978 थमां) "अनुच्छेद 131 (क) दे प्रावधानें दे तैह्त रैहदे होई" शब्दें, हिंसें ते अक्खरें दा लोप कीता गेआ।
 4. संविधान (बतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 42 राहें (1-2-1977 थमां) अंतरस्थापत।
 5. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें "जेहदे च उच्च अदालत दा मुख्ख थाहर ऐ", शब्दें दा लोप कीता गेआ।

भारत दा संविधान
(भाग 6 – रियासतां)

पर इस खंड दे तैहूत बनाए गेदे नियमें आस्तै, जित्थूं तगर ओह तनखाहें, भत्तें, छुट्टी जां पैषणें कन्नै सरबंधत ऐ, उस रियासतै दे राज्यपाल दी ¹**** मंजूरी दी लोड होग।

(3) उच्च अदालत दे प्रषासनक खर्च, जिंदे तैहूत अदालत दे अधिकारियें ते सेवकें गी जां उंदे सरबंधे च दित्ती जाने आहलियां सब्भै तनखाहीं, भत्ते ते पैषण ऐ, रियासत दे कठेरमें कोष आसेआ भरे जाहडन ते उस अदालत आसेआ लैतियें गेदियें फीसें ते होर दूइयां धनराषियां उस कोष दा हिस्सा होडन।

²[230. उच्च अदालतें दी अधिकारता दा संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तार – (1) संसद, कनूनै राहें, कुसै संघ राज्यक्षेत्र उपपर कुसै उच्च अदालतै दी अधिकारता दा विस्तार करी सकग जां कुसै संघ राज्यक्षेत्र थमां कुसै उच्च अदालतै दी अधिकारता गी बाहर करी सकग।

(2) जित्थै कुसै रियासत दी उच्च अदालत कुसै संघ राज्यक्षेत्र दे सरबंधे च अधिकारता दा इस्तेमाल करदी ऐ, उत्थै –

(क) इस संविधान दी कुसै गल्ले दा एह मतलब नेई लाया जाहग जे उस रियासत दे विधान-मंडल गी उस अधिकारता च बादधा, ओहदे उपपर रोक जां खातमा करने आस्तै सषक्त करदी ऐ; ते

(ख) उस राज्यक्षेत्र दे तैहूत अदालतें आस्तै कुंनै नियमें, फार्में जां सारणियें दे सरबंधे च, अनुच्छेद 227 च राज्यपाल दे प्रति हिदायत दा एह मतलब लाया जाहग जे ओह राष्ट्रपति आस्तै हिदायत ऐ।

³[231. दो जां मतियें रियासतें आस्तै इक गै उच्च अदालत दी स्थापना –(1) इस ध्याऽ दे पछेत्तरे प्रावधानें च बावजूद एहदे बी, संसद, कनूनै राहें, द'ऊं जां बद्ध रियासतें आस्तै जां मतियें रियासतें ते कुसै संघ राज्यक्षेत्र आस्तै इक गै उच्च अदालतै गी स्थापत करी सकग।

(2) कुसै नेही उच्च अदालत दे सरबंधे च, –

⁴[****]

(ख) हेठली अदालतें आस्तै कुंनै नियमें, फार्में जां सारणियें दे सरबंधे च, अनुच्छेद 227 च राज्यपाल आस्तै हिदायत दा एह मतलब लाया जाहग जे ओह उस रियासत दे राज्यपाल आस्तै हिदायत ऐ, जेहदे च ओह हेठलियां अदालतां मजूद न; ते

(ग) अनुच्छेद 219 ते अनुच्छेद 229 च रियासत आस्तै हिदायतें दा एह मतलब लाया जाहग जे ओह उस रियासत आस्तै हिदायत ऐ, जेहदे च उस उच्च अदालता दा मुख्क थाहर ऐ :

पर जेकर नेहा मुख्क थाहर कुसै संघ राज्यक्षेत्र च ऐ तां अनुच्छेद 219 ते अनुच्छेद 229 च रियासत दे, राज्यपाल, लोक सेवा आयोग, विधान-मंडल ते कठेरमे कोष आस्तै हिदायत दा एह मतलब लाया जाहग जे ओह तरतीबन राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग, संसद ते भारत दे कठेरमे कोष आस्तै हिदायत ऐ।

⁵ध्याऽ 6 – हठलियां अदालतां

233. जि'ला जज्जे दी नियुक्ति – (1) कुसै रियासतै च जि'ला जज्ज नियुक्त होने आहले व्यक्तियें दी नियुक्ति ते जि'ला जज्ज दे ओहदे दी स्थापना ते तरक्की उस रियासत दा राज्यपाल नेही रियासत दे सरबंधे च अधिकारता दा प्रयोग करने आहली उच्च अदालतै कन्नै सलाह-सूत्तर करिये करग।

(2) ओह व्यक्ति, जेहड़ा संघ दी जां रियासत दी सेवा च पैहलें थमां गै नेई ऐ, जि'ला जज्ज नियुक्त होने आस्तै सिर्फ उसलै गै योग्य होग जिसलै ओह घट्टो-घट्ट सत्तें बरें तगर बकील जां प्लीडर रेहदा ऐ ते ओहदी नियुक्ति आस्तै उच्च अदालत ने सफारष कीती दी ऐ।

1. संविधान (तरतालिमी तरमीम) अधिनियम, 1977 दी धारा 9 (13-4-1978) राहें लोप कीता गेआ।

2. संविधान (सतमी तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें "जेहदे च उच्च अदालता दी मुख्क थाहर ऐ" शब्दें दा लोप कीता गेआ।

3. संविधान (सतमी तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 16 राहें अनुच्छेद 230, 231 ते 232 दी थाहरे पर प्रतिस्थापत।

4. संविधान (नडि'निमी तरमीम), अधिनियम, 2014 (13-4-2.015) राहें लोप कीता गेआ।

5. जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र ते लहाख संघ राज्यक्षेत्र आस्तै जम्मू-कश्मीर उच्च अदालत संविधान दे अनुच्छेद 217 ते अनुच्छेद 219 च निर्देशत "राज्य दे राज्यपाल" दा "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र दे उपराज्यपाल" दे प्रति निर्देश दे रूपै च अर्थ लाया जाहग ते संविधान दे भाग 6 दे ध्याऽ 6 च निर्देशत "राज्य दा राज्यपाल" दा "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र दा उपराज्यपाल" दे प्रति निर्देश दे रूपै च अर्थ लाया जाहग। [संख्या क. अ. 1233 (अ), तरीक, 31 मार्च 2020 राहें, भारत दी गजट, गैर-ममूली, भाग-II, धारा-3, उप-धारा (ii), तरीक, 31 मार्च, 2020 च प्रकाषत।]

भारत दा संविधान
(भाग 6 – रियासतां)

1[233क. किश जि'ला जज्जे दिये नियुक्तिये दा ते उं'दे आसेआ कीते गेदे फ़ैसले आदि दा कनूनी तौर पर मान्य होना – कुसै अदालत दा कोई फ़ैसला, डिक्री जां अदेष होंदे होई बी, –

(क)(i) उस व्यक्ति गी जेहड़ा रियासतै दी न्यायिक सेवा च पैहलें थमां गै है जां उस व्यक्ति गी जेहड़ा घट्टो-घट्ट स'तें ब'रें तगर बकील जां प्लीडर रेहदा ऐ, उस रियासत च जि'ला जज्ज दे रूपै च नियुक्ति आस्तै, ते

(ii) नेह व्यक्ति गी जि'ला जज्ज दे रूपै च औहदे दी स्थापना, तरक्की जां तबादले दी खातर, जेहड़ा संविधान (बीहमी तरमीम) अधिनियम, 1966 दे रम्भ थमां पैहलें कुसै'लै अनुच्छेद 233 जां अनुच्छेद 235 दे प्रावधानें दे मताबक नेई करिये दूई चाल्ली कीता गेदा ऐ, सिर्फ इस तत्थे दे कारण जे नेही नियुक्ति, औहदे दी स्थापना, तरक्की जां तबादला आखे गेदे प्रावधानें दे मताबक नेई कीता गेदा हा एह नेई समझेआ जाहग जे एह गैर-कनूनी जां सिफर ऐ जां कदें गैर-कनूनी जां सिफर रेहा हा;

(ख) कुसै रियासत च जि'ला जज्ज दे रूपै च अनुच्छेद 233 जां अनुच्छेद 235 दे प्रावधानें मताबक नेई करिये दूई चाल्ली नियुक्त, औहदे दी स्थापना, तरक्की जां तबादला होए दे कुसै व्यक्ति आसेआ जां ओहदे सामनै संविधान (बीहमी तरमीम) अधिनियम, 1966 दे रम्भ थमां पैहलें मजूद अधिकारता दे पास कीते गेदे जां दित्ते गेदे फ़ैसले, डिक्री, स'जा दा अदेष जां अदेष दी ते कीते गेदे होर कम्में जां कारवाइयें दी खातर, सिर्फ इस तत्थे दे कारण जे नेही नियुक्ति, औहदे दी स्थापना, तरक्की जां तबादला आखे गेदे प्रावधानें दे मताबक नेई कीता गेदा हा, एह नेई समझेआ जाहग जे ओह गैर-कनूनी जां कनूनी तौरै पर गैर मानता प्राप्त ऐ जां कुसै'लै बी गैर-कनूनी जां कनूनी तौर उप्पर गैर मानता प्राप्त रेहदा हा।]

234. न्यायिक सेवा च जि'ला जज्जे थमां बक्ख व्यक्तिये दी भर्था – जि'ला जज्जे दे अलावा होरनें व्यक्तिये दी कुसै रियासतै दी न्यायिक सेवा च नियुक्ति उस रियासतै दे राज्यपाल आसेआ रियासती लोक सेवा आयोग थमां ते नेही रियासत दे सरबंधे च अधिकारता दा प्रयोग करने आली उच्च अदालत कन्नै सलाह-सूत्र करने परैत, ते राज्यपाल आसेआ इस आस्तै बनाए गेदे नियमें दे मताबक कीती जाहग।

235. हेठलिये अदालतें पर नियंत्रण – जि'ला अदालतें ते उं'दे अधीन अदालतें दा नियंत्रण जेहदे तैह्त रियासत दी न्यायिक सेवा दे व्यक्तिये ते जि'ला जज्ज दे औहदे थमां लौहके कुसै औहदे गी धारण करने आहले कुसै व्यक्ति दे औहदे दी स्थापना, तरक्की ते उनेंगी छुट्टी देना ऐ, उच्च अदालत च शामिल होग, पर इस अनुच्छेद दी कुसै गल्लै दा एह मतलब नेई लाया जाहग जे ओह नेह कुसै व्यक्ति कोला ओहदे अपील दे अधिकार गी खोंहदी ऐ जेहड़ा ओहदी सेवा दी शर्तें दा विनियमन करने आहले कनूनै तैह्त उसी जां उच्च अदालत गी इस गल्लै आस्तै प्राधिकृत करदी ऐ, जे ओह उसी नेह कनूनै दे तैह्त नर्धारत ओहदी सेवा दिये शर्तें दे मताबक व्यवहार नेई करिये कुसै होर चाल्ली दा व्यवहार करै।

236. व्याख्या – इस ध्याऽ च, –

(क) "जि'ला जज्ज" पद दे तैह्त नगर सिवल अदालत दा जज्ज, अतिरिक्त जि'ला जज्ज, संयुक्त जि'ला जज्ज, स्हायक जि'ला जज्ज, लौहके विवाद आहली अदालत दा मुख्क जज्ज, मुख्क प्रैसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्क प्रैसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, सैषन जज्ज, अतिरिक्त सैषन जज्ज ते स्हायक सैषन जज्ज ऐ;

(ख) "न्यायिक सेवा" पद दा अर्थ नेही सेवा ऐ जेहड़ी सिर्फ नेह व्यक्तिये कन्नै मिलिये बनी दी ऐ, जि'दे राहें जि'ला जज्ज दे औहदे दा ते जि'ला जज्ज दे औहदे थमां अतिरिक्त होर सिवल न्यायिक औहदे दा भरेआ जाना इच्छित ऐ।

237. किश वर्ग जां वर्गे दे मजिस्ट्रेटें पर इस ध्याऽ दे प्रावधानें दा लागू होना – राज्यपाल, लोक अधिसूचना राहें हिदायत देई सकग जे इस ध्याऽ दे पछेत्तरे प्रावधान ते उं'दे तैह्त बनाए गेदे नियम नेही तरीक थमां, जिसी ओह इस आस्तै तैऽ करै, नेह अपवादें ते सुधारें दे तैह्त रौहदे होई, जेहड़े नेही अधिसूचना च दरसे जाहन, रियासतै च कुसै वर्ग जां वर्गे दे मैजिस्ट्रेट दे सरबंधे च उं'आं गै लागू होडन जि'यां ओह रियासत दी न्यायिक सेवा च नियुक्त व्यक्तिये दे सरबंधे च लागू होंदे न।

1. संविधान (बीहमी तरमीम) अधिनियम, 1966 दी धारा 2 राहें अंतरस्थापत।

भारत दा संविधान

(भाग 7 – पहली अनुसूची दे भाग ख दियां रियासतां)

भाग-7 – [पहली अनुसूची दे भाग 'ख' दियां रियासतां] – संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें रद्द।

1[संघ राज्यक्षेत्र]

*²[239. संघ राज्यक्षेत्रं दा प्रशासन – (1) संसद आसेआ बनाए गेदे कनूनै राहें जि'यां के प्रावधान ऐ, ओहदे छुट्ट हर इक संघ राज्यक्षेत्रं दा प्रशासन राष्ट्रपति आसेआ कीता जाहग ते ओह अपने आसेआ नेह ओहदे सनें जेहड़ा ओह खास तौर उप्पर दस्से, नियुक्त कीते गेदे प्रशासक राहें उस हद्दा तगर कम्म करग जिन्ना ओह ठीक समझदा ऐ।

(2) भाग 6 च कुसै गल्लै दे होंदे होई बी राष्ट्रपति कुसै रियासत दे राज्यपाल गी कुसे नजदीकी संघ राज्यक्षेत्रं दा प्रशासक नियुक्त करी सकग ते जित्थै कोई राज्यपाल इस चाल्ली नियुक्त कीता जंदा ऐ, उत्थै ओह नेह प्रशासक दे रूपै च कम्मै दा प्रयोग अपनी मंत्रि-परिषद् कन्नै स्वतंत्र रूपै च करग।

**³[239क. किश संघ राज्यक्षेत्रं आस्तै स्थानी विधान-मंडलें जां मंत्रि-परिशदें जां दौनें दा सिरजन –

(1) संसद, कनूनै राहें ⁴[⁵[पुडुचेरी], संघ राज्यक्षेत्रं आस्तै,] –

(क) उस संघ राज्यक्षेत्रं दे विधान-मंडल दे रूपै च, कम्म करने आस्तै चनोए दे जां आंषिक नामजद ते आंषिक चनोए दे अदारे दा, जां

(ख) मंत्रि-परिषद् दा,

जां दौनें दा सिरजन करी सकग, जि'दे चा हर इक दा गठन, अख्तेआर ते कम्म ओह होडन जेहड़े उस कनूनै च चेचे दस्से जाहडन।

(2) खंड (1) च दस्से गेदे कनूनै गी, अनुच्छेद 368 दे मकसदें आस्तै इस संविधान दी तरमीम इस गल्ला दे होंदे होई बी नेई समझी जाहग जे ओहदे च कोई नेहा प्रावधान शामिल ऐ जेहड़ा इस संविधान दी तरमीम करदा जां तरमीम करने दा असर रखदा ऐ।]

⁶[239कक. दिल्ली दे सरबंघै च चेचे प्रावधान – (1) संविधान (न'तरमीं तरमीम) अधिनियम 1991 दे रम्भ थमां दिल्ली संघ राज्यक्षेत्रं गी दिल्ली राष्ट्री राजधानी राज्यक्षेत्रं (जिसी इस हिस्से च एहदे बाद राष्ट्री राजधानी राज्यक्षेत्रं आखेआ गेदा ऐ) आखेआ जाहग ते अनुच्छेद 239 दे तैहत नियुक्त ओहदे प्रशासक दे ओहदे दा नांउ उप-राज्यपाल होग।

(2)(क) राष्ट्री राजधानी राज्यक्षेत्रं आस्तै इक विधान सभा होग ते नेही विधान सभा च सीटां, राष्ट्री राजधानी राज्यक्षेत्रं च इलाकाई चनांउ-क्षेत्रें चा प्रतकख चनांउ राहें चनोए दे सदस्यें कन्नै भरियां जाहडन।

(ख) विधान सभा च सीटें दी कुल गिंतरी, अनुसूचित जातियें आस्तै आरक्षित सीटें दी गिंतरी, राष्ट्री राजधानी राज्यक्षेत्रं दे इलाकाई चनांउ-क्षेत्रें च तकसीम (जेहदे तैहत, नेही तकसीम दा अधार ऐ) ते विधान सभा दे कम्म-काज कन्नै सरबंघत सभनें दूए मामलें दा विनियमन संसद आसेआ बनाए गेदे कनूनै राहें कीता जाहग।

-
1. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 17 राहें सिरलेख "पैहली अनुसूची दे भाग ग च दे राज्य" दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 2. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 17 राहें अनुच्छेद 239 ते अनुच्छेद 240 दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 - * जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रं ते लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रं आस्तै जम्मू-कश्मीर उच्च अदालत संविधान दे अनुच्छेद 227 दे खंड (3) दे परंतुक च निर्देष्टत "राज्यपाल" दा "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रं दे उपराज्यपाल" दे प्रति निर्देष्ट दे रूपै च अर्थ लाया जाहग ते संविधान दे अनुच्छेद 237 च निर्देष्टत "राज्यपाल" दा जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रं दा उपराज्यपाल" दे प्रति निर्देष्ट दे रूपै च अर्थ लाया जाहग। [संख्या क.अ. 1233 (अ), तरीक, 31 मार्च, 2020 राहें, भारत दी गजट, गैर-ममूली, भाग-II, धारा-3, उप-धारा (ii), तरीक, 31 मार्च, 2020 च प्रकाषत।]
 3. संविधान (चौहदमीं तरमीम) अधिनियम, 1962 दी धारा 4 राहें अंतरस्थापत।
 4. "गोआ, दमन ते दीव मुढ-गठन अधिनियम, 1987 (1987 दा 18) दी धारा 63 राहें (30-5-1987 थमां) "गोआ, दमन ते दीव ते पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्रें चा कुसै आस्तै" शब्दें दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 5. पांडिचेरी (नांउ तब्दील) अधिनियम, 2006 (2006 दा 44) दी धारा 4 राहें (1-10-2006 थमां) "पांडिचेरी" दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 - ** नियत दिनै जां दिनै थमां अनुच्छेद 239क दे प्रावधान जेहड़े संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी पर लागू न, जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र उप्पर बी लागू होडन। [संख्या क. अ. 1233 (अ), तरीक, 31 मार्च, 2020 राहें, भारत दी गजट, गैर-ममूली, भाग-II, धारा-3, उप-धारा (ii), तरीक, 31 मार्च, 2020 च प्रकाषत।]
 6. संविधान (न'तरमीं तरमीम) अधिनियम, 1991 दी धारा 2 राहें (1-2-1992 थमां) अंतरस्थापत।

भारत दा संविधान

(भाग 8 – संघ राज्यक्षेत्र)

(ग) अनुच्छेद 324 थमां अनुच्छेद 327 ते अनुच्छेद 329 दे प्रावधान राष्ट्री राजधानी राज्यक्षेत्र, राष्ट्री राजधानी राज्यक्षेत्र दी विधान सभा ते ओहदे सदस्ये दे सरबंधे च इ'यां गै लागू होडन, जि'यां ओह, कुसै रियासतै दी विधान सभा ते ओहदे सदस्ये दे सरबंधे च लागू होंदे न ते अनुच्छेद 326 ते अनुच्छेद 329 च "समुचित विधान-मंडल" आस्तै हिदायत दे बारे च एह समझेआ जाहग जे ओह संसद लेई हिदायत ऐ।

(3) (क) इस संविधान दे प्रावधानें तैहत विधान सभा गी राज्य सूची च इंदराज 1, इंदराज 2 ते इंदराज 18 कन्नै ते उस सूची दी इंदराज 64, इंदराज 65 ते इंदराज 66 कन्नै, जित्थू तगर उंदा सरबंध आखी गेदी इंदराज 1, इंदराज 2 ते इंदराज 18 कन्नै ऐ, सरबंधत मामलें दे इलावा राज्य सूची च जां समवर्ती सूची च गनोए दे कुसै बी विषे दे सरबंधे च जित्थू तगर नेहा कोई विषे संघ राज्यक्षेत्र गी लागू ऐ, समूलची राष्ट्री राजधानी राज्यक्षेत्र जां ओहदे कुसै हिस्से आस्तै कनून बनाने दा अख्तेआर होग।

(ख) उपखंड (क) दी कुसै गल्लै कन्नै संघ राज्यक्षेत्र जां ओहदे कुसै हिस्से आस्तै कुसै बी मामले दे सरबंधे च इस संविधान दे तैहत कनून बनाने दा संसद दा अख्तेआर घट्ट नेई होग।

(ग) जेकर विधान सभा आसेआ कुसै विषे दे सरबंधे च बनाए गेदे कुसै कनूनै दा कोई प्रावधान संसद आसेआ उस मामले दे सरबंधे च बनाए गेदे कनूनै दे, भाएं ओह विधान सभा आसेआ बनाए गेदे कनूनै थमां पैहलें जां ओहदे बाद पास कीता गेदा होऐ, जां कुसै पैहलें कनूनै दे, जेहड़ा विधान सभा आसेआ बनाए गेदे कनूनै थमां बक्ख ऐ, कुसै प्रावधान दे खलाफ ऐ तां दौनें सूरतें च, स्थिति मताबक, संसद आसेआ बनाए गेदे कनून जां नेहा पैहला कनून असरी होग ते विधान सभा आसेआ बनाया गेदा कनून उस बरोध दी मात्तरा तगर सिफर होग:

पर जेकर विधान सभा आसेआ बनाए गेदे कुसै नेह कनूनै गी राष्ट्रपति दे विचार आस्तै मखसूस रक्खेआ गेआ ऐ ते उस उप्पर ओहदी मंजूरी मिली गेई ऐ तां नेहा कनून राष्ट्री राजधानी राज्यक्षेत्र च प्रचलन च होग:

पर बावजूद एहदे इस उपखंड दी कोई गल्ल संसद गी उरसै विषे दे सरबंधे च कोई कनून, जेहदे तैहत नेहा कनून ऐ जेहड़ा विधान सभा आसेआ, इस चाल्ली बनाए गेदे कनूनै गी बधांदा, तरमीम, तब्दीली जां रद्द करदा ऐ, कुसै लै बी अधिनियमित करने थमां नेई रोकग।

(4) जि'नें गल्लें च कुसै कनूनै राहें जां ओहदे तैहत उपराज्यपाल थमां एह मेद ऐ जे ओह अपनी स्यानप दे मताबक कम्म करै, उ'नें गल्लें गी छोड़ियै उपराज्यपाल दी उ'नें विषे दे सरबंधे च जि'दे आस्तै विधान सभा गी कनून बनाने दा अख्तेआर ऐ, अपने कम्में दा प्रयोग करने च मदाद ते सलाह देने आस्तै इक मंत्रि-परिषद् होग, जेहड़ी विधान सभा दी कुल सदस्ये दी संख्या दे दस फीसदी थमां बद्ध नेई होग ते जेहदा प्रधान मुखमंत्री होग:

पर उपराज्यपाल ते ओहदे मंत्रियें बषकहार कुसै विषे उप्पर मतभेद होने दी सूरतै च उपराज्यपाल उसी राष्ट्रपति दे फ़ैसले आस्तै भेजग ते राष्ट्रपति आसेआ उस उप्पर कीते गेदे फ़ैसले दे मताबक कम्म करग ते नेहा फ़ैसला होने तगर उपराज्यपाल कुसै नेह मामले च जित्थे एह विषे ओहदी राऽ च, इन्ना जरूरी ऐ जेहदे कारण फौरन कारवाई करना ओहदे आस्तै लाज़मी ऐ, उत्थे उस विषे च नेही कारवाई करने जां नेही हिदायत देने आस्तै जेहड़ी ओह जरूरी समझे करी सकदा ऐ।

(5) मुखमंत्री दी नियुक्ति राष्ट्रपति करग ते होर मंत्रियें दी नियुक्ति राष्ट्रपति, मुखमंत्री दी सलाह पर करग ते मंत्री, राष्ट्रपति दी मर्जी कन्नै अपने औहदे धारण करडन।

(6) मंत्रि-परिषद्, विधान सभा प्रति सामूहिक रूपै च जिम्मेवार होग।

भारत दा संविधान

(भाग 8 – संघ राज्यक्षेत्र)

¹[(7)(क)] संसद पछेत्तरे खंडे गी असरदार करने आस्तै जां ओहदे च शामिल प्रावधानें दी पूर्ति आस्तै ते उं दे घटनात्मी जां नतीजक सभनें विषे आस्तै, कनूनै राहें, प्रावधान करी सकग।

²[(ख) उपखंड (क) च दस्से गेदे कनूनै गी अनुच्छेद 368 दे मकसदें आस्तै इस संविधान दी तरमीम इस गल्ला दे होंदे होई बी नेई समझी जाह्ग जे ओहदे च कोई नेहा प्रावधान शामिल ऐ जेहड़ा इस संविधान दी तरमीम करदा ऐ जां तरमीम करने दा असर रखदा ऐ।]

(8) अनुच्छेद 239 (ख) दे प्रावधान जित्थूं तगर होई सकै, राष्ट्री राजधानी राज्यक्षेत्र, उप राज्यपाल ते विधान-सभा दे सरबंधे च उंआं गै लागू होडन, जि'यां ओह ³[पुडुचेरी] संघ राज्यक्षेत्र, प्रशासक ते ओहदे विधान-मंडल दे सरबंधे च लागू होंदे न, ते इस अनुच्छेद च "अनुच्छेद 239(क) दे खंड (1)" दे प्रति हिदायत दे बारे च एह समझेआ जाह्ग जे ओह, स्थिति मताबक, इस अनुच्छेद जां अनुच्छेद 239कख दे प्रति हिदायत ऐ।

239कख. संविधानक तंत्र दे नाकाम होई जाने दी सूत च प्रावधान –जेकर राष्ट्रपति दा, उपराज्यपाल दी रपोट मिलने पर जां फही एह संतुष्टी होई जंदी ऐ जे, –

(क) नेही स्थिति पैदा होई गई ऐ जेहदे च राष्ट्री राजधानी राज्यक्षेत्र दा प्रशासन अनुच्छेद 239कक जां उस अनुच्छेद दी पछोकड़ च बनाए गेदे कुसै कनूनै दे प्रावधानें दे मताबक नेई चलाया जाई सकदा ऐ; जां

(ख) राष्ट्री राजधानी राज्यक्षेत्र दे उचित प्रशासन आस्तै नेहा करना जरूरी जां व्यवहारक ऐ,

तां राष्ट्रपति अदेष राहें, अनुच्छेद 239कक दे कुसै प्रावधान दे जां उस अनुच्छेद दे अनुसरण च बनाए गेदे कुसै कनूनै दे सभनें जां कु'नें प्रावधानें दे चलन गी, नेही औद्ध आस्तै ते नेहियें शर्ते तैह्त जेहड़ियां इस कनूनै च दस्सियां जाहन, मोत्तल करी सकग ते नेह घटनात्मी ते नतीजक प्रावधान करी सकग जेहड़े अनुच्छेद 239 ते अनुच्छेद 239कक दे प्रावधानें दे मताबक राष्ट्री राजधानी राज्यक्षेत्र दे प्रशासन आस्तै उसी जरूरी ते उचित सेही होन।]

⁴[239ख. विधान-मंडल दे बसांस काल च अध्यादेश जारी करने दा प्रशासक दा अख्तेआर- (1) उस सभे गी छोड़िये, जिसलै ⁵[³[पुडुचेरी] संघ राज्यक्षेत्र] दा विधान-मंडल दा इजलास लग्गे दा ऐ, जेकर कुसै'लै ओहदे प्रशासक गी एह जकीन होई जंदा ऐ जे नेह हलात मजूद न जि'दे कारण फौरी कारवाई करना ओहदे आस्तै जरूरी होई गेआ ऐ तां ओह नेह अध्यादेश जारी करी सकग जेहड़े उसी उ'नें हलातें च लोडचदे मसूस होन:

पर प्रशासक, कोई नेहा अध्यादेश राष्ट्रपति कोला इस नमित्त अदेष हासल करने दे बाद गै लागू करग नेई तां नेई:

पर बावजूद एहदे जे कदें आखे गेदे विधान-मंडल गी भंग करी दित्ता जंदा ऐ जां अनुच्छेद 239 क दे खंड (1) च दस्से गेदे कनूनै तैह्त कीती गेदी कुसै कारवाई दे कारण ओहदा कार्यकाल मोत्तल रौहदा ऐ, उसलै प्रशासक नेह भंग होने गी जां मोत्तली दी औद्ध दरान कोई अध्यादेश जारी नेई करग।

(2) राष्ट्रपति दे अदेषे दे अनुसरण च इस अनुच्छेद दे तैह्त जारी अध्यादेश संघ राज्यक्षेत्र दे विधान-मंडल दा नेहा अधिनियम समझेआ जाह्ग जेहड़ा अनुच्छेद 239क दे खंड (1) च दस्से गेदे कनूनै च उस आस्तै शामिल प्रावधानें दा

-
1. संविधान (सहत्तरमीं तरमीम) अधिनियम, 1992 दी धारा 3 राहें (21-12-1991 थमा) "(7)" दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 2. संविधान (सहत्तरमीं तरमीम) अधिनियम, 1992 दी धारा 3 राहें (21-12-1991 थमा) अंतरस्थापत।
 3. पांडिचेरी (नांस तब्दील) अधिनियम, 2006 (2006 दी 44) दी धारा 4 राहें (1-10-2006 थमा) "पांडिचेरी" दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 4. संविधान (सताइमीं तरमीम) अधिनियम, 1971 दी धारा 3 राहें (30-12-1971 थमा) अंतरस्थापत।
 5. "गोवा, दमन ते दीव मुढ-गठन अधिनियम, 1987 (1987 दे 18) दी धारा 63 राहें (30-5-1987 थमा) "अनुच्छेद 239क दे खंड (1) च दस्से गेदे संघ राज्यक्षेत्रे" दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।

भारत दा संविधान

(भाग 8 – संघ राज्यक्षेत्र)

पालन करने दे बाद पूरी चाल्ली अधिनियमित कीता गेआ ऐ, पर हर इक नेहा अध्यादेश –

(क) संघ राज्यक्षेत्र दे विधान-मंडल दे सामनै रक्खेआ जाहग ते विधान-मंडल दे परतिघै किट्टे होने कोला छे हपतें दे मुक्कने पर जां जेकर उस औद्ध दे मुक्कने थमां पैहलें विधान-मंडल ओहदी मंजूरी दा प्रस्ताव पास करी दिंदा ऐ तां प्रस्ताव दे पास होने पर चलन च नेई रौहग; ते

(ख) राष्ट्रपति कोला इस आस्तै अदेश हासल करने दे बाद प्रषासक आसेआ कुसै बेल्लै बी बापस लैता जाई सकग।

(3) जेकर ते जित्थूं तगर इस अनुच्छेद दे तैहत अध्यादेश कोई नेहा प्रावधान करदा ऐ जेहड़ा संघ राज्यक्षेत्र दे विधान-मंडल दे नेह अधिनियम च, जिसी अनुच्छेद 239क दे खंड (1) च दरसे गेदे कनूनै च इस आस्तै शामिल सरिस्तें दा अनुपालन करने दे बाद बनाया गेआ ऐ, अधिनियमित कीते जाने उप्पर कनूनी तौर पर मान्य नेई होंदा तां ते उत्थूं तगर ओह अध्यादेश सिफर होग।]

¹ * * * *

²[240. किश संघ राज्यक्षेत्र आस्तै विनियम बनाने दा राष्ट्रपति दा अख्तोआर – (1) राष्ट्रपति –

(क) अंडेमान ते निकोबार द्वीप;

³[(ख) लक्षद्वीप;]

⁴[(ग) दादरा ते नागर हवेली ते दमण ते दीव;]

⁵ * * * *

⁶[(ङ) ⁷पुडुचेरी;]

⁸ * * * *

⁹ * * * *

संघ राज्यक्षेत्र दी शांति, तरक्की ते खरे प्रषासन आस्तै विनियम बनाई सकग:

⁹[पर जिसलै ¹⁰[¹¹[¹²[¹³[⁶[पुडुचेरी] संघ राज्यक्षेत्र]]¹⁴***]] आस्तै विधान-मंडल दे रूपै च कम्म करने आस्तै अनुच्छेद 239 क दे तैहत कुसै अदारे दा सिरजन कीता जंदा ऐ तां राष्ट्रपति विधान-मंडल दे पैहले इजलास आस्तै तैऽशुदा

1. संविधान (उत्तिमी तरमीम) अधिनियम, 1975 दी धारा 4 राहें (पछेत्तरे प्रभाव थमां) खंड (4) अंतरस्थापत कीता गेआ ते संविधान (चरतालिमी तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 32 राहें (20-6-1979 थमां) ओहदा लोप कीता गेआ।
2. लक्कादीव, मिनिकोय ते अमीनदीवी द्वीप (नांऽ तब्दील) अधिनियम, 1973 (1973 दे 34) दी धारा 4 राहें (1-11-1973 थमां) इंदराज (ख) दी थाहरे पर प्रतिस्थापत।
3. संविधान (दसमी तरमीम) अधिनियम, 1961 दी धारा 3 राहें अंतरस्थापत।
4. दादरा ते नागर हवेली ते दमन दे दीव (केंदर शासत प्रदेशें दा विलय) अधिनियम, 2019 (2019 दा 44), धारा 4 (घ) इंदराज (ग) [तरीक 26 जनवरी, 2020 थमां प्रतिस्थापत, दिक्खो क.अ. 4542 (ई.) तरीक 19 दिसंबर, 2019]। पूर्व इंदराज (घ) अंतर-स्थापत कीते गेई संविधान (दसमी तरमीम) अधिनियम, 1961, धारा -3 राहें (तरीक 11 अगस्त, 1961)। तरमीम थमां पैहलें इंदराज (ग), हेठ लिखे मताबक हा – “3 (ग) दादरा ते नागर हवेली”.
5. दादरा ते नागर हवेली ते दमन दे दीव (केंदर शासत प्रदेशें दा विलय) अधिनियम, 2019 (2019 दा 44), धारा 4 (ii) राहें इंदराज (घ) दा लोप कीता गेआ। [तरीक 26 जनवरी, 2020, दिक्खो क.अ. 4542 (ई.) तरीक 19 दिसंबर, 2019]। पूर्व इंदराज (घ) अंतरस्थापत कीता गेआ गोवा, दमन ते दीव मुद्द-गठन अधिनियम, 1987 (1987 दा 18), धारा -63 (ई) (i) राहें (तरीक, 30 मई, 1987)। पैहलै उस इंदराज (घ) गी संविधान (बाहर्मी तरमीम) अधिनियम, 1962, धारा -3 राहें (तरीक 20 दिसंबर, 1961) अंतरस्थापत कीता गेआ। तरमीम थमां पैहलें इंदराज (घ), इयां हा – “(घ) दमन ते दीव”।
6. पांडिचेरी (नांऽ तब्दील) अधिनियम, 2006 (2006 दे 44) दी धारा 4 राहें (1-10-2006 थमां) “पांडिचेरी” दी थाहरे पर प्रतिस्थापत।
7. मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 (1986 दे 34) दी धारा 39 राहें (20-2-1987 थमां) मिजोरम सरबंधी इंदराज (च) दा लोप कीता गेआ।
8. अरुणाचल प्रदेश अधिनियम, 1986 (1986 दे 69) दी धारा 42 राहें (20-2-1987 थमां) मिजोरम सरबंधी इंदराज (छ) दा लोप कीता गेआ।
9. संविधान (चौहदमी तरमीम) अधिनियम, 1962 दी धारा 5 राहें अंतरस्थापत।
10. संविधान (सताइमी तरमीम) अधिनियम, 1971 दी धारा 4 राहें (15-2-1972 थमां) “गोआ, दमन ते दीव जां पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र” शब्दें दी थाह्रा पर प्रतिस्थापत।
11. गोआ, दमन ते दीव मुद्दगठन अधिनियम, 1987 (1987 दे 18) दी धारा 63 राहें (30-5-1987 थमां) “गोआ, दमन ते दीव जां पांडिचेरी” शब्दें दी थाहरे पर प्रतिस्थापत।
12. संविधान (सैंत्तिमी तरमीम) अधिनियम, 1975 दी धारा 3 राहें “पांडिचेरी जां मिजोरम” दी थाह्रा पर प्रतिस्थापत।
13. अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 (1986 दे 69) दी धारा 42 राहें (20-2-1987 थमां) “पांडिचेरी जां अरुणाचल प्रदेश” दी थाह्रा पर प्रतिस्थापत।
14. मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 (1986 दे 34) दी धारा 39 राहें (20-2-1987 थमां) “मिजोरम” शब्द दा लोप कीता गेआ।

भारत दा संविधान

(भाग 8 – संघ राज्यक्षेत्र)

तरीक थमां उस संघ राज्यक्षेत्र दी शांति, तरक्की ते खरे प्रषासन आस्तै नियम नेई बनाहगः]

¹[पर बावजूद एहदे जिसलै कदं ²[³[⁴[⁵[पुडुचेरी]]⁶***]] संघ राज्यक्षेत्र दे विधान-मंडल दे रूपै च कम्म करने आहले अदारें गी भंग करी दित्ता जंदा ऐ जां उस अदारे दा नेह विधान-मंडल दे रूपै च कम्म-काज, अनुच्छेद 239क दे खंड (1) च दस्से गेदे कनून तैहत् कीती गेदी कारवाई दे कारण मुलतवी रौहदा ऐ, उसलै राष्ट्रपति नेह भंग होने जां निलम्बन दी औद्ध दरान उस संघ राज्यक्षेत्र दी शांति, तरक्की ते खरे प्रषासन आस्तै नियम बनाई सकग ।]

(2) इस चाल्ली बनाया गेदा कोई विनियम संसद आसेआ बनाए गेदे कुसै अधिनियम जां ⁷[कुसै होर कनून] दा जेहड़ा उस संघ राज्यक्षेत्र च उसलै लागू ऐ, खतम जां तरमीम करी सकग ते राष्ट्रपति आसेआ घोषत कीते जाने पर ओहदा उ'ऐ बल ते असर होग जेहड़ा संसद दे कुसै नेह अधिनियम दा ऐ, जेहड़ा उस राज्यक्षेत्र उप्पर लागू होंदा ऐ ।]

241. संघ राज्यक्षेत्र आस्तै उच्च अदालतां – (1) संसद कनूनै राहे, कुसै ⁸[संघ राज्यक्षेत्र] आस्तै उच्च अदालत बनाई सकग जां ⁹[नेह राज्यक्षेत्र] च कुसै अदालतै गी इस संविधान दे सभनें जां कु'नें मकसदें आस्तै उच्च अदालत घोषत करी सकग ।

(2) भाग 6 दे ध्याऽ 5 दे प्रावधान नेह सुधारें जां अपवादें दे तैहत्, जिं'दा संसद कनूनै राहें प्रावधान करै, खंड (1) च दस्सी गेदी हर इक उच्च अदालत दे सरबंधै च उ'आं गै लागू होडन, जि'यां ओह अनुच्छेद 214 च दस्सी गेदी कुसै उच्च अदालत दे सरबंधै च लागू होंदे न ।

¹⁰[(3) इस संविधान दे प्रावधानें दे ते इस संविधान राहें जां एहदे तैहत्, समूलचे विधान-मंडल गी दित्ते गेदे अख्तेआरें दे अधार उप्पर बनाए गेदे उस विधान-मंडल दे कुसै कनूनै दे प्रावधानें तैहत्, हर इक उच्च अदालत, जेहड़ी संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दे शुरू थमां ठीक पैहलें कुसै संघ राज्यक्षेत्र दे सरबंधै च अधिकारता दा प्रयोग करदी ही, नेही शुरूआत परैत उस राज्यक्षेत्र दे सरबंधै च उस अधिकारता दा प्रयोग करदी रौहग ।

(4) इस अनुच्छेद दी कुसै गल्लै कन्नै, कुसै रियासतै दी उच्च अदालतै दी अधिकारता दा कुसै संघ राज्यक्षेत्र जां ओहदे हिस्से पर विस्तार करने जां उस थमां बाहर करी देने दा संसद दा अख्तेआर घट्ट नेई होग ।]

242. [कोडगू।] – संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें रद्द ।

1. संविधान (सताइमीं तरमीम) अधिनियम, 1971 दी धारा 4 राहें (15-2-1972 थमां) अंतरस्थापत ।
2. गोआ, दमन ते दीव मुद्द-गटन अधिनियम, 1987 (1987 दे 18) दी धारा 63 राहें (30-5-1987 थमां) "गोआ, दमन ते दीव जां पांडिचेरी" दी थाहरा पर प्रतिस्थापत ।
3. संविधान (सैंतिमीं तरमीम) अधिनियम, 1975 दी धारा 3 राहें "पांडिचेरी जां मिजोरम" दी थाहरा पर प्रतिस्थापत ।
4. अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 (1986 दे 69) दी धारा 42 राहें (20-2-1987 थमां) "पांडिचेरी जां अरुणाचल प्रदेश" दी थाहरा पर प्रतिस्थापत ।
5. पांडिचेरी (नांऽ तब्दील) अधिनियम, 2006 (2006 दे 44) दी धारा 4 राहें (1-10-2006 थमां) "पांडिचेरी" दी थाहरै पर प्रतिस्थापत ।
6. मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 (1986 दी 34) दी धारा 39 राहें (20-2-1987 थमां) "मिजोरम" शब्द दा लोप कीता गेआ ।
7. संविधान (सताइमीं तरमीम) अधिनियम, 1971 दी धारा 4 राहें (15-2-1972 थमां) "कुसै मजूद कनून" शब्दें दी थाहरै पर प्रतिस्थापत ।
8. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें "पैहली अनुसूची दे भाग ग च दस्से गेदे राज्य" शब्दें दी थाहरै पर प्रतिस्थापत ।
9. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें "नेही रियासत" शब्दें दी थाहरै पर प्रतिस्थापत ।
10. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें खंड (3) ते खंड (4) दी थाहरै पर प्रतिस्थापत ।

[भाग 9

पंचतां

243. परिभाषां – इस हिस्से च, जिसलै तगर प्रसंग दे मताबक जां पही जरूरी नेई होऐ, –

(क) “जिला” दा मतलब, कुसै रियासत दा जिला ऐ;

(ख) “ग्रांड सभा” दा मतलब, ग्रांड दे स्तर उप्पर पंचैत क्षेत्र दे अंदर शामिल कुसै ग्रांड कन्नै सरबंधत चनांस सूची च पंजीकृत होऐ दे व्यक्तिये कन्नै मिलिये बने दा अदारा ऐ;

(ग) “मध्यवर्ती स्तर” दा मतलब ग्रांड ते जिला स्तरें बषकहार नेहा स्तर ऐ जिसी कुसै रियासत दा राज्यपाल इस हिस्से दे मकसद आस्तै, लोक अधिसूचना राहें, मध्यवर्ती स्तर दे रूपे च चेचे तौर उप्पर दस्सै;

(घ) “पंचैत” दा मतलब, ग्राई क्षेत्रें आस्तै अनुच्छेद 243ख दे तैह्त बनाए गेदे खुदमुखेआर शासन दी कोई संस्था ऐ (भाएं ओह कुसै बी नांस कन्नै जान्नी जा);

(ङ) “पंचैत क्षेत्र” दा मतलब, पंचैत दा इलाकाई क्षेत्र ऐ;

(च) “जनसंख्या” दा मतलब नेही खीरी पछेत्तरी जनगणना च निष्चित कीती गेदी जनसंख्या ऐ, जेह्दे सुसंगत आंकड़े प्रकाषत होई गेदे न;

(छ) “ग्रांड” दा मतलब राज्यपाल आसेआ इस हिस्से दे मकसदें आस्तै लोक अधिकसूचना राहें, ग्रांड दे रूपे च दस्सेआ गेदा ग्रांड ऐ ते एह्दे तैह्त इस चाल्ली चेचे तौर उप्पर दस्सेआ गेदा ग्राएं दा समूह बी ऐ।

243क. ग्रांड सभा – ग्रांड सभा, ग्रांड दे स्तर उप्पर नेह् अखेआरें दा प्रयोग ते नेह् कम्में दा पालन करी सकग, जेह्दे कुसै रियासत दे विधान–मंडल आसेआ कन्नै राहें उपबंधित कीते जाह्न।

243ख. पंचैतें दा गठन – (1) हर इक रियासत च ग्रांड, मध्यवर्ती ते जिला स्तर उप्पर इस हिस्से दे प्रावधाने दे मताबक पंचैतें दा गठन कीता जाह्ग।

(2) खंड (1) च कुसै गल्लै दे होंदे होई बी, दरम्याने स्तर उप्पर पंचैत दा उस रियासती च गठन नेई कीता जाई सकग, जेह्दी अबादी बीह् लक्ख थमां बद्ध नेई ऐ।

243ग. पंचैतें दी संरचना – (1) इस हिस्से दे प्रावधानें दे तैह्त कुसै रियासत दा विधान–मंडल, कन्नै राहें, पंचैतें दी संरचना दे सरबंधे च प्रावधान करी सकग:

पर कुसै बी स्तर उप्पर पंचैत दे इलाकाई क्षेत्र दी आबादी ते नेही पंचैत च चनांस राहें भरी जाने आहली सीटें दी गिंतरी दा अनुपात समूलची रियासत च जित्थूं तगर होई सकै इक गै होऐ।

(2) कुसै पंचैत दियां सब्भै सीटां, पंचैत क्षेत्र च इलाकाई चनांस–क्षेत्रें दे प्रतक्ख चनांस राहें चुने गेदे व्यक्तिये कन्नै भरियां जाह्उन ते इस मकसद आस्तै हर इक पंचैत क्षेत्र गी इलाकाई चनांस–क्षेत्र च नेह् तरीके कन्नै बंडेआ जाह्ग जे हर इक चनांस–क्षेत्र दी अबादी दा, ते ओहदी सीटें दी बंड दी गिंतरी दा अनुपात सबूरी पंचैत क्षेत्र च यथासाध इक गै होऐ।

1. संविधान (त्रेहत्तरमीं तरमीम) अधिनियम, 1992 दी धारा 2 राहें (24–4–1993 थमां) अंतरस्थापत। संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें मूल भाग 9 दा लोप कीता गेआ हा।

भारत दा संविधान

(भाग 9 – पंचैतां)

(3) कुसै रियासत दा विधान-मंडल, कनूनै राहें, –

(क) ग्रांऽ स्तर उप्पर पंचैतें दे अध्यक्षें दा दरम्याने स्तर उप्पर पंचैतें च जां नेहियें रियासतें दी सूरत च जित्थै दरम्याने स्तर उप्पर पंचैतां नेई हैन, जि'ला स्तर उप्पर पंचैतें च;

(ख) दरम्याने स्तर पर पंचैतें दे अध्यक्षें दा जि'ला स्तर उप्पर पंचैतें च;

(ग) लोकसभा दे नेह सदस्यें दा ते रियासत दी विधान सभा दे नेह सदस्यें दा, जेहड़े उ'नें चनांऽ हल्कें दी नुमायंदगी करदे न जि'दे च ग्रांऽ स्तर दे इलावा होर स्तर पर कोई पंचैत क्षेत्र पूरी चाल्ली जां किष हदै तगर शामिल ऐ, नेही पंचैत च;

(घ) राज्य सभा दे सदस्यें दा ते रियासत दी विधान परिषद् दे सदस्यें दा जित्थै ओह, –

(i) दरम्याने स्तर पर कुसै पंचैत क्षेत्र दे अंदर मतदाताएं दे रूपै च पंजीकृत न, दरम्याने स्तर पर पंचैत च;

(ii) जि'ला स्तर पर कुसै पंचैत क्षेत्र दे अंदर मतदाताएं दे रूपै च पंजीकृत न, जि'ला स्तर पर पंचैत च; नुमायंदगी करने आस्तै प्रावधान करी सकग।

(4) कुसै पंचैत दे अध्यक्ष ते कुसै पंचैत दे नेह होर सदस्यें गी, भाएं ओह पंचैत क्षेत्र च इलाकाई चनांऽ-क्षेत्रें थमां प्रतक्ख चनांऽ राहें चुने गेदे होन जां नेई, पंचैत दे इजलासें च वोट देने दा अधिकार होग।

(5) (क) ग्रांऽ स्तर उप्पर कुसै पंचैत दे अध्यक्ष दा चनांऽ नेह तरीके कनूनै, जेहदा रियासत दे विधान-मंडल आसेआ कनूनै राहें प्रावधान कीता जा, कीता जाहग; ते

(ख) दरम्याने स्तर जां जि'ला स्तर पर कुसै पंचैत दे अध्यक्ष दा चनांऽ, ओहदे चनोए दे सदस्यें आसेआ अपने चा गै कीता जाहग।

243घ. सीटें दा आरक्षण – (1) हर इक पंचैत च –

(क) अनुसूचित जातियें; ते

(ख) अनुसूचित जनजातियें,

आस्तै सीटां मखसूस रौहडन ते इस चाल्ली मखसूस सीटें दी गिंतरी दा अनुपात, उस पंचैत च प्रतक्ख चनांऽ राहें भरियें जाने आहलियें सीटें दी कुल गिंतरी कोला करीब-करीब उ'ऐ होग, जेहड़ा उस पंचैत क्षेत्र च अनुसूचित जातियें दी जां उस पंचैत क्षेत्र च अनुसूचित जनजातियें दी जनसंख्या दा अनुपात उस क्षेत्र दी कुल अबादी कनूनै ऐ ते नेहियां सीटां कुसै पंचैत च बक्ख-बक्ख चनांऽ-क्षेत्रें गी अवर्तन राहें तकसीम कीतियां जाई सकडन।

(2) खंड (1) दे तैह्त मखसूस सीटें दी कुल गिंतरी दियां घट्टो-घट्ट इक बटा त्रै सीटां, स्थिति मताबक, अनुसूचित जातियें जां अनुसूचित जनजातियें दियें महिलाएं आस्तै मखसूस रौहडन।

(3) हर इक पंचैत च, प्रतक्ख चनांऽ राहें भरियें जाने आहलियें सीटें दी कुल संख्या दियां घट्टो-घट्ट इक बटा त्रै सीटां (जि'दे तैह्त अनुसूचित जातियें ते अनुसूचित जनजातियें दियें महिलाएं आस्तै मखसूस सीटें दी गिंतरी बी ऐ) महिलाएं आस्तै मखसूस रौहडन ते नेहियां सीटां कुसै पंचैत च बक्ख-बक्ख चनांऽ-क्षेत्रें गी अवर्तन राहें तकसीम कीतियां जाई सकडन।

(4) ग्रांऽ जां कुसै होर स्तर उप्पर पंचैतें च अध्यक्ष दे औहदे अनुसूचित जातियें, अनुसूचित जनजातियें ते महिलाएं आस्तै इस चाल्ली मखसूस रौहडन जि'दा रियासत दा विधान-मंडल कनूनै राहें प्रावधान करै:

भारत दा संविधान

(भाग 9 – पंचैतां)

पर कुसै रियासतै च हर इक स्तर उप्पर पंचैतें च अनुसूचित जातियें ते अनुसूचित जनजातियें आस्तै मखसूस अध्यक्षें दे औहदे दी गिंतरी दा अनुपात, हर इक स्तर उप्पर उ'नें पंचैतें च नेह औहदें दी कुल गिंतरी थमां करीब-करीब उ'ऐ होग, जेहड़ा उस रियासत च अनुसूचित जातियें दी जां उस रियासत च अनुसूचित जनजातियें दी जनसंख्या दा अनुपात उस रियासत दी कुल जनसंख्या कन्नै ऐ:

पर बावजूद एहदे हर इक स्तर उप्पर पंचैतें दे अध्यक्षें दे औहदें दी कुल गिंतरी दे घट्टो-घट्ट इक बटा त्रै औहदे महिलाएं आस्तै मखसूस रौहडन:

पर बावजूद एहदे इस खंड दे तैहत मखसूस औहदे दी गिंतरी हर इक स्तर उप्पर बक्ख-बक्ख पंचैतें गी अवर्तन राहें तकसीम कीती जाहग।

(5) खंड (1) ते खंड (2) दे तैहत सीटें दा आरक्षण ते खंड (4) दे तैहत अध्यक्षें दे औहदें दा आरक्षण (जेहड़ा महिलाएं आस्तै आरक्षण थमां बक्ख ऐ) अनुच्छेद 334 च दस्सी गेदी औद्ध दी समाप्ति उप्पर असरी नेई रौहग।

(6) इस हिस्से दी कोई गल्ल कुसै रियासत दे विधान-मंडल गी पिछड़े दे नागरिकें दे कुसै वर्ग दे पक्खे च कुसै स्तर उप्पर कुसै पंचैत च सीटें दे जां पंचैतें च अध्यक्षें दे औहदे दे आरक्षण आस्तै कोई प्रावधान करने थमां नेई रोकग।

243ड. पंचैतें दी औद्ध, वगैरा – (1) हर इक पंचैत जेकर उसले लागू कुसै कनूनै दे तैहत पैहलें गै भंग करी दित्ती जंदी ऐ तां, अपने पैहले इजलास आस्तै तैऽ तरीक थमां पं'जें ब'रें तगर बनी रौहग, इस थमां बद्ध नेई।

(2) उसलै लागू कुसै कनूनै दी कुसै तरमीम कन्नै कुसै स्तर उप्पर नेही पंचैत दा, जेहड़ी नेही तरमीम कोला ठीक पैहलें कम्म करा'रदी ही, उसलै तगर भंग नेई होग जिसलै तगर खंड (1) च दस्सी गेदी ओहदी औद्ध समाप्त नेई होई जंदी।

(3) कुसै पंचैत दा गठन करने आस्तै चनांऽ –

(क) खंड (1) च दस्सी गेदी ओहदी औद्ध दी समाप्ति थमां पैहलें;

(ख) ओहदे भंग होने दी तरीक थमां छें म्हीनें दी औद्ध दी समाप्ति थमां पैहलें,

पूरा कीता जाहग:

पर जित्थे ओह बकाया औद्ध, जेहदे आस्तै कोई भंग होई दी पंचैत बनी रौहदी, छें म्हीने थमां घट्ट ऐ, उत्थे नेही औद्ध आस्तै उस पंचैत दा गठन करने आस्तै इस खंड दे तैहत कोई चनांऽ कराना जरूरी नेई होग।

(4) कुसै पंचैत दी औद्ध दी समाप्ति थमां पैहलें उस पंचैत दे भंग होने पर गठित कीती गेदी कोई पंचैत उस औद्ध दे छड़े बाकी हिस्से आस्तै बनी रौहग जेहदे आस्तै भंग होई दी पंचैत खंड (1) दे तैहत बनी रौहदी, जेकर ओह इस चाल्ली भंग नेई कीती जंदी।

243च. सदस्यता आस्तै अयोग्यतां – (1) कोई व्यक्ति कुसै पंचैत दा सदस्य चनोने आस्तै ते सदस्य होने आस्तै अयोग्य होग, –

(क) जेकर ओह सरबंधत रियासत दे विधान-मंडल दे चनाएं दे मकसदें आस्तै उसलै लागू कुसै कनूनै राहें जां ओहदे तैहत इस चाल्ली अयोग्य करी दित्ता जंदा ऐ;

पर कोई व्यक्ति इस अधार उप्पर अयोग्य नेई होग जे ओहदी उमर पं'जीएं ब'रें थमां घट्ट ऐ, जेकर ओह इक्की ब'रे पूरे करी चुके दा ऐ;

(ख) जेकर ओह रियासत दे विधान-मंडल आसेआ बनाए गेदे कुसै कनूनै राहें जां ओहदे तैहत इस चाल्ली अयोग्य करी दित्ता जंदा ऐ।

(2) जेकर एह सुआल उठदा ऐ जे कुसै पंचैत दा कोई सदस्य खंड(1) च वर्णत कुसै अयोग्यता कन्नै ग्रस्त होई गेदा ऐ जां नेई, तां एह सुआल नेह प्राधिकारी गी ते नेह तरीके कन्नै जेहदा रियासत दा विधान-मंडल कनूनै राहें प्रावधान करै, फ़ैसले आस्तै भेजेआ जाहग।

भारत दा संविधान

(भाग 9 – पंचैतां)

243छ. पंचैतें दे अख्तेआर, प्राधिकार ते जिम्मेवारियां – संविधान दे प्रावधानें तैहत्, कुसै रियासत दा विधान-मंडल कनूनै राहें, पंचैतें गी नेह् अख्तेआर ते प्राधिकार देई सकग, जेहड़ा उ'नेंगी खुदमुख्तेआर शासन आहली संस्थाएं दे रूपै च कम्म करने च समर्थ बनाने आस्तै जरूरी होन ते नेह् कनूनै च पंचैतें गी स्हेई स्तर उप्पर नेहियें शर्तें दे तैहत् जेहड़ियां ओहदे च चेचे तौर उप्पर दस्सियां जाहन, हेठ लिखे दे सरबंधे च अख्तेआरें ते जिम्मेवारिये गी देने आस्तै प्रावधान कीते जाई सकडन, अर्थात् :-

(क) आर्थक विकास ते सामाजक न्यांऽ आस्तै योजना त्यार करना;

(ख) आर्थक विकास ते समाजक न्यांऽ दियें नेहियें स्कीमें गी, जेहड़ियां उ'नेंगी सौंपियां जाहन, जिं'दे तैहत् ओह स्कीमां बी हैन, जेहड़ियां आंहरमीं अनुसूची च सूचीबद्द विषे दे सरबंधे च न, लागू करना।

243ज. पंचैतें आसेआ टैक्स लाने ते उ'दे फंडं दे अख्तेआर – कुसे रियासत दा विधान-मंडल कनूनै राहें –

(क) नेह् टैक्स, शुल्क, टोल टैक्स ते फीसां ग्राहें, कठेरने ते विनियोजत करने आस्तै कुसै पंचैत गी नेही प्रक्रिया दे मताबक ते नेह् हदें दे तैहत् प्राधिकृत करी सकग;

(ख) रियासती सरकार आसेआ ग्राहे गेदे ते किट्टे कीते गेदे नेह् टैक्स, शुल्क, टोल टैक्स ते फीसां, कुसै पंचैत गी नेह् मकसदें आस्तै ते नेहियें शर्तें ते हदे तैहत् सौंपी सकग;

(ग) रियासत दे कठेरमे कोष चा पंचैतें आस्तै नेही स्थायता-अनुदान देने आस्तै प्रावधान करी सकग; ते

(घ) पंचायतें राहें जां उ'दे आसेआ तरतीबन हासल कीते गेदे सभनें धनें गी ज'मा करने आस्तै नेह् फंडे दा गठन करने ते उ'नें फंडें चा नेह् धनें गी कडढने आस्तै बी प्रावधान करी सकग, जेहडे कनूनै राहें चेचे तौर उप्पर दस्से जाहन।

243झ. माल्ली स्थिति दो नजरसानी आस्तै वित्त आयोग दा गठन – (1) रियासत दा राज्यपाल, संविधान (त्रेहत्तरमीं तरमीम) अधिनियम 1992 दे रम्भ थमां इक ब'रें दे अंदर-अंदर तौले थमां तौले, ते ओहदे परेंत, हर पत्रमें ब'रे दे मुक्कने पर, वित्त आयोग दा गठन करग जेहड़ा पंचैतें दी माल्ली स्थिति दा जायजा लैहग, ते जेहड़ा –

(क)(i) रियासत आसेआ ग्राहे गेदे टैक्सें, शुल्कें, टोल टैक्सें ते फीसें दी नेही कुल प्राप्ति गी रियासत ते पंचैतें च जेहड़ा इस हिस्से दे तैहत् उ'दे च बंडे जाहन

(ii) नेह् टैक्सें, शुल्कें, टोल टैक्सें ते फीसें दे नर्धारण गी जेहड़ा पंचैतें गी दित्ता जाई सकग जां उ'दे आसेआ प्रयोग कीता जाई सकग;

(iii) रियासत दे कठेरमे कोष चा पंचैतें आस्तै स्थायता अनुदान गी,

शासित करने आहले सिद्धांतें दे बारे च;

(ख) पंचैतें दी माल्ली स्थिति गी सुधारने आस्तै जरूरी गैई दे बारे च,

(ग) पंचैतें दे मजबूत माल्ली हितै च राज्यपाल आसेआ वित्त आयोग गी भेजे गेदे कुसै होर विषे दे बारे च,

राज्यपाल गी सफारष करग।

(2) रियासत दा विधान-मंडल, कनूनै राहें, आयोग दी संरचना दा, उ'नें योग्यताएं दा, जेहड़ियां आयोग दे सदस्यें दे रूपै च नियुक्ति आस्तै लोडचदियां होडन, ते उस ढंगै दा, जिस कन्वै उ'नेंगी चुनेआ जाहग, प्रावधान करी सकग।

भारत दा संविधान
(भाग 9 – पंचैता)

(3) आयोग अपनी प्रक्रिया नर्धारत करग ते उस कोल अपने कम्म करने आस्तै नेह अख्तेआर होडन जेहडे रियासत दा विधान-मंडल कनूनै राहें, उसी प्रदान करै।

(4) राज्यपाल इस अनुच्छेद दे तैहत्, आयोग आसेआ कीती गेदी हर इक सफारष गी, उस उप्पर कीती गेदी कारवाई गी स्पष्ट करने आहले ज्ञापन सनें रियासत दे विधान-मंडल दे अगमें रखोआहग।

243अ. पंचैते दे लेखे दा आडिट – कुसै रियासत दा विधान-मंडल, कनूनै राहें, पंचैते आसेआ लेखे रक्खे जाने ते नेह लेखे दा आडिट करने बारै प्रावधान करी सकग।

243ट. पंचैते आस्तै चनांS – (1) पंचैते आस्तै करोआए जाने आहले सभनें चनाएं आस्तै निर्वाचक-नामावलियां त्यार कराने दा ते उ'नें सभनें चनाएं दे संचालन दा अधीक्षण, निदेषन ते नियंत्रण, इक रियासती चनांS आयोग कोल होग जेहदे च इक रियासती चनांS-कमीषनर होग, जेहड़ा राज्यपाल आसेआ नियुक्त कीता जाहग;

(2) कुसै रियासत दे विधान-मंडल आसेआ बनाए गेदे कुसै कनूनै दे प्रावधाने दे तैहत्, रियासती चनांS-कमीषनर दी सेवा दियां शर्ता ते ओहदे दी औद्ध नेही होग जेहड़ी राज्यपाल नियमै राहें नर्धारत करै;

पर रियासती चनांS-कमीषनर गी ओहदे ओहदे थमां उस ढंगै कन्नै ते उ'नें अधारे उप्पर गै हटाया जाहग, जिस ढंगै कन्नै ते जि'नें अधारे उप्पर उच्च अदालत दे जज्जै गी हटाया जंदा ऐ, जां फही नेई ते रियासती चनांS-कमीषनर दी सेवा दियें शर्ते च ओहदी नियुक्ति परैत ओहदे आस्तै अलाहकारी तब्दीली नेई कीती जाहग।

(3) जिसलै रियासती चुनांS आयोग नेहा अनुरोध करै उसलै कुसै रियासत दा राज्यपाल, रियासती चुनांS आयोग गी उन्ना कर्मचारी अमला मुहैया करोआहग जिन्ना खंड (1) राहें रियासती चनांS आयोग गी उसी सौंपे गेदे कम्मै गी नभाने आस्तै जरूरी होऐ।

(4) इस संविधान दे प्रावधाने तैहत्, कुसै रियासत दा विधान-मंडल कनूनै राहें, पंचैते दे चनाएं कन्नै सरबंधत जां जुडे दे सभनें विषे दे सरबंधे च प्रावधान करी सकग।

243ठ. संघ राज्यक्षेत्र पर लागू होना – इस हिस्से दे प्रावधान संघ राज्यक्षेत्रे पर लागू होडन ते कुसै संघ राज्यक्षेत्र गी उ'दे लागू होने पर इस चाल्ली असरी होडन जि'यां आखो कुसै रियासत दे राज्यपाल दे प्रति हिदायत, अनुच्छेद 239 दे तैहत् नियुक्त संघ राज्यक्षेत्र दे प्रशासक दे प्रति हिदायतां होन ते कुसै रियासत दे विधान-मंडल जां विधान सभा दे प्रति हिदायतां कुसै नेह संघ राज्यक्षेत्र दे सरबंधे च, जेहदे च विधान सभा ऐ, उस विधान सभा दे प्रति हिदायतां होन:

पर राष्ट्रपति, लोक अधिसूचना राहें, एह हिदायत देई सकग जे इस हिस्से दे प्रावधान कुसै संघ राज्यक्षेत्र जां ओहदे कुसै हिस्से गी नेह अपवादें ते सुधारे दे तैहत् रौहदे होई, लागू होडन, जेहडे ओह अधिसूचना च चेचे दस्सै।

243ड. इस भाग दा किश क्षेत्रे पर लागू नेई होना – (1) इस हिस्से दी कोई गल्ल अनुच्छेद 244 दे खंड (1) च दस्से गेदे अनुसूचित क्षेत्रे ते ओहदे खंड (2) च दस्से गेदे जनजाति क्षेत्रे पर लागू नेई होग।

(2) इस हिस्से दी कोई गल्ल हेठ लिखे दे पर लागू नेई होग, अर्थात् :-

(क) नागालैंड, मेघालय ते मिजोरम रियासतां;

(ख) मणिपुर रियासत च नेह फ्हाड़ी क्षेत्र जि'दे आस्तै उसलै लागू कुसै कनूनै तैहत् जि'ला परिषदां मजूद न।

भारत दा संविधान

(भाग 9 – पंचैता)

(3) इस हिस्से दी –

(क) कोई गल्ल जि'ला स्तर उप्पर पंचैतें दे सरबंधें च पच्छिमी बंगाल रियासतें दे दार्जिलिंग जि'ले दे नेह प्हाड़ी क्षेत्रें पर लागू नेई होग जि'दे आस्तै उसलै लागू कुसै कनूनै तैहत् दार्जिलिंग गोरखा प्हाड़ी परिषद् मजूद ऐ;

(ख) कुसै गल्लै दा एह अर्थ नेई लाया जाहग जे ओह कुसै नेह कनूनै तैहत् बनाई गेदी दार्जिलिंग गोरखा प्हाड़ी परिषद् दे कम्में ते अख्तेआरें पर असर पांदी ऐ।

'[(3क) अनुसूचित जातियें आस्तै सीटें दे आरक्षण कन्नै सरबंधत अनुच्छेद 243घ दी कोई गल्ल अरुणाचल प्रदेश रियासतै पर लागू नेई होग]]

(4) इस संविधान च कुसै गल्लै दे होंदे होई बी, –

(क) खंड (2) दे उपखंड (क) च दस्से गेदे कुसै रियासतै दा विधान-मंडल, कनूनै राहें, इस हिस्से दा विस्तार, खंड (1) च दस्से गेदे क्षेत्रें छुट्ट, जेकर कोई होन, उस रियासतै पर उस सूरत च करी सकग जिसलै उस रियासतै दी विधान सभा इस मकसद दा इक प्रस्ताव उस सदन दी कुल सदस्य संख्या दे बहुमत राहें ते उस सदन च मजूद ते वोट देने आहले सदस्यें दे घट्टो-घट्ट दो बटा त्रै बहुमत कन्नै पास करी दिंदी ऐ;

(ख) संसद, कनूनै राहें, इस हिस्से दे प्रावधाने दा विस्तार, खंड (1) च दस्से गेदे अनुसूचित क्षेत्रें ते जनजाति क्षेत्रें पर, नेह अपवादें ते सुधारें दे तैहत् रौहदे होई, करी सकग, जेहड़े नेह कनूनै च दस्से जाहन ते नेह कुसै कनूनै गी अनुच्छेद 368 दे मकसदें आस्तै इस संविधान दी तरमीम नेई समझेआ जाहग।

243ढ. मजूदा कनून ते पंचैतें दा बनेआ राहना – इस हिस्से च कुसै गल्ला दे होंदे होई बी संविधान (त्रेहत्तरमीं तरमीम) अधिनियम, 1992 दे रम्भ दे ठीक पैहलें कुसै रियासतै च चलन च पंचैतें कन्नै सरबंधत कुसै कनूनै दा कोई प्रावधान जेहड़ा इस हिस्से दे प्रावधानें कन्नै मेल नेई खंदा ऐ, जिसलै तगर समर्थ विधान-मंडल आसेआ जां होर समर्थ प्राधिकारी आसेआ ओहदी तरमीम जां उसी खारज नेई करी दित्ता जंदा ऐ जां जिसलै तगर नेह रम्भ थमां इक ब'रा समाप्त नेई होई जंदा ऐ, इ'दे चा जेहड़ा बी पैहलें होऐ, उसलै तगर चलन च बनेआ रौहग :

पर नेह रम्भ थमां ठीक पैहलें मजूद सब्भै पंचैतां जेकर उस रियासत दी विधान सभा आसेआ जां नेही रियासतै दी सूरतै च जेहदे च विधान परिषद् ऐ, उस रियासतै दे विधान-मंडल दे हर इक सदन आसेआ पास कीते गेदे इस सरबंधे च प्रस्ताव राहें पैहलें गै भंग नेई करी दित्तियां जंदियां न तां अपनी औद्ध दी समाप्ति तगर बनी दियां रौहडन।

243ण. चनांS सरबंधी मामलें च अदालतें दे दखल दी मनाही – इस संविधान च कुसै गल्लै दे होंदे होई बी, —

(क) अनुच्छेद 243ट दे तैहत् बनाए गेदे जां बनाए जाने आस्तै प्रयोजत कुसै नेह कनूनै दी कनूनी मानता, जेहड़ी चनांS-क्षेत्रें दी हदबंदी जां नेह चनांS-क्षेत्रें गी सीटें दी बंड कन्नै सरबंधत ऐ, कुसै अदालतै च उस उप्पर सुआल नेई पुट्टेआ जाहग;

(ख) कुसै पंचैत आस्तै कुसै चनांS उप्पर नेही चनांS अर्जी उप्पर गै सुआल पुट्टेआ जाहग जेहड़ी नेह प्राधिकारी गी ते नेह ढंगै'ने पेष कीती गेदी ऐ, जेहदा कुसै रियासतै दे विधान-मंडल आसेआ बनाए गेदे कुसै कनूनै राहें जां ओहदे तैहत् प्रावधान कीता जा जां फही नेई]]

1[भाग 9क

नगरपालिकां

243त. परिभाषां — इस हिस्से च, जिसलै तगर प्रसंग दे मताबक जां पही जरूरी नेई होऐ, —

(क) “समिति”, दा मतलब, अनुच्छेद 243घ दे तैहत् गठत समिति ऐ;

(ख) “जि’ला” दा मतलब, कुसै रियासत दा जि’ला ऐ;

(ग) “महानगर क्षेत्र” दा मतलब दस लक्ख जां उस थमां बद्ध जनसंख्या आहला नेहा क्षेत्र ऐ जेह्दे च इक जां मते जि’ले शामिल न ते जेह्दे दो जां बद्ध नगरपालिकाएं जां पंचैतें जां होरनें जुड़े दे क्षेत्रें कन्नै मिलियै बनदा ऐ ते जिसी राज्यपाल, इस हिस्से दे मकसदें आस्तै, लोक अधिसूचना राहें, महानगर क्षेत्रें दे रूपै च चेचे तौर उप्पर दस्सै;

(घ) “नगरपालिका क्षेत्र” दा मतलब, राज्यपाल आसेआ अधिसूचत कुसै नगरपालिका दा इलाकाई क्षेत्र ऐ;

(ङ) “नगरपालिका” दा मतलब अनुच्छेद 243थ दे तैहत् बनाई गेदी खुदमुखेआर शासन दी कोई संस्था ऐ;

(च) “पंचैत” दा मतलब अनुच्छेद 243ख दे तैहत् बनाई गेदी कोई पंचैत ऐ;

(छ) “जनसंख्या” दा मतलब नेही खीरी पछेत्तरी जनगणना च निश्चित कीती गेदी जनसंख्या ऐ जेह्दे सुसंगत आंकड़े प्रकाषत होई गेदे न।

243थ. नगरपालिकाएं दा गठन — (1) हर इक रियासत च, इस हिस्से दे प्रावधानें दे मताबक, —

(क) कुसै संक्रमणशील क्षेत्र आस्तै, अर्थात् ग्राई क्षेत्र थमां शैहरी क्षेत्र च संक्रमणशील क्षेत्र आस्तै कोई नगर पंचैत दा (भाएं ओह कुसै बी नांऽ कन्नै जान्नेआ जंदा होऐ);

(ख) कुसै लौहके शैहरी क्षेत्र आस्तै नगरपालिका परिषद् दा; ते

(ग) कुसै बड़्हे शैहरी क्षेत्र आस्तै नगर निगम दा,

गठन कीता जाह्ग;

पर इस खंड दे तैहत् कोई नगरपालिका नेह शैहरी क्षेत्र जां ओह्दे कुसै हिस्से च नेई बनाई जाई सकग, जिसी राज्यपाल क्षेत्र दे अकार ते उस क्षेत्र च कुसै उद्यौगिक स्थापना राहें मुहैया कराने आस्तै प्रस्तावत करै ते नेही होरनें गल्लें गी जि’नेंगी ओह ठीक समझै, ध्यानै च रखदे होई, लोक अधिसूचना राहें, उद्यौगिक नगर दे रूपै च चेचे तौर पर दस्सै।

(2) इस अनुच्छेद च, “संक्रमणशील क्षेत्र” “लौहके कोला लौहके शैहरी क्षेत्र” जां “बड़्हे शैहरी क्षेत्र” दा मतलब नेहा क्षेत्र ऐ, जिसी राज्यपाल, इस हिस्से दे मकसदें आस्तै, उस क्षेत्र दी जनसंख्या, ओह्दे च जनसंख्या दा घनापन, मुकामी प्रशासन आसेआ पैदा राजस्व, खेती-बाड़ी दे इलावा होरनें कम्म-काजें च रोजगार दा फीसद आर्थक म्हत्तव जां नेही होरने गल्लें गी, जि’नेंगी ओह ठीक समझै, ध्यानै च रखदे होई, लोक अधिसूचना राहें, चेचे तौर उप्पर दस्सै।

243द. नगरपालिकाएं दी संरचना — (1) खंड (2) च जि’यां प्रावधान ऐ, ओह्दे छुट्ट कुसै नगरपालिका दियां सभै सीटां नगरपालिका क्षेत्र च इलाकाई चनांऽ-क्षेत्र थमां प्रतक्ख चनांऽ राहें चनोए दे व्यक्तियें आसेआ भरियां जाह्ङन ते इस मकसद आस्तै हर इक नगरपालिका क्षेत्र गी इलाकाई चनांऽ-क्षेत्रें च बंडेआ जाई सकग जेह्दे वार्ड दे नांऽ कन्नै जान्ने जाह्ङन।

भारत दा संविधान

(भाग 9क – नगरपालिकां)

(2) कुसै रियासतै दा विधान-मंडल कनूनै राहें, –

(क) नगरपालिका च, –

(i) नगरपालिका प्रशासन दा खास ज्ञान जां अनुभव रक्खने आहले व्यक्तियें दा;

(ii) लोक सभा दे नेह सदस्यें दा ते रियासतै दी विधान सभा दे नेह सदस्यें दा जेहडे उ'नें चनांS-क्षेत्रें दी नुमायंदगी करदे न जि'दे च कोई नगरपालिका क्षेत्र पूरी चाल्ली जां किष हद्दै तगर शामिल ऐ;

(iii) राज्य सभा दे नेह सदस्यें दा ते रियासतै दी विधान परिषद् दे नेह सदस्यें दा जेहडे नगरपालिका क्षेत्र दे अंदर चनोए दे रूपै च पंजीकृत न;

(iv) अनुच्छेद 243ध दे खंड (5) दे तैहत बनाई गेदी समितियें दे अध्यक्षें दा, नुमायंदगी करने आस्तै प्रावधान करी सकग:

पर पै'रा (1) च दस्से गेदे व्यक्तियें गी नगरपालिका दे इजलासें च वोट देने दा अधिकार नेई होग;

(ख) कुसै नगरपालिका दे अध्यक्ष दे चनांS दे तरीके दा प्रावधान करी सकग।

243घ. वार्ड समितियें, वगैरा दा गठन ते संरचना – (1) नेही नगरपालिका जेहदी जनसंख्या त्रै लक्ख जां उस थमां बद्ध ऐ, इलाकाई क्षेत्र दे अंदर वार्ड समितियें दा गठन कीता जाहग, जेहडियां इक जां मते वार्ड कन्नै मिलियै बनडन।

(2) रियासतै दा विधान-मंडल, कनूनै राहें, –

(क) वार्ड समिति दी संरचना ते ओहदे इलाकाई क्षेत्र आस्तै;

(ख) उस तरीके आस्तै जेहदे कन्नै कुसै वार्ड समिति दियां सीटां भरियां जाहडन, प्रावधान करी सकग।

(3) वार्ड समिति दे इलाकाई क्षेत्र दे अंदर कुसै वार्ड दी नुमायंदगी करने आहला कुसै नगरपालिका दा सदस्य उस समिति दा सदस्य होग।

(4) जित्थै कोई वार्ड समिति, –

(क) इक वार्ड कन्नै मिलियै बनदी ऐ, उत्थै नगरपालिका च उस वार्ड दी नुमायंदगी करने आहला सदस्य; जां

(ख) द'ऊं जां मते वार्ड कन्नै मिलियै बनदी ऐ उत्थै नगरपालिका च नेह वार्ड दी नुमायंदगी करने आहले सदस्यें चा इक सदस्य, जेहडा उस वार्ड समिति दे सदस्यें आसेआ चुनेआ जाहग,

उस समिति दा अध्यक्ष होग।

(5) इस अनुच्छेद दी कुसै गल्लै थमां एह नेई समझेआ जाहग जे ओह कुसै रियासतै दे विधान-मंडल गी वार्ड समिति दे इलावा समितियें दा गठन करने आस्तै कोई प्रावधान करने थमां रोकदी ऐ।

243न. सीटें दा आरक्षण – (1) हर इक नगरपालिका च अनुसूचित जातियें ते अनुसूचित जनजातियें आस्तै सीटां मखसूस रौहडन ते इस चाल्ली मखसूस सीटें दी गिंतरी दा अनुपात उस नगरपालिका च प्रतक्ख चनांS राहें भरी जाने आहली सीटें दी कुल गिंतरी थमां लगभग उऐ होग जेहडा उस नगरपालिका क्षेत्र च अनुसूचित जातियें दी जां उस नगरपालिका क्षेत्र च, अनुसूचित जनजातियें दी जनसंख्या थमां ऐ ते नेहियां सीटां कुसै नगरपालिका दे बक्ख-बक्ख चनांS क्षेत्रें गी आवर्तन च, बडियां जाई सकडन।

(2) खंड (1) दे तैहत मखसूस सीटें दी कुल गिंतरी दियां घट्टो-घट्ट इक बटा त्रै सीटां, स्थिति मताबक, अनुसूचित जातियें जां अनुसूचित जनजातियें दियें महिलाएं आस्तै मखसूस रौहडन।

भारत दा संविधान

(भाग 9क – नगरपालिकां)

(3) हर इक नगरपालिका च प्रतकख चनांऽ राहें भरियें जाने आहलियें सीटें दी कुल गिंतरी दियां घट्टो-घट्ट इक बटा त्रे सीटां (जिं दे तैह्त अनुसूचित जातियें ते अनुसूचित जनजातियें दियें महिलाएं आस्तै मखसूस सीटें दी गिंतरी बी है) महिलाएं आस्तै मखसूस रौहडन ते नेहियां सीटां कुसै नगरपालिका दे बकख-बकख चनांऽ-क्षेत्रें गी आवर्तन च बडिया जाई सकडन।

(4) नगरपालिकाएं च अध्यक्षें दे ओहदे अनुसूचित जातियें, अनुसूचित जनजातियें ते महिलाएं आस्तै नेह ढंगै नै आरक्षित रौहडन, जिं दा रियासती विधान-मंडल कनूनै राहें प्रावधान करै।

(5) खंड (1) ते खंड (2) तैह्त सीटें दा आरक्षण ते खंड (4) दे तैह्त अध्यक्षें दे ओहदे दा आरक्षण (जेहड़ा महिलाएं आसेआ आरक्षण थमां बकख ऐ) अनुच्छेद 334 च दस्सी गेदी औद्ध दी समाप्ति उप्पर असरी नेई रौहग।

(6) इस हिस्से दी कोई गल्ल कुसै रियासतै दे विधान-मंडल दे पिछड़े दे बसनीकें दे कुसै वर्ग दे पकखे च कुसै नगरपालिका च सीटें दे जां नगरपालिकाएं च अध्यक्षें दे ओहदे दे आरक्षण आस्तै कोई प्रावधान करने थमां नेई रोकग।

243प. नगरपालिकाएं दी औद्ध, वगैरा – (1) हर इक नगरपालिका जेकर उसलै चलन च कुसै कनून दे तैह्त पैहलें गै भंग नेई करी दित्ती जंदी ऐ तां अपने पैहले इजलास आस्तै तैऽ तरीक थमां पंजें बरें तगर बनी रौहग, इस थमां बदध नेई:

पर कुसै नगरपालिका गी भंग करने थमां पैहलें उसी सुनवाई दा रहेई मौका दित्ता जाहग।

(2) उसलै चलन च कुसै कनूनै दी कुसै तरमीम थमां कुसै स्तर उप्पर ऐसी नगरपालिका दा, जेहड़ी नेही तरमीम थमां ठीक पैहलें कम्म करा रदी ऐ, उसलै तगर भंग नेई होग जिसलै तगर खंड (1) च दस्सी गेदी ओहदी औद्ध खतम नेई होई जंदी।

(3) कुसै नगरपालिका दा गठन करने आस्तै चनांऽ, –

(क) खंड (1) च दस्सी गेदी ओहदी औद्ध दी समाप्ति थमां पैहलें;

(ख) ओहदे भंग होने दी तरीक थमां छें म्हीने दी औद्ध दी समाप्ति थमां पैहलें,

पूरा कीता जाहग:

पर जित्थै ओह बाकी दी औद्ध, जेहदे आस्तै कोई भंग होई दी नगरपालिका बनी रौहदी ऐ, छें म्हीने थमां घट्ट ऐ, उत्थै नेही औद्ध आस्तै उस नगरपालिका दा गठन करने आस्तै इस खंड दे तैह्त कोई चनांऽ कराना जरूरी नेई होग।

(4) कुसै नगरपालिका दी औद्ध दी समाप्ति थमां पैहलें उस नगरपालिका दे भंग होने पर गठत कीती गेदी कोई नगरपालिका, उस औद्ध दे छड़े बाकी हिस्से आस्तै बनी रौहग जेहदे आस्तै भंग होई दी नगरपालिका खंड (1) दे तैह्त बनी रौहदी ऐ, जेकर ओह इस चाल्ली भंग नेई कीती जंदी।

243फ. सदस्यता आस्तै अयोग्यतां – (1) कोई व्यक्ति कुसै नगरपालिका दा सदस्य चुने जाने आस्तै ते सदस्य होने आस्तै अयोग्य होग, –

(क) जेकर ओह सरबंधत रियासतै दे विधान-मंडल दे चनाएं दे मकसदै आस्तै उसलै लागू कुसै कनूनै राहें जां ओहदे तैह्त इस चाल्ली अयोग्य करी दित्ता जंदा ऐ:

पर कोई व्यक्ति इस अधार उप्पर अयोग्य नेई होग जे ओहदी उमर पंजीएं बरें थमां घट्ट ऐ, जेकर ओह इविकयें बरें दा होई चुके दा ऐ;

(ख) जेकर ओह रियासतै दे विधान-मंडल आसेआ बनाए गेदे कुसै कनूनै राहें जां ओहदे तैह्त इस चाल्ली अयोग्य करी दित्ता जंदा ऐ।

भारत दा संविधान

(भाग 9क – नगरपालिकां)

(2) जेकर एह सुआल उठदा ऐ जे कुसै नगरपालिका दा कोई सदस्य खंड (1) च वर्णत कुसै अयोग्यता कन्नै ग्रस्त होई गेदा ऐ जां नेई तां एह सुआल नेह प्राधिकारी गी, ते नेह तरीके कन्नै जेहड़ा रियासतै दा विधान मंडल, कन्नै राहें प्रावधान करै, फैसले आसतै भेजेआ जाहग।

243ब. नगरपालिकाएं, वगैरा दे अख्तेआर, प्राधिकार ते जिम्मेवारियां – इस संविधान दे प्रावधानें तैहत्, कुसै रियासतै दा विधान-मंडल कन्नै राहें, –

(क) नगरपालिकाएं गी नेह अख्तेआर ते प्राधिकार देई सकग, जेहड़ा उ'नेंगी खुदमुख्तेआर शासन दी संस्थाएं दे रूपै च कम्म करने च समर्थ बनाने आसतै जरूरी होन ते नेह कन्नै च नगरपालिकाएं गी, नेहियें शर्तें दे तैहत् रौह्दे होई जेहड़ियां ओह्दे च दस्सियां जाह्न, हेठ लिखे दे सरबंधे च अख्तेआर ते जिम्मेवारियां सौंपने आसतै प्रावधान कीते जाई सकडन, अर्थात् :-

(i) आर्थिक विकास ते समाजक न्यांऽ आसतै योजनां त्यार करना;

(ii) नेह कम्मं दा पालन करना ते नेहियें स्कीमें गी जेहड़ियां उ'नेंगी सौंपियां जाह्न, जेह्दे तैहत् ओह स्कीमां बी हैन जेहड़ियां बाहरमीं अनुसूची च सूचीबद्ध विषे दे सरबंधे च न, लागू करना;

(ख) समितियों गी नेह अख्तेआर ते अधिकार देई सकग जेहड़ा उ'नेंगी दित्तियें गेदियें जिम्मेवारियें गी जिं'दे तैहत् ओह जिम्मेवारियां बी हैन जेहड़ियां बाहरमीं अनुसूची च सूचीबद्ध विषे दे सरबंधे च न, लागू करने च समर्थ बनाने आसतै जरूरी होन।

243भ. नगरपालिकाएं आसेआ टैक्स लाने ते उं'दे फंडं दे अख्तेआर – कुसै रियासतै दा विधान-मंडल कन्नै राहें, —

(क) नेह टैक्स, शुल्क, टोल-टैक्स ते फीसां ग्राहने, कठेरने ते प्रयोग करने आसतै कुसै नगरपालिका गी नेही प्रक्रिया दे मताबक ते नेहियें हदें तैहत् रौह्दे होई प्राधिकृत करी सकग;

(ख) रियासती सरकार ओसआ ग्राहे गेदे ते किट्टे कीते गेदे नेह टैक्स, शुल्क, टोल-टैक्स ते फीसां कुसै नगरपालिका गी नेह मकसदें आसतै, ते नेहियें शर्तें ते हदें दे तैहत् रौह्दे होई, शामिल करी सकग;

(ग) रियासतै दे कठेरमे कोष चा नगरपालिकाएं आसतै नेह स्थायता-अनुदान देने आसतै प्रावधान करी सकग; ते

(घ) नगरपालिकाएं आसेआ जां उं'दे आसेआ तरतीबन हासल कीते गेदे सभनें धनें गी ज'मा करने आसतै नेह फंडें दा गठन करने ते उं'नें फंडें चा नेह धनें गी कडढने आसतै बी प्रावधान करी सकग, जेहड़े कन्नै च चेचे दस्से जाह्न।

243म. वित्त आयोग – (1) अनुच्छेद 243झ दे तैहत् बनाया गेदा वित्त आयोग नगरपालिकाएं दी माल्ली स्थिति दी बी नज़रसानी करग ते जेहड़ा –

(क) (i) रियासत आसेआ ग्राहने जोग नेह टैक्सें, शुल्कें, टोल-टैक्सें ते फीसं दे नेह कुल प्राप्तियें दे रियासत ते नगरपालिकाएं च, जेहड़ा इस भाग दे तैहत् उं'दे च तकसीम कीते जाह्न, बंड गी ते सभने स्तरें उप्पर नगरपालिकाएं च नेहियें प्राप्तियें दे उं'दे कन्नै सरबंधत हिस्से दी बंड गी;

(ii) नेह टैक्सें, शुल्कें, टोल-टैक्सें ते फीसं दे नर्धारण गी, जेहड़े नगरपालिकाएं च शामिल कीतियां जाई सकडन जां उं'दे आसेआ विनियोजित कीतियां जाई सकडन;

भारत दा संविधान

(भाग 9क – नगरपालिकां)

(iii) रियासतै दे कठेरमे कोष चा नगरपालिकाएं आस्तै स्हायता अनुदान गी शासित करने आहले सिद्धांतें दे बारे च;

(ख) नगरपालिकाएं दी माल्ली स्थिति गी सुधारने आस्तै जरूरी उपाएं दे बारे च;

(ग) नगरपालिकाएं दे मजबूत माल्ली हितै च राज्यपाल आसेआ वित्त आयोग गी दित्ते गेदे कुसै होर विषे दे बारे च,
राज्यपाल गी सफारष करग।

(2) राज्यपाल इस अनुच्छेद दे तैहत्, आयोग आसेआ कीती गेदी हर इक सफारष गी उस उप्पर कीती गेदी कारवाई दे स्पष्ट करने आहले ज्ञापन सनें, रियासती विधान—मंडल दे सामनै रखोआहग।

243य. नगरपालिकाएं दे लेखे दा आडिट – कुसै रियासतै दा विधान—मंडल, कनूनै राहें नगरपालिकाएं आसेआ लेखे रक्खे जाने ते नेह लेखे दा आडिट करने दे बारे च प्रावधान करी सकग।

243यक. नगरपालिकाएं आस्तै चनांS – (1) नगरपालिकाएं आस्तै कराएं जाने आहले सभनें चनाएं आस्तै नाएं दी निर्वाचक—नामावली त्यार कराने दा ते उ'नें सभनें चनाएं दे संचालन दा अधीक्षण, निदेशन ते नियंत्रण, अनुच्छेद 243ट च दस्से गेदे रियासती चनांS आयोग च षामल होग।

(2) इस संविधान दे प्रावधानें दे तैहत्, कुसै रियासतै दा विधान—मंडल, कनूनै राहें, नगरपालिकाएं दे चनाएं कन्ने सरबंधत जां जुडे दे सभनें विषे दे सरबंधे च प्रावधान करी सकग।

243यख. संघ राज्यक्षेत्रं पर लागू होना – इस भाग दे प्रावधान संघ राज्यक्षेत्रें पर लागू होउन ते कुसै संघ राज्यक्षेत्र गी उ'दे लागू होने च इस चाल्ली असरी होउन जि'यां आखो कुसै रियासतै दे राज्यपाल लेई निर्देश, अनुच्छेद 239 दे तैहत् नियुक्त संघ राज्यक्षेत्र दे प्रशासक लेई निर्देश होन ते कुसै रियासतै दे विधान—मंडल जां विधान सभा आस्तै हिदायतां, कुसै नेह संघ राज्यक्षेत्र दे सरबंधे च जेहदे च विधान सभा ऐ, उस विधान सभा आस्तै निर्देश होन;

पर राष्ट्रपति, लोक अधिसूचना राहें, एह हिदायत देई सकग जे इस हिस्से दे प्रावधान कुसै संघ राज्यक्षेत्र जां ओहदे कुसै हिस्से गी नेह अपवादें ते सुधारें दे तैहत् रौहदे होई लागू होउन, जि'नेंगी ओह अधिसूचना च चेचे दस्से।

243यग. इस भाग दा किश क्षेत्रें पर लागू नेई होना – (1) इस भाग दी कोई गल्ल अनुच्छेद 244 दे खंड (1) च दित्ती गेदी अनुसूचित क्षेत्रें ते एहदे खंड (2) च दस्से गेदे जनजाति क्षेत्रें पर लागू नेई होग।

(2) इस भाग दी कुसै गल्लै दा एह अर्थ नेई लाया जाहग जे ओह पष्चिमी बंगाल रियासत दे दार्जिलिंग जि'ले दे प्हाड़ी क्षेत्रें आस्तै उसलै चलन च कुसै कनूनै दे तैहत् बनाई गेदी दार्जिलिंग गोरखा प्हाड़ी परिषद् दे कम्में ते अख्तेआरें पर असर पांदी ऐ।

(3) इस संविधान च कुसै गल्लै दे होंदे होई बी, संसद, कनूनै राहें, इस भाग दे प्रावधानें दा विस्तार खंड (1) च दस्से गेदे अनुसूचित क्षेत्रें ते जनजाति क्षेत्रें पर, नेह अपवादें ते सुधारें दे तैहत् रौहदे होई करी सकग, जेहडे नेह कनूनै च चेचे दस्से जाहन ते नेह कुसै कनून गी अनुच्छेद 368 दे मकसद आस्तै इस संविधान दी तरमीम नेई समझी जाहग।

243यघ. जि'ला योजना आस्तै समिति –(1) हर इक रियासत च जि'ला स्तर उप्पर, जि'ले च पंचैतें ते नगरपालिकाएं आसेआ त्यार कीती गेदी योजनाएं गी संगठत करने ते सबूरे जि'ले आस्तै इक विकास योजना दा खाका त्यार करने आस्तै, इक जि'ला योजना समिति दा गठन कीता जाहग।

भारत दा संविधान

(भाग 9क – नगरपालिकां)

(2) रियासत दा विधान—मंडल, कनूनै राहें, हेठ लिखे दे सरबंधे च प्रावधान करी सकग, अर्थात् :-

(क) जि'ला योजना समितियों दी संरचना;

(ख) ओह तरीकाकार जेह्दे कन्नै नेहियें समितियों च थाहर भरे जाह्उन;

पर नेही समिति दी कुल सदस्य संख्या दे घट्टो—घट्ट चार बटा पंज सदस्य, जि'ला स्तर पर पंचैत दे ते जि'लें च नगरपालिकाएं दे चनोए दे सदस्यें आसेआ, अपनं चा, जि'ले च ग्राई क्षेत्रें दी ते नगरी क्षेत्रें दी जनसंख्या दे अनुपात मताबक चुने जाह्उन;

(ग) जि'ला योजना कन्नै सरबंधत नेह कम्म जेह्ड़े नेहियें समितियों गी सौंपे जाहन;

(घ) ओह ढंग—तरीका जेह्दे कन्नै नेहियें समितियों दे अध्यक्ष चुने जाह्उन।

(3) हर इक जि'ला योजना समिति, विकास योजना प्रारूप तयार करने च, —

(क) हेठ लिखी दियें गल्लें दा ध्यान रक्खग, अर्थात् :-

(i) पंचैतें ते नगरपालिकाएं दे सामान्य हित दे मामले, जि'दे तैहत स्थानक योजना, जल ते होर भौतक ते कुदरती संसाधनं च हिस्सा बंडाना, बुनियादी ढांचे दा समूलचा विकास ते पर्यावरण संरक्षण ऐ;

(ii) उपलब्ध माल्ली जां होर संसाधनं दी मात्रा ते किस्मां;

(ख) नेहियें संस्थाएं ते संगठनं कन्नै सलाह—सूत्तर करग जि'नेगी राज्यपाल, हुकमै राहें, चेचे तौरा पर दस्सै।

(4) हर इक जि'ला योजना समिति दा अध्यक्ष, ओह विकास योजना, जिसदी नेही समिति आसेआ सफारष कीती जंदी ऐ, रियासती सरकार गी भेजग।

243यड. महानगर योजना आस्तै समिति — (1) हर इक महानगर क्षेत्र'च सबूरे महानगर क्षेत्र आस्तै विकास योजना प्रारूप तयार करने आस्तै, इक महानगर योजना समिति दा गठन कीता जाहग।

(2) रियासत दा विधान—मंडल, कनूनै राहें, हेठ लिखे दे सरबंधे'च प्रावधान करी सकग, अर्थात् :-

(क) महानगर योजना समितियों दा गठन;

(ख) ओह ढंग—तरीका जेह्दे कन्नै नेहियें समितियों च थाहर भरे जाह्उन :

पर नेही समिति दे घट्टो—घट्ट दो—तिहाई सदस्य, महानगर क्षेत्र च नगर पालिकाएं दे चनोए दे सदस्य ते पंचैतें दे अध्यक्ष आसेआ, अपनं चा, उस क्षेत्र च नगरपालिकाएं दी ते पंचैतें दी जनसंख्या दे अनुपात मताबक चुने जाह्उन;

(ग) नेहियें समितियों च भारत सरकार ते रियासती सरकार दा ते नेह संगठनं ते संस्थाएं दी नुमायंदगी जेह्डी नेहियें समितियों गी सौंपे गेदे कम्मं गी अमल च आहनने आस्तै लाजमी समझे जाहन;

(घ) महानगर क्षेत्र आस्तै योजना ते ताल—मेल कन्नै सरबंधत नेह कम्म जेह्ड़े नेहियें समितियों गी सौंपे जाहन;

(ङ) ओह ढंग—तरीका जेह्दे कन्नै नेहियें समितियों दे अध्यक्ष चुने जाह्उन।

भारत दा संविधान

(भाग 9क – नगरपालिकां)

(3) हर इक महानगर योजना समिति, विकास योजना प्रारूप तयार करने'च, –

(क) हेठ लिखी दिये गल्लें दा ध्यान रक्खग, अर्थात् :-

(i) महानगर क्षेत्र'च नगरपालिकाएं ते पंचैतें आसेआ तयार कीतियां गेदियां योजनां;

(ii) नगरपालिकाएं ते पंचैतें दे सामान्य हितै दे मामले, जि'दे तैहूत उस क्षेत्र दी सांझी स्थानक योजना, पानी ते होर भौतक ते कुदरती संसाधनें गी सांझा करना बुनियादी ढांचे दा समूलचा विकास ते पर्यावरण संरक्षण ऐ;

(iii) भारत सरकार ते रियासती सरकार आसेआ निश्चित सबै उद्देश्य ते प्राथमिकतां;

(iv) उ'नें निवेपे दी मात्रा ते प्रकृति जेहड़े भारत सरकार ते रियासती सरकार दी अजैसिये आसेआ महानगर क्षेत्र'च कीते जाने दी संभावना ऐ ते होर उपलब्ध माल्ली ते होर संसाधन;

(ख) नेहिये संस्थाएं ते संगठनें कन्ने सलाह-सूतर करग जि'नेंगी राज्यपाल, हुकमै राहें, दस्सै।

(4) हर इक महानगर योजना कमेटी दा अध्यक्ष, ओह विकास योजना, जेहड़ी नेही कमेटी आसेआ सफारष कीती जंदी ऐ, रियासती सरकार गी भेजग।

243यक. मजूदा कनूनें ते नगरपालिकाएं दा बनेआ रौहना – इस भाग'च बावजूद एहदे, संविधान (चरहत्तरमीं तरमीम) अधिनियम, 1992 दे रम्भ थमां ठीक पैहलें कुसै रियासतै च लागू नगरपालिकाएं कन्ने सरबंधत कुसै कनूनें दा कोई प्रावधान, जेहड़ा इस भाग दे प्रावधाने कन्ने मेल नेई खंदा ऐ, जिसलै तगर समर्थ विधान-मंडल आसेआ जां होर समर्थ प्राधिकारी आसेआ उस'च तरमीम जां रदद नेई करी दित्ता जंदा ऐ जां जिसलै तगर नेह रम्भ थमां इक ब'रा समाप्त नेई होई जंदा ऐ, इ'दे'चा जेहड़ा बी पैहलें होऐ, उसलै तगर लागू रौहग;

पर नेह रम्भ दे ठीक पैहलें मजूद सबै नगरपालिकां, जेकर उस रियासत दी विधान सभा आसेआ जां नेह राज्य दी स्थिति'च, जिस'च विधान परिषद् ऐ, उस रियासत दे विधान-मंडल दे हर इक सदन आसेआ पास इस मंषा दे प्रस्ताव राहें पैहलें गै भंग नेई करी दित्तियां जंदियां न, तां, अपनी औद्ध दे मुक्कने तगर बनी दियां रौहडन।

243यक. चनांS सरबंधी मामले च अदालते दे दखल दी मनाही –इस संविधान'च बावजूद एहदे, –

(क) अनुच्छेद 243यक दे तैहूत बनाई गेदी जां बनाई जाने आस्तै सरबंधत कुसै नेह कनूनें दी कनूनी मानता, जेहड़ी चनांS-क्षेत्रे दी हदबंदी जां नेह चनांS-क्षेत्रे गी सीटें दी बंड कन्ने सरबंधत ऐ, कुसै अदालती च सुआल नेई पुट्टेआ जाहग;

(ख) कुसै नगरपालिका आस्तै कुसै चनांS, नेही चनांS अर्जी पर गै सुआल कीता जाहग जेहड़ा नेह प्राधिकारी गी ते नेह ढंगे कन्ने पेष कीती गई ऐ, जिसदा कुसै रियासत दे विधान-मंडल आसेआ बनाए गेदे कुसै कनूनें राहें जां उसदे तैहूत प्रावधान कीता जा, जां पही नेई।]

**1[भाग 9 ख
सैहकारी समितियां**

243यज परिभाषां – इस भाग च, जिसलै तगर जे संदर्भ कोला जां पही लोडचदा नेई होऐ –

- (क) “प्राधिकृत व्यक्ति” दा अर्थ अनुच्छेद 243यथ च दस्सेआ गेदा कोई व्यक्ति ऐ।
- (ख) “बोर्ड” दा अर्थ बोर्ड दे निदेशक जां सैहकारी समिति दा शासित अदारा, भाएं कुसै बी नांS कन्नै जान्नेआ जंदा होऐ, जिसगी कुसै समिति दे कम्मै—काजै दे प्रबंध दा निदेशन ते नियंत्रण सौंपेआ गेदा ऐ।
- (ग) “सैहकारी समिति” दा अर्थ नेही समिति ऐ, जेहड़ी कुसै रियासत च किष चिरे आस्तै लागू सैहकारी समितियें कन्नै सरबंधत कुसै कन्नै तैहत पंजीकृत ऐ जां पंजीकृत समझी गेदी ऐ;
- (घ) “बहुराज्य सैहकारी समिति” दा अर्थ नेही समिति ऐ, जिसदे उद्देश्य इक रियासत तगर सीमित नेई हैन ते जेहड़ी नेहियें सैहकारी समितियें कन्नै सरबंधत उसलै लागू कुसै कन्नै दे तैहत पंजीकृत ऐ जां पंजीकृत समझी गेदी ऐ;
- (ङ) “पदाधिकारी” दा अर्थ कुसै सैहकारी समिति दा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, सचिव जां खजांची ऐ ते जिं दे च कुसै सैहकारी समिति दे बोर्ड आसेआ चुनेआ जाने आहला कोई होर आदमी बी शामिल ऐ;
- (च) “रजिस्ट्रार” दा अर्थ बहुराज्य सैहकारी समितियें दे सरबंधे च केंदरी सरकार आसेआ नियुक्त केंदरी रजिस्ट्रार ते सैहकारी समितियें दे सरबंधे च कुसै रियासत दे विधान—मंडल आसेआ बनाए गेदे कन्नै दे तैहत रियासती सरकार आसेआ नियुक्त सैहकारी समितियें दा रजिस्ट्रार ऐ;
- (छ) “राज्य अधिनियम” दा अर्थ कुसै रियासत दे विधान—मंडल आसेआ बनाया गेदा कोई कन्न ऐ।
- (ज) “राज्य स्तरी सैहकारी समिति” दा अर्थ नेही सैहकारी समिति ऐ, जिसदा सबूरी रियासतै पर विस्तार ते अपना प्रचालन क्षेत्र ऐ ते जिसगी कुसै रियासत दे विधान—मंडल आसेआ बनाए गेदे कुसै कन्नै च उस रूपै च परिभाषत कीता गेदा ऐ।

243यज सैहकारी समितियें दा निगमन – इस भाग दे प्रावधानें दे तैहत, कुसै रियासत दा विधान—मंडल, कन्नै राहें, अपनी इच्छा कन्नै नर्माण, लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण, सदस्य—आर्थक भागीदारी ते खुदमुखेआर कार्यकरण दे सिद्धांतें पर आधारत सैहकारी समितियें दे निगमन, विनियमन ते समापन दे सरबंधे च प्रावधान करी सकग।

243यज बोर्ड दे सदस्यें ते उसदे औहदेदारें दी संख्या ते औहदे पर बने रौहने दी औद्ध – (1) बोर्ड च उन्नें निदेशक होडन, जिन्नें दा रियासती विधान—मंडल आसेआ, कन्नै राहें प्रावधान कीता जा :

बषर्त सैहकारी समितियें दे निदेशकें दी बद्धो—बद्ध संख्या इविकयें थमां मती नेई होग :

पर एह होर जे कुसै रियासत दा विधान—मंडल, कन्नै राहें, नेही हर इक सैहकारी समिति दे बोर्ड च जेहड़ी सदस्यें दे रूपै च व्यष्टियें कन्नै मिलियै बनी दी होऐ ते उस च अनुसूचित जातियें जां अनुसूचित जनजातियें जां महिलावर्ग जां प्रवर्ग थमां सदस्य होन, इक थाहर अनुसूचित जातियें जां अनुसूचित जनजातियें ते दो थाहर महिलाएं आस्तै मखसूस करग।

(2) बोर्ड दे चनोए दे सदस्यें ते उं दे औहदेदारें दे औहदे दी औद्ध, चनांS दी तरीक कोला लेइयै पजें बरें तगर दी होग ते औहदेदारें दे औहदें दी औद्ध बोर्ड दी औद्ध जिन्नी होग :

1. संविधान (सताहनमीं तरमीम) अधिनियम, 2011 दी धारा 4 राहें (15—2—2012 थमां) अंतरस्थपित।

बषर्ते बोर्ड, बोर्ड दी चान-चक्क खाल्ली थाहरै गी नामजदगी राहें उस वर्ग दे सदस्यें चा, जिसदे सरबंधे च चान-चक्क थाहर खाल्ली होई ऐ, भरी सकग, जेकर बोर्ड दे औहदे दी औद्ध उसदी मूल औहदे दी औद्ध दे अद्धे थमां घट्ट ऐ।

(3) कुसै रियासत दा विधान-मंडल, कनूनै राहें, नेही समिति दे बोर्ड दे सदस्यें दे रूपै च बैंककारी, प्रबंधन, वित्त दे क्षेत्र'च तजरबा रक्खने आहले जां सैहकारी समिति दे उद्देषें ते उसदे आसेआ कीते जाने आहले कम्मै-काजै कनूनै सरबंधत कुसै होर क्षेत्र च म्हारत रक्खने आहले बोर्ड दे सदस्य होने आहले व्यक्तियें गी शामिल करने आस्तै, प्रावधान करी सकग :

बषर्ते नेह शामिल सदस्य खंड (1) दे पैहले परंतुक च चेचे दस्से गेदे इक्कियें निदेशकें दे इलावा द'ऊं थमां मते नेई होडन :

बषर्ते एह होर जे नेह शामिल सदस्यें गी नेह सदस्यें दे रूपै च उ'दी हैसियत च सैहकारी समिति दे कुसै चनांS च मतदान करने दा जां बोर्ड दे औहदेदारें दे रूपै च चनोने आस्तै योग्य होने दा हक्क नेई होग :

पर एह बी जे कुसै सैहकारी समिति दे कार्यकारी निदेशक, बोर्ड दे ¹[सदस्य] बी होडन ते नेह ²[सदस्यें] गी खंड (1) दे पैहले परंतुक च चेचे दस्से गेदे कुल निदेशकें दी कुल गितरी दी गितरी करने दे मकसद आस्तै बाहर रक्खेआ जाहग।

243यट बोर्ड दे सदस्यें दा चनांS – (1) कुसै रियासत दे विधान-मंडल आसेआ बनाए गेदे कुसै कनूनै च कुसै गल्लै दे होंदे होई बी, बोर्ड दा चनांS, बोर्ड दी औद्ध दे मुक्कने थमां पैहलें संचालत कीता जाहग, जिस थमां एह पक्का कीता जाई सकै जे नमें चनोए दे बोर्ड दे सदस्य, औहदे थमां उतरने आहले बोर्ड दे सदस्यें दे ³[औहदे दी औद्ध] मुकदे गै औहदे ग्रैहण करी लैन।

(2) कुसै सैहकारी समिति दे सभनें चनाएं आस्तै निर्वाचक-नामावलियां त्यार करने दा ते उ'नें सभनें चनाएं दे संचालन दा अधीक्षण, निदेशन ते नियंत्रण, नेह प्राधिकारी जां अदारे च, जेहड़ा रियासती विधान-मंडल आसेआ, कनूनै राहें, प्रावधान कीता जा, शामिल होग :

बषर्ते कुसै रियासत दा विधान-मंडल, कनूनै राहें, नेह चनाएं दे संचालन आस्तै प्रक्रिया ते दिषा निर्देषें दा प्रावधान करी सकग।

243यट बोर्ड दा अधिक्रमण ते निलंबन ते अंतरिम प्रबंधन – (1) उसलै लागू कुसै कनूनै च कुसै गल्लै दे होंदे होई बी, कोई बोर्ड, छें म्हीनें थमां मती औद्ध आस्तै अधिक्रमण नेई कीता जाहग जां स्थगत नेई रक्खेआ जाहग।

पर बोर्ड गी –

- (i) उसदे लगातार व्यक्तिक्रम दी स्थिति च; जां
- (ii) अपने कर्तब्वें दे अनुपालन च लापरवाही करने दी स्थिति च; जां
- (iii) बोर्ड आसेआ सैहकारी समिति जां उसदे सदस्यें दे हितें दे खलाफ कोई कम्म करने दी स्थिति च; जां
- (iv) बोर्ड दे गठन जां उसदे कम्मं च कोई रकावट पैदा होने दी स्थिति च; जां
- (v) रियासती विधान-मंडल आसेआ, कनूनै राहें, अनुच्छेद 243यट दे खंड (2) दे तैहत जि'यां प्रावधान कीता गेदा ऐ प्राधिकारी जां अदारे दे राज्य अधिनियम दे प्रावधानें मताबक चनांS कराने च नाकामयाब रौहने दी स्थिति च,

पर एह होर जे जित्थै कोई सरकारी शेयर धारक जां सरकार आसेआ कोई दोहार जां माल्ली मदाद जां गरंटी नेई ऐ उत्थै नेह कुसै सैहकारी समिति दे बोर्ड गी अधिक्रमण नेई कीता जाहग जां स्थगत नेई रक्खेआ जाहग :

1. संविधान (सताहनमीं तरमीम) अधिनियम, 2011 राहें ठीक कीता गेआ।
2. संविधान (सताहनमीं तरमीम) अधिनियम, 2011 राहें ठीक कीता गेआ।
3. शुद्धी-पत्तर 29 मार्च 2012 राहें ठीक कीता गेआ।

अनुसूचित ते जनजाति क्षेत्र

पर एह बी जे बैंककारी कारोबार करने आहली कुसै सैहकारी समिति दी स्थिति च बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 दा 10) दे प्रावधान बी लागू होडन :

पर एह बी जे बहुराज्य सैहकारी समिति कोला बक्ख बैंककारी कारोबार करने आहली कुसै सैहकारी समिति दी स्थिति च, इस खंड दे प्रावधान उ'आं गै असरी होडन जि'यां "छें म्हीनें" शब्द दे थारै पर "इक ब'रा" शब्द रक्खे गे हे।

(2) बोर्ड दे अधिक्रमण दी सूरतै च, नेही सैहकारी समिति दे कम्मै-काजै दा बंदोबस्त करने आस्तै नियुक्त प्रषासक, खंड (1) च चेची दस्सी गेदी औद्ध दे अंदर चनाएं दे संचालन आस्तै इंतजाम करग ते उसदा प्रबंध बोर्ड गी सौपग।

(3) कुसै रियासत दा विधान-मंडल, कनूनै राहें, प्रषासक दी सेवा दियें शर्तें आस्तै प्रावधान करी सकग।

243यड सैहकारी समितियें दे लेखे दा आडिट - (1) कुसै रियासत दा विधान-मंडल, कनूनै राहें, सैहकारी समितियें आसेआ लेखे दे रक्खे जाने ते नेह लेखे दी हर इक माल्ली ब'रे च घट्टो-घट्ट इक बारी आडिट कीते जाने दे सरबंधें च प्रावधान करी सकग।

(2) कुसै रियासत दा विधान-मंडल, कनूनै राहें, नेह आडिट करने आहले ते आडिट करने आहली फर्मै दी, जेहड़ियां सैहकारी समितियें दे लेखे दा आडिट करने आस्तै योग्य होडन, घट्टो-घट्ट योग्यतां ते तजरबे दस्सग।

(3) हर इक सैहकारी समिति, सैहकारी समिति दे आम अदारे आसेआ नियुक्त, खंड (2) च चेचे दस्से गेदे कुसै आडिट करने आहले जां आडिट करने आहली फर्मै आसेआ आडिट करोआहग :

बषर्ते नेह आडिट करने आहले जां आडिट करने आहली फर्मै गी रियासती सरकार आसेआ जां रियासती सरकार आसेआ इस नमित्त प्राधिकृत कुसै प्राधिकारी राहें मंजूर पैनल चा नियुक्त कीता जाहग।

(4) हर इक सैहकारी समिति दे लेखे दा आडिट उस माल्ली ब'रे दी, जिस कन्नै नेह खाते सरबंधत न, मुक्कने दे छें म्हीनें दे अंदर कीता जाहग।

(5) राज्य अधिनियम आसेआ जि'यां परिभाषत कुसै सर्वोच्च सैहकारी लेखे दी आडिट रपोट रियासती विधान-मंडल दे सामनै इस ढंगै कन्नै रक्खी जाहग जेहदा रियासती विधान-मंडल आसेआ, कनूनै राहें प्रावधान कीता जा।

243यड आम सभा दी बैठक अयोजित करना - कुसै रियासत दा विधान-मंडल, कनूनै राहें, एह प्रावधान करी सकग जे हर इक सैहकारी समिति दी आम सभा दी सलाना बैठक, नेह कारोबार दा संव्यवहार करने दे, जेहदा नेह कनूनै च प्रावधान कीता जा, माल्ली ब'रे दे मुक्कने दे छें म्हीनें दी औद्ध अंदर, अयोजित कीती जाहग।

243यण सूचना हासल करने दा सदस्य दा अधिकार - (1) कुसै रियासत दा विधान-मंडल, कनूनै राहें, सैहकारी समिति दे हर इक सदस्य दी सैहकारी समिति दी नेहियें बेहियें, सूचना ते लेखे तगर, जेहड़े नेह सदस्य दे कन्नै उसदे कारोबार दे नियमित लैन-देन च रक्खे गेदे होन, पौहच आस्तै प्रावधान करी सकग।

(2) कुसै रियासत दा विधान-मंडल, कनूनै राहें, सैहकारी समिति दे प्रबंधन च सदस्यें दी हिस्सेदारी पक्की करने आस्तै, सदस्यें आसेआ बैठकें च मजूदगी दी नेही घट्टो-घट्ट अपेक्षा दा प्रावधान करदे होई ते सेवाएं दे नेह घट्टो-घट्ट स्तर दा उपयोग करदे होई जेहड़ा नेह कनूनै च प्रावधान कीता जा, प्रावधान करी सकग।

(3) कुसै रियासत दा विधान-मंडल, कनूनै राहें, अपने सदस्यें आस्तै सैहकारी शिक्षा ते सिखलाई दा प्रावधान करी सकग।

243यत रिटर्ना - हर इक सैहकारी समिति, हर माल्ली ब'रे दे मुक्कने दे छें म्हीनें दे अंदर-अंदर रियासती सरकार आसेआ नियुक्त प्राधिकारी गी नेहियां रिटर्नां फाइल करग, जि'दे च हेठ लिखे दे विषे शामिल होडन, अर्थात :-

(क) ओहदी गतिविधियें दी सलाना रपोट;

(ख) ओहदे लेखे दा आडिट ब्योरा;

(ग) सैहकारी समिति दे आम सभा आसेआ बादधू खर्चे आस्तै योजना।

(घ) सैहकारी समिति दे उप-कनूनें दियां तरमीमां, जेकर कोई होन, दी सूची;

(ङ) ओहदी आम सभा दी बैठक अयोजित करने दी तरीक ते चनाएं दा, जिसलै नियत होन, संचालन करने दे सरबंधें च घोषना; ते

(च) राज्य अधिनियम दे कुंनें प्रावधाने दे अनुसरण च रजिस्ट्रार आसेआ लोडचदी कोई होर जानकारी।

243यथ अपराध ते डन्न – (1) कुसै रियासत दा विधान-मंडल, कनूनै राहें, सैहकारी समितियें कन्नै सरबंधत अपराधें ते नेह अपराधें आस्तै उं दे डन्न कन्नै सरबंधत प्रावधान करी सकग।

(2) खंड (1) दे तैहत कुसै रियासत दे विधान-मंडल आसेआ बनाए गेदे कनूनै च हेठ लिखे दा कम्म करना जां उसदा लोप करना अपराध दे रूपे च शामिल होग, जि'यां :-

(क) कोई सैहकारी समिति जां उसदा कोई अधिकारी जां सदस्य जानी-बुज्जियै गलत रिटर्न बनांदा ऐ जां गलत जानकारी दिंदा ऐ जां कोई व्यक्ति जानी-बुज्जियै नेही जानकारी नेई दिंदा ऐ, जेहड़ी इस नमित्त राज्य अधिनियम दे प्रावधाने दे तैहत प्राधिकृत व्यक्ति आसेआ उस थमां मंगी गेदी होऐ;

(ख) कोई व्यक्ति जानी-बुज्जियै जां कुसै युक्ति-युक्त कारण दे बगैर राज्य अधिनियम दे प्रावधाने दे तैहत जारी कीते गेदे कुसै सम्मन, अधिकारक मंग जां पूरी चाल्ली कनूनै मताबक लिखे दे अदेष गी नेई मनदा ऐ;

(ग) कोई नियोजक जेहड़ा लोडचदे कारणे दे बगैर, उसदे आसेआ उसदे कर्मचारी थमां कट्टी गेदी रकम दा, उस तरीक थमां, जिसगी ऐसी कटौती कीती गेदी ऐ, चौहदें दिनें दी औद्ध दे अंदर सैहकारी समिति गी भुगतान करने च नाकामयाब रौहदा ऐ;

(घ) ऐसा कोई अधिकारी जां अभिरक्षक जेहड़ा नेही कुसै सैहकारी समिति दी, जिसदा ओह अधिकारी जां अभिरक्षक ऐ, बेहियें, लेखे, कागजातें, रिकार्ड, नगदी, सिक्वोरिटी कुसै प्राधिकृत व्यक्ति गी सौंपने च नाकामयाब रौहदा ऐ; ते

(ङ) जेहड़ा कोई बोर्ड दे सदस्यें जां औहदेदारें दे चनांS थमां पैहलें, उसदे दरान जां परेंत कोई भ्रष्ट आचरण अपनांदा ऐ।

243यद बहुराज्य सैहकारी समितियें पर लागू होना – इस भाग दे प्रावधान, बहुराज्य सैहकारी समितियें पर इस उपांतरण दे तैहत रौहदे होई लागू होडन जे "रियासत दा विधान-मंडल", "राज्य अधिनियम" जां "राज्य सरकार" दे प्रति कुसै निर्देश दा उ'ऐ अर्थ लाया जाहग जेहड़ा तरतीबन : "संसद", "केंद्रीय अधिनियम" जां "केंदरी सरकार" दा ऐ।

243यघ संघ राज्यक्षेत्रें पर लागू होना – इस भाग दे प्रावधान, संघ राज्यक्षेत्रें पर लागू होडन ते नेह संघ राज्यक्षेत्र गी, जिसदी कोई विधान सभा नेई ऐ, उससै चाल्ली लागू होडन। जि'यां कुसै रियासत दे विधान-मंडल आस्तै निर्देश, अनुच्छेद 239 दे तैहत नियुक्त उसदे प्रषासक आस्तै ते नेह संघ राज्यक्षेत्र दे सरबंधे च, जिसदी कोई विधान सभा ऐ, उस विधान सभा आस्तै निर्देश न :

बषर्ते राष्ट्रपति, सरकारी गजट च, अधिसूचना राहें, एह निदेश देई सकग जे इस भाग दे प्रावधान ऐसे कुसै संघ राज्यक्षेत्र जां उसदे हिस्से गी जिसगी ओह अधिसूचना च नर्धारत करै, लागू नेई होडन।

243यन मजूदा कनूनें दा जारी रौहना – इस भाग च कुसै गल्लै दे होंदे होई बी, संविधान (सताहनमीं तरमीम) अधिनियम, 2011 दे रम्भ थमां ठीक पैहलें कुसै रियासत'च लागू सैहकारी समितियें कन्नै सरबंधत कुसै कनून दा कोई प्रावधान, जेहड़ा इस भाग दे प्रावधाने कन्नै असंगत ऐ, उसगी समर्थ विधान-मंडल जां होर समर्थ प्राधिकारी आसेआ तरमीम जां रद्द कीते जाने तगर जां नेह रम्भ थमां इक ब'रे दे मुक्कने तगर, इं'दे चा जेहड़ा बी घट्ट होऐ, लागू रौहग।]

अनुसूचित ते जनजाति क्षेत्र

244. अनुसूचित क्षेत्रों ते जनजाति क्षेत्रों दा प्रशासन – (1) पञ्मी अनुसूची दे प्रावधान ¹[असम, ²³[मेघालय, त्रिपुरा ते मिज़ोरम]] रियासतें] थमां बक्ख ⁴*** कुसै रियासत दे अनुसूचित क्षेत्रों ते अनुसूचित जनजातियें दे प्रशासन ते नियंत्रण आस्तै लागू होडन।

(2) छेमी अनुसूची दे प्रावधान ¹[असम, ²⁵[मेघालय, त्रिपुरा] ते मिज़ोरम रियासतें] दे] जनजाति क्षेत्रों दे प्रशासन आस्तै लागू होडन।

⁶[244क. असम दे किश जनजाति क्षेत्रों गी शामिल करियै इक खुदमुख्तआर रियासत बनाना ते ओह्दे आस्तै स्थानी विधान-मंडल जां मंत्रि-परिषद् जां दौनें दा सिरजन – (1) इस संविधान'च बावजूद एह्दे, संसद कनूनै राहें असम रियासत दे अंदर इक खुदमुख्तोआर रियासत बनाई सकग, जिस'च छेमी अनुसूची दे पै'रा 20 कनूनै नत्थी सारणी दे ⁷[भाग-1] च दस्से गेदे सब्भै जां कोई जनजाति क्षेत्र (पूरी चाल्ली जां अंषतः) शामिल होडन ते उसदे आस्तै –

(क) उस खुदमुख्तोआर रियासत दे विधान-मंडल दे रूपै'च कम्म करने आस्तै चनोए दे जां अंषतः नामजद जां अंषतः चनोए दे अदारें दा, जां

(ख) मंत्रि-परिषद् दा,

जां दौनें दी सिरजना करी सकग, जिं'दे चा हर इक दा गठन, अख्तोआर ते कम्म ओह् होडन जेह्ड़े उस कनूनै'च दस्से जाहडन।

(2) खंड (1) च दस्से दा कनून, खास तौरा उप्पर, –

(क) रियासती सूची जां समवर्ती सूची च गनोए दे ओह् मामले दस्सी सकग जिं'दे सरबंधै'च खुदमुख्तोआर रियासत आस्तै जां उसदे कुसै हिस्से आस्तै, कनून बनाने दा अख्तोआर, असम रियासत दे विधान-मंडल गी छोड़ियै होग, नेई तां नेई होग;

(ख) ओह् विषे नर्धारत करी सकग जिं'दे पर उस खुदमुख्तोआर रियासत दी कार्यपालिका अख्तोआर दा विस्तार होग;

(ग) एह् प्रावधान करी सकग जे असम रियासत आसेआ ग्राहेआ गेदा कोई टैक्स खुदमुख्तोआर रियासतै गी उत्थूं तगर सौंपेआ जाह्ग जित्थूं तगर उसदी आमद खुदमुख्तोआर रियासतें थमां हासल होई दी मन्नी जाई सकदी ऐ,

(घ) एह् प्रावधान करी सकग जे इस संविधान दे कुसै अनुच्छेद 'च रियासत आस्तै कुसै हिदायत दा एह् अर्थ लाया जाह्ग जे उसदे तैह्त खुदमुख्तोआर रियासत आस्तै हिदायत ऐ; ते

(ङ) नेह् अनुपूरक, घटनात्मी ते नतीजक प्रावधान करी सकग जेह्ड़े जरूरी समझे जाहन।

-
1. पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुढ-गठन) अधिनियम, 1971 (1971 दे 81) दी धारा 71 राहें (21-01-1972 थमां) "असम रियासत" दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 2. मिज़ोरम रियासत अधिनियम, 1986 (1986 दे 34) दी धारा 39 राहें (20-2-1987 थमां) "मेघालय ते त्रिपुरा" शब्दें दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 3. संविधान (नुं'जमीं तरमीम) अधिनियम, 1984 दी धारा 2 राहें "ते मेघालय" शब्दें दी थाहरै पर (1-4-1985 थमां) प्रतिस्थापत।
 4. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें "पैहली अनुसूची दे भाग क जां भाग ख च दस्से दे" शब्दें ते अक्खरें दा लोप कीता गेआ।
 5. मिज़ोरम रियासत अधिनियम, 1986 (1986 दे 34) दी धारा 39 राहें (20-2-1987 थमां) "मेघालय ते त्रिपुरा रियासतें ते मिज़ोरम संघ राज्यक्षेत्र" शब्दें दे थाहरा पर प्रतिस्थापत।
 6. संविधान (बाइमीं तरमीम) अधिनियम, 1969 दी धारा 2 राहें अंतरस्थापत।
 7. पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुढ-गठन) अधिनियम, 1971 (1971 दा 81) दी धारा 71 राहें (21-01-1972 थमां) "भाग क" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।

(भाग 10 – अनुसूचित ते जनजाति क्षेत्र)

(3) पैहलें आखे गेदे कुसै कनूनै दी कोई तरमीम, जित्थूं तगर ओह तरमीम खंड (2) दे उपखंड (क) जां उपखंड (ख) च दस्से गेदे विषें चा कुसै कन्नै सरबंधत ऐ, उसलै तगर असरी नेई होग जिसलै तगर ओह तरमीम संसद दे हर इक सदन'च मजूद ते वोट देने आहले घट्टो-घट्ट दो-तिहाई सदस्यें आसेआ पास नेई करी दिती जंदी ऐ।

(4) इस अनुच्छेद च दस्से गेदे कनूनै गी अनुच्छेद 368 दे मकसदें आस्तै इस संविधान दी तरमीम इस गल्लै दे होंदे होई बी नेई समझी जाहग जे उस च कोई नेहा प्रावधान शामिल ऐ जेहड़ा इस संविधान दी तरमीम करदा ऐ जां तरमीम करने दा असर रखदा ऐ।]

**संघ ते रियासतें बशक्हार सरबंध
ध्याऽ 1 – विधायी सरबंध
विधायी अख्तेआर दी बंड**

245. संसद आसेआ ते रियासतें दे विधान-मंडलें आसेआ बनाए गेदे कनूनें दा विस्तार – (1) इस संविधान दे प्रावधानें तैहत् संसद भारत दे सबूरे राज्यक्षेत्र जां उसदे कुसै हिस्से आस्तै कनून बनाई सकग ते कुसै रियासत दा विधान-मंडल सबूरी रियासत जां उसदे कुसै हिस्से आस्तै कनून बनाई सकग।

(2) संसद आसेआ बनाया गेदा कोई कनून इस अधार पर कनूनी तौरा पर मान्य नेई समझेआ जाह्ग जे उसदा गैर-इलाकाई चलन होग।

246 संसद आसेआ ते रियासतें दे विधान-मंडल आसेआ बनाए गेदे कनूनें दी विश-वस्तु –(1) खंड (2) ते खंड (3) च बावजूद इसदे, संसद गी सतमीं अनुसूची दी सूची 1 च (जिसी इस संविधान च “संघ सूची” आखेआ गेदा ऐ) गनोए दे कुसै विषे दे सरबंधेंच कनून बनाने दा चेचा अख्तेआर ऐ।

(2) खंड (3) च बावजूद एह्दे, संसद गी ते खंड (1) दे तैहत् ^{1***} कुसै रियासतें दे विधान-मंडल गी बी, सतमीं अनुसूची दी सूची 3 च (जिसगी इस संविधान च “समवर्ती सूची” आखेआ गेदा ऐ) गनोए दे कुसै बी विषे दे सरबंधेंच कनून बनाने दा अख्तेआर ऐ।

(3) खंड (1) ते खंड (2) दे तैहत् ^{1***} कुसै रियासत दे विधान-मंडल गी, सतमीं अनुसूची दी सूची 2 च (जिसी इस संविधान च “रियासती सूची” आखेआ गेदा ऐ) गनोए दे कुसै बी विषे दे सरबंधेंच उस रियासत जां उसदे कुसै हिस्से आस्तै कनून बनाने दा चेचा अख्तेआर ऐ।

(4) संसद गी भारत दे राज्यक्षेत्र दे नेह हिस्से आस्तै ²[जेहड़ा कुसै रियासत] दे तैहत् नेई ऐ, कुसै बी विषे दे सरबंधेंच कनून बनाने दा अख्तेआर ऐ, भाएं ओह विषे रियासती सूची च गनोए दा विषे गै की नेई होऐ।

³[246क माल ते सेवा-टैक्स दे सरबंधेंच चेचे प्रावधान – (1) अनुच्छेद 246 ते अनुच्छेद 254 च कुसै गल्लै दे होंदे होई बी, संसद गी ते खंड (2) दे तैहत् रौह्दे होई हर इक रियासत दे विधान-मंडल गी, संघ आसेआ जां उस रियासत आसेआ लाए गेदे माल ते सेवा टैक्स दे सरबंधेंच कनून बनाने दा अख्तेआर होग।

(2) जित्थै माल जां सेवाएं दा जां दौनें दी सप्लाई अंतर-रियासती बपार जां तजारत दे दरान होंदी ऐ उत्थै संसद गी, माल ते सेवा टैक्स दे सरबंधें च कनून बनाने दे खास अख्तेआर हासल न।

व्याख्या – इस अनुच्छेद दे प्रावधान, अनुच्छेद 279क दे खंड (5) च दस्से गेदे माल ते सेवा टैक्स दे सरबंधें च, माल ते सेवा टैक्स परिषद् आसेआ सफारष कीती गेदी तरीक थमां असरी होडन।

247. किश अतिरिक्त अदालतें दी स्थापना दा प्रावधान करने दा संसद दा अख्तेआर – इस ध्याऽ च बावजूद एह्दे, संसद अपने आसेआ बनाए गेदे कनूनें दे जां कुसै मजूदा कनूनें दे, जेहड़ा संघ सूची च गनोए दे विषे दे सरबंधेंच ऐ, मते शैल प्रषासन आस्तै बादधू अदालतें दी स्थापना दा कनूनें राहें प्रावधान करी सकग।

248. घट्ट म्हत्तव आहले कनूनी अख्तेआर – (1) ⁴[संसद गी अनुच्छेद 246क दे तैहत्] कुसै नेह विषे दे सरबंधें च, जेहड़ा समवर्ती सूची जां रियासती सूची च नेई गनोए दा ऐ, कनून बनाने दा चेचा अख्तेआर ऐ।

(2) नेह अख्तेआर दे तैहत् नेह टैक्स लाने आस्तै जेहड़ा उंनें सूचियें चा कुसै च वर्णत नेई ऐ, कनून बनाने दा अख्तेआर ऐ।

-
1. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें “पैहली अनुसूची दे भाग क जां भाग ख च दस्से दे” शब्दें ते अक्खरें दा लोप कीता गेआ।
 2. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें “पैहली अनुसूची दे भाग क जां भाग ख च” शब्दें दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 3. संविधान (इक सौ इकमीं तरमीम) अधिनियम 2016 दी धारा 2 राहें (16-9-2016) गी अंतरस्थापत।
 4. संविधान (इक सौ इक तरमीम) अधिनियम, 2016 दी धारा 2 राहें अंतरस्थापत।

भारत दा संविधान

(भाग 11 –संघ ते रियासतें बषक्हार सरबंध)

249. रियासती सूची च कुसै मामले दे सरबंधै च राष्ट्री हित च कनून बनाने दा संसद दा अख्तेआर –

(1) इस ध्याऽ दे पछेत्तरे प्रावधानें च बावजूद एह्दे, जेकर राज्य सभा ने हाजर ते वोट देने आहले सदस्येंचा घट्टो-घट्ट दो-तिहाई सदस्यें आसेआ समर्थत प्रस्ताव राहें घोषत कीता ऐ जे राष्ट्री हित च एह जरूरी जां जायज ऐ जे संसद रियासती सूची च गनोए दा नेहा विषे ¹[अनुच्छेद 246क दे प्रावधानें तैहत् माल ते सेवाएं दे टैक्स दे सरबंधै च जां] जेहड़ा उस प्रस्ताव च दस्से दा ऐ, कनून बनाऽ तां जिसलै तगर ओह प्रस्ताव लागू ऐ, संसद आस्तै उस विषे दे सरबंधै च भारत दे सबूरे राज्यक्षेत्र जां उसदे कुसै हिस्से आस्तै कनून बनाना कनूनी होग।

(2) खंड (1) दे तैहत् पास कीता गेदा प्रस्ताव इक बरे थमां बद्ध औद्ध आस्तै लागू नेई रौहग जेहड़ी उस च दस्सी जा:

पर जेकर ते जिन्नं बारी कुसै नेह प्रस्ताव गी चलन च बनाई रक्खने गी मंजूर करने आहला प्रस्ताव खंड (1) च प्रावधान कीते गेदे तरीके कनूने पास होई जंदा ऐ तां ते उन्नं बारी नेहा प्रस्ताव उस तरीक थमां, जिसगी ओह इस खंड दे तैहत् जां पही लागू नेई रौहदा, इक बरे दी होर औद्ध तगर लागू रौहग।

(3) संसद आसेआ बनाया गेदा कोई कनून, जिसी संसद खंड (1) दे तैहत् प्रस्ताव दे पास होने दी घाट च बनाने आस्तै समर्थ नेई होंदी, प्रस्ताव दे चलन च नेई रौहने दे परैत्त छं म्हीनें दी औद्ध दे मुक्कने पर असमर्थता दी मात्तरा तगर उंनं गल्लें दे छुट्ट असरी नेई रौहग जिनेंगी आखी गेदी औद्ध दे मुक्कने थमां पैहलें कीता गेआ ऐ जां करने दा लोप कीता गेआ ऐ।

250. जेकर अमरजैसी लगगी दी होरे तां राज्य सूची च कुसै मामले दे सरबंधै च कनून बनाने दा संसद दा अख्तेआर – (1) इस ध्याऽ च बावजूद एह्दे, संसद गी, जिसलै तगर अमरजैसी दी उद्घोषना चलन च ऐ, रियासती सूची च गनोए दे कुसै बी विषे दे सरबंधै च भारत दे सबूरे राज्यक्षेत्र जां उसदे कुसै हिस्से आस्तै कनून बनाने दा अख्तेआर होग।

(2) संसद आसेआ बनाया गेदा कोई कनून, जिसी संसद अमरजैसी दी उद्घोषना दी घाट च बनाने आस्तै समर्थ नेई होंदी, उद्घोषना दे चलन च नेई रौहने दे परैत्त छं म्हीनें दी औद्ध दे मुक्कने पर असमर्थता दी मात्तरा तगर उंनं गल्लें दे छुट्ट असरी नेई रौहग जिनेंगी आखी गेदी औद्ध दे मुक्कने थमां पैहलें कीता गेआ ऐ जां करने दा लोप कीता गेआ ऐ।

251 संसद आसेआ अनुच्छेद 249 ते अनुच्छेद 250 दे तैहत् बनाए गेदे कनूनें ते रियासतें दे विधान-मंडल आसेआ बनाए गेदे कनूनें च ताल-मेल नेई होना – अनुच्छेद 249 ते अनुच्छेद 250 दी कोई गल्ल कुसै रियासत दे विधान-मंडल आसेआ नेहा कनून बनाने दे अख्तेआर गी, जिसगी बनाने दा अख्तेआर उसगी इस संविधान दे तैहत् ऐ, नेई रोकग पर जेकर कुसै रियासत दे विधान-मंडल आसेआ बनाए गेदे कनूनें दा कोई प्रावधान संसद आसेआ बनाए गेदे कनूनें दे, जिसगी आखे गेदे अनुच्छेदें चा कुसै अनुच्छेद दे तैहत् बनाने दा अख्तेआर संसद गी ऐ, कुसै प्रावधान दे खलाफ ऐ तां संसद आसेआ बनाया गेदा कनून प्रचलन च होग भाएं ओह रियासत दे विधान-मंडल आसेआ बनाए गेदे कनूनें थमां पैहलें जां उसदे बाद पास कीता गेआ होऐ ते रियासत दे विधान-मंडल आसेआ बनाया गेदा कनून उस विरोध दी मात्तरा तगर चलन च नेई होग पर ऐसा उसलै तगर गै होग जिसलै तगर संसद आसेआ बनाया गेदा कनून असरी रौहदा ऐ।

252. दो जां मतियें रियासतें आस्तै उंदी सैहमतो कनूनें कनून बनाने दा संसद दा अख्तेआर ते नह कनून दा कुसै होर रियासत आसेआ अपनाया जाना – (1) जेकर कुंनं द'ऊं जां मतियें रियासतें दे विधान-मंडलें गी एह जरूरी लगदा ऐ जे उंनं विषें चा, जिं दे सरबंधै च संसद गी अनुच्छेद 249 ते अनुच्छेद 250 च प्रावधानें दे छुट्ट रियासतें आस्तै कनून बनाने दा अख्तेआर नेई ऐ, कुसै विषे दा विनियमन नेहियें रियासतें च संसद कनूनें राहें करै ते जेकर उंनं रियासतें दे विधान-मंडलें दे सब्भे सदन उस मंषा दा प्रस्ताव पास करदे न तां उस विषे दा उसदे मताबक विनियमन करने आस्तै कोई अधिनियम पास करना संसद आस्तै कनूनी होग ते इस चाल्ली पास कीता गेदा अधिनियम नेहियें रियासतें पर लागू होग, जेहड़ा उसदे परैत्त अपने विधान-मंडल दे सदन आसेआ जां जित्थै दो सदन न उत्थै दौनें सदनें चा हर इक सदन इस नमित्त पास कीते गेदे प्रस्ताव राहें उसगी अंगीकार करी लैदा ऐ।

(2) संसद आसेआ इस चाल्ली पास कीते गेदे कुसै अधिनियम दी तरमीम जां रद्द इस तरीके कनूनें पास जां अंगीकृत संसद दे अधिनियम राहें कीता जाई सकग, पर उसदी उस रियासत दे सरबंधै च तरमीम जां रद्द जिसगी ओह लागू होंदा ऐ, उस रियासत दे विधान-मंडल दे अधिनियम राहें नेई कीता जाहग।

1. संविधान (इक सौ इक तरमीम) अधिनियम 2016, दी धारा 4 राहें अंतरस्थापत

भारत दा संविधान

(भाग 11 –संघ ते रियासतें बषक्हार सरबंध)

253. अंतरराष्ट्री करारें गी असरी करने आस्तै विधान – इस ध्याऽ दे पछेत्तरे प्रावधानें च बावजूद एहदे, संसद गी कुसै होर देष जां देषें कन्नै कीती गेदी कुसै संधि, करार जां समझौते जां कुसै अंतरराष्ट्री सम्मेलन, संस्था जां होर अदारें च कीते गेदे कुसै फ़ैसले गी लागू करने आस्तै भारत दे सबूरे राज्यक्षेत्र जां उसदे कुसै हिस्से आस्तै कोई कनून बनाने दा अख्तेआर ऐ।

254. संसद आसेआ बनाए गेदे कनूनें ते रियासती विधान–मंडल आसेआ बनाए गेदे कनूनें च ताल–मेल नेई होना – (1) जेकर कुसै रियासत दे विधान–मंडल आसेआ बनाए गेदे कनूनै दा कोई प्रावधान संसद आसेआ बनाए गेदे कनूनै दे, जिसगी अधिनियमत करने आस्तै संसद समर्थ ऐ, कुसै प्रावधान दे जां समवर्ती सूची च गनोए दे कुसै विषे दे सरबंधें च मजूदा कनूनै दे कुसै प्रावधान दे खलाफ ऐ तां खंड (2) दे प्रावधानें तैहत्, स्थिति मताबक, संसद आसेआ बनाया गेदा कनून, भाए ओह नेही रियासत दे विधान–मंडल आसेआ बनाए गेदे कनूनै थमां पैहलें जां उसदे बाद पास कीता गेदा होऐ, जां मजूदा कनून, प्रचलत होग ते उस रियासत दे विधान–मंडल आसेआ बनाया गेदा कनून उस खलाफत दी मात्तरा तगर सिफर होग।

(2) जित्थै ^{1***} रियासत दे विधान–मंडल आसेआ समवर्ती सूची च गनोए दे कुसै विषे दे सरबंधें च बनाए गेदे कनूनै च कोई नेहा प्रावधान शामिल ऐ जेहड़ा संसद आसेआ पैहलें बनाए गेदे कनूनै दे जां उस विषे दे सरबंधें च कुसै मजूदा कनूनै दे प्रावधानें दे खलाफ ऐ ते जेकर नेही रियासत दे विधान–मंडल आसेआ इस चाल्ली बनाए गेदे कनूनै गी राष्ट्रपति दे विचार आस्तै मखसूस रक्खेआ गेआ ऐ ते उस पर उसदी मजूरी थोई गई ऐ तां ओह कनून उस रियासतै च प्रचलत होग :

पर इस खंड दी कोई गल्ल संसद गी उससै विषे दे सरबंधें च कोई कनून, जिसदे तैहत् नेहा कनून ऐ, जेहड़ा रियासत दे विधान–मंडल आसेआ इस चाल्ली बनाए गेदे कनूनै दा बादधा, तरमीम, तब्दीली जां रद्द करदी ऐ, कुसै बी बेल्लै अधिनियमत करने थमां नेई रोकग।

255. सफारशें ते पुज्ज मजूरी बारै जरूरतें गी सिर्फ प्रक्रिया दा विशे मन्नना – जेकर संसद दे जां ^{1***} कुसै रियासत दे विधान–मंडल दे कुसै अधिनियम गी –

(क) जित्थै राज्यपाल दी सफारष लोडचदी ही उत्थै राज्यपाल जां राष्ट्रपति ने,

(ख) जित्थै राज–प्रमुख दी सफारष लोडचदी ही उत्थै राज–प्रमुख जां राष्ट्रपति ने,

(ग) जित्थै राष्ट्रपति दी सफारष जां पुज्ज मजूरी लोडचदी ही उत्थै राष्ट्रपति ने,

मजूरी देई ओड़ी ऐ तां नेहा अधिनियम ते नेह अधिनियम दा कोई प्रावधान सिर्फ इस कारण गैर–कनूनी नेई होग जे इस संविधान राहें लोडचदी कोई सफारष नेई कीती गई ही जां पुज्ज मजूरी नेई दित्ती गई ही।

ध्याऽ 2 – प्रशासनक सरबंध**सधारण**

256. रियासतें दी ते संघ दी बाध्यता – हर इक रियासत दे कार्यपालिका अख्तेआरें दा इस चाल्ली इस्तेमाल कीता जाहग जिस कन्नै संसद आसेआ बनाए गेदे कनूनें दा ते नेह मजूदा कनूनें दा, जेहड़े उस रियासतै च लागू न, अनुपालन पक्का रहवै ते संघ दे कार्यपालिका अख्तेआर दा विस्तार कुसै रियासत गी नेहियां हिदायतां देने तगर होग जेहड़ियां भारत सरकार गी उस मकसद आस्तै जरूरी मसूस होन।

257. किश सूरतें च रियासतें पर संघ दा नियंत्रण – (1) हर इक रियासत दे कार्यपालिका अख्तेआर दा इस चाल्ली इस्तेमाल कीता जाहग जेहदे कन्नै संघ दी कार्यपालिका दे अख्तेआर दी बरतून च कोई अडचन नेई होऐ जां उस पर कोई उल्ट असर नेई पवै ते संघ दी कार्यपालिका अख्तेआर दा विस्तार कुसै रियासतै गी नेहियां हिदायतां देने तगर होग जेहड़ियां भारत सरकार गी इस मकसद आस्तै लाजमी बज्ञोन।

(2) संघ दे कार्यपालिका अख्तेआर दा विस्तार रियासत गी नेह संचार साधनें दे नर्माण ते बनाए रक्खने दे बारे च हिदायत देने तगर बी होग जिसदा राष्ट्री जां सैन्य म्हत्त्व दा होना उस हिदायत च घोषत कीता गेआ ऐ :

1. संविधान (सतमी तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें "पैहली अनुसूची दे भाग क जां भाग ख च दस्से दे" शब्दें ते अक्खरें दा लोप कीता गेआ।

भारत दा संविधान

(भाग 11 –संघ ते रियासतें बषक्हार सरबंध)

पर इस खंड दी कोई गल्ल कुसै राज मार्ग जां जल मार्ग गी राष्ट्री राज मार्ग जां राष्ट्री जल मार्ग घोषत करने दे संसद दे अख्तेआर गी जां इस चाल्ली घोषत राज मार्ग जां जल मार्ग दे बारे'च संघ दे अख्तेआर गी जां सैना, नौ-सैना ते वायु-सैना कन्नै सरबंधत अपने कम्मं दे हिस्से दे रूपै'च संचार साधनें दे नर्माण ते बनाए रक्खने दे संघ दे अख्तेआर गी रोकने आहली नेई मन्नी जाहग।

(3) संघ दे कार्यपालिका अख्तेआर दा विस्तार कुसै रियासत च रेलें दे संरक्षण आस्तै कीते जाने आहले उपाएं दे बारे'च उस रियासत गी हिदायत देने तगर बी होग।

(4) जित्थै खंड (2) दे तैह्त संचार साधनें दे नर्माण जां बनाए रक्खने दे बारे'च जां खंड (3) दे तैह्त कुसै रेलें दे संरक्षण आस्तै कीते जाने आहले उपाएं दे बारे'च कुसै रियासत गी दिती गेदी कुसै हिदायत दे पालन'च उस खर्च थमां मता खर्चा होई गेआ ऐ जेहड़ा, जेकर नेही हिदायत नेई दिती गेदी होंदी तां रियासत दे आम कर्तबबें दे नर्बाह'च खर्च होंदा उत्थै उस रियासत आसेआ इस चाल्ली कीते गेदे बादधू खर्च दे सरबंधै'च भारत सरकार आसेआ उस रियासत गी नेही रकम दा, जेहड़ी करार पाई जा जां करार दी ना-मंजूदगी च नेही रकम दा, जिसी भारत दे मुख् न्यांमूर्ति आसेआ नियुक्त मध्यस्थ मुकरल करै, भुगतान कीता जाहग।

¹257क. [संघ दे सशस्त्र बलें जां होरनें बलें दी तैनाती राहें रियासतें दी मदाद] – संविधान (चरतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 33 राहें (20-6-1974 थमां) रद्द।

258. किश सूरतें च रियासतें गी अख्तेआर देने वगैरा दा संघ दा अख्तेआर – (1) इस संविधान'च बावजूद एहदे, राष्ट्रपति, कुसै रियासत दी सरकार दी रजामंदी कन्नै उस सरकार गी जां ओहदे अधिकारियें गी नेह कुसै विषे कन्नै सरबंधत कम्मं, जिं'दे पर संघ दी कार्यपालिका अख्तेआर दा विस्तार ऐ, सषर्त जां बिना शर्त सौंपी सकग।

(2) संसद आसेआ बनाया गेदा कनून, जेहड़ा कुसै रियासतें गी लागू होंदा ऐ नेह विषे कन्नै सरबंधत होने पर बी, जिसदे सरबंधै'च रियासत दे विधान-मंडल गी कनून बनाने दा अख्तेआर नेई ऐ, उस रियासत जां उसदे अधिकारियें ते प्राधिकारियें गी अख्तेआर देई सकग ते उ'नेंगी कर्तबब सौंपी सकग जां अख्तेआरें दा दिता जाना ते कर्तबबें दा सौंपेआ जाना प्राधिकृत करी सकग।

(3) जित्थूं तगर इस अनुच्छेद दे अधार पर कुसै रियासत जां ओहदे अधिकारियें जां प्राधिकारियें गी अख्तेआर दिते गेदे न जां उ'नेंगी कर्तबब सौंपे गेदे'न उत्थै उ'नें अख्तेआरें ते कर्तबबें दी बरतून दे सरबंधै च रियासत आसेआ प्रषासन'च कीते गेदे बादधू खर्च दे सरबंधै'च भारत सरकार आसेआ उस रियासत गी नेही रकम दा, जेहड़ी करार पाई जा जां करार दे नेई होने दी स्थिति'च नेही रकम दा, जिसी भारत दे मुख् न्यांमूर्ति आसेआ नियुक्त मध्यस्थ मुकरल करै, भुगतान कीता जाहग।

²[258क. संघ गी कम्म सौंपने दा रियासतें गी अख्तेआर – इस संविधान'च बावजूद एहदे, कुसै रियासत दा राज्यपाल, भारत सरकार दी रजामंदी कन्नै उस सरकार गी जां उसदे अधिकारियें गी नेह कुसै विषे कन्नै सरबंधत कम्म, जिं'दे पर उस रियासत दी कार्यपालिका अख्तेआरें दा विस्तार ऐ, सषर्त जां बगैर शर्त सौंपी सकग।]

259. [पैहली अनुसूची दे भाग ख दे रियासतें दे सशस्त्र बल] – संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें रद्द।

260. भारत थमां बाहर दे राज्यक्षेत्रं दे सरबंधै च संघ दो अधिकारता – भारत सरकार कुसै नेह राज्यक्षेत्र दी सरकार कन्नै, जेहड़ा भारत दे राज्यक्षेत्र दा हिस्सा नेई ऐ, करार करिये नेह राज्यक्षेत्र दी सरकारें'च शामिल कु'नें कार्यपालक, विधायी जां न्यांऽ सरबंधी कम्मं दा भार अपने उप्पर लेई सकग, पर हर इक नेहा करार बदेपी अधिकारता दी बरतून कन्नै सरबंधत उसलै लागू कुसै कनून दे तैह्त होग ते उस कन्नै शासित होग।

1. संविधान (बतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 43 राहें (3-1-1977 थमां) अंतरस्थापत।

2. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 18 राहें अंतरस्थापत।

भारत दा संविधान
(भाग 11 –संघ ते रियासतें बषक्हार सरबंध)

261. सार्वजनक कम्म, रिकार्ड ते न्याऽ सरबंधी कारवाइयां – (1) भारत दे राज्यक्षेत्रें च हर जगह, संघ दे ते हर इक रियासत दे सार्वजनक कम्में, रिकार्डें ते न्याऽ सरबंधी कारवाइयें गी पूरा विष्वास ते पूरी मानता दिती जाहग।

(2) खंड (1) च दस्से गेदे कम्में, रिकार्डें ते कारवाइयें गी साबत करने दे ढंग ते शर्तें ते उं'दे प्रभाव दा नर्धारण संसद आसेआ बनाए गेदे कनूनै राहें कीते गेदे उपबंधत ढंग-तरीके मताबक कीता जाहग।

(3) भारत दे राज्यक्षेत्र दे कुसै हिस्से'च सिवल अदालतें आसेआ दित्ते गेदे खीरी फैसलें जां हुकमं गी उस राज्यक्षेत्र दे अंदर कुतै बी कनूनै मताबक लागू कीता जाई सकग।

पानी सरबंधी झमेले

262. अंतर-रियासती नदियें जां नदी-घाटियें दे पानी सरबंधी झमेलें दा नबेडा – (1) संसद कनूनै राहें कुसै अंतर-रियासती दरेआएं जां नदी-घाटियें जां उस'चा पानी दी बरतून, बंड जां नियंत्रण दे सरबंधें च कुसै झमेले जां शिकायतें दे न्यायिक फैसले आस्तै प्रावधान करी सकग।

(2) इस संविधान'च बावजूद एहदे, संसद कनूनै राहें, प्रावधान करी सकग जे सर्वोच्च अदालत जां कोई होर अदालत खंड (1) च दस्से गेदे कुसै झमेले जां शिकायत दे सरबंधें'च हकदारता दी बरतून नेई करग।

रियासतें दा आपूं चें ताल-मेल

263. अंतर-रियासती परिषद् दे सरबंधें च प्रावधान –जेकर कुसै बेल्लै राष्ट्रपति गी एह मसूस होंदा ऐ जे नेही परिषद् दी स्थापना कन्नै लोक हित साधेआ जाई सकग जिसगी –

(क) रियासतें बषक्हार जेहड़े झमेले पैदा होई गे होन उं'दी पड़ताल करने ते उं'दे पर सलाह देने,

(ख) किष जां सभनें रियासतें दे इलावा संघ ते इक जां मतियें रियासतें दे आम हितें कन्नै सरबंधत विषें दी जांच-पड़ताल ते उं'दे पर सलाह-सूतर करने, जां

(ग) नेह कुसै विषे पर सफारष करने ते खास तौरा पर उस विषे दे सरबंधें'च नीति ते कारवाई दे मते शैल ताल-मेल आस्तै सफारष करने,

दे कर्तबब दा भार सौपेआ जा तां राष्ट्रपति आस्तै एह कनूनी होग जे ओह हुकमै राहें नेही परिषद् दी स्थापना करै ते उस परिषद् आसेआ कीते जाने आहले कर्तबबें दे रूप-सरूप गी ते उसदे संगठन ते प्रक्रिया गी पक्का करै।

वित्त, संपत्ति, करारनामों ते मकददमे

ध्याऽ 1 – वित्त

सधारण

¹[264. व्याख्या – इस भाग च, “वित्त आयोग” दा मतलब अनुच्छेद 280 दे तैहत् गठत वित्त आयोग ऐ।]

265. कनून दे प्राधिकार बगैर टैक्सों गी नेई लाया जाना – कोई टैक्स कनूनै दे प्राधिकार कनूनै गै लाया जां ग्राहेआ जाह्ग, नेई तां नेई।

266. भारत ते रियासतें द कठेरमें कोश ते लोक लेखे – (1) अनुच्छेद 267 दे प्रावधानें दे ते किष टैक्सों ते फीसों दी शुद्ध औदन पूरी चाल्ली जां हिस्सें च रियासतें गी सौंपी दित्ते जाने दे सरबंधें च इस ध्याऽ दे प्रावधानें तैहत् रौह्दे होई, भारत सरकार गी हासल सब्भै रियासती टैक्स उस सरकार आसेआ राज हुंडियां देइयै, दोहार राहें जां अर्थ-उपाय पेषगियें राहें लैते गेदे सब्भै दोहार ते दोहार परताने च उस सरकार गी हासल सब्भै धन-राषियें दा इक कठेरमा कोष बनग जेह्ड़ा “भारत दा कठेरमा कोष” दे नांऽ कनूनै जान्नेआ जाह्ग ते कुसै रियासती सरकार गी हासल सब्भै राजस्व, उस सरकार आसेआ राज हुंडियां जारी करियै दोहार राहें जां पेषगियें राहें लैते गेदे सब्भै दोहार ते दोहारें दे परताने च उस सरकार गी हासल सभनं धन-राषियें दा इक कठेरमा कोष बनग जेह्ड़ा “रियासत दा कठेरमा कोष” दे नांऽ कनूनै जान्नेआ जाह्ग।

(2) भारत सरकार जां कुसै रियासती सरकार आसेआ जां ओह्दे आसेआ हासल सब्भै होर लोक धन-राषिया, स्थिति मताबक, भारत दे लोक लेखे च जां रियासत दे लोक लेखे च ज’मा कीतियां जाह्डन।

(3) भारत दे कठेरमें कोष जां रियासत दे कठेरमे कोष चा कोई धनराषि कनूनै मताबक ते इस संविधान च उपबंधित मकसदें आस्तै ते ढंग तरीके कनूनै गै विनियोजित कीती जाह्ग, जां पही नेई।

267. चान-चक्की कोश – (1) संसद, कनूनै राहें, पेषगी दे सरूप दे इक चान-चक्की कोष दी स्थापना करी सकग जेह्ड़ा “भारत दा चान-चक्की कोष” दे नांऽ कनूनै जान्नेआ जाह्ग, जेह्दे च नेह कनूनै राहें निष्वित राषियां समें-समें पर ज’मा कीतियां जाह्डन ते अनसोचे खर्चें दा अनुच्छेद 115 जां अनुच्छेद 116 दे तैहत् संसद आसेआ, कनूनै राहें, प्राधिकृत कीता जाना बकाया रौह्ने तगर नेह कोष चा नेह खर्चें दी पूर्ति आस्तै पेषगी धन देने आस्तै राष्ट्रपति गी समर्थ बनाने आस्तै आखेआ गेदा कोष राष्ट्रपति दे खर्चें तैहत् रक्खेआ जाह्ग।

(2) रियासत दा विधान-मंडल, कनूनै राहें, पेषगी दे सरूप दे इक चान-चक्की कोष दी स्थापना करी सकग जेह्ड़ा “रियासत दा चान-चक्की कोष” दे नांऽ कनूनै जान्नेआ जाह्ग जेह्दे च नेह कनूनै राहें निष्वित राषियां समें-समें पर ज’मा कीतियां जाह्डन ते अनसोचे खर्चें दा अनुच्छेद 205 जां अनुच्छेद 206 दे तैहत् रियासत दे विधान-मंडल आसेआ, कनूनै राहें, प्राधिकृत कीता जाना बकाया रौह्ने तगर नेह कोष चा नेह खर्चें गी पूरा करने आस्तै पेषगी धन देने आस्तै राज्यपाल गी समर्थ बनाने आस्तै आखेआ गेदा कोष रियासत दे राज्यपाल ²*** दे खर्चें तैहत् रक्खेआ जाह्ग।

1. संविधान (सतमी तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें अनुच्छेद 264 दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
2. संविधान (सतमी तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें “जां राज प्रमुख” शब्दें दा लोप कीता गेआ।

भारत दा संविधान

(भाग 12 – वित्त, संपत्ति, करारनामं ते मकददमें)

संघ ते रियासतें बशकहार राजस्व दी बंड

268. संघ आसेआ ग्राहेआ जाने आहला पर रियासतें आसेआ कठेरे ते विनियोजित कीता जाने आहला शुल्क – (1) नेह् स्टॉप शुल्क ते दुआइयें ते प्रसाधन दे उत्पादनं पर नेह् उत्पाद शुल्क, जेह्ड़े संघ सूची'च वर्णत न, भारत सरकार आसेआ ग्राहे जाह्उन, पर –

(क) उस स्थिति च, जिस'च नेह् शुल्क ¹[संघ राज्यक्षेत्र] दे अंदर लाए जाने जोग न भारत सरकार आसेआ, ते

(ख) होर स्थितियें'च जि'नें-जि'नें रियासतें दे अंदर नेह् शुल्क लाए जाने जोग न, उ'नें-उ'नें रियासतें आसेआ, ग्राहे जाह्उन।

(2) कुसै रियासत दे अंदर लाए जाने जोग कुसै नेह् शुल्क दी कुसै माल्ली ब'रे'च औंदन, भारत दे कठेरमे कोष दे हिस्से नेई होउन, पर उस रियासत गी सौंपी दिते जाह्उन।

***[268क. संघ आसेआ ग्राहेआ जाने आहला ते संघ ते रियासतें आसेआ कठेरेआ ते विनियोजित कीता जाने आहला सेवा-टैक्स** – (1) सेवाएं उप्पर टैक्स भारत सरकार आसेआ लाए जाह्उन ते नेहा टैक्स खंड (2) च प्रावधान कीते गेदे तरीके कन्ने भारत सरकार ते रियासतें आसेआ ग्राहेआ ते विनियोजित कीता जाह्ग।

(2) कुसै माल्ली ब'रे'च, खंड (1) दे प्रावधान मताबक, लाए गेदे नेह् कुसै टैक्स दी औंदन दा –

(क) भारत सरकार ते रियासतें आसेआ ग्राहना;

(ख) भारत सरकार ते रियासतें आसेआ विनियोजन,

ग्राही ते विनियोजन दे नेह् सिद्धांतें मताबक कीता जाह्ग, जि'नेंगी संसद कनूनै राहें बनाऽ।]

269. संघ आसेआ ग्राहे ते कठेरे गेदे पर रियासतें गी सौंपे जाने आहले टैक्स – ²[(1) माल दी खरीद जां फरोख्त पर टैक्स ते माल दे भेजने पर टैक्स, भारत सरकार आसेआ लाए ते ग्राहे जाह्उन पर खंड (2) च प्रावधान कीते गेदे तरीके कन्ने रियासतें गी 1 अप्रैल 1996 गी जां उसदे बाद सौंपी दिते जाह्उन जां सौंपी दिते गेदे समझे जाह्उन।

स्पष्टीकरण – इस खंड दे मकसदें आस्ते –

(क) “माल दी खरीद जां फरोख्त पर टैक्स” शब्दें दा अर्थ अखबारें थमां बकख माल दी खरीद जां फरोख्त पर उस स्थिति'च टैक्स ऐ जिस'च नेही खरीद जां फरोख्त अंतर-रियासती बपार जां बन्ज दे दरान होंदा ऐ;

(ख) “माल दे भेजने पर टैक्स” शब्दें दा अर्थ माल दे भेजने पर (भाएं उसदे बनाने आहले जां कुसै होर व्यक्ति गी भेजेआ गेदा होऐ) उस स्थिति च टैक्स ऐ जिस'च नेहा भेजना अंतर-रियासती बपार जां बन्ज दे दरान होंदा ऐ।

(2) कुसै माल्ली ब'रे'च कुसै नेह् टैक्स दी शुद्ध औंदन उत्थूं तगर दे छुट, जित्थूं तगर ओह् औंदन संघ राज्यक्षेत्रें थमां हासल होई दी औंदन मन्नी जाई सकदी ऐ, भारत दे कठेरमें कोष दे हिस्से नेई होउन, पर उ'नें रियासतें गी सौंपी दिते जाह्ग जि'दे अंदर ओह् टैक्स उस ब'रे च लाए जाने जोग न ते बंड दे नेह् सिद्धांतें मताबक जेह्ड़े संसद कनूनै राहें बनाऽ, उ'नें रियासतें बषकहार बंडे जाह्उन।]

1. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें “पैहली अनुसूची दे भाग ग च चेची दस्सी गेदी रियासत” दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।

* संविधान (ठासिमीं तरमीम) अधिनियम, 2003 दी धारा 2 राहें (जेह्ड़ा हून लागू नेई ऐ, तरीक बाद'च अधिसूचित कीती जाह्ग) अंतरस्थापत।

2. संविधान (असिमीं तरमीम) अधिनियम, 2000 दी धारा 2 राहें खंड (1) ते खंड (2) दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।

भारत दा संविधान

(भाग 12 – वित्त, संपत्ति, करारनामों ते मकददमें)

¹[(3) संसद, एह नर्धारत करने आस्तै जे ²[माल दी खरीद जां फरोख्त जां भेजना] कदू अंतर-रियासती बपार जां बन्ज दे दरान होंदा ऐ, कनूनै राहें सिद्धांत बनाई सकग।]

³[269 (क) अंतर-रियासती बपार जां तजारत दे सरबंधै च माल ते सेवा-टैक्स गी लाना ते ग्राहना

(1) अंतर-रियासती बपार ते तजारत दे सरबंधै च सप्लाई उप्पर माल ते सेवा-टैक्स भारती सरकार आसेआ लाया ते ग्राहेआ जाहग ते नेह टैक्स गी संघ ते रियासतें बषक्हार उस तरीके कन्नै बंडेआ जाहग जेहड़ा संसद कनूनै राहें माल ते सेवा-टैक्स परिषद् दी सफारषें पर तैऽ करै।

स्पष्टीकरण – इस खंड दे मकसदें आस्तै भारती क्षेत्र च नर्यात सरबंधी माल दी, जां सेवाएं दी, जां दौनें दी सप्लाई अंतर रियासती बपार जां तजारत सरबंधी माल, जां सेवाएं दी, जां दौनें दी सप्लाई समझी जाहग।

(2) खंड (1) दे तैहत कुसै रियासत आस्तै बंडी गेदी रकम भारत दे कठेरमे कोष दा हिस्सा नेई होग।

(3) जेकर खंड (1) दे तैहत लाए गेदे टैक्स दे तौरै पर ग्राही गेदी रकम गी कुसै रियासत आसेआ अनुच्छेद 246क. दे तैहत लाए गेदे टैक्स दे भुगतान आस्तै बरतेआ जंदा ऐ, तां नेही रकम भारत दे कठेरमें कोष दा हिस्सा नेई होग।

(4) जेकर कुसै रियासतै आसेआ अनुच्छेद 246क. दे तैहत लाए गेदे टैक्स दी ग्राही गेदी रकमे गी खंड (1) दे तैहत लाए गेदे टैक्स दे भुगतान आस्तै बरतेआ जंदा ऐ, तां नेही रकम भारत दे कठेरमे कोष दा हिस्सा नेई होग।

(5) अंतर-रियासती बपार ते तजारत दे दरान माल दी सप्लाई दा थाहर दस्सने आस्तै, ते माल दी सप्लाई जां सेवाएं दी जां दौनें दी सप्लाई कुसलै होग, दस्सने आस्तै संसद कनूनै राहें नियम बनाग।

⁴[270. ग्राहे गेद टैक्स ते उ'दी संघ ते रियासतें च बंड – (1) तरतीबन ⁵[अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 269 ते 269(क)] च दस्से दे शुल्कें ते टैक्सें दे छुट, संघ सूची च दस्से दे सब्भै टैक्स ते शुल्क; अनुच्छेद 271 च दस्से दे टैक्सें ते शुल्कें पर सरचार्ज ते संसद आसेआ बनाए गेदे कुसै कनूनै दे तैहत दस्से गेदे मकसदें आस्तै ग्राहेआ गेदा कोई उप-कर भारत सरकार आसेआ लाए ते ग्राहे जाहडन ते खंड (2) च उपबंधित तरीकें कन्नै संघ ते रियासतें बषक्हार बंडे जाहडन।

(2) कुसै माल्ली ब'रे च कुसै नेह टैक्स जां शुल्क दी शुद्ध औंदनें दा नेहा प्रतिषत, जेहड़ा नर्धारत कीता जा, भारत दे कठेरमें कोष दा हिस्सा नेई होग, पर उ'नें रियासतें गी सौंपी दित्ता जाहग जि'दे अंदर ओह टैक्स जां शुल्क उस ब'रे च लाए जाने जोग ऐ ते नेह तरीके कन्नै ते नेह समें थमां, जेहड़ा खंड (3) च दस्से गेदे तरीके कन्नै नर्धारत कीता जा, उ'नें रियासतें बषक्हार बंडेआ जाहग।

(3) इस अनुच्छेद च, "नर्धारत" दा मतलब ऐ –

(i) जिसलै तगर वित्त आयोग दा गठन नेई कीता जंदा ऐ उसलै तगर राष्ट्रपति आसेआ हुकमै राहें नर्धारत; ते

(ii) वित्त आयोग दा गठन कीते जाने दे परैत वित्त आयोग दी सफारषें पर विचार करने दे बाद राष्ट्रपति आसेआ हुकमै राहें नर्धारत।]

-
1. संविधान (छेमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 3 राहें अंतरस्थापत।
 2. संविधान (छतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1982 दी धारा 2 राहें "माल दी खरीद जां फरोख्त" शब्दें दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 3. संविधान (इक सौ इक तरमीम) अधिनियम, 2016, दी धारा 2 राहें (16-9-2016) गी अंतरस्थापित।
 4. संविधान (असिमीं तरमीम) अधिनियम, 2000 दी धारा 3 राहें (1-4-1996 थमां) प्रतिस्थापत।
 5. संविधान (इक सौ इक तरमीम) अधिनियम, 2016 दी धारा 100 राहें प्रतिस्थापत।

भारत दा संविधान

(भाग 12 – वित्त, संपत्ति, करारनामं ते मकददमें)

271. **किश शुल्कें ते टैक्सें पर संघ दे मकसदें आस्तै सरचार्ज** – अनुच्छेद 269 ते अनुच्छेद 270 च बावजूद एहदे, संसद उंनं अनुच्छेदें ¹[अनुच्छेद 246क दे तैहत माल ते सेवाएं दे टैक्स दे इलावा) च दस्से गेदे शुल्कें जां टैक्सें चा कुसै च कुसै बी बेल्लै संघ दे मकसदें आस्तै सरचार्ज राहें बाद्धा करी सकग ते कुसै नेह सरचार्ज दी सबूरी औंदन भारत दे कठेरमें कोष दा हिस्सा होग।

272. **[संघ आसेआ लाए ते कठेरे जाने आहले टैक्स जेहड़े संघ ते रियासतें च बंडे जाई सकडन]** – संविधान (अस्सिमी तरमीम) अधिनियम, 2000 दी धारा 4 राहें लोप कीता गेआ।

273. **सनै पर ते सनै दे उत्पादें पर नर्यात शुल्क दे थाहरै पर अनुदान** – (1) सनै पर ते सन उत्पादें पर नर्यात शुल्क दे हर इक बरे दी शुद्ध औंदन दा कोई हिस्सा असम, बिहार, ²[ओडिशा) ते पश्चिमी बंगाल रियासतें गी सौंपी दित्ते जाने दे थाहरै पर उंनं रियासतें दे राजस्व'च मदादी अनुदान दे रूपै'च हर बरे भारत दे कठेरमें कोष पर नेहियें राषियें दा भार पाया जाह्ग जेहड़ियां नर्धारत कीतियां जाहन।

(2) सन ते सन उत्पादें पर जिसलै तगर भारत सरकार कोई नर्यात शुल्क ग्राह्दी रौह्दी ऐ उसलै तगर जां इस संविधान दे रम्भ थमां दस्सें बरें दे मुक्कने तगर, इ'नें दौनें'चा जेहड़ा बी पैहलें होऐ, इस चाल्ली नर्धारत राषियां भारत दे कठेरमें कोष पर भार पाने आहलियां बनी दियां रौहडन।

(3) इस अनुच्छेद च, "नर्धारत " शब्द दा उ'ऐ मतलब ऐ जेहड़ा अनुच्छेद 270 च ऐ।

274. **नेह टैक्स लाने पर जिंदे च रियासतें दा हित ऐ, प्रभाव पाने आहले बिल्लं आस्तै राष्ट्रपति दी पुज्ज सफारश दी लोड़** – (1) कोई बिल्ल जां तरमीम, जेहड़ा नेहा टैक्स जां शुल्क, जिस'च रियासत दा हित ऐ, लांदा ऐ जां उस'च तब्दीली करदा ऐ जां जेहड़ा भारती औंदन-टैक्स कन्नै सरबंधत अधिनियमितियां दे मकसदें आस्तै परिभाषत "करसानी औंदन" पद दे अर्थ'च तब्दील करदा ऐ जां जेहड़ा उंनं सिद्धांतें गी प्रभावत करदा ऐ जिंदे कन्नै इस ध्याऽ दे पछेत्तरे प्रावधानें'चा कुसै प्रावधान दे तैहत रियासतें गी धन-राषियां बंडने जोग न जां होई सकडन जां जेहड़ियां संघ दे मकसदें आस्तै कोई नेह सरचार्ज लांदा ऐ जेहड़ा इस ध्याऽ दे पछेत्तरे प्रावधानें'च वर्णत ऐ, संसद दे कुसै सदन च राष्ट्रपति दी सफारश पर गै पेश जां प्रस्तावत कीता जाह्ग, जां पही नेई।

(2) इस अनुच्छेद'च, "नेहा टैक्स जां शुल्क, जिंदे'च रियासतें दे हित न" शब्दें दा अर्थ नेहा कोई टैक्स जां शुल्क ऐ –

(क) जेहदी शुद्ध औंदन पूरी चाल्ली जां आंषिक कुसै रियासत गी सौंपी दित्ती जंदी ऐ, जां

(ख) जेहदी शुद्ध औंदन दे प्रति हिदायत कन्नै भारत दे कठेरमें कोष चा कुसै रियासतै गी राषियां उस समें देने जोग न।

1. संविधान (इक सौ इक तरमीम) अधिनियम, 2016, दी धारा 11 राहें अंतरस्थापत।

2. ओडिशा नांऽ तब्दील अधिनियम, 2011 दी धारा 5 राहें प्रतिस्थापत।

भारत दा संविधान

(भाग 12 – वित्त, संपत्ति, करारनामों ते मकददमें)

275. किश रियासतें गी संघ थमां अनुदान – (1) नेहियां राषियां, जिंदा संसद कनूनै राहें प्रावधान करै, उ'नें रियासतें दे राजस्वें च मदादी अनुदान दे रूपै'च हर इक ब'रें भारत दे कठेरमें कोष पर भार पाने आहलियां होडन, जि'नें रियासतें दे बारे च संसद एह नर्धारत करै जे उ'नेंगी मदाद दी लोड ऐ ते बक्ख-बक्ख रियासतें आस्तै बक्ख-बक्ख राषियां निष्वित कीतियां जाई सकडन :

पर कुसै रियासत दे राजस्वें'च मदादी अनुदान दे रूपै'च भारत दे कठेरमें कोष चा नेही पूंजी ते आवर्ती राषियां दित्तियां जाहडन जेहडियां उस रियासत गी उ'नें विकास स्कीमें दे खर्चें गी पूरा करने च समर्थ बनाने आस्तै जरूरी होन जि'नेंगी उस रियासत'च अनुसूचित जनजातियें दी भलाई-बेहतरी च बादधा करने जां उस रियासत'च अनुसूचित क्षेत्रें दे प्रषासन दे स्तर गी उस रियासत दे बाकी क्षेत्रें दे प्रषासन दे स्तर तगर उन्नत करने दे मकसद आस्तै उस रियासत आसेआ भारत सरकार दी मंजूरी कनूनै हत्थै'च लैता जा:

पर एह होर जे असम रियासत दे राजस्व च मदादी अनुदान दे रूपै'च भारत दे कठेरमें कोष चा नेही पूंजी ते आवर्ती राषियां दित्तियां जाहडन –

(क) जेहडियां छेमीं अनुसूची दे पै'रा 20 कनूनै नत्थी सारणी दे ¹[भाग 1] च चेचे दस्से दे जनजाति क्षेत्रें दे प्रषासन दे सरबंघै'च इस संविधान दे रम्भ थमां ठीक पछेत्तरे द'ऊं ब'रें दे दरान औसत खर्च राजस्व थमां जिन्ना मता ऐ, उसदे बरोबर न; ते

(ख) जेहडियां उ'नें विकास स्कीमें दे खर्चें बरोबर न जि'नेंगी आखे गेदे क्षेत्रें दे प्रषासन स्तर गी उस रियासत दे बाकी क्षेत्रें दे प्रषासन स्तर तगर उन्नत करने दे मकसद आस्तै उस रियासत आसेआ भारत सरकार दी मंजूरी कनूनै हत्थै'च लैता जा।

²[1क) अनुच्छेद 244क दे तैहत खुदमुखेआर रियासत दे बनाए जाने दी तरीक गी ते थमां –

(i) खंड (1) दे दूए परतुंक दे खंड (क) दे तैहत देने जोग कोई राषियां खुदमुखेआर रियासत गी उस स्थिति च दित्तियां जाहडन जिस'लै उस'च दस्से दे सब्भे जनजाति क्षेत्र उस खुदमुखेआर रियासत च शामिल होन ते जेकर खुदमुखेआर रियासत'च उ'नें जनजाति क्षेत्रें'चा सिर्फ किष गै शामिल होन तां ओह राषियां असम रियासत ते खुदमुखेआर रियासत दे बषवहार इस चाल्ली तक्सीम कीतियां जाहडन जि'यां राष्ट्रपति हुकमै राहें चेचे तौरा पर दस्सै;

(ii) खुदमुखेआर रियासत दे राजस्वें'च मदादी अनुदान दे रूपै'च भारत दे कठेरमें कोष'चा नेही पूंजी ते आवर्ती राषियां दित्तियां जाहडन जेहडियां उ'नें विकास स्कीमें दे खर्चें दे बराबर न जि'नेंगी खुदमुखेआर रियासत दे प्रषासन स्तर गी बाकी असम रियासत दे प्रषासन स्तर तगर उन्नत करने दे मकसद आस्तै खुदमुखेआर रियासत राहें भारत सरकार दी मंजूरी कनूनै हत्थै'च लैता जा।]

(2) जिसलै तगर संसद खंड (1) दे तैहत प्रावधान नेई करदी ऐ उसलै तगर उस खंड दे तैहत संसद गी दित्ते गेदे अखेआर राष्ट्रपति आसेआ, हुकमै राहें, बरतूनजोग होडन ते राष्ट्रपति आसेआ इस खंड दे तैहत कीता गेदा कोई हुकम संसद आसेआ इस चाल्ली कीते गेदे कुसै प्रावधान दे तैहत रौहदे होई असरी होग :

1. पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुह-गठन) अधिनियम, 1971 (1971 दे 81) दी धारा 71 राहें (21-1-1972 थमां) "भाग क" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
2. संविधान (बाइमीं तरमीम) अधिनियम, 1969 दी धारा 3 राहें अंतरस्थापत।

भारत दा संविधान

(भाग 12 – वित्त, संपत्ति, करारनामं ते मकददमें)

पर वित्त आयोग दा गठन कीते जाने दे परैत राष्ट्रपति आसेआ इस खंड दे तैह्त कोई हुकम वित्त आयोग दी सफारषें पर विचार करने दे परैत गै कीता जाहग, जां पही नेई।

276. कम्म-धंधे, बन्ज-बपार, रोजी-रुट्टी दे साधनें ते रोजगारें पर टैक्स – (1) अनुच्छेद 246 च बावजूद एहदे, कुसै रियासत दे विधान-मंडल दा नेह टैक्स कन्ने सरबंधत कोई कनून, जेहड़ा उस रियासत दे जां उस'च कुसै नगरपालिका, जि'ला बोर्ड, मुकामी बोर्ड जां होर मुकामी प्राधिकारी दे लाह आस्तै व्यवसायें, बपारें, रोजी-रुट्टी दे साधनें जां रुजगारें दे सरबंधे च ऐ, इस अधार पर कनूनी तौरा पर अमान्य नेई होग जे ओह औंदनी पर टैक्स कन्ने सरबंधत ऐ।

(2) रियासत गी जां उस रियासत दे कुसै इक नगरपालिका, जि'ला बोर्ड, मुकामी बोर्ड, जां होर मुकामी प्राधिकारी गी कुसै इक आदमी दे बारे'च व्यवसायें, बपारें, रोजी-रुट्टी दे साधनें ते रुजगारें पर टैक्स दे रूपै'च देने जोग कुल रकम ¹[दो जहार पंज सौ रपेऽ] प्रति बारे थमां मती नेई होग।

² * * * * *
(3) व्यवसायें, बपारें, रोजी-रुट्टी दे साधनें ते रुजगारें पर टैक्स दे सरबंधे'च पैहलें आखे गेदे रूपै'च कनून बनाने दे रियासती विधान-मंडल दे अख्तेआर दा एह अर्थ नेई लाया जाहग जे ओह व्यवसायें, बपारें, रोजी-रुट्टी दे साधनें थमां औने आहले जां पैदा होने आहली औंदनी पर टैक्स दे सरबंधे'च कनून बनाने दे संसद दे अख्तेआर गी कुसै चाली कन्ने सीमत करदा ऐ।

277. बचत – नेह टैक्स, शुल्क, उप-कर जां फीसां, जेहड़ियां इस संविधान दे रम्म थमां ठीक पैहलें कुसै रियासती सरकार आसेआ जां कुसै नगरपालिका जां होर मुकामी प्राधिकारी जां अदारे आसेआ उस रियासत, नगरपालिका, जि'ला जां होर मुकामी क्षेत्रें दे मकसदें आस्तै कनूनी तौरा पर ग्राहियां जा'रदियां हियां, बावजूद इसदे जे ओह टैक्स, शुल्क, उप-कर जां फीसां संघ सूची'च वर्णत न, उसलै तगर ग्राहियां जंदियां रौहडन ते उ'नें मकसदें आस्तै गै बरतियां जंदियां रौहडन जिसलै तगर संसद कनूनै राहें इसदे प्रतिकूल प्रावधान नेई करदी ऐ।

278. [किश माल्ली मामलें दे सरबंधे'च पैहली अनुसूची दे भाग ख दी रियासतें कन्ने करार।] – संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें रदद।

279. "शुद्ध आगम" वगैरा दी गणना – (1) इस ध्याऽ दे पछेत्तरे प्रावधानें'च "शुद्ध आगम" दा अर्थ कुसै टैक्स जां शुल्क दे सरबंधे'च ओहदी ओह औंदन ऐ जेहड़ी उसदी ग्राही दे खर्चे गी घटाइयै आवै ते उ'नें प्रावधानें दे मकसदें आस्तै कुसै क्षेत्र च जां उस थमां हासल होए दे मन्ने जाई सकने आहले कुसै टैक्स जां शुल्क दा जां कुसै टैक्स जां शुल्क दे कुसै हिस्से दी शुद्ध औंदन भारत दे नियंत्रक-महालेखापारखी आसेआ पक्की ते प्रमाणत कीती जाहग ते उसदा प्रमाण-पत्तर खीरी होग।

(2) जि'यां उप्पर आखेआ गेदा ऐ उसदे ते इस ध्याऽ च दस्से गेदे कुसै होर प्रावधान दे तैह्त कुसै नेही स्थिति'च, जिस'च इस भाग दे तैह्त कुसै शुल्क जां टैक्स दी औंदन कुसै रियासत गी सौपी दिती जंदी ऐ जां सौपी दिती जा, संसद आसेआ बनाए गेदे कनून जां राष्ट्रपति दा कोई हुकम उस तरीके दा, जिस कन्ने औंदन दी गिंतरी कीती जानी ऐ, उसलै दा, जिस थमां जां जिस'च ते उस तरीके दा, जिस कन्ने कोई भुगतान कीते जाने न, इक माल्ली बारे ते दूए माल्ली बारे'च ताल-मेल बढाने दा ते होर घटनात्मी जां मदादी मामलें दा प्रावधान करी सकग।

1. संविधान (सट्टमीं तरमीम) अधिनियम, 1988 दी धारा 2 राहें "दो सौ पंजाह रपेऽ" शब्दें दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।

2. संविधान (सट्टमीं तरमीम) अधिनियम, 1988 दी धारा 2 राहें परंतुक दा लोप कीता गेआ।

(भाग 12 – वित्त, संपत्ति, करारनामों ते मकददमें)

¹[279 क माल ते सेवा-टैक्स परिषद – (1) राष्ट्रपति संविधान (इक सौ इक तरमीम) अधिनियम, 2016 दे रम्भ दी तरीक थमां सट्टें दिनें दे अंदर, हुकमै राहें, माल ते सेवा-टैक्स परिषद दे नांऽ कन्नै इक परिषद दा गठन करग।

(2) माल ते सेवा-टैक्स परिषद हेठ लिखे दे सदस्यें कन्नै मिलियै बनग –

(क) संघ दा वित्त मंत्री – अध्यक्ष;

(ख) संघ दा कार्यकारी राजस्व जां वित्त राज्यमंत्री – सदस्य;

(ग) हर इक रियासती सरकार आसेआ नामजद वित्त जां टैक्स मैहकमें दा कार्यकारी मंत्री जां कोई होर मंत्री – सदस्य।

(3) खंड (2) दे उपखंड (ग) च दस्से गेदे माल ते सेवा-टैक्स परिषद दे सदस्य, जिन्ना तौले होई सकै अपने चा इक सदस्य गी ऐसी औद्ध आस्तै, जेहड़ी ओह नर्धारत करन, परिषद दा उपाध्यक्ष चुनडन।

(4) माल ते सेवा-टैक्स परिषद, हेठ लिखे दे सरबंधें च संघ ते रियासतें गी सफारषां करग –

(क) संघ, रियासतें ते मकामी अदारें आसेआ ग्राहें गेदे टैक्स, चुंगी ते सरचार्ज, जेहड़े माल ते सेवा-टैक्स च शामिल कीते जाहडन;

(ख) माल ते सेवां जेहड़ियां माल ते सेवा-टैक्स दे अधीन होई सकडन जां जिनेंगी माल ते सेवा-टैक्स थमां छूट हासल होई सकग;

(ग) आदर्ष माल ते सेवा-टैक्स कन्नू, एकीकृत माल ते सेवा-टैक्स दे ग्राहने, प्रभाजन दे सिद्धांत ते ओह सिद्धांत जेहड़े भुगतान करने आहले दे थाहरै गी शासित करदे न;

(घ) खरीद-फरोखत दी दर दी ओह शुरुआती सीमा जिसदे तैहत माल ते सेवाएं गी माल ते सेवा-टैक्स थमां छूट दित्ती जाई सकग;

(ङ) माल ते सेवा-टैक्स दे समूहें कन्नै दरां जिं दे तैहत घट्टो-घट्ट दरां बी हैन;

(च) कुसै कुदरती बिपता जां आपदा दे दरान बादधू संसाधन जुटाने आस्तै कुसै चेची दस्सी गेदी औद्ध आस्तै कोई खास दर जां दरां;

(छ) अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश ते उत्तराखंड रियासतें दे सरबंधें च खास प्रावधान; ते

(ज) माल ते सेवा-टैक्स कन्नै सरबंधत कोई होर विषे, जेहड़ा परिषद आसेआ तैऽ कीता जा।

(5) माल ते सेवा-टैक्स परिषद उस तरीक दी सफारष करग जिसगी कच्चा तेल, उच्च गति डीजल, मोटर स्पिरिट (आमतौरा पर पट्रोल दे रूपै च जान्नेआ जाने आहला) प्राकृतिक गैस ते ज्हाजें च बरताने आहले ईधन उप्पर माल ते सेवा-टैक्स लाया जाहग।

(6) इस अनुच्छेद राहें सौंपे गेदे कम्मं दा नर्बाह करदे बेल्लै, माल ते सेवा-टैक्स परिषद माल ते सेवा-टैक्स दी ताल-मेल आहला ताना-बाना संरचना ते माल ते सेवाएं आस्तै सुव्यवस्थित राष्ट्री बजार दे विकास दी लोडै राहें मार्ग-दर्षक होग।

(7) माल ते सेवा-टैक्स परिषद दी, उसदी बैठकें च कोरम, परिषद दे कुल्ल सदस्यें दे अद्धे सदस्यें कन्नै मिलियै होग।

(8) माल ते सेवा-टैक्स परिषद अपने कर्त्तबबें दे पालन आस्तै प्रक्रिया नर्धारत करग।

(9) माल ते सेवा-टैक्स परिषद दा हर इक फैसला हाजर ते वोट देने आहले सदस्यें दे हासल म्हत्तव वोटें दे घट्टो-घट्ट त्रै-चौथाई दे बहुमत राहें बैठक च हेठ लिखे सिद्धांतें मताबक कीता जाग :-

(क) केंदरी सरकार दे वोट गी पाए गेदे कुल्ल वोटें दे इक-तिहाई दा म्हत्तव हासल होग; ते

(ख) सभनें रियासती सरकारें दे वोटें गी किट्टे लैने पर उस बैठक च पाए गेदे कुल वोटें दा दो-तिहाई म्हत्तव हासल होग।

(10) माल ते सेवा-टैक्स परिषद दा कोई बी कम्म जां कारवाई सिर्फ इस करी गैर-कन्नूनी नेई होग जे –

(क) परिषद च कोई खाल्ली थाहर ऐ जां उसदे गठन च कोई त्रुटी ऐ; जां

(ख) परिषद दे कुसै सदस्य दे रूपै च कम्म करा करदे कुसै व्यक्ति दी नियुक्ति च कोई त्रुटी ऐ; जां

(ग) परिषद दी प्रक्रिया च कोई अनियमितता ऐ जेहड़ी मामले दे गुण-अवगुण गी प्रभावत नेई करदी ऐ।

1. संविधान (इक सौ इक तरमीम) अधिनियम, 2016 दी धारा 12 राहें अंतरस्थापत।

(भाग 12 – वित्त, संपत्ति, करारनामों ते मकददमें)

(11) माल ते सेवा-टैक्स परिषद् उसदी सफारषें दे लागू होने दरान –

(क) भारत सरकार जां इक जां इक कोला मतियें रियासतें; जां

(ख) भारत दी सरकार ते कोई होर रियासत जां रियासतां इक पासै ते इक जां मतियां रियासतां दूए पासै; जां

(ग) द'ऊं जां द'ऊं थमां मतियें रियासतें बषक्हार, पैदा होए दे झमेलें दे नबेड़े आस्तै इक तंत्र दी स्थापना करग।]

280. वित्त आयोग – (1) राष्ट्रपति, इस संविधान दे रम्भ थमां द'ऊं बरें दे अंदर ते उसदे परैंत हर इक पत्रमें ब'रे दे मुक्कने पर जां नेह पैहलके समें पर, जिसगी राष्ट्रपति लाजमी समझदा ऐ, हुकमै राहें वित्त आयोग दा गठन करग जेहड़ा राष्ट्रपति आसेआ नियुक्त कीते जाने आहले इक अध्यक्ष ते च'ऊं होर सदस्यें कन्नै मिलिये बनग।

(2) संसद कन्नै राहें, उ'नें योग्यताएं दा, जेहड़ियां आयोग दे सदस्यें दे रूपै च नियुक्ति आस्तै लाजमी होडन ते उस तरीके दा, जिस कन्नै उसगी चुनेआ जाहग, नर्धारत करी सकग।

(3) आयोग दा एह कर्तब्व होग जे ओह –

(क) संघ ते रियासतें बषक्हार टैक्सें दी शुद्ध औंदनें दे, जेहड़े इस ध्याऽ दे तैहत उ'दे'च बंडे जाने न जां बंडे जाह्न, बंड दे बारे'च ते रियासतें बषक्हार नेही औंदनें दे उस-सरबंधी हिस्से दे बंडने दे बारे च;

(ख) भारत दे कठेरमें कोष'चा रियासतें दे राजस्व च स्थायता अनुदान गी शासित करने आहले सिद्धांतें दे बारे च;

¹[(खख) रियासत दे वित्त आयोग आसेआ कीती गेदी सफारषें दे अधार पर रियासत'च पंचैतें दे संसाधनें दी अनुपूर्ति आस्तै कुसै रियासत दे कठेरमें कोष दे बादधे-बरोस आस्तै जरूरी उपाएं दे बारे च;]

²[(ग) रियासत दे वित्त आयोग आसेआ कीती गेदी सफारषें दे अधार पर रियासत'च नगरपालिकाएं दे संसाधनें दी अनुपूर्ति आस्तै कुसै रियासत दे कठेरमें कोष दे बादधे-बरोस आस्तै जरूरी उपाएं दे बारे'च;]

³[(घ) सुद्रिढ वित्त दे हितै'च राष्ट्रपति आसेआ आयोग गी दित्ते गेदे कुसै होर मामले दे बारे च, राष्ट्रपति गी सफारष करै।

(4) आयोग अपनी प्रक्रिया नर्धारत करग ते अपने कम्में दे पालन च उसगी नेह अख्तेआर होडन, जेहड़े संसद, कन्नै राहें उसी प्रदान करै।

281. वित्त आयोग दियां सफारशां – राष्ट्रपति इस संविधान दे प्रावधानें तैहत वित्त आयोग आसेआ कीती गेदी हर इक सफारष गी, उस पर कीती गेदी कारवाई गी स्पष्ट करने आहले ज्ञापन सनें, संसद दे हर इक सदन दे सामनै रखोआहग।

प्रकीर्ण वित्त सरबंधी प्रावधान

282. संघ जां रियासत आसेआ अपने राजस्व थमां कीते जाने आहले खर्च – संघ जां रियासत कुसै लोक मकसद आस्तै कोई अनुदान इसदे बावजूद देई सकग जे ओह मकसद नेहा नेई ऐ जिसदे सरबंधे च, स्थिति मताबक, संसद जां उस रियासत दा विधान-मंडल कन्नै बनाई सकदा ऐ।

283. कठेरमें कोशें, चान-चक्की कोशें ते लोक लेखे च ज'मा धन राशियें दी हिफाजत वगैरा –
(1) भारत दे कठेरमें कोष ते भारत दे चान-चक्की कोष दी हिफाजत, नेह कोषें च धनराशियें दे भुगतान, उ'दे'चा धन-राशियें दे कड्ढे जाने, नेह कोषें'च ज'मा धन-राशियें थमां बक्ख भारत सरकार आसेआ जां ओहदे आसेआ हासल लोक धन-राशियें

-
1. संविधान (त्रेहत्तरमीं तरमीम) अधिनियम, 1992 दी धारा 3 राहें (24-4-1993 थमां) अंतरस्थापत।
 2. संविधान (चरहत्तरमीं तरमीम) अधिनियम, 1992 दी धारा 3 राहें (1-6-1993 थमां) अंतरस्थापत।
 3. संविधान (चरहत्तरमीं तरमीम) अधिनियम, 1992 दी धारा 3 राहें (1-6-1993 थमां) उपखंड (ग) गी उपखंड (घ) दे रूपै'च मुंढी लिखेआ गेआ।

भारत दा संविधान

(भाग 12 – वित्त, संपत्ति, करारनामों ते मकददमें)

दी हिफाजत, भारत दे लोक लेखे च उं'दे भुगतान ते नेह लेखे थमां धन-राषियें दे कड़ढे जाने दा ते पैहलें आखे गेदे विषें कन्नै सरबंधत जां उं'दे घटनात्मी होर सभनें विषें दा विनियमन संसद आसेआ बनाए गेदे कन्नूनें राहें कीता जाहग ते जिसलै तगर इस नमित्त इस चाल्ली प्रावधान नेई कीता जंदा ऐ उसलै तगर राष्ट्रपति आसेआ बनाए गेदे नियमें राहें कीता जाहग।

(2) रियासत दे कठेरमें कोष ते रियासत दे चान-चक्की कोष दी हिफाजत, नेह कोषें च धनराषियें दे भुगतान, उं'दे चा धनराषियें दे कड़ढे जाने, नेह कोषें च ज'मा धन-राषियें थमां बक्ख रियासत दी सरकार आसेआ जां ओहदे आसेआ हासल लोक धनराषियें दे संरक्षण, रियासत दे लोक लेखे च उं'दे भुगतान ते नेह लेखे थमां धनराषियें दे कड़ढे जाने दा ते पैहलें आखे गेदे विषें कन्नै सरबंधत जां उं'दे घटनात्मी होर सभनें विषें दा विनियमन रियासत दे विधान-मंडल आसेआ बनाए गेदे कन्नूनें राहें कीता जाहग ते जिसलै तगर इस नमित्त इस चाल्ली प्रावधान नेई कीता जंदा ऐ उसलै तगर रियासत दे राज्यपाल ¹*** आसेआ बनाए गेदे नियमें राहें कीता जाहग।

284. लोक सेवकें ते अदालतें आसेआ हासल मुअक्कलें दी ज'माराशि ते होर धनराषियें दी हिफाजत – नेहियां सब्भै धनराषियां, जेहड़ियां –

(क) स्थिति मताबक, भारत सरकार जां रियासती सरकार आसेआ पैदा कीते गेदे जां हासल राजस्व जां लोक धनराषियें थमां बक्ख न, ते संघ जां कुसै रियासत दे कम्मै-काजै दे सरबंधें च लाए गेदे कुसै अफसरै गी उसदी उस हैसियत च, जां

(ख) कुसै झगड़े, मामले, लेखे जां आदमियें दे नांS पर ज'मा, भारत दे राज्यक्षेत्र दे अंदर कुसै अदालत गी हासल होंदी ऐ जां उसदे कोल रक्खी जंदी ऐ, स्थिति मताबक, भारत दे लोक लेखे च जां रियासत दे लोक लेखे च ज'मा कीती जाहग।

285. संघ दी संपत्ति गी रियासती टैक्स थमां छूट – (1) उत्थूं तगर दे छुट्ट, जित्थूं तगर संसद कन्नूनें राहें जां पही प्रावधान करै, कुसै रियासत आसेआ जां रियासत दे अंदर कुसै प्राधिकारी आसेआ लाए गेदे सभनें टैक्सें थमां संघ दी संपत्ति गी छूट होग।

(2) जिसलै तगर संसद कन्नूनें राहें जां पही प्रावधान नेई करै उसलै तगर खंड (1) दी कोई गल्ल कुसै रियासत दे अंदर कुसै प्राधिकारी गी संघ दी कुसै संपत्ति पर कोई नेहा टैक्स, जेहदी जिम्मेदारी इस संविधान दे रम्भ थमां ठीक पैहलें, नेही संपत्ति पर ही जां मन्नी जंदी ही, लाने थमां उसलै तगर नेई रोकग जिसलै तगर ओह टैक्स उस रियासत च लागेआ रौहदा ऐ।

286. माल दे खरीदने जां बेचने पर टैक्स लाने पर रोक – (1) रियासत दा कोई कन्नू, ²[माल दी सप्लाई जां सेवाएं जां दौनें उप्पर जित्थें उंदी सप्लाई होंदी होऐ] टैक्स लाने आस्तै प्राधिकृत नेई होग–

(क) रियासतै बाहर, जां

(ख) भारत दे राज्यक्षेत्र च [माल ते सेवाएं जां दौनें] दे अयात जां उसदे बाहर नर्यात दे दरान, होंदा ऐ उत्थै, कोई टैक्स नेई लाहग जां लाना प्राधिकृत नेई करग।

³ * * * * *

⁴[(2) संसद, एह नर्धारत करने आस्तै जे [माल जां सेवाएं जां दौनें दी सप्लाई] खंड(1) च वर्णत कीते गेदे तरीकें चा कुसै तरीके कन्नै कदूं होंदी ऐ कन्नूनें राहें, नियम बनाई सकग।

1. संविधान (सतमी तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें "जां राजप्रमुख" शब्दें दा लोप कीता गेआ।
2. संविधान (इक सौ इक तरमीम) अधिनियम, 2016, धारा 13 (i)अ राहें अंतरस्थापत।
3. संविधान (छेमी तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 4 राहें खंड (1) दे स्पष्टीकरण दा लोप कीता गेआ।
4. संविधान (छेमी तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 4 राहें खंड (2) ते खंड (3) दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।

भारत दा संविधान

(भाग 12 – वित्त, संपत्ति, करारनामें ते मकददमें)

¹ [***]

287. बिजली पर टैक्स दी छूट – उत्थूं तगर दे छुट्ट, जित्थूं तगर संसद कनूनै राहें जां फही प्रावधान करै, कुसै रियासत दा कोई कनून (कुसै सरकार आसेआ जां होर व्यक्तियें आसेआ पैदा कीती गेदी) बिजली दे इस्तेमाल जां फरोख्त पर जिसदा –

(क) भारत सरकार आसेआ खपत कीती जंदी ऐ जां सरकार आसेआ खपत कीते जाने आस्तै उस सरकार गी बेची जंदी ऐ, जां

(ख) कुसै रेल दे नर्माण, बनाई रखने जां चलाने च भारत सरकार जां कुसै रेल कंपनी आसेआ, जेहड़ी उस रेलै गी चलांदी ऐ, खपत कीती जंदी ऐ जां कुसै रेलै दे नर्माण, बनाई रखने जां चलाने च खपत आस्तै उस सरकार जां कुसै रेल कम्पनी गी बेची जंदी ऐ, कोई टैक्स नेई लाहग जां टैक्स लाना प्राधिकृत नेई करग ते बिजली दी बिक्री पर कोई टैक्स लाने जां टैक्स लाने गी प्राधिकृत करने आहला कोई नेहा कनून एह पक्का करग जे भारत सरकार आसेआ खपत कीते जाने आस्तै उस सरकार गी, जां कुसै रेलै दे नर्माण, बनाई रखने जां चलाने च खपत आस्तै जि'यां पैहलें आखेआ गोआ ऐ कुसै रेल कंपनी गी बेची गेदी बिजली दी कीमत, उस कीमत थमां जेहड़ी बिजली दा पूरी मात्रा'च खपत करने आहले होरनें उपभोक्ताएं थमां लैती जंदी ऐ, उन्नी घट्ट होग जिन्नी टैक्स दी रकम ऐ।

288. पानी जां बिजली दे सरबंध च रियासतें आसेआ टैक्स थमां किश सूरतें च छूट – (1) उत्थूं तगर दे छुट्ट जित्थूं तगर राष्ट्रपति हुकमै राहें जां फही प्रावधान करै, इस संविधान दे रम्भ थमां ठीक पैहलें कुसै रियासत दा कोई लागू कनून कुसै पानी जां बिजली दे सरबंधें'च, जेहड़ा कुसै अंतर-रियासती नदी जां नदी घाटी दे विनियमन जां विकास आस्तै कुसै मजूदा कनूनै राहें जां संसद आसेआ बनाए गेदे कुसै कनूनै राहें स्थापत कुसै प्राधिकारी आसेआ संचित, उत्पादत, खपत, बंडी जंदी जां बेची जंदी ऐ, कोई टैक्स नेई लाहग जां टैक्स लाना प्राधिकृत नेई करग।

स्पष्टीकरण – इस खंड च, "कुसै रियासत दा कोई लागू कनून" पद दे तैहत कुसै रियासत दा नेहा कनून होग जेहड़ा इस संविधान दे रम्भ थमां पैहलें पास कीता गेदा जां बनाया गेदा ऐ ते जेहड़ा पैहलें गै रद्द नेई करी दिता गेदा ऐ, भाएं ओह जां उसदे कोई भाग उस बेल्लै बिल्कुल जां खास क्षेत्रें'च चलन च नेई होन।

(2) कुसै रियासत दा विधान-मंडल, कनूनै राहें, खंड (1) च वर्णत कोई टैक्स लाई सकग जां नेह टैक्स गी लाना प्राधिकृत करी सकग, पर नेह कुसै कनूनै दा उसलै तगर कोई असर नेई होग जिसलै तगर उसी राष्ट्रपति दे विचार आस्तै मखसूस रखे जाने परैत उसी मजूरी नेई मिली गेदी होऐ ते जेकर नेहा कोई कनून नेह टैक्सें दी दरें ते होरनें प्रसंगतियें गी कुसै प्राधिकारी आसेआ उस कनूनै दे तैहत बनाए जाने आहले नियमें जां हुकमें राहें, तैऽ कीते जाने दा प्रावधान करदा ऐ तां ओह कनून नेह कुसै नियम जां हुकमै दे बनाने आस्तै राष्ट्रपति दी पुज्ज सैहमती हासल कीते जाने दा प्रावधान करग।

289 रियासतें दी संपत्ति ते आंदनी गी संघ आसेआ टैक्स थमां छूट – (1) कुसै रियासत दी संपत्ति ते आमदनी गी संघ दे टैक्सें थमां छूट होग।

(2) खंड (1) दी कोई गल्ल संघ गी कुसै रियासत दी सरकार आसेआ जां ओहदे आसेआ कीते जाने आहले कुसै किस्मै दे बपार जां कारोबार दे सरबंधें'च जां उस कनूनै सरबंधत कु'नें क्रियाएं दे सरबंधें'च जां नेह बपार जां कारोबार दे मकसदें आस्तै बरताने जां मल्ली गेदी कुसै संपत्ति दे सरबंधें'च जां उसदे सरबंधें'च किट्ठी होई दी जां पैदा होई दी कुसै

1. संविधान (इक सौ तरमीम) अधिनियम, 2016 धारा 13(iii) राहें लोप।

इसदे पैहलै एह खंड हेठ लिखे मताबक हा –

"(3) जित्थूं तगर कुसै रियासत दा कोई कनून –

(क) नेह माल दे, जेहड़ा संसद आसेआ कनूनै राहें अंतर-रियासती बपार जां बन्ज च खास म्हत्तव दा माल घोषत कीता गोआ ऐ, खरीद जां फरोख्त पर कोई टैक्स लांदी ऐ जां टैक्स दा लाना प्राधिकृत करदी ऐ; जां

(ख) माल दी खरीद जां फरोख्त पर नेहा टैक्स लांदी ऐ जां नेह टैक्स दा लाना प्राधिकृत करदी ऐ, जेहड़ा अनुच्छेद 366 दे खंड (29क) दे उपखंड (ख), उपखंड (ग) जां उपखंड (घ) च दस्सी दी किस्म दा टैक्स ऐ।

उत्थूं तगर ओह कनून, उस टैक्स दे लाने दी पद्धति, दरें ते होर प्रसंगें दे सरबंधें'च नेहियें रोकें ते शर्तें दे तैहत होग जेहड़ियां संसद कनूनै राहें चेचे तौरै पर दस्सै।"

भारत दा संविधान

(भाग 12 – वित्त, संपत्ति, करारनामें ते मकददमें)

औदनी दे बारे'च, कुसै टैक्स गी नेही मात्तरा तगर जेकर कोई होए, जिसदा संसद कनूनै राहें प्रावधान करै, टैक्स लाने जां टैक्स लाने गी प्राधिकृत करने थमां नेई रोकग।

(3) खंड (2) दी कोई गल्ल कुसै नेह बपार जां कारोबार जां बपार जां कारोबार दे कुसै नेह वर्ग गी लागू नेई होग जेहदे बारे'च संसद कनूनै राहें घोषणा करै जे ओह सरकार दे ममूली कम्मं दा घटनात्मी ऐ।

290. किश खर्चें ते पैशनें दे सरबंधै च समायोजन – जित्थै इस संविधान दे प्रावधानें दे तैहत् कुसै अदालत जां आयोग दे खर्चें जां कुसै व्यक्ति गी जां उसदे सरबंधै'च, जिन्ने इस संविधान दे रम्भ थमां पैहलें भारत च क्राउन दे तैहत् जां नेह रम्भ दे परैत्त संघ दे जां कुसै रियासत दे कम्मै-काजै दे सरबंधै च सेवा कीती दी ऐ, दिती जाने आहली पैषन भारत दे कठेरमें कोष जां कुसै रियासत दे कठेरमें कोष चा भरी जाहग उत्थै, जेकर –

(क) भारत दे कठेरमें कोष चा भरे जाने दी स्थिति'च ओह अदालत जां आयोग कुसै रियासत दी बक्खरी जरूरतें चा कुसै दी पूर्ति करदा ऐ जां उस व्यक्ति ने कुसै रियासत दे कम्मै-काजै दे सरबंधै'च पूरी चाल्ली जां हिस्सें च सेवा कीती ऐ, जां

(ख) कुसै रियासत दे कठेरमें कोष चा भरी जाने दी स्थिति'च, ओह अदालत जां आयोग संघ दी जां होर रियासत दी बक्खरी जरूरतें चा कुसै दी पूर्ति करदा ऐ जां उस व्यक्ति ने संघ जां होर रियासत दे कम्मै-काजै दे सरबंधै'च पूरी चाल्ली जां हिस्सें'च सेवा कीती ऐ,

तां, स्थिति मताबक, उस रियासत दे कठेरमें कोष पर जां, भारत दे कठेरमें कोष जां होर रियासत दे कठेरमें कोष पर, खर्चें जां पैषन दे सरबंधै'च उन्ना अंषदान, जिन्ना करार पाया जा जां करार दी गैर-मजूदगी'च जिन्ना भारत दे मुख् न्यामूर्ति आसेआ नियुक्त मध्यस्थ नर्धारत करै, भरेआ जाहग ते ओहदा उस कोष चा भुगतान कीता जाहग।

¹[**290क. किश देवस्वम् कोशें गी सलाना भुगतान** – हर बरै छताली लक्ख पंजाह जहार रपेंडी राषि केरल रियासत दे कठेरमें कोष चा भरी जाहग ते उस कोष'चा तिरुवांकुर देवस्वम् निधि गी भुगतान कीती जाहग ते हर बरै तेरां लक्ख पंजाह जहार रपेंडी राषि ²[तमिलनाडु] रियासत दे कठेरमें कोष चा भरी जाहग ते उस कोष च 1 नवंबर 1956 गी उस रियासत गी तिरुवांकुर-कोचीन रियासत थमां थांतरत राज्यक्षेत्रें दे हिंदू मंदरें ते पवित्र थाहरें दी सांभ-समहाल आस्तै उस रियासत च स्थापत देवस्वम् कोष गी दिती जाहग।]

291. [शासकें दी प्रिवी पर्स दो राशि।] – संविधान (छब्बिमीं तरमीम) अधिनियम, 1971 दी धारा 2 राहें रदद।

ध्याऽ 2 – दोहार लैना

292. भारत सरकार आसेआ दोहार लैना – संघ दे कार्यपालिका अख्तेआरें दा विस्तार, भारत दे कठेरमें कोष दी गरंटी पर नेहियें हददें अंदर जेकर कोई होन, जि'नेगी संसद समें-समें पर कनूनै राहें तैऽ करै, दोहार लैने तगर ते नेहियें हददें अंदर, जेकर कोई होन, जि'नेगी इस चाल्ली तैऽ कीता जा, गरंटी देने तगर ऐ।

293. रियासतें आसेआ दोहार लैना – (1) इस अनुच्छेद दे प्रावधानें दे तैहत्, रियासत दे कार्यपालिका अख्तेआर दा विस्तार उस रियासत दे कठेरमें कोष दी गरंटी पर नेहियें हददें अंदर, जेकर कोई होन, जि'नेगी नेही रियासत दा विधान-मंडल समें-समें पर कनूनै राहें तैऽ करै, भारत दे राज्यक्षेत्र दे अंदर दोहार लैने तगर ते नेहियें हददें अंदर, जेकर कोई होन, जि'नेगी इस चाल्ली तैऽ कीता जा, गरंटी देने तगर ऐ।

1. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 19 राहें अंतरस्थापत।

2. मद्रास रियासत (नांऽ तब्दील) अधिनियम, 1968 (1968 दे 53) दी धारा 4 राहें (14-1-1969 थमां) 'मद्रास' दे थाहरें पर प्रतिस्थापत।

भारत दा संविधान

(भाग 12 – वित्त, संपत्ति, करारनामें ते मकददमें)

(2) भारत सरकार, नेहियें शर्ते तैहत् रौहदे होई, जेहड़ियां संसद आसेआ बनाए गेदे कुसै कनूनै राहें जां उसदे तैहत् आखियां जाहन, कुसै रियासत गी दोहार देई सकग जां जित्थूं तगर अनुच्छेद 292 दे तैहत् तैऽ कु'नें हददें दा उल्लंघन नेई होंदा ऐ उत्यूं तगर कुसै नेही रियासत आसेआ लैते गेदे दोहारें दे सरबंघें च गरंटी देई सकग ते नेह दोहार देने दे मकसदें आस्तै लोडचदियां राषियां भारत दे कठेरमें कोष चा भरियां जाहडन।

(3) जेकर कुसै नेह दोहार दा, जेहड़ा भारत सरकार ने जां ओहदी पछेत्तरी सरकार ने उस रियासत गी दिता हा जां जिसदे सरबंघें च भारत सरकार ने जां ओहदी पछेत्तरी सरकार ने गरंटी दिती ही, कोई हिस्सा अजें बी बकाया ऐ तां ओह रियासत, भारत सरकार दी सैहमती दे बगैर कोई दोहार नेई लेई सकग।

(4) खंड (3) दे तैहत् सैहमती उ'नें शर्ते दे तैहत्, जेकर कोई होन, दिती जाई सकग जि'नेंगी भारत सरकार लाना ठीक समझै।

ध्याऽ 3 – संपत्ति, करारनामें, अधिकार, जिम्मेवारियां, बाध्यतां ते मकद्दमे

294. किश मामलं च जायदाद, संपत्ति, अधिकारें, जिम्मेवारियें ते बाध्यताएं दा उत्तराधिकार – इस संविधान दे रम्भ थमां गै –

(क) जेहड़ियां संपत्तियां ते जायदादां नेह रम्भ थमां ठीक पैहलें भारत डोमिनियन दी सरकार दे मकसदें आस्तै हिज मजेस्टी'च शामिल हियां ते जेहड़ियां संपत्तियां ते जायदादां नेह रम्भ थमां ठीक पैहलें हर इक राज्यपाल आहले प्रांत दी सरकार दे मकसदें आस्तै हिज मजेस्टी'च शामिल हियां, ओह सब्भै इस संविधान दे रम्भ थमां पैहलें पाकिस्तान डोमिनियन दे जां पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब ते पूर्वी पंजाब प्रांतें दे सिरजन दे कारण कीते गे जां कीते जाने आहले कुसै समायोजन दे तैहत् तरतीबन संघ ते उस-थाहरी रियासत च शामिल होडन; ते

(ख) जेहड़े अधिकार, देनदारियां ते जिम्मेवारियां भारत डोमिनियन दी सरकार दी ते हर इक राज्यपाल आहले प्रांत दी सरकार दियां हियां, भाएं ओह कुसै करार थमां जां होर कुसै चाल्ली पैदा होइयां होन, ओह सब्भै इस संविधान दे रम्भ थमां पैहलें पाकिस्तान डोमिनियन दे जां पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब ते पूर्वी पंजाब प्रांतें दे सिरजन दे कारण कीते गे जां कीते जाने आहले कुसै समायोजन दे तैहत् तरतीबन भारत सरकार ते हर इक उस थाहरी रियासती सरकार दे अधिकार, देनदारियां ते जिम्मेवारियां होडन।

295. होरनें मामलें च संपत्ति, जायदादें, अधिकारें, जिम्मेवारियें ते बाध्यताएं दा उत्तराधिकार –(1) इस संविधान दे रम्भ थमां गै –

(क) जेहड़ियां संपत्तियां ते जायदादां नेह रम्भ थमां ठीक पैहलें पैहली अनुसूची दे भाग ख च दस्सी गेदी रियासत दे उस-थाहरी कुसै देसी रियासत च शामिल हियां, ओह सब्भै नेह करार दे तैहत् जेहड़ा भारत सरकार इस नमित्त उस रियासत दी सरकार कन्नै करे, संघ च शामिल होडन जेकर ओह मकसद जि'दे आस्तै नेह रम्भ थमां ठीक पैहलें नेहियां संपत्तियां ते जायदादां रक्खी दियां हियां, उसदे परैत संघ सूची'च गनोए दे कुसै विषे कन्नै सरबंघत संघ दे मकसद होन, ते

(ख) जेहड़े अधिकार, देनदारियां ते जिम्मेवारियां पैहली अनुसूची दे भाग ख च दस्सी गेदी रियासत दे उस-थाहरी कुसै देसी रियासत दी सरकार दियां हियां, भाएं ओह कुसै करार थमां जां होर चाल्ली पैदा होई दियां होन, ओह सब्भै नेह करार दे तैहत्, जेहड़ा भारत सरकार इस नमित्त उस रियासत दी सरकार कन्नै करे, भारत सरकार दे अधिकार, देनदारियां ते जिम्मेवारियां होडन जेकर ओह मकसद, जि'दे आस्तै नेह रम्भ थमां ठीक पैहलें नेह अधिकार अर्जत कीते गे हे जां नेहियां देनदारियां जां जिम्मेवारियां पैदा कीतियां गेइयां हियां, उसदे परैत संघ सूची च गनोए दे कुसै विषे कन्नै सरबंघत भारत सरकार दे मकसद होन।

(2) जि'यां उप्पर आखेआ गोआ ऐ उसदे तैहत्, पैहली अनुसूची दे भाग ख च दस्सी गेदी हर इक रियासत दी सरकार, उ'नें सभनें संपत्तियें ते जायदादें ते उ'नें सभनें अधिकारें, देनदारियें ते जिम्मेवारियें दे सरबंघें च भाएं ओह कुसै करार

भारत दा संविधान

(भाग 12 – वित्त, संपत्ति, करारनामें ते मकद्दमे)

थमां जां होर चाल्ली पैदा होई दियां होन, जेहडियां खंड (1) च दरसे गेदे थमां बक्ख न, इस संविधान दे रम्भ थमां गै उस-थाहरी देसी रियासती सरकार दी उत्तराधिकारी होग।

296. राजगामी जां व्यपगत जां स्वामीहीन होने पर हासल संपत्ति – एहदे च एहदे परैत जि'यां प्रावधान ऐ दे तैह्त, भारत दे राज्यक्षेत्रें च कोई संपत्ति जेहड्डी जेकर एह संविधान चलन'च नेई आया होंदा तां राजगामी जां व्यपगत होने थमां जां अधिकार आहले मालकै दे नेई होने दी स्थिति च स्वामीहीन होने थमां, स्थिति मताबक, हिज मजेस्टी गी जां कुसै देसी रियासत दे शासक गी थहोई दी होंदी, जेकर ओह संपत्ति कुसै रियासत'च स्थित ऐ तां नेही रियासत च ते कुसै होर सूरत च संघ'च शामिल होग:

पर कोई संपत्ति, जेहड्डी उस तरीक गी जदूं ओह इस चाल्ली हिज मजेस्टी गी जां देसी रियासत दे शासक गी हासल होई होंदी, भारत सरकार दे जां कुसै रियासती सरकार दे कब्जें जां नियंत्रण च ही उसलै, जेकर ओह मकसद, जि'दे आस्तै ओह उसलै प्रयुक्त जां रक्खी दी ही, संघ दे हे तां ओह संघ च जां कुसै रियासत दे हे तां ओह उस रियासत'च शामिल होग।

स्पष्टीकरण – इस अनुच्छेद च, "षासक" ते "देषी रियासत" पद दे उ'ऐ अर्थ न जेहडे अनुच्छेद 363 च न।

¹[297. राज्यक्षेत्रो समुदरी सीमा जां महाद्वीपी पट्टी थमां हासल होने आहलियं कीमती चीजें ते होर आर्थक क्षेत्र दे चेचे संपत्ति दे संसाधनें दा संघ च शामिल होना – (1) भारत दी राज्यक्षेत्री समुदरी सीमा जां महाद्वीपी पट्टी थमां हासल जां बषेप आर्थक क्षेत्र च समुदर दी हेठली सारी जिमीं, खनिज ते होर मुल्लवान चीजां संघ'च शामिल होडन ते संघ दे मकसदें आस्तै रक्खियां जाहडन।

(2) भारत दे बषेप आर्थक क्षेत्र दे होर सब्भै संपत्ति स्रोत बी संघ'च शामिल होडन ते संघ दे मकसदें आस्तै धारण कीते जाहडन।

(3) भारत दे राज्यक्षेत्री समुदरी सीमा, महाद्वीपी पट्टी थमां हासल, बषेप आर्थक क्षेत्र ते होर समुदरी क्षेत्रें दियां हद्दां ओह होडन, जेहडियां संसद आसेआ बनाए गेदे कनूनै राहें जां उसदे तैह्त समें-समें पर दस्सियां जाहडन।]

²[298. बपार वगैरा करने दा अख्तेआर – संघ दी ते हर इक रियासत दी कार्यपालिका दे अख्तेआर दा विस्तार, बपार जां कारोबार करने ते कुसै मकसद आस्तै संपत्ति दा अर्जन, धारण ते खर्च ते अनुबंध करने पर बी होग:

पर –

(क) जित्थूं तगर नेहा बपार जां कारोबार जां नेहा मकसद ओह नेई ऐ जिसदे सरबंधें'च संसद कनून बनाई सकदी ऐ उत्थूं तगर संघ दा आखेआ गेदा कार्यपालिका अख्तेआर हर इक रियासत'च उस रियासत दे विधान दे अधीन होग; ते

(ख) जित्थूं तगर नेहा बपार जां कारोबार जां नेहा मकसद ओह नेई ऐ जिसदे सरबंधें'च रियासत दा विधान-मंडल कनून बनाई सकदा ऐ, उत्थूं तगर हर इक रियासत दे आखे गेदे कार्यपालिका अख्तेआर संसद दे विधान दे अधीन होग।]

299. करारनामें – (1) संघ दा जां रियासत दा कार्यपालिका अख्तेआर दा इस्तेमाल करदे होई कीते गेदे सब्भै करारनामें, स्थिति मताबक, राष्ट्रपति आसेआ जां उस रियासत दे राज्यपाल ³*** आसेआ कीता गेदा आखेआ जाहग ते ओह सब्भै करारनामें ते संपत्ति सरबंधी विष्वास-पत्र, जेहडे उस अख्तेआर दी बरतून करदे होई कीते जाहन, राष्ट्रपति जां राज्यपाल ³*** दी बक्खी दा नेह व्यक्तियें आसेआ ते ढंगै कनूनै नभाएं जाहडन जि'नेगी ओह निष्चित करै जां प्राधिकृत करै।

1. संविधान (चाहलीमीं तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 2 राहें (27-5-1976 थमां) अनुच्छेद 297 दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
2. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 20 राहें अनुच्छेद 298 दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
3. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 राहें ते अनुसूची राहें "जां राजप्रमुख" शब्द दा लोप कीता गेआ।

(2) राष्ट्रपति जां कुसै रियासत दा राज्यपाल ^{1***} इस संविधान दे मकसदें आस्तै जां भारत सरकार दे सरबंधे च इस थमां पैहलें लागू कुसै अधिनियमिति दे मकसदें आस्तै कीते गेदे जां नभाए गेदे कुसै करारनामें जां विष्वास-पत्तर दे सरबंधे च व्यक्तिगत रूपै'च जिम्मेवार नेई होग जां उं'दे चा कुसै आहली बखी दा नेह करारनामें जां विष्वास-पत्तर करने जां नभाने आहला व्यक्ति उसदे सरबंधे'च व्यक्तिगत रूपै'च जिम्मेवार नेई होग।

300. मकददमें ते कारवाइयां – (1) भारत सरकार भारत संघ दे नांS कन्नै मकददमा करी सकग जां उस पर मकददमा कीता जाई सकग ते कुसै रियासत दी सरकार उस रियासत दे नांS कन्नै मकददमा करी सकग जां उस पर मकददमा कीता जाई सकग ते नेह प्रावधानें दे तैहत् रौहदे होई, जेहड़े इस संविधान राहें दित्ते दे अख्तेआरें दे अधार पर अधिनियमित संसद दे जां नेही रियासत दे विधान-मंडल दे अधिनियम राहें कीते जाहन, ओह अपने-अपने कम्मै-काजै दे सरबंधे च उससै चाल्ली मकददमा लाई सकडन जां उं'दे पर उससै चाल्ली मकददमा लाया जाई सकग जिस चाल्ली, जेकर एह संविधान अधिनियमित नेई कीता गेदा होंदा तां, भारत डोमिनियन ते उस-थाहरी प्रांत जां उस-थाहरी देसी रियासत मकददमा लाई सकदे हे जां उं'दे पर मकददमा लाया जाई सकदा हा।

(2) जेकर इस संविधान दे रम्भ पर –

(क) कोई नेहियां कनूनी कारवाइयां बकाया न जि'दे च भारत डोमिनियन इक पक्खकार ऐ तां उ'नें कारवाइयें च उस डोमिनियन दे थाहरै पर भारत संघ प्रतिस्थापत कीता गेदा समझेआ जाहग; ते

(ख) कोई नेहियां कनूनी कारवाइयां बकाया न जि'दे च कोई प्रांत जां कोई देसी रियासत इक पक्खकार ऐ तां उ'नें कारवाइयें'च उस प्रांत जां देसी रियासत दे थाहरै पर उस-थाहरी रियासत प्रतिस्थापत कीती गेदी समझी जाहग।

²[ध्याS 4 – संपत्ति दा अधिकार

300क. कनून दे प्राधिकार दे बगैर व्यक्तियें गी संपत्ति कोला वंचित नेई कीता जाना –कुसै व्यक्ति गी उसदी संपत्ति थमां कनून दे प्राधिकार कन्नै गै वंचत कीता जाहग, नेई तां नेई।]

1. संविधान (सतमी तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 राहें "जां राजप्रमुख" शब्दें दा लोप कीता गेआ।
2. संविधान (चरतालामी तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 34 राहें (20-6-1979 थमां) अंतरस्थापत।

301. बपार, बन्ज ते मेल-जोल दी स्वतंत्रता – इस हिस्से दे होरनें प्रावधानें दे तैहत् रौहदे होई, भारत दे राज्यक्षेत्र च हर थाहरा बपार बन्ज, ते मेल-जोल बे-रोक-टोक होग।

302. बपार, बन्ज ते मेल-जोल पर रोक लाने दा संसद दा अख्तेआर – संसद कनूनै राहें, इक रियासत ते दूई रियासत बषक्हार जां भारत दे राज्यक्षेत्र दे कुसै हिस्से दे अंदर बपार, बन्ज, जां मेल-जोल दी अज़ादी पर नेहियां बंदषां लाई सकग जेहड़ियां लोक हित च जरूरी होन।

303. बपार ते बन्ज दे सरबंधें च संघ ते रियासतें दे विधायी अख्तेआरं पर रोक –(1) अनुच्छेद 302 च कुसै गल्लै दे होंदे होई बी, सतमीं अनुसूची दी सूचियें चा कुसै बी बपार ते बन्ज सरबंधी कुसै इंदराज दे अधार पर संसद गी जां रियासत दे विधान-मंडल गी, कोई नेहा कनून बनाने दा अख्तेआर नेई होग जेहड़ा इक रियासत गी दूई रियासत थमां तरजीह दिंदा ऐ जां दिता जाना प्राधिकृत करदा ऐ जां इक रियासत ते दूई रियासत बषक्हार कोई फर्को-फर्की करदा ऐ जां कीता जाना प्राधिकृत करदा ऐ।

(2) खंड (1) दी कोई गल्ल संसद गी कोई नेहा कनून बनाने थमां नेई रोकग जेहड़ा कोई नेही तरजीह दिंदा ऐ जां दित्ते जाने लेई प्राधिकृत करदा ऐ जां कोई नेहा फर्को-फर्की करदा ऐ जां कीते जाने लेई प्राधिकृत करदा ऐ, जेकर नेह कनूनै राहें एह घोषत कीता जंदा ऐ जे भारत दे राज्यक्षेत्र दे कुसै हिस्से च माल दी कमी कनूनै पैदा कुसै हलात कनूनै निबडने दे मकसद आस्तै नेहा करना जरूरी ऐ।

304. आपू चें रियासतें च बपार, बन्ज ते मेल-जोल पर रोक – अनुच्छेद 301 जां अनुच्छेद 303 च कुसै गल्लै दे होंदे होई बी, कुसै रियासतें दा विधान-मंडल, कनूनै राहें, –

(क) होर रियासतें ¹[जां संघ राज्यक्षेत्रें] थमां आमद माल उप्पर कोई नेहा टैक्स लाई सकग जेहड़ा उस रियासत च बनाए गेदे जां पैदा माल उप्पर उ'आं गै लगदा ऐ, पर इस चाल्ली जे उस थमां इस चाल्ली आमद कीते गेदे माल ते नेह बनाए गेदे जां पैदा माल बषक्हार कोई फर्को-फर्की नेई होऐ; जां

(ख) उस रियासतें कनूनै जां ओहदे अंदर बपार, बन्ज ते आपसी लैन-देन दी अज़ादी उप्पर नेहियां न्यासंगत पबंदियां लाई सकग जेहड़ियां लोक हितै च लोडचदियां होन;

पर खंड (ख) दे मकसदें आस्तै कोई बिल्ल जां तरमीम राष्ट्रपति दी पुज्ज मंजूरी दे बगैर कुसै रियासत दे विधान-मंडल च पेष जां प्रस्तावित नेई कीती जाहग।

²**[305. मजूदा कनूनें ते रियासत दे एकाधिकार दा प्रावधान करने आहले कनूनें दी हिफाजत** – छुट्ट एहदे जित्थू तगर राष्ट्रपति हुकमै राहें जां हिदायत देइयै, अनुच्छेद 301 ते अनुच्छेद 303 दी कोई गल्ल कुसै मजूद कनूनै दे प्रावधानें उप्पर कोई असर नेई पाहग ते अनुच्छेद 301 दी कोई गल्ल संविधान (चौथी तरमीम) अधिनियम, 1955 दे रम्भ थमां पैहलें बनाए गेदे कुसै कनूनै दे लागू होने उप्पर उथूं तगर कोई असर नेई पाहग जित्थू तगर ओह कनून नेह कुसै विषे दे सरबंधे च, जेहड़ा अनुच्छेद 19 दे खंड (6) दे उपखंड (ii) च दस्सेआ गेदा ऐ जां ओह नेह कुसै विषे दे सरबंधे च जेहड़ा अनुच्छेद 19 दे खंड (6) दे उपखंड (ii) च दस्सेआ गेदा ऐ, कनून बनाने कनूनै संसद जां कुसै रियासत दे विधान-मंडल गी नेई रोकग।]

306. [पैहली अनुसूची दे भाग ख दा किश रियासतें द बपार ते बन्ज उप्पर पबंदियां लाने दा अख्तेआर।] – संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें रदद।

307. अनुच्छेद 301 कोला अनुच्छेद 304 दे मकसदें गी अमली च आहनने आस्तै प्राधिकारी दी नियुक्ति – संसद कनूनै राहें, नेह प्राधिकारी दी नियुक्ति करी सकग जिसी ओह अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 302, अनुच्छेद 303 ते अनुच्छेद 304 दे मकसदें गी अमली च आहनने आस्तै उचित समझै ते इस चाल्ली नियुक्त प्राधिकारी गी नेह अख्तेआर देई सकग ते नेह कर्तबब सौपी सकग जि'नेंगी ओह जरूरी समझै।

1. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 राहें ते अनुसूची राहें अंतरस्थापत।
2. संविधान (चौथी तरमीम) अधिनियम, 1955 दी धारा 4 राहें अनुच्छेद 305 दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।

ध्यास 1 – सेवा

308. व्याख्या – इस भाग च, जिसलै तगर संदर्भ थमां जां जरूरी नेई होऐ, “रियासत” पद ¹[दे तैह्त जम्मू-कष्मीर रियासत नेई ऐ।]

309. संघ जां रियासत दी सेवा करने आहले व्यक्तियें दी भर्था ते सेवा दियां शर्ता – इस संविधान दे प्रावधानें तैह्त, उचित विधान-मंडल दे अधिनियम संघ जां कुसै रियासतै दे कम्मै-काजै कन्नै सरबंधत लोक सेवाएं ते औहदें आस्तै भर्था दा ते नियुक्त व्यक्तियें दियें सेवा दियें शर्तें दा विनियमन करी सकडन:

पर जिसलै तगर इस अनुच्छेद दे तैह्त उचित विधान-मंडल दे अधिनियम राहें जां ओहदे तैह्त इस नमित्त प्रावधान नेई कीता जंदा ऐ उसलै तगर, स्थिति मताबक, संघ दे कम्मै-काजै कन्नै सरबंधत सेवाएं ते औहदें दी सूरतै च राष्ट्रपति जां नेहा व्यक्ति जिसी ओह निर्देश देऐ ते रियासतै दे कम्मै-काजै कन्नै सरबंधत सेवाएं ते औहदें दी सूरतै च रियासत दा राज्यपाल ^{2***} जां नेहा कोई व्यक्ति जिसी ओह निर्देश देऐ, नेहियें सेवाएं ते औहदें आस्तै भर्था दा ते नियुक्त व्यक्तियें दियें सेवा दियें शर्तें दा विनियमन करने आहले नियम बनाने आस्तै समर्थ होग ते इस चाल्ली बनाए गेदे नियम कुसै नेह अधिनियम दे प्रावधानें दे तैह्त रौहदे होई असरी होडन।

310. संघ जां रियासत दी सेवा करने आहले व्यक्तियें दे औहदे दी औद्ध- (1) इस संविधान राहें अभिव्यक्त रूपै कन्नै जि'यां प्रावधान दे छुट्ट, हर व्यक्ति जेहड़ा रक्षा सेवा दा जां संघ दी सिवल सेवा दा जां अखिल भारती सेवा दा सदस्य ऐ जां रक्षा कन्नै सरबंधत कोई औहदा धारण करदा ऐ, राष्ट्रपति दी खुषरजाई तगर औहदा धारण करदा ऐ ते हर इक व्यक्ति जेहड़ा कुसै रियासत दी सिवल सेवा दा सदस्य ऐ जां रियासत दे तैह्त कोई सिवल औहदा धारण करदा ऐ, उस रियासत दे राज्यपाल ^{3***} दी खुषरजाई तगर औहदा धारण करदा ऐ।

(2) इस गल्ला दे होंदे होई बी जे संघ जां कुसै रियासत दे तैह्त सिवल औहदा धारण करने आहला व्यक्ति, स्थिति मताबक, राष्ट्रपति जां रियासत दे राज्यपाल ^{2***} दी खुषरजाई तगर औहदा धारण करदा ऐ, कोई करारनामां जेहदे तैह्त कोई व्यक्ति जेहड़ा रक्षा सेवा दा जां अखिल भारती सेवा दा जां संघ जां रियासत दी सिवल सेवा दा सदस्य नेई ऐ, नेह कुसै औहदे गी धारण करने आस्तै इस संविधान दे तैह्त नियुक्त कीता जंदा ऐ उस सूरतै च, जेहदे च, स्थिति मताबक, राष्ट्रपति जां राज्यपाल ^{2***} खास योग्यताएं आहले कुसै व्यक्ति दियां सेवां हासल करने आस्तै जरूरी समझदा ऐ, एह प्रावधान करी सकग जे जेकर करार कीती गेदी औद्ध दी समाप्ति थमां पैहलें ओह औहदा समाप्त करी दित्ता जंदा ऐ जां नेह कारणें कन्नै, जेहड़ा ओहदे कुसै माडे व्यवहार कन्नै सरबंधत नेई ऐ, उस कन्नै एह औहदा खाल्ली करने दी मेद कीती जंदा ऐ तां, उसी मुआवजा दित्ता जाहग।

311. संघ जां रियासत दे तैह्त सिवल हैसियत च नौकरी करने आहले व्यक्तियें गी नौकरी चा कड्डी दित्ता जाना, औहदे थमां हटाया जाना जां औहदा घटाया जाना – (1) कुसै व्यक्ति गी जेहड़ा संघ जां सिवल सेवा दा जां अखिल भारती सेवा दा जां रियासत दी सिवल सेवा दा सदस्य ऐ, जां संघ जां रियासतै दे अधीन कोई सिवल औहदा धारण करदा ऐ, ओहदी नियुक्ति करने आहले प्राधिकारी दे अधीन कुसै प्राधिकारी आसेआ मोत्तल नेई कीता जाहग जां औहदे थमां नेई हटाया जाहग।

⁴[(2) जि'यां के पैहलें आखे गेदे कुसै व्यक्ति गी नेही पडताल परैत्त गै, जेहदे कन्नै उसी अपने खलाफ दोषें दी सूचना देई दित्ती गेदी ऐ ते उ'नें दोषें दे सरबंधे च ^{5***} सनोआई दा न्यांसंगत समां देई दित्ता गेआ ऐ, ओह मोत्तल कीता जाहग, जां औहदे थमां हटाया जाहग जां औहदा घटाया जाहग नेई तां नेई:

1. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 राहें ते अनुसूची राहें “पैहली अनुसूची दे भाग क जां भाग ख च दस्सी गेदी रियासत ऐ” दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।
2. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें “जां राजप्रमुख” शब्दें दा लोप कीता गेआ।
3. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 राहें ते अनुसूची राहें “स्थिति मताबक, उस रियासत दे राज्यपाल जां राजप्रमुख” शब्दें दा लोप कीता गेआ।
4. संविधान (पं'दरमीं तरमीम) अधिनियम, 1963 दी धारा 10 राहें खंड (2) ते खंड (3) दी थाहरा पर प्रतिस्थापत।
5. संविधान (बतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 44 राहें (3-1-1977 थमां) किष शब्दें दा लोप कीता गेआ।

(भाग 14 – संघ ते रियासतें दे अधीन सेवा)

¹[पर जित्थे नेही पड़ताल दे बाद उस उप्पर कोई स'जा देने दा प्रस्ताव ऐ उत्थे नेही स'जा, नेही जांच दरान दित्ते गेदे सबूतें दे अधार उप्पर दित्ती जाई सकग ते नेह व्यक्ति गी प्रस्तावत स'जा दे विषे च अपनी लिखत सफाई देने दा मौका देना जरूरी नेई होग:

पर बावजूद एहदे, एह खंड उत्थे लागू नेई होग—]

(क) जित्थे कुसै व्यक्ति दे नेह व्यवहार दे कारण उसगी मोत्तल कीता जंदा ऐ जां औहदे थमां हटाय़ा जंदा ऐ जां औहदा घटाय़ा जंदा ऐ जेहदे आस्तै अपराध आहले दोषें पर उसी दोषी साबत कीता गेआ ऐ; जां

(ख) जित्थे कुसै व्यक्ति दी सेवाएं गी खतम करने जां औहदे थमां हटाने जां औहदा घटाने आस्तै समर्थ प्राधिकारी गी एह संतुष्टी होई जंदी ऐ जे कुसै कारण करी, जेहड़ा उस प्राधिकारी आसेआ लिपिबद्ध कीता जाहग, एह न्यांसंगत रूपे च व्यवहारक नेई ऐ जे नेही जांच कीती जा; जां

(ग) जित्थे, स्थिति मताबक, राष्ट्रपति जां राज्यपाल गी एह संतुष्टी होई जंदी ऐ जे रियासत दी सुरक्षा दे हितै च एह ठीक नेई ऐ जे नेही जांच कराई जा;

(3) जेकर पैहलें आखे गेदे व्यक्ति दे सरबंधे च एह सुआल उठदा ऐ जे खंड (2) च दस्सी गेदी जांच करना न्यांसंगत रूपे च व्यवहारक ऐ जां नेई तां उस व्यक्ति गी मोत्तल करने जां औहदे थमां हटाने जां औहदा घटाने आस्तै समर्थ प्राधिकारी दा उस उप्पर फैसला खीरी होग।]

312. अखिल भारती सेवां – (1) ²[भाग 6 दे ध्याऽ 6 जां भाग 11] च कुसै गल्ले दे होंदे होई बी, जेकर राज्य सभा ने मजूद ते वोट देने आहले सदस्ये चा घट्टो-घट्ट दो बटा त्रै सदस्ये आसेआ समर्थित प्रस्ताव राहें एह घोषत कीता ऐ जे राष्ट्री हितै च नेहा करना जरूरी जां उचित ऐ तां संसद, कनूनै राहें संघ ते रियासतें आस्तै सांझी इक जां मती अखिल भारती सेवाएं दे ³[(जिं'दे तैहत अखिल भारती न्यायिक सेवा ऐ) सिरजन आस्तै प्रावधान करी सकग ते इस ध्याऽ दे होर प्रावधानें तैहत, कुसै नेही सेवा आस्तै भर्थां दा ते नियुक्त व्यक्तियें दियें सेवा दियें शर्तें दा विनियमन करी सकग।

(2) इस संविधान दे शुरू च भारती प्रषासनक सेवा ते भारती पलीस सेवा दे नांऽ कन्नै जान्नियां जाने आहलियां सेवां इस अनुच्छेद दे तैहत संसद आसेआ बनाइयां गेदियां सेवां समझियां जाहडन।

⁴[(3) (खंड (1) च दस्सी गेदी अखिल भारती न्यायिक सेवा दे तैहत अनुच्छेद 236 च परिभाषत कीती गेदी जि'ला जज्ज दे औहदे थमां घट्ट कोई औहदा नेई होग।

(4) पैहलें आखी गेदी अखिल भारती न्यायिक सेवा दे सिरजन आस्तै प्रावधान करने आहले कनूनै दे भाग 6 दे ध्याऽ 6 दी तरमीम आस्तै नेह प्रावधान शामिल होई सकडन जेहडे उस कनूनै दे प्रावधानें गी अमल च आहनेने आस्तै जरूरी होन ते नेहा कोई कनून अनुच्छेद 368 दे मकसदें आस्तै संविधान दी तरमीम नेई समझी जाहग।]

⁴[312क. किश सेवाएं दे अधिकारियें दियें सेवा दियं शर्तें च बदलाव करने जां रद्द करने दा संसद दा अख्तोआर— (1) संसद, कनूनै राहें –

(क) उ'नें व्यक्तियें दी, जेहडे सैक्रेटरी आफ स्टेट आसेआ जां सैक्रेटरी आफ स्टेट इन काँसल आसेआ इस संविधान दे रम्भ थमां पैहलें भारत च क्राऊन दी कुसै सिवल सेवा च नियुक्त कीते गे हे ते जेहडे संविधान (ठाइमीं तरमीम) अधिनियम 1972 दे शुरू च ते ओहदे बाद, भारत सरकार जां कुसै रियासती सरकार दे तैहत कुसै सेवा जां औहदे उप्पर बने रौहदे न, मेहनताना, छुट्टी जां पैषन सरबंधी सेवा दियें शर्तें ते अनुषासन आहले विषें सरबंधी अधिकार भविक्खलक्षी जां पुज्ज असरी रूपे च तब्दील करी सकग जां रद्द करी सकग;

1. संविधान (बतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 44 राहें (3-1-1977 थमां) किष शब्दें दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 2. संविधान (बतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 45 राहें (3-1-1977 थमां) "भाग 11" दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 3. संविधान (बतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 45 राहें (3-1-1977 थमां) अंतरस्थापत।
 4. संविधान (ठाइमीं तरमीम) अधिनियम, 1972 दी धारा 2 राहें (29-8-1972 थमां) अंतरस्थापित।

(भाग 14 – संघ ते रियासतें दे अधीन सेवा)

(ख) उ'नें व्यक्तियें दी जेहड़े सैक्रेटरी आफ स्टेट आसेआ जां सैक्रेटरी आफ स्टेट इन कौंसल आसेआ इस संविधान दे रम्भ थमां पैहलें भारत च क्राऊन दी कुसै सिवल सेवा च नियुक्त कीते गेदे हे ते जेहड़े संविधान (टाइमीं तरमीम) अधिनियम 1972 दे रम्भ थमां पैहलें कुसै समें सेवा निवृत्त होई गेदे न जां पही सेवा च नेई रेहदे न, पैषन सरबंधी सेवा दियां शर्ता भविक्खलक्षी जां पुज्ज असरी रूपै च तब्दील करी सकग जां रद्द करी सकग:

पर कुसै नेह व्यक्ति दी सूरतै च, जेहड़ा सर्वोच्च अदालत जां कुसै उच्च अदालतै दे मुख्ख न्यांमूर्ति जां होर भारत दे नियंत्रक—महालेखापारखी, संघ जां कुसै रियासतै दे लोक सेवा आयोग दे अध्यक्ष जां होर सदस्य जां मुख्ख चनांS कमीषनर दा औहदा धारण करा'रदा ऐ जां करी चुके दा ऐ, उपखंड (क) जां उपखंड (ख) दी कुसै गल्लै दा एह अर्थ नेई लाया जाहग जे ओह संसद गी, उस व्यक्ति दे आखे गेदे ओहदे पर नियुक्ति मगरा ओहदी सेवा दियें शर्तें च छुट्ट उथूं तगर जे नेहियां सेवा दियां शर्ता, उसी सैक्रेटरी आफ स्टेट आसेआ जां सैक्रेटरी आफ स्टेट इन कौंसल आसेआ भारत च क्राऊन दी कुसै सिवल सेवा च नियुक्त कीता गेदा व्यक्ति होने दे कारण लागू न, ओहदे आस्तै अलाहकारी तब्दीली करने आस्तै जां उ'नेंगी रद्द करने आस्तै समर्थ करदी ऐ।

(2) छुट्ट एहदे जित्थूं तगर संसद, कनूनै राहें, इस अनुच्छेद दे तैहत् प्रावधान करै, इस अनुच्छेद दी कोई गल्ल खंड (1) च दस्से गेदे व्यक्तियें दियें सेवा दियें शर्तें दा विनियमन करने दी इस संविधान दे कुसै होर प्रावधान दे तैहत् कुसै विधान—मंडल जां होर प्राधिकारी दे अख्तेआर उप्पर असर नेई पाहग।

(3) सर्वोच्च अदालत गी जां कुसै होर अदालतै गी हेठ लिखे दे झमेलें च कोई अधिकारता नेई होग, अर्थात् —

(क) कुसै अनुबंध, करार जां कोई होर नेही लिखतै दे, जिसी खंड (1) च दस्से गेदे कुसै व्यक्ति ने कीते दा ऐ जां अमल च आहने दा ऐ, कुसै प्रावधान कन्ने जां ओहदे उप्पर कीते गेदे पृष्ठांकन कन्ने पैदा कुसै झमेले जां नेह व्यक्ति गी, भारत च क्राऊन दी कुसै सिवल सेवा च ओहदी नियुक्ति जां भारत डोमिनियन दी जां ओहदे कुसै प्रांतै दी सरकार दे तैहत् सेवा च ओहदे बने रौहने दे सरबंधे च भेजी गेदी कुसै चिट्ठी दे अधार उप्पर पैदा कोई झमेला;

(ख) मूल रूपै च जि'यां के अधिनियमित अनुच्छेद 314 दे तैहत् कुसै अधिकार, देनदारी जां जिम्मेवारी दे सरबंधे च कोई झमेला;

(4) इस अनुच्छेद दे प्रावधान मूल रूपै च जि'यां के अधिनियमित अनुच्छेद 314 च जां इस संविधान दे कुसै होर प्रावधान च कुसै गल्लै दे होंदे होई बी असरी होंडन।]

313. संक्रमणकाली प्रावधान — जिसलै तगर इस संविधान दे तैहत् इस आस्तै होर प्रावधान नेई कीता जंदा ऐ, उसलै तगर नेह सबै कनून जेहड़े इस संविधान दे रम्भ थमां ठीक पैहलें बरतून च न ते कुसै नेही लोक सेवा जां कुसै नेह ओहदे गी, जेहड़ा इस संविधान दे शुरू होने दे बाद अखिल भारती सेवा दे जां संघ जां कुसै रियासत दे तैहत् सेवा जां ओहदे दे रूपै च बनेआ रौहग जित्थूं तगर ओह इस संविधान दे प्रावधानें कन्ने मेल खंदा ऐ।

314. [किश सेवाएं च मजूदा अधिकारियें दी हिफाजत आस्तै प्रावधान] — संविधान (टाइमीं तरमीम) अधिनियम 1972 दी धारा 3 राहें (29-8-1972 थमां) रद्द।

ध्याS 2 – लोक सेवा आयोग

315. संघ ते रियासतें आस्तै लोक सेवा आयोग — (1) इस अनुच्छेद दे प्रावधानें तैहत्, संघ आस्तै इक लोक सेवा आयोग ते हर इक रियासत आस्तै इक लोक सेवा आयोग होग।

(2) दो जां मतियां रियासतां एह करार करी सकडन जे रियासतें दे उस समूह आस्तै इकै लोक सेवा आयोग होग ते जेकर इस मकसद दा प्रस्ताव उ'नें रियासतें चा हर इक रियासतै दे विधान—मंडल दे सदन आसेआ जां जित्थै दो सदन न,

भारत दा संविधान

(भाग 14 – संघ ते रियासतें दे अधीन सेवा)

उत्थै हर इक सदन आसेआ पास करी दित्ता जंदा ऐ तां संसद उ'नें रियासतें दी जरूरतें गी पूरा करने आस्तै कनूनै राहें संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग दी (जिसी इस ध्याऽ च "संयुक्त आयोग" आखेआ गोदा ऐ) नियुक्ति दा प्रावधान करी सकग।

(3) पैहलें आखे गोदे कुसै कनूनै च नेह् घटनात्मी ते नतीजक प्रावधान होई सकडन जेह्ड़े उस कनूनै दे मकसदें गी असरी करने आस्तै जरूरी जां लोडचदे होन।

(4) जेकर कुसै रियासत दा राज्यपाल ¹*** संघ लोक सेवा आयोग गी नेहा करने दा अनुरोध करदा ऐ तां ओह् राष्ट्रपति दी मंजूरी कनूनै उस रियासत दी सभनें जां कु'नें जरूरतें गी पूरा करने आस्तै सैहमत होई सकग।

(5) इस संविधान च, जिसलै तगर संदर्भ थमां जां पही जरूरी नेई होऐ संघ लोक सेवा आयोग जां कुसै रियासती लोक सेवा आयोग लेई हिदायतें दा एह् मतलब लाया जाह्ग जे ओह् नेह् आयोग लेई हिदायतां न जेह्ड़ियां सुआलिया कुसै खास विषे दे सरबधे च, स्थिति मताबक, संघ दी जां रियासतै दी जरूरतें गी पूरा करदियां न।

316. सदस्यें दी नियुक्ति ते औहदे दी औद्द- (1) लोक सेवा आयोग दे अध्यक्ष ते होर सदस्यें दी नियुक्ति, जेकर ओह् संघ आयोग जां संयुक्त आयोग ऐ तां, राष्ट्रपति आसेआ ते जेकर ओह् रियासती आयोग ऐ तां रियासत दे राज्यपाल ¹*** आसेआ कीती जाह्ग :

पर हर इक लोक सेवा आयोग दे सदस्यें चा तकरीबन कोल-कोल अद्धे नेह् व्यक्ति होडन जेह्ड़े अपनी-अपनी नियुक्ति दी तरीक उप्पर भारत सरकार जां कुसै रियासती सरकार तैह्त घट्टो-घट्ट दस्सें ब'रें तगर औहदा धारण करी चुके दे होडन ते आखे गोदे दस्सें ब'रें दी औद्द दी गिंती करने च इस संविधान दे रम्भ थमां पैहलें दी नेही औद्द बी शामिल कीती जाह्ग जिस दरान कुसै व्यक्ति ने भारत च क्राऊन दे तैह्त जां कुसै देशी रियासत दी सरकार तैह्त औहदा धारण कीता ऐ।

²[(1क) जेकर आयोग दे अध्यक्ष दा औहदा खाल्ली होई जंदा ऐ जां जेकर कोई नेहा अध्यक्ष गैर-मजूदगी दे कारण जां होर कुसै कारण अपने औहदे दे कर्त्तबें दा पालन करने च असमर्थ ऐ तां, स्थिति मताबक, जिसलै तगर खाल्ली थाहरै पर खंड (1) दे तैह्त नियुक्त कोई व्यक्ति उस औहदे दा कर्त्तब-भार ग्रैहण नेई करी लैदा ऐ जां जिसलै तगर अध्यक्ष अपने कर्त्तबें गी परतिये नेई सम्हाली लैदा ऐ उसलै तगर आयोग दे दूए सदस्यें चा नेहा इक सदस्य, जिसी संघ आयोग जां संयुक्त आयोग दी सूरतै च राष्ट्रपति ते रियासती आयोग दी सूरतै च उस रियासतै दा राज्यपाल इस मकसद आस्तै नियुक्त करै, उ'नें कर्त्तबें दा पालन करग।]

(2) लोक सेवा आयोग दा सदस्य, अपना औहदा ग्रैहण करने दी तरीक थमां छें ब'रें दी औद्द तगर जां संघ आयोग दी सूरतै च पैहलें ब'रें दी उमरी तगर ते रियासती आयोग जां संयुक्त आयोग दी सूरतै च ³[बाहटें ब'रें] दी उमरी तगर इ'दे चा जेह्ड़ा बी पैहलें होऐ, अपना औहदा धारण करग:

पर -

(क) लोक सेवा आयोग दा कोई सदस्य, संघ आयोग जां संयुक्त आयोग दी सूरतै च राष्ट्रपति गी ते रियासती आयोग दी सूरतै च रियासतै दे राज्यपाल ¹*** गी संबोधित अपने दसखत सनें लिखती रूपे च अपना औहदा छोड़ी सकग;

(ख) लोक सेवा आयोग दे कुसै सदस्य गी, अनुच्छेद 317 दे खंड (1) जां खंड (3) च उपबधित तरीके कनूनै उसी ओहदे औहदे थमां हटाया जाई सकग।

1. संविधान (सतमी तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें "जां राजप्रमुख" शब्दें दा लोप कीता गेआ।
2. संविधान (पं'दरमी तरमीम) अधिनियम, 1963 दी धारा 11 राहें अंतरस्थापत।
3. संविधान (क्तालिमी तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 2 राहें "सद्व ब'रें" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।

भारत दा संविधान

(भाग 14 – संघ ते रियासतें दे अधीन सेवा)

(3) कोई व्यक्ति जेहड़ा लोक सेवा आयोग दे सदस्य दे रूपै च औहदा धारण करदा ऐ, अपने औहदे दी औद्ध दे मुक्कने उप्पर उस औहदे उप्पर परतियै नियुक्ति दा पात्र नेई होग।

317. लोक सेवा आयोग दे कुसै सदस्य गी हटाया जाना ते मोत्तल कीता जाना —(1) खंड (3) दे प्रावधानें दे तैहत्, लोक सेवा आयोग दे अध्यक्ष जां कुसै होर सदस्य गी छड़ा माड़े व्यवहार दे अधार उप्पर कीते गेदे राष्ट्रपति दे नेह हुकमै कन्नै ओहदे औहदे थमां हटाया जाहग जेहड़ा सर्वोच्च अदालतै गी राष्ट्रपति आसेआ हिदायत कीते जाने उप्पर उस अदालतै राहें अनुच्छेद 145 दे तैहत् इस आस्तै दस्सी गेदी प्रक्रिया दे मताबक कीती गेदी पड़ताल उप्पर, एह रपोट कीते जाने दे बाद कीता गेआ ऐ जे, स्थिति मताबक, अध्यक्ष जां नेह कुसै सदस्य गी नेह कुसै अधार उप्पर हटाई दिता जा।

(2) आयोग दे अध्यक्ष जां कुसै होर सदस्य गी जेहदे सरबंघे च खंड (1) दे तैहत् सर्वोच्च अदालतै गी हिदायत कीती गेई ऐ, संघ आयोग जां संयुक्त आयोग दी सूरतै च राष्ट्रपति ते रियासती आयोग दी सूरतै च राज्यपाल ^{1***} ओहदे औहदे थमां उसलै तगर मोत्तल करी सकग जिसलै तगर राष्ट्रपति नेही हिदायत उप्पर सर्वोच्च अदालतै दी रपोट मिलने पर अपना हुकम पास नेई करी दिंदा ऐ।

(3) खंड (1) च कुसै गल्लै दे होंदे होई बी, जेकर लोक सेवा आयोग दा, स्थिति मताबक, अध्यक्ष जां कोई होर सदस्य —

(क) दिवालिया घोषत कीता जंदा ऐ, जां

(ख) अपने औहदे दी औद्ध च अपने औहदे दे कर्तबे दे बाहर तनखाह उप्पर कुसै रोजगार च लगदा ऐ, जां

(ग) राष्ट्रपति दी राऽ च मानसिक जां शरीरिक तौर उप्पर कमजोरी दे कारण अपने औहदे उप्पर बने रौहने आस्तै योग्य नेई ऐ, तां राष्ट्रपति, अध्यक्ष जां नेह होर सदस्य गी हुकमै राहें औहदे थमां हटाई सकग।

(4) जेकर लोक सेवा आयोग दा अध्यक्ष जां कोई होर सदस्य निगमित कंपनी दे सदस्य दे रूपै च ते कंपनी दे होर सदस्ये कन्नै सांझे रूपै च जां पही उस अनुबंध जां करार कन्नै, जेहड़ा भारत सरकार जां रियासती सरकार आसेआ जां ओहदे नमित्त कीता गेदा ऐ, कुसै चाल्ली कन्नै बख्ख जां ओहदे हितै च ऐ जां होई जंदा ऐ जां ओहदे लाह जां उसा थमां हासल कोई फायदा जां तनखाह लैदा ऐ तां ओह खंड(1) दे मकसदे आस्तै माड़े व्यवहार दा दोषी समझेआ जाहग।

318. आयोग दे सदस्ये ते कर्मचारिये दिये सेवाएं दिये शर्ते बारै नियम बनाने दे अख्तेआर — संघ आयोग जां संयुक्त आयोग दी सूरतै च राष्ट्रपति ते रियासती आयोग दी सूरतै च उस रियासत दा राज्यपाल ^{1***} विनियम राहें—

(क) आयोग दे सदस्ये दी गिंती ते उं दी सेवा दिये शर्ते गी तैऽ करी सकग; ते

(ख) आयोग दे कर्मचारी अमले दे सदस्ये दी संख्या ते उं दी सेवा दिये शर्ते दे सरबंघे च प्रावधान करी सकग:

पर लोक सेवा आयोग दे सदस्य दिये सेवा दिये शर्ते च ओहदी नियुक्ति परेंत ओहदे आस्तै अलाहकारी तब्दीली नेई कीती जाहग।

319. आयोग दे सदस्ये आसेआ नेह सदस्य नेई रौहने पर औहदा धारण करने दे सरबंघे च रोक — औहदे उप्पर नेई रौहने पर —

(क) संघ लोक सेवा आयोग दा अध्यक्ष भारत सरकार जां कुसै रियासती सरकार दे तैहत् कुसै रुजगार दा पात्र नेई होग;

1. संविधान (सतमी तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें “जां राजप्रमुख” शब्दे दा लोप कीता गेआ।
भारत दा संविधान

(ख) कुसै रियासती लोक सेवा आयोग दा अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग दे अध्यक्ष जां होर सदस्य दे रूपै च जां कुसै होर रियासती लोक सेवा आयोग दे अध्यक्ष दे रूपै च नियुक्त होने दा पात्र होग, पर भारत सरकार जां कुसै रियासत दी सरकार दे अधीन कुसै होर रुजगार दा पात्र नेई होग;

(ग) संघ लोक सेवा आयोग दे अध्यक्ष थमां बक्ख कोई होर सदस्य संघ लोक सेवा आयोग दे अध्यक्ष दे रूपै च जां कुसै रियासती लोक सेवा आयोग दे अध्यक्ष दे रूपै च नियुक्त होने दा पात्र होग, पर भारत सरकार जां कुसै रियासत दी सरकार दे अधीन कुसै होर रुजगार दा पात्र नेई होग;

(घ) कुसै रियासती लोक सेवा आयोग दे अध्यक्ष थमां बक्ख कोई होर सदस्य संघ लोक सेवा आयोग दे अध्यक्ष जां कुसै होर सदस्य दे रूपै च जां कुसै होर रियासती लोक सेवा आयोग दे अध्यक्ष दे रूपै च नियुक्त होने दा पात्र होग, पर भारत सरकार जां कुसै रियासत दी सरकार दे अधीन कुसै होर रुजगार दा पात्र नेई होग।

320. लोक सेवा आयोगं दे कम्म – (1) संघ ते रियासती लोक सेवा आयोगें दा एह कर्त्तब्व होग जे ओह तरतीबन संघ दिये सेवाएं ते रियासती सेवाएं च नियुक्तियें आस्तै इम्तेहानें दा संचालन करन।

(2) जेकर संघ लोक सेवा आयोग कोला कोई दो जां मतियां रियासतां नेहा करने दी दरखास्त करदियां न तां ओहदा एह बी कर्त्तब्व होग जे ओह नेहियें कु'नें सेवाएं आस्तै, जि'दे आस्तै खास योग्यताएं आहले मेदवारें दी लोड़ ऐ, संयुक्त भर्ती दियां स्कीमां बनाने ते उ'नेंगी लागू करने च उ'ने रियासतें दी मदद करै।

(3) स्थिति मताबक, संघ लोक सेवा आयोग जां रियासती लोक सेवा आयोग थमां –

(क) सिवल सेवाएं च ते सिवल औहदें आस्तै भर्ती दे ढंग तरीकें कन्नै सरबंधत सभनें विषे पर,

(ख) सिवल सेवाएं ते औहदें पर नियुक्ति करने च ते इक सेवा थमां दूई सेवा च तरक्कियें ते तबादले करने च अनुसरण कीते जाने आहले सिद्धांतें उप्पर ते नेही नियुक्तियें, तरक्कियें ते तबादलें आस्तै मेदवारें दी उपयुक्तता उप्पर,

(ग) नेह व्यक्ति उप्पर, जेहड़ा भारत सरकार जां कुसै रियासतें दी सिवल हैसियत च सेवा करा'रदा ऐ, असर पाने आहले, सभ्ने अनुषासनक विषे उप्पर जि'दे तैहत नेह विषे कन्नै सरबंधत चेता-पत्तर जां याचिकां न,

(घ) नेह व्यक्ति आसेआ जां ओहदे सरबंधे च, जेहड़ा भारत सरकार जां कुसै रियासती सरकार दे तैहत जां भारत च क्राऊन दे तैहत जां कुसै देसी रियासतें दी सरकार दे तैहत सिवल हैसियत कन्नै सेवा करा'रदा ऐ जां करी चुके दा ऐ, इस दा'वे उप्पर जे अपने कर्त्तब्वे गी नभाने आस्तै कीते गेदे जां करने आस्तै फौरी कम्में दे सरबंधे च ओहदे खलाफ मिथी गेदी कनूनी कारवाइयें दे बचाऽ च ओहदे आसेआ कीते गेदे खर्चे दा, स्थिति मताबक, भारत दे कठेरमें कोष चा जां रियासत दे कठेरमें कोष चा भुगतान कीता जाना चाहिदा,

(ङ) भारत सरकार जां कुसै रियासत दी सरकार जां भारत च क्राऊन दे तैहत जां कुसै देसी रियासत दी सरकार दे तैहत सिवल हैसियत च सेवा करदे बेल्लै कुसै व्यक्ति गी होए दे नुकसानें दे बारे च पैषन नर्धारत करने आस्तै कुसै दा'वे उप्पर ते नेह फैसले दी रकम सरबंधी सुआलै पर, सलाह-मषवरा कीता जाहग ते इस चाल्ली उसी दित्ते गेदे कुसै विषे पर ते नेह कुसै होर विषे पर जिसी, स्थिति मताबक, राष्ट्रपति जां उस रियासत दा राज्यपाल ¹ उसी हिदायत करै, मषवरा देने दा लोक सेवा आयोग दा कर्त्तब्व होग:

1. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें "जां राजप्रमुख" शब्दें दा लोप कीता गेआ।

पर अखिल भारती सेवाएं दे सरबंधे च ते संघ दे कम्मै-काजै कन्नै सरबंधत होर दुइयें सेवाएं ते औहदें दे सरबंधे च बी राष्ट्रपति ते रियासतै दे कम्मै-काजै कन्नै सरबंधत होर सेवाएं ते औहदें दे सरबंधे च राज्यपाल ¹*** उ'नें विषे गी चेचे तौर पर दस्से जाने आहले विनियम बनाई सकग जि'दे च आमतौर पर जां कुसै खास तबके दे मामले च जां कु'नें खास हलातें च लोक सेवा आयोग कन्नै सलाह-मषवरा कीता जाना जरूरी नेई होग।

(4) खंड (3) दी कुसै गल्लै थमां एह मेद नेई होग जे लोक सेवा आयोग कोला उस तरीकाकार दे सरबंधे च, जेहदे कन्नै अनुच्छेद 16 दे खंड (4) च दस्सेआ गेदा कोई प्रावधान कीता जाना ऐ जां उस तरीकाकार दे सरबंधे च, जेहदे कन्नै अनुच्छेद 335 दे प्रावधानें गी असरी कीता जाना ऐ, सलाह-मषवरा कीता जा।

(5) राष्ट्रपति जां कुसै रियासतै दे राज्यपाल ²*** आसेआ खंड (3) दे परंतुक दे तैहत बनाए गेदे सब्भै विनियम बनाए जाने परैत जिन्नी तौले होऐ, स्थिति मताबक, संसद दे हर इक सदन जां रियासतै दे विधान-मंडल दे सदन जां हर इक सदन दे सामनै घट्टो-घट्ट चौहदें दिनें आस्तै रक्खे जाहडन ते रद्द जां तरमीम राहें कीते गेदे नेह सुधारें दे तैहत होडन जेहडे संसद दे दवैं सदन जां उस रियासतै दे विधान-मंडल दा सदन जां दवैं सदन उस सत्र च करन, जेहदे च ओह इस चाल्ती रक्खे गेदे न।

321. लोक सेवा आयोगं दे कम्में दा विस्तार करने दा अख्तोआर – स्थिति मताबक, संसद आसेआ जां कुसै रियासतै दे विधान-मंडल आसेआ बनाया गेदा कोई अधिनियम संघ लोक सेवा आयोग जां रियासती लोक सेवा आयोग आसेआ संघ दी जां रियासत दी सेवाएं दे सरबंधे च ते कुसै मुकामी प्राधिकारी जां कन्नूने राहें बनाए गेदे होर निगमित अदारें जां कुसै लोक संस्था दी सेवाएं दे सरबंधे च बी बादधू कम्में दे इस्तेमाल आस्तै प्रावधान करी सकग।

322. लोक सेवा आयोगं दे खर्चे – संघ जां रियासती लोक सेवा आयोग दे खर्चे, जि'दे तैहत आयोग दे सदस्यें जां कर्मचारी अमले गी जां उ'दे सरबंधे च दिती जाने आहली तनखाह, भत्ते ते पैषन ऐ, स्थिति मताबक, भारत दे कठेरमे कोष जां रियासत दे कठेरमें कोष चा भरे जाहडन।

323. लोक सेवा आयोगं दियां रपोटां – (1) संघ आयोग दा एह कर्त्तब्व होग जे ओह राष्ट्रपति गी आयोग आसेआ कीते गेदे कम्मै दे बारे च हर ब'रे रपोट देऐ ते राष्ट्रपति नेही रपोट हासल होने उप्पर उ'नें मामलें दे सरबंधे च, जेकर कोई होन, जि'दे च आयोग दी सलाह मंजूर नेई कीती गई ही, नेही ना-मंजूरी दे कारणें गी स्पष्ट करने आहले चेता-पत्तर सनें उस रपोट दी नकल संसद दे हर इक सदन दे सामनै रखोआहग।

(2) रियासती आयोग दा एह कर्त्तब्व होग जे ओह रियासत दे राज्यपाल ²*** गी आयोग आसेआ कीते गेदे कम्मै दे बारे च हर ब'रे रपोट देऐ ते संयुक्त आयोग दा एह कर्त्तब्व होग जे नेही रियासतें चा हर इक दे, जि'दी जरूरतें गी संयुक्त आयोग आसेआ पूरा कीता जंदा ऐ, राज्यपाल ²*** गी उस रियासतै दे सरबंधे च आयोग आसेआ कीते गेदे कम्में दे बारे च हर ब'रे रपोट देऐ ते दौनें चा हर इक सूरतै च नेही रपोट हासल होने उप्पर, राज्यपाल उ'नें मामलें दे सरबंधे च, जेकर कोई होन, जि'दे च आयोग दी सलाह मंजूर नेही कीती गई ही, नेही ना-मंजूरी दे कारणें गी स्पष्ट करने आहले चेता-पत्तर सनें उस रपोट दी नकल रियासतै दे विधान-मंडल दे सामनै रखोआहग।

1. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें "स्थिति मताबक, राज्यपाल जां राजप्रमुख" शब्दें दी थाहरा पर उप्पर आखे गेदे रूपे च रक्खेआ गेआ।
2. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें "जां राजप्रमुख" शब्दें दा लोप कीता गेआ।

323क. प्रशासनक ट्रिब्यूनल – (1) संसद, कनूनै राहें संघ जां कुसै रियासत दे जां भारत दे राज्यक्षेत्र दे अंदर जां भारत सरकार दे नियंत्रण दे तैहत् कुसै मुकामी जां होर प्राधिकारी दे जां सरकार दे खुदमुखेआरी जां नियंत्रण दे तैहत् कुसै निगम दे कम्मै-काजै सरबंधी लोक सेवाएं ते औहदे आस्तै भर्ती ते नियुक्त व्यक्तियें दियें सेवाएं दियें शर्तें दे सरबंधे च झमेले ते षिकायतें दे प्रशासनक ट्रिब्यूनल आसेआ निर्णा ते विचार करने आस्तै प्रावधान करी सकग।

(2) खंड (1) दे तैहत् बनाया गेआ कनून –

(क) संघ आस्तै इक प्रशासनक ते हर इक रियासत आस्तै जां दो जां मतियें रियासतें आस्तै इक बक्खरे प्रशासनक ट्रिब्यूनल दी स्थापना आस्तै प्रावधान करी सकग;

(ख) आखे गेदे ट्रिब्यूनलें चा हर इक आसेआ बरती जाने आहली अधिकारता, अख्तेआर (जिं'दे तैहत् नेई मन्ने आस्तै दंड देने दा अख्तेआर ऐ) ते प्राधिकार चेचे करियें दस्सी सकग;

(ग) आखे गेदे ट्रिब्यूनलें आसेआ अनुसरण कीती जाने आहली प्रक्रिया आस्तै (जेहदे तैहत् खीरी हद्द दे बारे च ते सबूत दे नियमें दे बारे च प्रावधान न) प्रावधान करी सकग;

(घ) अनुच्छेद 136 दे तैहत् सर्वोच्च अदालती दी अधिकारता छुट्ट सभनें अदालतें दी अधिकारता दा खंड (1) च दस्से गेदे झमेले ते शिकायतें दे सरबंधे च बाहर करी सकग;

(ङ) हर इक नेह प्रशासनक ट्रिब्यूनल गी उ'नें मामलें दी मुंतकिली आस्तै प्रावधान करी सकग जेहडे नेह ट्रिब्यूनलें दी स्थापना कोला ठीक पैहलें कुसै अदालत जां होर प्राधिकारी कोल बकाया न ते जेहडे जेकर नेहियें कारवाइयें दे कारण जिं'दे पर नेह मकददमें जां कारवाइयां अधारत न, ट्रिब्यूनल दी स्थापना परेंत पैदा होंदे तां, नेह ट्रिब्यूनल दी अधिकारता दे अंदर होंदे;

(च) राष्ट्रपति आसेआ अनुच्छेद 371घ दे खंड (3) दे तैहत् दित्ते गेदे हुकमै गी खारज जां तरमीम करी सकग;

(छ) नेह जिमनी, घटनात्मी ते नतीजक प्रावधान (जिं'दे तैहत् फीस दे बारे च प्रावधान न) शामिल करी सकग जेहडे संसद नेह ट्रिब्यूनलें दे असरी कार्यकरण आस्तै ते उ'दे आसेआ मामलें गी तौले नबेड़ने आस्तै ते उ'दे हुकमें दे चलन आस्तै जरूरी समझै।

(3) इस अनुच्छेद दे प्रावधान इस संविधान दे कुसै होर प्रावधान च जां उस बेल्लै लागू कुसै होर कनून च बावजूद एहदे बी असरी होडन।

323ख. होरनें मामलें आस्तै ट्रिब्यूनल– (1) उचित विधान-मंडल , कनूनै राहें नेह झमेलें, षिकायतें जां अपराधें आसेआ न्यांS-निर्ण जां विचारने आस्तै प्रावधान करी सकग जेहड़ा खंड (2) च दस्से गेदे सभनें जां कु'नें विषे कन्नै सरबंधत न जिं'दे सरबंधे च नेह विधान-मंडल गी कनून बनाने दा अख्तेआर ऐ।

(2) खंड (1) च दस्से गेदे विषे हेठ लिखे दे न, अर्थात् :-

(क) कुसै टैक्स गी ग्राहना, नर्धारत करना, किट्टा करना ते लागू करना;

(ख) बदेषी मुद्रा, सीमा शुल्क, सरहद दे आर-पार अयात ते नर्यात;

(ग) उद्योगी ते श्रम झमेले;

(घ) अनुच्छेद 31क च जि'यां परिभाषत ऐ कुसै संपदा जां ओहदे च कु'नें अधिकारें दे राज्य आसेआ अर्जन जां नेह कु'ने अधिकारें दे उन्नूलन जां सुधारें राहें जां राही-बाही आहली जिमीं दी बद्धो-बद्ध हद्द राहें जां कुसै होर चाल्ली कन्नै जिमीं सुधार;

1. संविधान (बतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 46 राहें (3-1-1977 थमां) अंतरस्थापत।

(ड) नगर संपत्ति दी बद्धो-बद्ध हद्द;
 (च) संसद दे हर इक सदन जां कुसै रियासती विधान-मंडल दे सदन जां हर इक सदन आस्तै चनांS पर अनुच्छेद 329 ते 329क च दस्से गेदे विषे गी छोड़ियै;

(छ) खाद्य पदार्थे दा (जिं'दे तैह्त खाने आहले तेलें दे बीS ते तेल न) ते नेह होर माल दा उत्पादन, प्राप्ति, सप्लाई ते बंड जि'नेगी राष्ट्रपति, लोक अधिसूचना राहें, इस अनुच्छेद दे मकसद आस्तै जरूरी माल घोषत करै ते नेह माल दी कीमत दा नियंत्रण;

¹[(ज) कराया, ओहदा विनियमन ते नियंत्रण ते करायेदारी सरबंधी हक-हकूक, जिं'दे तैह्त मकान मालक दे अधिकार, हक्क ते हित न;]

²[(झ) उपखंड (क) कोला उपखंड ³[(ज)] च दस्से गेदे विषे चा कुसै विषे कन्नै सरबंधत कनून दे बरुद्ध अपराध ते उ'नें मामलें चा कुसै कन्नै सरबंधत फीस;

²[(ज)] उपखंड (क) कोला उपखंड ⁴[(झ)] च दस्से गेदे विषे चा कुसै दा जिमनी कोई विषे।

(3) खंड(1) दे तैह्त बनाया गेदा कनून -

(क) ट्रिब्यूनल दे उत्क्रम दी स्थापना आस्तै प्रावधान करी सकग;

(ख) आखे गेदे ट्रिब्यूनल चा हर इक आसेआ प्रयोग च आहने जाने आहली अधिकारता, अख्तेआर (जिं'दे तैह्त अवमान आस्तै दंड देने दा अख्तेआर ऐ) ते प्राधिकार दस्सी सकग;

(ग) आखे गेदे ट्रिब्यूनल आसेआ अनुसरण कीती जाने आहली प्रक्रिया आस्तै (जेहदे तैह्त हदबंदी दे बारे च ते सबूत दे नियमें दे बारे च प्रावधान न) प्रावधान करी सकग;

(घ) अनुच्छेद 136 दे तैह्त सर्वोच्च अदालत दी अधिकारता दे छुट्ट सभनें अदालतें दी अधिकारता गी उ'नें सभनें जां कु'नें विषे दे सरबंधे च बाहर करी सकग जेहडे आखे गेदे ट्रिब्यूनलें दी अधिकारता दे तैह्त औंदे न;

(ड) हर इक नेह ट्रिब्यूनल गी उ'नें मामलें दे तबादले आस्तै प्रावधान करी सकग जेहडे नेह ट्रिब्यूनलें दी स्थापना कोला ठीक पैहलें कुसै अदालत जां कुसै होर प्राधिकारी अगें बकाया पेदे न ते जेहडे जेकर नेहियें कारवाइयें दे कारण जिं'दे पर नेह मकदमें जां कारवाइयां अधारत न, ट्रिब्यूनलें दी स्थापना परैत पैदा होंदे तां नेह ट्रिब्यूनलें दी अधिकारिता दे अंदर होंदे;

(च) नेह जिमनी, चान-चक्क ते नतीजक प्रावधान (जिं'दे तैह्त फीस दे बारे च प्रावधान ऐ) शामिल करी सकग जेहडी उचित विधान-मंडल नेह ट्रिब्यूनलें दे असरी कार्यकरण आस्तै ते उ'दे आसेआ मामलें दे तौले नबेड़े आस्तै ते उ'दे हुकमें गी लागू करने आस्तै जरूरी समझै।

(4) इस अनुच्छेद दे प्रावधान इस संविधान दे कुसै होर प्रावधान च जां उस बेल्लै लागू कुसै होर कनून च बावजूद एहदे बी असरी होडन।

स्पष्टीकरण - इस अनुच्छेद च, कुसै विषे दे सरबंधे'च, "उचित विधान-मंडल" कन्नै, स्थिति मताबक, संसद जां कुसै रियासत दा विधान-मंडल अर्थ ऐ जेहडा भाग 11 दे प्रावधानें अनुसार नेह मामलें दे सरबंधे च कनून बनाने आस्तै समर्थ ऐ।]

1. संविधान (पचहत्तरमीं तरमीम) अधिनियम, 1993 दी धारा 2 राहें (15-5-1994 थमा) अंतरस्थापत।
2. संविधान (पचहत्तरमीं तरमीम) अधिनियम, 1993 दी धारा 2 राहें (15-5-1994 थमा) उपखंड (ज) ते (झ) गी उपखंड (झ) ते (ज) दे रूपे च मुडी लिखेआ गेआ।
3. संविधान (पचहत्तरमीं तरमीम) अधिनियम, 1993 दी धारा 2 राहें (15-5-1994 थमा) "छ" दे थाहरा पर प्रतिस्थापत।
4. संविधान (पचहत्तरमीं तरमीम) अधिनियम, 1993 दी धारा 2 राहें (15-5-1994 थमा) "ज" दे थाहरा पर प्रतिस्थापत।

324. चनाएं दा अधीक्षण, निदेशन ते नियंत्रण चनांS आयोग कोल होना—(1) इस संविधान दे तैहत्त संसद ते हर इक रियासत दे विधान—मंडल आस्तै कराए जाने आहले सभनें चनाएं आस्तै ते राष्ट्रपति ते उपराष्ट्रपति दे ओहदे दे चनाएं आस्तै निर्वाचक—नामावली त्यार कराने दा ते उ'नें सभनें चनाएं दे संचालन दा अधीक्षण, निदेशन ते नियंत्रण, ^{1***} इक आयोग कोल होग(जिसी इस संविधान च चनांS आयोग आखेआ गेदा ऐ।)

(2) चनांS आयोग मुख् चनांS कमीषनर ते उ'नें होर चनांS कमीषनरें कन्नै, जेकर कोई होन, जिन्नें राष्ट्रपति समें—समें पर निष्चित करै, मिलियै बनग ते मुख् चनांS कमीषनर ते होर चनांS कमीषनरें दी नियुक्ति, संसद आसेआ इस नमित्त बनाए गेदे कन्नूनें दे प्रावधानें दे तैहत्त राष्ट्रपति आसेआ कीती जाहग।

(3) जिसलै कोई होर चनांS कमीषनर इस चाल्ली चनांS कमीषनर नियुक्त कीता जंदा ऐ, उसलै मुख् चनांS कमीषनर चनांS आयोग दे अध्यक्ष दे रूपै च कम्म करग।

(4) लोक सभा दे ते हर इक रियासत दी विधान सभा दे हर इक आम चनांS थमां पैहलें ते विधान परिषद् आहली हर इक रियासत दी विधान परिषद् आस्तै पैहले, सधारण चनांS थमां पैहलें ते ओहदे परैत्त, हर इक दो—ब'री चनांS थमां पैहलें, राष्ट्रपति चुनांS आयोग कन्नै सलाह—सूत्तर करने परैत्त, खंड (1) आसेआ चनांS आयोग गी सौंपे गेदे कम्म दे पालन च आयोग मदाद आस्तै उ'नें इलाकाई कमीषनरें दियां बी नियुक्तियां करी सकग जिन्नें ओह जरूरी समझै।

(5) संसद आसेआ बनाए गेदे कुसै कन्नूनें दे प्रावधान दे तैहत्त, चनांS कमीषनरें ते इलाकाई कमीषनरें दियें सेवा दियें शर्तें ते ओहदे दी औद्द नेही होग जेह्डी राष्ट्रपति नियमें राहें नर्धारत करै:

पर मुख् चनांS कमीषनर गी ओहदे ओहदे थमां उ'ससै चाल्ली ते उ'नें अधारें पर गै हटाया जाहग, जिस चाल्ली ते जि'नें अधारें पर सर्वोच्च अदालत दे जज्जै गी हटाया जंदा ऐ, नेई तां नेई ते मुख् चनांS कमीषनर दियें सेवा दियें शर्तें च ओहदी नियुक्ति परैत्त ओहदे आस्तै अलाहकारी बदलाव नेई कीता जाहग:

पर एह होर जे कुसै होर चनांS कमीषनर जां इलाकाई कमीषनर गी मुख् चनांS कमीषनर दी सफारष पर गै ओहदे थमां हटाया जाहग, नेई तां नेई।

(6) जिसलै चनांS आयोग इस चाल्ली दा निवेदन करै उसलै राष्ट्रपति जां राज्यपाल ^{2***} चनांS आयोग जां इलाकाई कमीषनर गी उ'नें कर्मचारी उपलब्ध कराहग जिन्नें खंड(1) राहें चनांS आयोग गी सौंपे गेदे कम्म दे नर्बाह आस्तै लोडचदे होन।

325. धर्म, मूलवंश, जाति जां लिंग द अधार पर कुसै व्यक्ति दा निर्वाचक—नामावली च शामिल कीते जाने आस्तै अपात्र नेई होना ते ओहदे आसेआ कुसै बशेश निर्वाचक—नामावली च शामिल कीते जाने दा दा'वा नेई कीता जाना— संसद च हर इक सदन जां कुसै रियासत दे विधान—मंडल दे सदन जां हर इक सदन आस्तै चनांS आस्तै हर इक इलाकाई चनांS—क्षेत्र आस्तै इक आम निर्वाचक—नामावली होग ते सिर्फ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग जां इ'दे चा कुसै दे अधार पर कोई व्यक्ति नेही कुसै सूची च शामिल कीते जाने आस्तै अयोग्य नेई होग जां नेह कुसै चनांS—क्षेत्र आस्तै कुसै बषेप निर्वाचक—नामावली च शामिल कीते जाने दा दा'वा नेई करग।

* भारत दे संविधान दे अनुच्छेद 324 थमां 327 तगर दे ते 329 दे उपबंध जम्मू ते कष्मीर संघ राज्य क्षेत्र, ओहदी विधान सभा ते ओहदे सदस्यें दे सरबंधे च उ'ससै चाल्ली लागू होंडन जि'यां ओह तरतीबन कुसै राज्य, कुसै राज्य दी विधान सभा ते ओहदे सदस्यें दे सरबंधे च लागू होंदे न; ते अनुच्छेद 326 ते 329 च "उपयुक्त विधान मंडल" दा कोई संदर्भ संसद दा संदर्भ मन्नेआ जाहग।" जम्मू ते कष्मीर मुद्द—गठन अधिनियम, 2019 (2019 दा 34) दी धारा 14(11) दिक्खो (तरीक अक्टूबर 31, 2019 थमां असरी, संख्या क.अ. 2889 (अ) राहें, तरीक 9 अगस्त, 2019।]

1. संविधान (उन्निमी तरमीम) अधिनियम, 1966 दी धारा 2 राहें "जेहदे तैहत्त संसद दे ते रियासत दे विधान—मंडलें दे चनाएं चा पैदा होए दे जां जुड़े दे शक्क—पुभे जां झमेलें दे फेसलें आस्तै चनांS न्यांS—अधिकरण दी नियुक्ति बी है" शब्दें दा लोप कीता गेआ।
2. संविधान (सतमी तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूचि राहें 'जां राजप्रमुख' शब्दें दा लोप कीता गेआ।

भारत दा संविधान

(भाग 15 — चुनांS)

326. लोक सभा ते रियासतें दियें विधान सभाएं आस्तै चनाएं दा बालग मताधिकार दे अधार पर होना – लोक सभा ते हर इक रियासत दी विधान सभा आस्तै चनांऽ बालग मताधिकार दे अधार पर होडन अर्थात् हर इक व्यक्ति, जेहड़ा भारत दा नागरिक ऐ ते नेही तरीक गी, जेहड़ी उचित विधान-मंडल आसेआ बनाई गेदी कुसै कनूनै राहें जां ओहदे तैह्त इस नमित्त निष्चित कीती जा, घट्टो-घट्ट ¹[ठाहरें ब'रें] दी उमरी दा ऐ ते इस संविधान जां उचित विधान-मंडल आसेआ बनाए गेदे कुसै कनूनै दे तैह्त अनिवास, दमागी तौर पर विकृत, अपराध जां भ्रष्ट जां गैर-कनूनी आचरण दे अधार पर जां फही अयोग्य नेई करी दित्ता जंदा ऐ, नेह कुसै चनांऽ च मतदाता दे रूपै च पंजीकृत होने दा हकदार होग।

327. विधान-मंडल आस्तै चनाएं दे सरबंध च प्रावधान करने दा संसद दा अख्तेआर – इस संविधान दे प्रावधानें दे तैह्त, संसद समें-समें पर, कनूनै राहें, संसद दे हर इक सदन आस्तै चनांऽ कनूनै सरबंधत जां जुड़े दे सभनें मामलें दे सरबंधे च, जिं दे तैह्त निर्वाचक-नामावली त्यार करोआना, चनांऽ-क्षेत्रें दी हदबंदी ते नेह सदन जां सदनें दा पूरा गठन निष्चित करने आस्तै होर सबै जरूरी मामले न, प्रावधान करी सकग।

328. कुसै रियासत दे विधान-मंडल आस्तै चनाएं दे सरबंधे च प्रावधान करने दा उस विधान-मंडल दा अख्तेआर – इस संविधान दे प्रावधानें दे तैह्त ते जित्थूं तगर संसद इस नमित्त प्रावधान नेई करदी ऐ उत्थूं तगर कुसै रियासत दा विधान-मंडल समें-समें पर कनूनै राहें, उस रियासत दे विधान-मंडल दे सदन जां हर इक सदन आस्तै चनाएं कनूनै सरबंधत जां जुड़े दे सभनें मामलें दे सरबंधे च, जिं दे तैह्त निर्वाचक-नामावली त्यार कराना ते नेह सदन जां सदनें दा पूरी चाल्ली गठन पक्का करने आस्तै होर सारे जरूरी मामले न, प्रावधान करी सकग।

329. चनांऽ सरबंधी मामलें च अदालतें द दखल पर रोक – ²[इस संविधान च बावजूद एहदे ³*** –]

(क) अनुच्छेद 327 ते अनुच्छेद 328 दे तैह्त बनाई गेदी जां बनाए जाने दे सरबंधे च कुसै नेह कनून दी कनूनी मानता, जेहड़ी चनांऽ-क्षेत्रें दी हदबंदी जां नेह चनांऽ-क्षेत्रें गी सीटें दी बंड कनूनै सरबंधत न, कुसै अदालत च सुआल नेई पुट्टेआ जाहग;

(ख) संसद दे हर इक सदन जां कुसै रियासत दी विधान-मंडल दे सदन जां हर इक सदन आस्तै कोई चनांऽ नेही चनांऽ-अर्जी पर गै सुआल पुट्टेआ जाई सकग, जेहड़ी नेह प्राधिकारियें गी इस चाल्ली कनूनै पेष कीती गई ऐ जेहदा ठीक ढंगे कनूनै विधान-मंडल आसेआ बनाए गेदे कनूनै राहें जां ओहदे तैह्त प्रावधान कीता जा, नेई तां नेई।

⁴329क. [प्रधानमंत्री ते अध्यक्ष दे मामले च संसद आस्तै चनाएं दे बारे च बशेश प्रावधान।] – संविधान (चरतालिसी तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 36 राहें (20-6-1979) थमां रद्द।

-
1. संविधान (काहठमी तरमीम) अधिनियम, 1986 दी धारा 2 राहें "इक्की ब'रे' दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 2. संविधान (उंतालिमी तरमीम) अधिनियम, 1975 दी धारा 3 राहें किष शब्दें दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 3. संविधान (चरतालिसी तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 35 राहें (20-6-1979 थमां) "पर अनुच्छेद 329क दे प्रावधाने दे तैह्त" शब्दें, हिंसें ते अखरें दा लोप कीता गेआ।
 4. संविधान (उंतालिमी तरमीम) अधिनियम, 1975 दी धारा 4 राहें अंतरस्थापत।

330. लोक सभा च अनुसूचित जातियें ते अनुसूचित जनजातियें आस्तै सीटें दा आरक्षण – (1) लोक सभा च –
(क) अनुसूचित जातियें आस्तै,

¹[(ख) असम दे खुदमुखेआर जि'लें दी अनुसूचित जनजातियें गी छोड़िये होर अनुसूचित जनजातियें आस्तै, ते]

(ग) असम दे खुदमुखेआर जि'लें दी अनुसूचित जनजातियें आस्तै, सीटां आरक्षित रौहडन।

(2) खंड (1) दे तैहत् कुसै रियासत ²[जां संघ राज्यक्षेत्र] च अनुसूचित जातियें जां अनुसूचित जनजातियें आस्तै आरक्षित सीटें दी संख्या दा अनुपात, लोक सभा च उस रियासत ²[जां संघ राज्यक्षेत्र] गी बंडियें गेदियें सीटें दी कुल गिंतरी दे लगभग उ'एे होग जेहड़ा, स्थिति मताबक, रियासत ²[जां संघ राज्यक्षेत्र] दी अनुसूचित जातियें दी जां उस रियासत ²[जां संघ राज्यक्षेत्र] दी जां उस रियासत ²[जां संघ राज्यक्षेत्र] दे हिस्से दी अनुसूचित जनजातियें दी, जिं'दे सरबंधे च सीटां इस चाल्ली आरक्षित न, जनसंख्या दा अनुपात उस रियासत ²[जां संघ राज्यक्षेत्र] दी कुल जनसंख्या कन्ने ऐ।

³[(3) खंड (2) बावजूद एहदे, लोक सभा च असम दे खुदमुखेआरी जि'लें दी अनुसूचित जनजातियें आस्तै आरक्षित सीटें दी संख्या दा अनुपात, उस रियासत गी बंडियें गेदियें सीटें दी कुल संख्या दे उस अनुपात कोला घट्ट नेई होग जेहड़े आखे गेदे खुदमुखेआर जि'लें दी अनुसूचित जनजातियें दी जनसंख्या दा अनुपात उस रियासत दी कुल जनसंख्या कन्ने ऐ।]

⁴[स्पष्टीकरण – इस अनुच्छेद च ते अनुच्छेद 332 च, "जनसंख्या" पद दा अर्थ नेही खीरी पछेत्तरी जनगणना च निष्वित कीती गेदी जनसंख्या ऐ जेहदे सुसंगत आंकड़े प्रकाषत होई गेदे न:

पर इस स्पष्टीकरण च खीरी पछेत्तरी जनगणना दे प्रति, जेहदे सुसंगत आंकड़े प्रकाषत होई गेदे न, हिदायत दा, जिसलै तगर सन् ⁵[2026] परैत कीती गेदी पैहली जनगणना दे सुसंगत आंकड़े प्रकाषत नेई होई जंदे न, एह अर्थ लाया जाहग जे ओह ⁶[2001] दी जनगणना आस्तै हिदायत ऐ।]

331. लोक सभा च ऐंग्लो इंडियन समुदाय दी नुमायंदगी – अनुच्छेद 81 च बावजूद एहदे, जेकर राष्ट्रपति दी एह राऽ ऐ जे लोक सभा च ऐंग्लो इंडियन समुदाय दी नुमायंदगी नाकाफी ऐ तां ओह लोक सभा च उस समुदाय दे बद्धो-बद्ध दो सदस्य नामजद करी सकग।

332. रियासतें दियें विधान सभाएं च अनुसूचित जातियें ते अनुसूचित जनजातियें आस्तै सीटें दा आरक्षण – (1) ⁷* हर इक रियासत दी विधान सभा च अनुसूचित जातियें आस्तै ते ⁸[असम दे खुदमुखेआर जि'लें दी अनुसूचित जनजातियें दे छुट्ट] होर अनुसूचित जनजातियें आस्तै सीटां मखसूस रौहडन।**

-
1. संविधान (कुं'जमी तरमीम) अधिनियम, 1984 दी धारा 2 राहें (16-6-1986 थमां) उपखंड (ख) दे थाहरा पर प्रतिस्थापत।
 2. संविधान (सतमी तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें अंतरस्थापत।
 3. संविधान (कत्तिमी तरमीम) अधिनियम, 1973 दी धारा 3 राहें अंतरस्थापत।
 4. संविधान (बतालिमी तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 47 राहें (3-1-1977 थमां) अंतरस्थापत।
 5. संविधान (चरासिमी तरमीम) अधिनियम, 2001 दी धारा 6 राहें पुज्ज असरी रूपै च "2000" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 6. संविधान (सतासिमी तरमीम) अधिनियम, 2003 दी धारा 5 राहें "1991" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 7. संविधान (कुं'जमी तरमीम) अधिनियम, 1984 दी धारा 3 राहें (16-6-1986 थमां) किष शब्दें दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 8. संविधान (सतमी तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें "पैहली अनुसूची दे भाग क जां भाग ख च दस्से गेदे" शब्दें ते अक्खरें दा लोप कीता गेआ।

भारत दा संविधान

(भाग 16 – किष वर्गे दे सरबंधे च चेचे प्रावधान)

(2) असम रियासत दी विधान सभा च खुदमुखेआर जि'ले आस्तै सीटां आरक्षित रौहडन।

(3) खंड (1) दे तैहत कुसै रियासत दी विधान सभा च अनुसूचित जातियें जां अनुसूचित जनजातियें आस्तै आरक्षित सीटें दी संख्या दा अनुपात, उस विधान सभा दी कुल संख्या दे करीब-करीब उ'एे होग जेहड़ा, स्थिति मताबक, रियासत दी अनुसूचित जातियें दी जां उस रियासत दी जां उस रियासत दे हिस्से दी अनुसूचित जनजातियें दी, जि'दे सरबंधे च सीटां इस चाल्ली आरक्षित न, जनसंख्या दा अनुपात उस रियासत दी कुल जनसंख्या कन्नै ऐ।

¹[(3क) खंड (3) च बावजूद एहदे, सन ²[2026] परैत कीती गेदी पैहली जनगणना दे अधार पर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम ते नागालैंड रियासतें दियें विधान सभाएं च सीटें दी संख्या दे, अनुच्छेद 170 दे तैहत परती समायोजन दे असरी होने तगर, जेहड़ियां सीटां नेही कुसै रियासत दी विधान सभा च अनुसूचित जनजातियें आस्तै आरक्षित कीतियां जाहडन, ओह -

(क) जेकर संविधान (सतुंजमी तरमीम) अधिनियम 1987 दे लागू होने दी तरीक गी नेही रियासत दी मजूदा विधान सभा च (जिसी इस खंड च एहदे परैत मजूदा विधान सभा आखेआ गेआ ऐ) सब्भै सीटां अनुसूचित जनजातियें दे सदस्यें आसेआ धारण कीती दियां न तां, इक सीट गी छोड़ियै सब्भै सीटां होडन; ते

(ख) कुसै होर सूरत च, उन्नियां सीटां होडन, जि'दी संख्या दा अनुपात, सीटें दी कुल संख्या दे उस अनुपात कोला घट्ट नेई होग जेहड़ा मजूदा विधान सभा च अनुसूचित जनजातियें दे सदस्यें दी (आखी गेदी तरीक गी जि'यां मजूद) संख्या दा अनुपात मजूदा विधान सभा दियें सीटें दी कुल संख्या कन्नै ऐ।]

³[(3ख) खंड (3) च बावजूद एहदे बी, सन् ⁴[2026] परैत कीती गेदी पैहली जनगणना दे अधार पर, त्रिपुरा रियासत दी विधान सभा च सीटें दी संख्या दे, अनुच्छेद 170 दे तैहत, परती समायोजन दे असरी होने तगर, जेहड़ियां सीटां उस विधान सभा च अनुसूचित जनजातियें आस्तै आरक्षित कीतियां जाहडन ओह उन्नियां सीटां होडन जि'दी संख्या दा अनुपात, सीटें दी कुल संख्या दे उस अनुपात कोला घट्ट नेई होग जेहड़ा मजूदा विधान सभा च अनुसूचित जनजाति दे सदस्यें दी, संविधान (ब्हत्तरमी तरमीम) अधिनियम 1992 दे लागू होने दी तरीक गी जि'यां मजूदा संख्या दा अनुपात आखी गेदी तरीक गी उस विधान सभा दी सीटें दी कुल संख्या कन्नै ऐ।]

(4) असम रियासत दी विधान सभा च कुसै खुदमुखेआर जि'ले आस्तै आरक्षित सीटें दी संख्या दा अनुपात, उस विधान सभा च सीटें दी कुल संख्या दे उस अनुपात कोला घट्ट नेई होग जेहड़ा उस जि'ले दी जनसंख्या दा अनुपात उस रियासत दी कुल जनसंख्या कन्नै ऐ।

(5)⁴*** असम दे कुसै खुदमुखेआर जि'ले आस्तै आरक्षित सीटें दे चनांS-क्षेत्रें च उस जि'ले दे बाहर दा कोई क्षेत्र शामिल नेई होग।

(6) कोई व्यक्ति जेहड़ा असम रियासत दे कुसै खुदमुखेआर जि'ले दी अनुसूचित जनजाति दा सदस्य नेई ऐ उस रियासत दी विधान सभा आस्तै ⁴*** उस जि'ले दे कुसै चनांS-क्षेत्र थमां चनोने योग्य नेई होग:

⁵[पर असम रियासत दी विधान सभा दे चनाएं आस्तै, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद् क्षेत्र जि'ले च शामिल चनांS-क्षेत्रें च अनुसूचित जनजातियें ते गैर-अनुसूचित जनजातियें दी नुमायंदगी, जेहड़ा इस चाल्ली अधिसूचित कीता गेआ हा ते बोडोलैंड

-
1. संविधान (सतुंजमी तरमीम) अधिनियम, 1987 दी धारा 2 राहें (21-9-1987 थमां) अंतरस्थापत।
 2. संविधान (चरासिमी तरमीम) अधिनियम, 2001 दी धारा 7 राहें "2000" दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 3. संविधान (ब्हत्तरमी तरमीम) अधिनियम, 1992 दी धारा 2 राहें (5-12-1992 थमां) अंतरस्थापत।
 4. पूर्व उत्तर क्षेत्र (मुद्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 दा 81) दी धारा 71 राहें (21-1-1972 थमां) किष शब्दें दा लोप कीता गेआ।
 5. संविधान (नब्बेमी तरमीम) अधिनियम, 2003 दी धारा 2 राहें अंतरस्थापत।

भारत दा संविधान

(भाग 16 – किष वर्गे दे सरबंधे च चेचे प्रावधान)

प्रादेशिक क्षेत्र जिले दे गठन थमां पैहले मजूद हा, बनाए दा रक्खेआ जाहग।]

333. रियासतें दिर्ये विधान सभाएं च ऐंग्लो इंडियन समुदाय दी नुमायंदगी – अनुच्छेद 170 च कुसै गल्लै दे होंदे होई बी, जेकर कुसै रियासतै दे राज्यपाल ^{1***} दी एह राऽ ऐ जे उस रियासत दी विधान सभा च ऐंग्लो-इण्डियन समुदाय दी नुमायंदगी जरूरी ऐ ते उस च उसदी नुमायंदगी नाकाफी ऐ तां ओह उस विधान सभा च ²[उस समुदाय दा इक सदस्य नामजद करी सकग]।

334. किश निश्चत औद्ध दे बाद सीटें दा आरक्षण ते चेची नुमायंदगी खतम हाई जानी।³ – इस भाग दे पछेत्तरे प्रावधानें च कुसै गल्लै दे होंदे होई बी, –

(क) लोक सभा च ते रियासती विधान सभाएं च अनुसूचित जातियें ते अनुसूचित जनजातियें आस्तै सीटें दे आरक्षण सरबंधी, ते

(ख) लोक सभा च ते रियासती विधान सभाएं च नामांकन राहें ऐंग्लो-इंडियन समुदाय दी नुमायंदगी सरबंधी, अस्सी बरे खंड(क) दे सरबंधे च ते स्हत्तर बरे (ख) दे सरबंधे च⁴
इस संविधान दे प्रावधान इस संविधान दे रम्भ थमां⁵ [स्हत्तर बरे] औद्ध दी समाप्ति पर असरी नेई रौहडन :

पर इस अनुच्छेद दी कुसै गल्लै कन्नै लोक सभा च जां कुसै रियासत दी विधान सभा च कुसै नुमायंदगी पर तदू तगर कोई असर नेई पौग जदू तगर, स्थिति मताबक, उस बेल्लै मजूद लोक सभा जां विधान सभा भंग नेई होई जंदी ऐ।

335. नौकरियें ते औहद आस्तै अनुसूचित जातियें ते अनुसूचित जनजातियें दे दावे – संघ जां कुसै रियासत दे कम्मै-काजै कन्नै सरबंधत नौकरियें ते औहदें आस्तै नियुक्तियां करने च, अनुसूचित जातियें ते अनुसूचित जनजातियें दे सदस्यें दे दावें दा प्रषासन दी दक्षता बनाई रक्खने दे सरबंधे च ध्यान रक्खेआ जाहग:

⁵[पर इस अनुच्छेद दी कोई गल्ल अनुसूचित जातियें ते अनुसूचित जनजातियें दे सदस्यें दे पक्खै च, संघ जां कुसै रियासतै दे कम्मै-काजै कन्नै सरबंधत नौकरियें दे कुसै वर्ग जां वर्गें च जां औहदें पर तरक्की दे मामलें च आरक्षण आस्तै, कुसै इम्तेहान गी पास करने आस्तै लोडचदे अकें च छूट देने जां मूल्यांकन दे मानकें गी घटाने आस्तै प्रावधान करने थमां नेई रोकग।]

336. किश नौकरियें च ऐंग्लो-इंडियन समुदाय आस्तै चेचे प्रावधान –(1) इस संविधान दे रम्भ दे बाद, पैहले द'ऊं बरें दरान, संघ दी रेल, सीमा शुल्क, डाक ते तार सरबंधी सेवाएं च औहदें आस्तै ऐंग्लो-इंडियन समुदाय दे सदस्यें दियां नियुक्तियां उससै अधार पर कीतियां जाहडन जिस अधार पर 15 अगस्त, 1947 थमां ठीक पैहलें कीतियां जंदियां हियां।

हर इक अगेत्तरे द'ऊं बरें दी औद्ध दरान दरसे गेदे समुदाय दे सदस्यें आस्तै, दरसी गेदियें सेवाएं च आरक्षित औहदें दी गितरी ठीक पछेत्तरे द'ऊं बरें दी औद्ध दरान इस चाल्ली आरक्षित गितरी थमां जि'यां मुमकन होऐ करीबन दस फीसदी घट्ट होग :

पर इस संविधान दे शुरू होने दे दरसे बरें दे खीरै च इस चाल्ली दे सब्भै आरक्षण मुक्की जाहडन।

-
1. संविधान (सतमी तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें "जां राजप्रमुख" शब्दें दा लोप कीता गेआ।
 2. संविधान (त्रेइमी तरमीम) अधिनियम, 1969 दी धारा 4 राहें "उस विधान सभा च उस समुदाय दे जिन्नें सदस्य ओह ठीक समझै नामजद करी सकग" दे थाहरै पर प्रतिथापत।
 3. संविधान (इक सौ चार तरमीम) अधिनियम, 2019 दी धारा 2(क) राहें (25 जनवरी, 2020 थमां) प्रतिस्थापत।
 4. संविधान (इक सौ चार तरमीम) अधिनियम, 2019 दी धारा 2(ख) राहें (25 जनवरी, 2020 थमां) प्रतिस्थापत।
 5. संविधान (बासिमी तरमीम) अधिनियम, 2000 दी धारा 2 राहें अंतरस्थापत।

भारत दा संविधान

(भाग 16 – किष वर्गें दे सरबंधे च चेचे प्रावधान)

(2) जेकर एंग्लो-इंडियन समुदाय दे सदस्य होरनें समुदायें दे सदस्ये दे मकाबलै काबलियत दे अधार पर नियुक्ति आस्तै योग्य पाए जाहन तां खंड (1) दे तैहत उस समुदाय आस्तै आरक्षित औहदें थमां बक्ख जां उं दे इलावा औहदें पर एंग्लो-इंडियन समुदाय दे सदस्ये दी नियुक्ति गी उस खंड दी कोई गल्ल रकावट नेई पाहग।

337. एंग्लो-इंडियन समुदाय दे फायदे आस्तै शिक्षा सरबंधी माल्ली मदाद दे चेचे प्रावधान – इस संविधान दे शुरु होने परेंत, पैहले त्र'ऊं माल्ली ब'रें दरान एंग्लो-इंडियन समुदाय दे फायदे आस्तै शिक्षा दे सरबंधे'च संघ ते ¹*** हर इक रियासतै आसेआ उ'ए माल्ली मदाद, जेकर कोई होए, दिती जाहग जेहड़ी 31 मार्च, 1948 गी मुक्कने आहले माल्ली ब'रे च दिती गई ही।

हर इक अगेतरे त्र'ऊं ब'रें दी औद्ध दरान माल्ली मदाद ठीक पछेत्तरे त्र'ऊं ब'रें दी औद्ध दे मकाबलै दस फीसदी घट्ट होई सकग:

पर इस संविधान दे शुरु होने दे दस्सें ब'रें दे खीरै'च इस चाल्ली दी माल्ली मदाद, जिस मात्तरा तगर ओह एंग्लो-इंडियन समुदाय आस्तै खास रियात ऐ उस मात्तरा तगर, मुक्की जाहग:

बषरें कोई शिक्षा संस्था इस अनुच्छेद तैहत माल्ली मदाद हासल करने दी उसलै तगर हकदार नेई होग जिसलै तगर ओहदे सलाना दाखलें'च घट्टो-घट्ट चाहली फीसदी दाखले एंग्लो-इंडियन समुदाय दे इलावा होरनें समुदायें दे सदस्ये आस्तै मुहैया नेई कीते जंदे न।

338. ²[राश्ट्री अनुसूचित जाति आयोग] – ³[(1) अनुसूचित जातिये आस्तै इक आयोग होग जेहड़ा राश्ट्री अनुसूचित जाति आयोग दे नांS कन्ने जान्नेआ जाहग।

(2) संसद आसेआ इस नमित बनाए गेदे कुसै कनून दे प्रावधाने तैहत, आयोग इक अध्यक्ष, इक उपाध्यक्ष ते त्र'ऊं होरनें सदस्ये गी मलाइयै बनग ते इस चाल्ली नियुक्त कीते गेदे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ते होर सदस्ये दियां सेवा दियां शर्ता ते औहदे दी औद्ध इस चाल्ली दी होग, जेहड़ी राष्ट्रपति, नियमै राहें, नर्धारत करै।]

(3) राष्ट्रपति अपने दसखत ते मोहर आहले अधिकार-पत्तर राहें आयोग दे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ते होरनें सदस्ये गी नियुक्त करग।

(4) आयोग कोल अपनी प्रक्रिया गी आपूं चलाने दा अख्तेआर होग।

(5) आयोग दा एह कर्तब्व होग जे ओह, –

(क) अनुसूचित जातिये ⁴*** आस्तै इस संविधान जां उसलै लागू कुसै होर कनून जां सरकार दे कुसै हुकम दे तैहत राखी-हिफाजत दे प्रावधाने कन्ने सरबंधत सभनें मामलें दी तकीकात करै ते उं दे पर निगरानी रक्खै ते इस चाल्ली दे रक्षा सरबंधी उपायें दे कम्मै दा मूल्यांकन करै;

(ख) अनुसूचित जातिये ⁴*** गी उं दे अधिकारें ते रक्षा सरबंधी उपाएं थमां मैहरूम करने सरबंधी दस्सी गेदिये शिकायतें दी पड़ताल करै;

(ग) अनुसूचित जातिये ⁴*** दे समाजक-आर्थक विकास दी योजना प्रक्रिया'च हिस्सा लै ते उं दे पर सलाह देऐ ते संघ ते कुसै रियासतै अधीन उं दे विकास दी उन्नति दा मूल्यांकन करै;

-
1. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें "पैहली अनुसूची दे भाग क जां ख च दिते गेदे" शब्दें ते अक्खरें दा लोप कीता गेआ।
 2. संविधान (न्यानमीं तरमीम) अधिनियम, 2003 दी धारा 2 राहें (19-2-2004 थमां) हाषिया सिरलेख दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 3. संविधान (न्यानमीं तरमीम) अधिनियम, 2003 दी धारा 2 राहें (19-2-2004 थमां) खंड (1) ते (2) दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 4. संविधान (न्यानमीं तरमीम) अधिनियम, 2003 दी धारा 2 राहें (19-2-2004 थमां) "ते अनुसूचित जनजातिये" शब्दें दा लोप कीता गेआ।

भारत दा संविधान

(भाग 16 – किष वर्गे दे सरबंधे च चेचे प्रावधान)

(घ) उ'नें रक्षा उपायें दे कम्म-काजें दे बारे'च हर ब'रे ते नेह होरनें समें पर, जि'यां आयोग ठीक समझै, राष्ट्रपति गी रपोट पेश करै;

(ङ) इस चाल्ली दियें रपोटें'च उ'नें उपाएं दे बारे'च जेह्ड़े उ'नें रक्षा सरबंधी उपाएं गी असरदार तरीके कन्नै लागू करने आस्तै संघ जां कुसै रियासत आसेआ कीते जाने चाहिदे, ते अनुसूचित जातियें ¹*** दी हिफाजत, भलाई-बेहतरी ते समाजक-आर्थक विकास आस्तै होरनें उपाएं दे बारे'च सफारष करै;

(च) अनुसूचित जातियें ¹*** दी हिफाजत, भलाई-बेहतरी, विकास ते उन्नति दे सरबंधे'च इस चाल्ली दे होरनें कम्म गी नभाऽ जि'नेंगी राष्ट्रपति, संसद आसेआ बनाए गेदे कुसै कन्नूने दे प्रावधानें तेहत रौह्दे होई, नियमें राहें निष्वित करै।

(6) राष्ट्रपति इस चाल्ली दियें रपोटें गी संसद दे हर-इक सदन सामनै रखोआहग ते उसदे कन्नै संघ कन्नै सरबंधत सफारषें पर कीती गेदी जां कीते जाने आस्तै प्रस्तावत कारवाई ते जेकर कोई इस चाल्ली दी सफारष ना-मंजूर कीती गेदी ऐ तां ना-मंजूरी दे कारणें गी स्पष्ट करने आह्ला ज्ञापन बी होग।

(7) जित्थै कोई इस चाल्ली दी रपोट, जां उसदा कोई हिस्सा नेह विषे कन्नै सरबंधत ऐ जिसदा कुसै रियासती सरकार कन्नै सरबंध ऐ तां नेही रपोट दी इक कापी उस रियासतै दे राज्यपाल गी भेजी जाहग जेह्ड़ा उसगी रियासती विधान मंडल दे सामनै रखोआहग ते उसदे कन्नै रियासत कन्नै सरबंधत सफारषें पर कीती गेदी जां कीते जाने आस्तै प्रस्तावत कारवाई ते जेकर कोई ऐसी सफारष ना-मंजूर कीती गेदी ऐ तां ना-मंजूर होने दे कारणें दी सफाई देने आह्ला ज्ञापन बी होग।

(8) आयोग गी खंड (5) दे उपखंड (क) च दस्से गेदे कुसै मामले दी जांच करदे बेल्लै जां उपखंड (ख) च दस्सी गेदी कुसै शिकायतें दे बारे'च पड़ताल करदे बेल्लै, खास तौरा पर हेट लिखे दे विषें दे सरबंधे'च, ओह सब्भे अखेआर होडन जेह्ड़े कुसै मकददमे पर विचार करदे बेल्लै सिवल अदालतै गी न, अर्थात् :-

(क) भारत दे कुसै बी हिस्से थमां कुसै व्यक्ति गी तलब करना ते हाजर कराना ते सघंद पर उसदी परख करना;

(ख) कुसै दस्तावेज गी प्रकट ते पेश करने दी मंग करना;

(ग) हलफनामे पर सबूत हासल करना;

(घ) कुसै अदालतै जां दफतरै थमां सार्वजनक रिकार्ड जां उसदी कापी दी मंग करना;

(ङ) गवाहें ते दस्तावेजे दी परख-पड़ताल आस्तै कमीषन जारी करना;

(च) कोई होर मामला जिसगी राष्ट्रपति नियमै राहें नर्धारत करै।

(9) संघ ते हर रियासती सरकार अनुसूचित जातियें ¹*** गी प्रभावत करने आह्ले सभनें म्हत्तव आह्ले नीति सरबंधी मामलें उप्पर आयोग कन्नै सलाह-मशवरा करग।]

²[(10)] इस अनुच्छेद च, अनुसूचित जातियें ¹*** लेई हिदायत दा एह अर्थ लाया जाहग जे ⁴[***] ऐंग्लो-इंडियन समुदाय आस्तै निर्देश बी ऐ।

³[338क. राश्ट्री अनुसूचित जनजाति आयोग - (1) अनुसूचित जनजातियें आस्तै इक आयोग होग जेह्ड़ा राश्ट्री अनुसूचित जनजाति आयोग दे नांऽ कन्नै जान्नेआ जाहग।

(2) संसद आसेआ इस नमित्त बनाए गेदे कुसै कन्नूने दे प्रावधानें तेहत रौह्दे होई, आयोग इक अध्यक्ष, इक उपाध्यक्ष ते त्र'ऊं होरनें सदस्यें कन्नै मिलियै बनग ते इस चाल्ली नियुक्त कीते गेदे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ते होरनें सदस्यें दियें सेवा दियें शर्तें ते औह्दे दी औद्ध गी राष्ट्रपति नियमै राहें नर्धारत करै।

1. संविधान (न्यानमी तरमीम) अधिनियम, 2003 दी धारा 2 राहें (19-2-2004 थमां) "ते अनुसूचित जनजातियें" शब्दें दा लोप कीता गेआ।
2. संविधान (पैंठमी तरमीम) अधिनियम, 1990 दी धारा 2 राहें (12-03-1992 थमां) खंड 3 गी खंड (10) दे रूपे'च मुढी गिनेआ गेआ।
3. संविधान (न्यानमी तरमीम) अधिनियम, 2003 दी धारा 3 राहें (19-2-2004 थमां) अंतरस्थापत।
4. संविधान (इक सौ दो तरमीम), अधिनियम 2018, दी धारा-2 (15-8-2018) राहें लोप कीता गेआ।

भारत दा संविधान

(भाग 16 - किष वर्गें दे सरबंधे च चेचे प्रावधान)

(3) राष्ट्रपति, अपने दसखत ते मोहर समेत अधिकार-पत्र राहें आयोग दे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ते होरनें सदस्ये गी नियुक्त करग।

(4) आयोग कोल अपनी प्रक्रिया गी आपूं चलाने दा अख्तेआर होग।

(5) आयोग दा एह कर्तब्व होग जे ओह, -

(क) अनुसूचित जनजातिये आस्तै इस संविधान जां उसलै लागू कुसै होर कनूनै जां सरकार दे कुसै हुकमै दे नेह रक्षा सरबंधी उपाएं दे प्रावधाने कन्नै सरबंधत सभनें मामले दी पड़ताल करै ते उं'दे पर नगरानी रक्खै ते नेह रक्षा सरबंधी उपाएं दे कम्मै दा मूल्यांकन करै;

(ख) अनुसूचित जनजातिये गी उं'दे हक्के ते रक्षा सरबंधी उपाएं थमां मैहरूम करने सरबंधी दस्सी गेदिये शिकायते दी पड़ताल करै;

(ग) अनुसूचित जनजातिये दे समाजक-आर्थक विकास दी योजना प्रक्रिया च हिस्सा लै ते उं'दे पर मषवरा देवे ते संघ ते कुसै रियासतै तैहत उं'दे विकास दी उन्नति दा मूल्यांकन करै;

(घ) उं'ने रक्षा सरबंधी उपाएं दे कम्म करने दे तौर-तरीके बारे हर बरे ते इस चाल्ली दे होरनें समे पर, जि'यां आयोग ठीक समझे, राष्ट्रपति गी रपोट पेष करै;

(ङ) इस चाल्ली दिये रपोटे च उं'ने उपाएं दे बारे'च जेहड़े उं'ने रक्षा सरबंधी उपाएं दे असरदार तरीके कन्नै लागू करने आस्तै संघ जां कुसै रियासत आसेआ कीते जाने चाहिदे ते अनुसूचित जनजातिये दी हिफाजत, भलाई-बेहतरी ते समाजक-आर्थक तरक्की आस्तै होरनें उपाएं दे बारे'च सफारष करै; ते

(च) अनुसूचित जनजातिये दी हिफाजत, भलाई-बेहतरी, विकास ते उन्नति दे सरबंधे'च उस चाल्ली दे होरनें कम्म गी नभाऽ जि'नेंगी राष्ट्रपति, संसद आसेआ बनाए गेदे कुसै कनूनै दे प्रावधाने तैहत नियमे राहें निश्चित करै।

(6) राष्ट्रपति इस चाल्ली दिये सभनें रपोटे गी संसद दे हर इक सदन सामने रखोआहग ते उसदे कन्नै संघ कन्नै सरबंधत सफारषे पर कीती गेदी जां कीते जाने आस्तै प्रस्तावत कारवाई ते जेकर कोई इस चाल्ली दी सफारष ना-मंजूर कीती गई ऐ तां ना-मंजूरी दे कारणे गी स्पष्ट करने आह्ला ज्ञापन बी होग।

(7) जित्थे कोई इस चाल्ली दी रपोट जां उसदा कोई हिस्सा, कुसै नेह मामले कन्नै सरबंधत ऐ जिसदा कुसै रियासती सरकार कन्नै सरबंध ऐ तां नेही रपोट दी इक कापी उस रियासत दे राज्यपाल गी भेजी जाहग जेहड़ा उसगी रियासती विधान-मंडल सामने पेष करोआहग ते उसदे कन्नै रियासतै कन्नै सरबंधत सफारषे पर कीती गेदी जां कीते जाने आस्तै प्रस्तावत कारवाई ते जेकर इस चाल्ली दी कोई सफारष ना-मंजूर कीती गेदी ऐ तां ना-मंजूर होने दे कारण गी स्पष्ट करने आह्ला ज्ञापन बी होग।

(8) आयोग गी, खंड (5) दे उपखंड (क) च दस्से गेदे कुसै विषे दी पड़ताल करदे बेल्लै जां उपखंड (ख) च दस्सी गेदी कुसै शिकायते दे बारे'च पड़ताल करदे बेल्लै खास तौरा पर हेठ दित्ते दे मामले दे सरबंधे'च, ओह सब्भे अख्तेआर होडन, जेहड़े कुसै सिवल अदालतै गी कुसै मकददमे पर विचार करदे बेल्लै होंदे न, अर्थात् :-

(क) भारत दे कुसै बी हिस्से थमां कुसै व्यक्ति गी तलब करना ते हाजर कराना ते सघंद उप्पर उसदी परख करना;

(ख) कुसै दस्तावेज गी प्रकट ते पेष करने दी मंग करना;

(ग) हलफनामे पर सबूत हासल करना;

(घ) कुसै अदालतै जां दपतरै थमां सार्वजनक रिकार्ड जां उसदी कापी दी मंग करना;

(ङ) गवाहे ते दस्तावेजे दी परख-पड़ताल आस्तै कमीषन जारी करना;

(च) कोई होर मामला जिसगी राष्ट्रपति, नियमै राहें नर्धारत करै।

भारत दा संविधान

(भाग 16 - किष वर्गे दे सरबंधे च चेचे प्रावधान)

(9) संघ ते हर इक रियासती सरकार, अनुसूचित जनजातियें पर असर पाने आहले सभनें म्हत्तव आहले नीति सरबंधी मामलें पर आयोग कन्नै सलाह-मषवरा करग।]

[338 ख पिछड़े दे वर्गे आस्तै राष्ट्री आयोग – (1) समाजक ते शिक्षा दे अधार उप्पर पिछड़े दे वर्गे आस्तै इक आयोग होग जेहड़ा राष्ट्री आयोग दे नांS कन्नै जान्नेआ जाहग।

(2) इस सरबंधे च संसद आसेआ बनाए गेदे कुसै कन्नै दे प्रावधानें तैहत्, आयोग च अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ते त्रै होर दूए सदस्य शामिल होंडन ते नियुक्त कीते गेदे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ते होर दूए सदस्यें दियें सेवाएं ते कार्यकाल दियां शर्ता ओह होडन, जिनें गी राष्ट्रपति नियमें राहें नर्धारत करै।

(3) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ते आयोग दे होर दूए सदस्यें गी राष्ट्रपति अपने अधिकार-पत्तर राहें नियुक्त करग।

(4) आयोग कोल अपने कम्मै-काजै दी प्रक्रिया गी चलाने दे अख्तेआर होडन।

(5) एह आयोग दा कर्त्तब्व होग –

(क) इस संविधान तैहत् जां कुसै होर कन्नै तैहत् जेहड़ा मजूदा समें च लागू ऐ जां सरकार दे कुसै हुकमै तैहत्, समाजक ते शिक्षा दे अधार उप्पर पिछड़े दे वर्गे दी हिफाजत आस्तै, इस कन्नै सरबंधत सभनें मामलें दी जांच-पड़ताल ते उं'दे उप्पर तक्क रक्खना ते इ'नें हिफाजती उपाएं दे कम्मै-काजै दा मूल्यांकन करना;

(ख) समाजक ते शिक्षा दे अधार उप्पर पिछड़े दे वर्गे गी दित्ते गेदे अधिकारें ते हिफाजती उपाएं थमां मैहरूम करने सरबंधी टकोहदी शिकायतें दी पुच्छ-गिच्छ करना;

(ग) समाजक ते शिक्षा दे अधार उप्पर पिछड़े दे वर्गे दे समाजक-आर्थक विकास आस्तै हिस्सा लैना ते सलाह-मषवरा देना ते केंदर ते कुसै रियासत दे तैहत् उं'दे विकास दी तरक्की दा मूल्यांकन करना;

(घ) सलाना जां इ'यै नेह कुसै होर समें, जिसी आयोग ठीक समझै, राष्ट्रपति गी, इ'नें हिफाजती उपाएं दे कम्मै-काजै दे बारे च रपोट पेष करना;

(ङ) इ'नें रपोटें च उं'नें गैई दी सफारष करना, जेहड़ियां केंदर जां कुसै रियासत आसेआ हिफाजती उपाएं दी असरदार अमलावरी ते रक्षा-हिफाजत, भलाई-बेहतरी ते समाजक ते शिक्षा दे अधार उप्पर पिछड़े दे वर्गे दे समाजक-आर्थक विकास आस्तै ते होर दूए उपाएं आस्तै चुविकियां जाहन; ते

(च) समाजक ते शिक्षा दे अधार उप्पर पिछड़े दे वर्गे दी रक्षा-हिफाजत, भलाई-बेहतरी, विकास ते उं'नें गी अगमें बधाने सरबंधी होर दुइयें कारवाइयें दे नर्बाह आस्तै राष्ट्रपति, संसद आसेआ बनाए गेदे कुसै कन्नै दे प्रावधानें तैहत् नियमें राहें दस्सी सकदा ऐ।

(6) राष्ट्रपति, संसद दे दौनें सदनें अगमें चेता-पत्तर सनें इ'यै नेहियें सभनें रपोटें गी पेष करने दा सरिस्ता करग, जिं'दे च केंदर कन्नै सरबंधत सफारषें उप्पर कीती गेदी कारवाई, जां कारवाई करने आस्तै प्रस्ताव दे बारे च ते इ'यै नेही सफारषें गी जेकर कोई होऐ तां ना-मंजूर करने दे कारणें दे बारे च दस्सेआ गेदा होग।

(7) जित्थे इ'यै नेही कोई रपोट जां एहदा कोई हिस्सा, जेहदे कन्नै कुसै रियासती सरकार दा सरबंध ऐ, इ'यै नेही रपोट दी नकल रियासती सरकार गी भेजी जाहग, जेहड़ी इसी रियासत दे विधान-मंडल अगमें इक चेता-पत्तर सनें रक्खने दा प्रबंध करग जेहदे च रियासत आसेआ कीती गेदी सफारषें सरबंधी कारवाई जां कारवाई करने आस्तै प्रस्ताव दे बारे च ते इ'यै नेही सफारषें गी जेकर कोई होऐ तां ना-मंजूर करने दे कारणें दे बारै दस्सेआ गेदा होग।

(8) आयोग कोल उपखंड (क) च दित्ते गेदे कुसै मामले ते उपखंड (ख) दे खंड 5 च कुसै शिकायतें कन्नै सरबंधत मामलें दी पड़ताल आस्तै इक दिवानी अदालतें दे अख्तेआर होडन, जेहड़ी मकदमे ते खास करी हेठ लिखत मामलें दे सरबंधे च कारवाई करी सकग, जियां के :-

(क) कुसै व्यक्ति गी भारत दे कुसै बी हिस्से थमां सद्ना, ओहदी हाजरी गी जकीनी बनाना ते सघंद चकाइयै छानबीन करना;

(ख) कुसै दस्तावेज दा मंगना ते पेष करने लेई आखना;

(ग) हलफनामें उप्पर सबूत हासल करना;

(घ) कुसै अदालत जां दफतर थमां सार्वजनक रिकार्ड जां ओहदी नकल हासल करने लेई आखना;

(ङ) गवाहें ते दस्तावेजें दी जांच-पड़ताल आस्तै कमीषन जारी करना;

1. संविधान (इक सौ दो तरमीम) अधिनियम 2018, धारा 3, (15-8-2018) राहें अंतरस्थापत।

भारत दा संविधान

(भाग 16 – किष वर्गे दे सरबंधे च चेचे प्रावधान)

- (च) कोई बी होर मामला, जिसी राष्ट्रपति, नियमै राहें नर्धारत करै।
- (9) संघ ते हर इक रियासती सरकार, आयोग कन्नै खास नीतिगत मामलें उप्पर सलाह-मषवरा करग जिंदा असर समाजक ते शिक्षा दे अधार उप्पर पिछड़े दे वर्ग उप्पर पौंदा ऐ। *["बषर्ते जे इस खंड च किष बी अनुच्छेद 342क दे खंड (3) दे उद्देशे आस्तै लागू नेई होग।"]

339. अनुसूचित क्षेत्रों दे प्रशासन ते अनुसूचित जनजातिये दे कल्याण बारै संघ दा नियंत्रण – (1) राष्ट्रपति ^{1***} रियासतें दे अनुसूचित क्षेत्रों दे प्रशासन ते अनुसूचित जनजातिये दी भलाई-बेहतरी दे बारै रपोट देने आस्तै आयोग दी नियुक्ति, हुकमै राहें, कुसै बेल्लै बी करी सकग ते इस संविधान दे रम्भ थमां दस्सें बरें दे मुक्कने उप्पर करग।

हुकम च आयोग दी बनावट, अख्तेआर ते प्रक्रिया गी तैऽ कीता जाई सकग ते उस'च नेह घटनात्मी जां स्हायक प्रावधान शामल होई सकडन जि'नेंगी राष्ट्रपति लाजमी जां लोडचदे समझै।

(2) संघ दी कार्यपालिका शक्ति दा विस्तार ²[कुसै रियासत] गी इस चाल्ली दियां हिदायतां देने तगर होग, जेहड़ा उस रियासत दी अनुसूचित जनजातिये दी भलाई-बेहतरी आस्तै हिदायतें च लाजमी दस्सी गेदिये स्कीमें दे बनाने ते लागू करने बारै ऐ।

340. पिछड़े दे वर्गों दे हलातें दी पड़ताल आस्तै आयोग दी नियुक्ति – (1) राष्ट्रपति भारत दे राज्यक्षेत्रें अंदर समाजक ते शिक्षा दी नजरी कन्नै पिछड़े दे वर्गें दे हलातें दे ते जि'नें ओखें गी ओह झल्लै करदे न उं'दी खोज-पड़ताल आस्तै ते उं'नें ओखें गी दूर करने ते उं'दे हलातें गी सधरने आस्तै संघ जां कुसै रियासती आसेआ जेहड़े उपाऽ कीते जाने चाहिदे उं'दे बारै ते उस मकसद आस्तै संघ जां कुसै रियासत आसेआ जेहड़ी माल्ली मदाद दिती जानी चाहिदी ते जि'नें शर्तें दे तैहत ओह माल्ली मदाद दिती जानी चाहिदी उं'दे बारै सफारष करने आस्तै, हुकमै राहें, इक आयोग नियुक्त करी सकग जेहड़ा नेह व्यक्तिये गी मलाइयै बनग, जि'नेंगी ओह ठीक समझै ते नेह आयोग गी नियुक्त करने आहले हुकमै'च आयोग आसेआ अपनाई जाने आहली प्रक्रिया निश्चित कीती जाहग।

(2) इस चाल्ली नियुक्त आयोग उसगी भेजे गेदे मामलें दी खोज-पड़ताल करग ते राष्ट्रपति गी रपोट देहग, जिस'च उसदे आसेआ तुप्पे गेदे तत्थ वर्णत कीते जाहडन ते जिस'च इस चाल्ली दियां सफारषां कीतियां जाहडन जि'नेंगी आयोग ठीक समझै।

(3) राष्ट्रपति, इस चाल्ली दिती गेदी रपोट दी इक कापी, उस पर कीती गेदी कारवाई गी स्पष्ट करने आहले चेता-पत्तर सनें, संसद दे हर इक सदन सामनै रखोआहग।

341. अनुसूचित जातियां – (1) राष्ट्रपति, ³[कुसै रियासत ⁴[जां संघ राज्यक्षेत्र] दे सरबंधे'च ते जित्थे ^{1***} रियासत ऐ उल्थै उसदे राज्यपाल ^{5***} कन्नै सलाह-सूतर करने परैत] लोक अधिसूचना⁶ राहें, उं'नें जातिये, प्रजातिये जां जनजातिये, जां जातिये, प्रजातिये जां जनजातिये दे हिस्सें जां उं'दे समुदायें गी खासतौरा पर दस्सी सकग, जि'नेंगी इस संविधान दे मकसदें आस्तै ⁴[स्थिति मताबक] उस रियासतें ⁴[जां संघ राज्यक्षेत्र] दे सरबंधे'च अनुसूचित जातियां समझेआ जाहग।

* संविधान (इक सौ पंज तरमीम) अधिनियम, 2021, धारा 2 (15-9-2021) राहें अंतरस्थापत।

1. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें "पैहली अनुसूची दे भाग क जां ख च दस्से गेदे" शब्दें ते अक्खरें दा लोप कीता गेआ।

2. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें "कुसै नेही रियासत" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।

3. संविधान (पैहली तरमीम) अधिनियम, 1951 दी धारा 10 "रियासत दे राज्यपाल जां राजप्रमुख कन्नै सलाह-सूतर करने परैत" दे थाहरै प्रतिस्थापत।

4. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें अंतरस्थापत।

5. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें "जां राजप्रमुख" शब्दें दा लोप कीता गेआ।

6. संविधान (अनुसूचित जातियां) अदेष, 1950 (सं.आ. 19), संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्यक्षेत्र) अदेष, 1951 (सं.आ. 32), संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां अदेष, 1956 (सं.आ. 52), संविधान (दादरा ते नागर हवेली) अनुसूचित जातियां अदेष, 1962 (सं.आ. 64), संविधान (पुडुचेरी) अनुसूचित जातियां अदेष, 1964 (सं.आ. 68), संविधान (गोवा, दमन ते दीव) अनुसूचित जातियां अदेष, 1968 (सं.आ. 81) ते संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां अदेष, 19

भारत दा संविधान

(भाग 16 – किष वर्गें दे सरबंधे च चेचे प्रावधान)

(2) संसद, कनूनै राहें , कुसै जाति, प्रजाति जां जनजाति गी जां जाति, प्रजाति जां जनजाति दे हिस्से जां उं दे समूह गी खंड (1) दे तैहत् जारी कीती गेदी अधिसूचना च दस्सियें गेदियें अनुसूचित जातियें दी चंदी च शामिल करी सकग जां उस'चा बाहर कड्डी सकग, पर जि'यां उप्पर आखेआ गेआ ऐ एह्दे छुट आखे गेदे खंड दे तैहत् जारी कीती गेदी अधिसूचना'च परैत्तरी अधिसूचना राहें तब्दीली नेई कीती जाहग।

342. अनुसूचित जनजातियां – (1) राष्ट्रपति, ¹[कुसै रियासत] ²[जां संघ राज्यक्षेत्र] दे सरबंधे'च ते जित्थै ओह ³*** रियासत ऐ उत्थै उसदे राज्यपाल ⁴*** कन्नै सलाह-सूत्तर करने परैत्त] लोक अधिसूचना⁵ राहें उ'नें जनजातियें जां जनजाति समुदायें जां जनजातियें जां जनजाति समुदायें दे हिस्से जां उं दे समूहें गी खास तौरा उप्पर दस्सी सकग, जि'नेंगी इस संविधान दे मकसदें आस्तै, ²[स्थिति मताबक] उस रियासत² [संघ राज्यक्षेत्र] दे सरबंधे'च अनुसूचित जनजातियां समझेआ जाहग]

(2) संसद, कनूनै राहें, कुसै जनजाति जां जनजाति समुदाय गी जां कुसै जनजाति जां जनजाति समुदाय दे हिस्से जां उसदे समूह गी खंड (1) दे तैहत् जारी कीती गेदी अधिसूचना च दस्सियें गेदियें अनुसूचित जनजातियें दी चंदी च शामिल करी सकग जां उस'चा बाहर कड्डी सकग, पर जि'यां के उप्पर आखेआ गेदा ऐ एह्दे छुट दस्से गेदे खंड दे तैहत् जारी कीती गेदी अधिसूचना च कुसै परैत्तरी अधिसूचना राहें तब्दीली नेई कीती जाहग।

***[342क समाजक ते शिक्षा दे अधार पर पिछड़े दे वर्ग –** (1) राष्ट्रपति कुसै रियासत जां केंदर शासित प्रदेश दे सरबंधे च ते जेकर एह रियासत ऐ तां उत्थूं दे राज्यपाल कन्नै सलाह-मषवरा करिये सार्वजनक अधिसूचना राहें केंदरी सूची च समाजक ते शिक्षा दे अधार उप्पर पिछड़े दे वर्ग जेह्दे केंदरी सरकार दे प्रयोजनें आस्तै होडन⁶ जि'नेंगी संविधान दे इस मकसद आस्तै समाजक ते शिक्षा दे अधार उप्पर रियासत जां केंदर शासित प्रदेश च, जेह्डी बी स्थिति होऐ, पिछड़े दा मन्नेआ जाहग।

(2) संसद कनूनै राहें, समाजक ते शिक्षा दे अधार उप्पर पिछड़े दे वर्गे गी अनुच्छेद (1) तैहत् जारी अधिसूचना च समाजक ते शिक्षा दे अधार उप्पर पिछड़े दे वर्ग लेई बनाई गेदी केंदरी सूची च शामिल करी सकदी ऐ जां बाहर कड्डी सकदी ऐ, पर खास तौर उप्पर दस्से गेदे अनुच्छेद दे छुट्ट जारी कोई होर अधिसूचना, कुसै होर परैत्तरी अधिसूचना राहें बदली नेई जाहग।⁷

व्याख्या – खंड (1) ते (2) दे प्रयोजनें आस्तै अभिव्यक्त “केंदरी सूची” दा अर्थ ऐ केंदर सरकार आसेआ ते उसदे आस्तै त्यार ते कायम कीती गेदी समाजक ते शैक्षणक तौरा उप्पर पिछड़े वर्गे दी सूची।⁷

(3) खंड (1) ते (2) च शामिल किष बी होने दे बावजूद, हर इक राज्य जां केंदर शासित प्रदेश कनूनै राहें, अपने प्रयोजनें आस्तै समाजक ते शैक्षणक तौरा उप्पर पिछड़े दे वर्गे दी इक सूची त्यार ते कायम करी सकदा ऐ, जेह्दे च इंदराज केंदरी सूची शा बक्ख होई सकदे न।⁸

1. संविधान (पैहली तरमीम) अधिनियम, 1951 दी धारा 11 राहें “रियासत दे राज्यपाल जां राजप्रमुख कन्नै सलाह-सूत्तर करने परैत्त” दे धाहरै पर प्रतिस्थापत।
2. संविधान (सतमी तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें अंतरस्थापत।
3. संविधान (सतमी तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें “पैहली अनुसूची दे भाग क जां ख च दस्से गेदे” शब्दे ते अक्खरें दा लोप कीता गेआ।
4. संविधान (सतमी तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें “जां राजप्रमुख” शब्दे दा लोप कीता गेआ।
5. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) अदेश, 1950 (सं.अ. 22), संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्यक्षेत्र) अदेश, 1951 (सं.अ. 33), संविधान (अंडेमान ते निकोबार द्वीप) अनुसूचित जनजातियां अदेश, 1959 (सं.अ. 58), संविधान (दादरा ते नागर हवेली) अनुसूचित जनजातियां अदेश, 1962 (सं.अ. 65), संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) अदेश, 1967 (सं.अ. 78), संविधान (गोवा, दमण ते दीव) अनुसूचित जनजातियां अदेश, 1968 (सं.अ. 82), संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजातियां अदेश, 1970 (सं.अ. 88) ते संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियां अदेश, 1978 (सं.अ. 111) दिक्खो।
6. संविधान (इक सौ पञ्जमी तरमीम) अधिनियम 2021, 18 अगस्त 2021।
7. संविधान (इक सौ पञ्जमी तरमीम) अधिनियम 2021, 18 अगस्त 2021।
8. संविधान (इक सौ पञ्जमी तरमीम) अधिनियम 2021, 18 अगस्त 2021।
- * संविधान (इक सौ दो तरमीम) अधिनियम, 2018, धारा 4 (15-8-2018) राहें अंतरस्थापत।

ध्याऽ 1 – संघ दी भाशा

343. संघ दी राजभाशा –(1) संघ दी राजभाशा हिंदी ते लिपि देवनागरी होग।

संघ दे सरकारी मकसदें आस्तै बरतौने आहले हिंसें दा रूप भारती हिंसें दा अंतरराष्ट्री रूप होग।

(2) खंड(1) च बावजूद एहदे, इस संविधान दे रम्भ थमां पंदरें बरें दी औद्ध तगर संघ दे उंन सभनें सरकारी मकसदें आस्तै अंग्रेजी भाषा दी बरतून कीती जंदी रौहग जिंदे आस्तै उसदा इस चाल्ली दे रम्भ थमां ठीक पैहलें कोला इस्तेमाल कीता जंदा रेहा हा :

पर राष्ट्रपति दस्सी गेदी औद्ध दरान, हुकमै¹ राहें संघ दे सरकारी मकसदें चा कुसै आस्तै अंग्रेजी भाषा दे छुट्ट हिंदी भाषा दा ते भारती हिंसें दे अंतरराष्ट्री रूपै दे छुट्ट देवनागरी रूपै दी बरतून प्राधिकृत करी सकग।

(3) इस अनुच्छेद च बावजूद एहदे, संसद आखी गेदी पंदरें बरें दी औद्ध दे बाद, कनूनै राहें –

(क) अंग्रेजी भाषा दा, जां

(ख) हिंसें दे देवनागरी रूपै दा,

इस चाल्ली दे मकसदें आस्तै बरतून दे प्रावधान करी सकग जेहड़े इस चाल्ली दे कनूनै च दरसे जाहन।

344. राजभाशा दे सरबंधै च आयोग ते संसद दी समिति – (1) राष्ट्रपति, इस संविधान दे रम्भ थमां पंजें बरें दे मुक्कने पर ते उसदे बाद इस चाल्ली दे रम्भ थमां दस्सें बरें दे मुक्कने पर, हुकमै राहें, इक आयोग दा गठन करग जेहड़ा इक अध्यक्ष ते अठमीं अनुसूची च दित्ती गेदी बक्ख-बक्ख भाषाएं दी नुमायंदगी करने आहले इस चाल्ली दे होरनें सदस्ये गी मलाइये बनग जिनेंगी राष्ट्रपति नियुक्त करै ते हुकमै च आयोग आसेआ अपनाई जाने आहली प्रक्रिया निष्पत्त कीती जाहग।

(2) आयोग दा एह कर्तब्व होग जे ओह राष्ट्रपति गी –

(क) संघ दे सरकारी मकसदें आस्तै हिंदी भाषा दी मती थमां मती बरतून,

(ख) संघ दे सभनें जां किष सरकारी मकसदें आस्तै अंग्रेजी भाषा दी बरतून पर रोकां,

(ग) अनुच्छेद 348 च दर्ज सभनें जां किष मकसदें आस्तै बरतौने आहली भाषा,

(घ) संघ दे कुसै इक जां मते दरसे गेदे मकसदें आस्तै बरते जाने आहले हिंसें दे रूप,

(ङ) संघ दी राजभाशा ते संघ ते कुसै रियासत दे बषक्हार जां इक रियासत दे दूर्ई रियासतै बषक्हार खत-पत्तर दी भाषा ते उंदी बरतून दे सरबंधै च राष्ट्रपति आसेआ आयोग गी कुसै होर मामले आस्तै दित्ती गेदी हिदायत दे बारे च सफारष करै।

1. सं.अ. 41 दिक्खो।

(3) खंड (2) दे तैहत् अपनियां सफारषां करने च, आयोग भारत दी उद्योगक, सांस्कृतक ते विज्ञानक उन्नति दा ते लोक सेवाएं दे सरबंघै च गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रें दे लोकें दे न्यासंगत दावें ते हितें दा इक्कै जनेहा ध्यान रक्खग।

(4) इक समिति दा गठन कीता जाहग जेहड़ी त्रीहें सदस्यें गी मलाइयै बनग जिंदे च बीह लोक सभा दे सदस्य होडन ते दस राज्य सभा दे सदस्य होडन जेहड़े तरतीबन लोक सभा दे सदस्यें ते राज्य सभा दे सदस्यें राहें अनुपातक प्रतिनिधित्व पद्धति मताबक इक्कले बदलीजोग वोट राहें चुने जाहडन।

(5) समिति दा एह कर्तबब होग जे ओह खंड (1) दे तैहत् गठत आयोग दी सफारषें दी परख-पड़ताल करै ते राष्ट्रपति गी उंदे पर अपनी राड दे बारे च रपोट देरे।

(6) अनुच्छेद 343 च बावजूद एहदे, राष्ट्रपति खंड (5) च दस्सी गेदी रपोट पर विचार करने परैत उस सबूरी रपोट दे जां उसदे कुसै हिस्से दे मताबक हिदायतां देई सकग।

ध्याऽ 2 – प्रादेशिक भाशां

345. रियासत दी राजभाशा जां राजभाशां – अनुच्छेद 346 ते अनुच्छेद 347 दे प्रावधानें तैहत्, कुसै रियासत दा विधान-मंडल, कनूनै राहें, उस रियासतै च बरतोने आहली भाषाएं चा कुसै इक जां मतियें भाषाएं गी जां हिंदी गी उस रियासतै दे सभनें जां किष सरकारी मकसदें आस्तै बरतोने आहली भाषा जां भाषाएं दे रूपै च अंगीकार करी सकग:

पर, जिसलै तगर रियासतै दा विधान-मंडल, कनूनै राहें होर प्रावधान नेई करै उसलै तगर रियासतै अंदर उंनं सरकारी मकसदें आस्तै अंग्रेजी भाषा दी बरतून कीती जंदी रौहग जिंदे आस्तै उसदा इस संविधान दे मुढे थमां ठीक पैहलें इस्तेमाल कीता जंदा हा।

346. इक रियासत ते दूई रियासत दे बिच्च जां कुसै रियासत ते संघ दे बषक्हार खतो-कताबत वगैरा दी राजभाशा – संघ च सरकारी मकसदें लेई बरते जाने आस्तै उसलै दी प्राधिकृत भाषा, इक रियासत ते दूई रियासतै बषक्हार ते कुसै रियासतै ते संघ बषक्हार खतो-कताबत दी राज-भाषा होग :

पर जेकर दो जां मतियां रियासतां एह करार करदियां न जे उंनं रियासतें बषक्हार खतो-कताबत वगैरा दी राज-भाषा हिंदी भाषा होग तां नेह खतो-कताबत वगैरा आस्तै उस भाषा दी बरतून कीती जाई सकग।

347. कुसै रियासत दी जनसंख्या दे कुसै वर्ग आसेआ बोल्ली जाने आहली भाशा दे सरबंघै च चेचे प्रावधान – जेकर इस नमित्त मंग कीते जाने पर राष्ट्रपति गी संतुष्टी होई जंदी ऐ जे कुसै रियासतै दी अबादी दा लोडचदा हिस्सा एह चांहदा ऐ जे उसदे आसेआ बोल्ली जाने आहली भाषा गी रियासतै आसेआ मानता दित्ती जा तां ओह हिदायत करी सकग जे इस चाल्ली दी भाषा गी बी उस रियासतै च सभनें थाहरें जां उसदे कुसै हिस्से च इस चाल्ली दे मकसद आस्तै जेहड़े ओह दस्सै, सरकारी मानता दित्ती जा।

ध्याऽ 3 – सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालतें वगैरा दी भाशा

348. सर्वोच्च अदालत ते उच्च अदालतें च ते अधिनियम, बिल्लं वगैरा आस्तै बरती जाने आहली भाशा – (1) इस भाग दे पछेत्तरे प्रावधानें च बावजूद एहदे, जिसलै तगर संसद कनूनै राहें कोई होर प्रावधान नेई करै उसलै तगर –

(क) सर्वोच्च अदालत च ते सभनें उच्च अदालतें च सारियां कारवाइयां अंग्रेजी भाषा च होडन।

भारत दा संविधान

(भाग 17 – राजभाषा)

(ख) (i) संसद दे हर इक सदन जां कुसै रियासतै दे विधान-मंडल दे सदन जां हर इक सदन'च पेष कीते जाने आहले सभनें बिल्लें जां प्रस्तावत कीतियें जाने आहलियें उ'दियें तरमीमें दे,

(ii) संसद जां कुसै रियासत दे विधान-मंडल आसेआ पास कीते गेदे सभनें अधिनियमें दे ते राष्ट्रपति जां कुसै रियासतै दे राज्यपाल ^{1***} आसेआ घोशत सभनें अध्यादेशें, ते

(iii) इस संविधान दे तैह्त जां संसद जां कुसै रियासतै दे विधान-मंडल आसेआ बनाए गेदे कुसै कनूनै दे तैह्त जारी कीते गेदे जां बनाए गेदे सभनें हुकमें, नियमें, उपनियमें ते उपकनूनें दे,

प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा'च होडन।

(2) खंड (1) दे उपखंड (क) च बावजूद एहदे, कुसै रियासतै दा राज्यपाल ^{1***} राष्ट्रपति दी पुज्ज सैह्मती कन्नै उस उच्च अदालत दी कारवाइयें च, जिसदा मुख थाहर उस रियासतै'च ऐ, हिंदी भाशा दा जां उस रियासतै दे सरकारी मकसदें आस्तै बरती जाने आहली कुसै होर भाशा दी बरतून दा अधिकार देई सकग :

पर इस खंड दी कोई गल्ल इस चाल्ली दी उच्च अदालत आसेआ दित्ते गेदे कुसै निर्ण, डिक्री, जां हुकमै पर लागू नेई होग।

(3) खंड (1) दे उपखंड (ख) च बावजूद एहदे, जित्थै कुसै रियासतै दे विधान-मंडल ने, उस विधान-मंडल'च पेश कीते गेदे बिल्लें'च जां उसदे आसेआ पास अधिनियमें'च जां उस रियासतै दे राज्यपाल ^{1***} आसेआ घोशत अध्यादेशें'च जां उस उपखंड दे पै'रा (iii)'च दित्ते गेदे कुसै हुकम, नियम, विनियम जां उपकनून'च इस्तेमाल आस्तै अंग्रेजी भाषा थमां बक्ख कोई भाषा निष्वित कीती दी ऐ उल्थै उस रियासतै दी गजट च उस रियासतै दे राज्यपाल ^{1***} दे प्राधिकार कन्नै प्रकाशत अंग्रेजी भाषा च उसदा तर्जमा इस अनुच्छेद दे तैह्त उसदा अंग्रेजी भाषा च प्राधिकृत पाठ समझेआ जाहग।

349. भाशा कन्नै सरबंधत किश कनून अधिनियमत करने आस्तै बशेश प्रक्रिया – इस संविधान दे रम्भ थमां पं'दरें ब'रें दी औद्ध दरान अनुच्छेद 348 दे खंड (1) च दित्ते गेदे कुसै मकसद आस्तै बरतौने आहली भाषा आस्तै प्रावधान करने आहला कोई बिल्ल जां तरमीम संसद दे कुसै सदन'च राष्ट्रपति दी पुज्ज मंजूरी बगैर पेष जां प्रस्तावत नेई कीती जाहग ते राष्ट्रपति कुसै नेह बिल्ल गी पेष जां कुसै नेही तरमीम गी प्रस्तावत कीते जाने दी मंजूरी अनुच्छेद 344 दे खंड (1) दे तैह्त गठत आयोग दी सफारषें पर ते उस अनुच्छेद दे खंड (4) दे तैह्त गठत कमेटी दी रपोट पर विचार करने परैत्त गै देह्ग, नेई तां नेई।

ध्याऽ 4 – बशेश निदेश

350. शिकायतें दे नबेड़े आस्तै दरखासतें च बरतौने आहली भाशा – हर इक शख्स कुसै शिकायतें दे नबेड़े आस्तै संघ जां रियासतै दे कुसै अफसर जां प्राधिकारी गी, स्थिति मताबक, संघ'च जां रियासतै च बरतौने आहली कुसै भाषा च अर्जी देने दा हकदार होग।

²**[350क. प्राइमरी स्तर पर मात्तरी भाशा च शिक्षा दियां सुविधां** – हर इक रियासत ते रियासतै दे अंदर हर इक स्थानी प्राधिकारी भाषाई घट्ट गिंतरी आहले वर्गे दे ज्यानें गी शिक्षा दे मुंडले स्तर पर मात्तरी भाषा च शिक्षा दियें

1. संविधान (सतमी तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें "जां राजप्रमुख" शब्दें दा लोप कीता गेआ।
2. संविधान (सतमी तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 21 राहें अंतरस्थापत।

लोडचदिये स्हूलते दा सरिस्ता करने दी कोष करग ते राष्ट्रपति कुसै रियासत गी उस चाल्ली दी हिदायत देई सकग जेहड़ी ओह इस चाल्ली दी स्हूलते दा सरिस्ता पक्का कराने आस्तै जरूरी जां ठीक समझदा ऐ।

350ख. भाषाई घट्ट गितरी आहले वर्गे आस्तै बशेश अधिकार – (1) भाषाई घट्ट गितरी आहले वर्गे आस्तै इक चेचा अफसर होग जिसगी राष्ट्रपति नियुक्त करग।

(2) उस खास अफसर दा एह फर्ज होग जे ओह इस संविधान तैहत भाषाई घट्ट गितरी आहले वर्गे आस्तै सरिस्ता रक्षा सरबंधी उपाएं कन्ने सरबंधत सभनें मामले दी खोज-पड़ताल करै ते उ'नें मामले दे सरबंधे'च इस चाल्ली दे बकफे पर जेहड़े राष्ट्रपति दस्सै, राष्ट्रपति गी रपोट देरे ते राष्ट्रपति इस चाल्ली दिये सभनें रपोटे गी संसद दे हर इक सदन दे सामने रखोआहग ते सरबंधत रियासते दी सरकारें गी भजोआहग।]

351. हिंदी भाषा दे विकास आस्तै निदेश – संघ दा एह फर्ज होग जे ओह हिंदी भाषा दा प्रसार बधाऽ, ओहदा विकास करै जिस कन्ने ओह भारत दी मिली-जुली संस्कृति दे सभनें तते दे इजहार दा जरिया बनी सकै ते ओहदी प्रकृति'च दखल दित्ते बगैर हिंदुस्तानी'च ते अठमी अनुसूची च दित्तिये गेदिये भारत दिये होरनें भाषाएं'च बरतोए दे रूप, शैली ते पदे गी आतमसात करदे होई ते जित्थे जरूरी जां लोड़ होऐ, उत्थे उसदे शब्द भंडार आस्तै मुख्य रूपे च संस्कृत थमां ते गौण रूपे'च होरनें भाषाएं थमां ग्रैहण करदे होई उसदी सगोसारी गी जकीनी बनाऽ।

352. अमरजैसी दी उदघोशना – (1) जेकर राष्ट्रपति गी एह संतुष्टी होई जंदी ऐ जे गंभीर अमरजैसी बनी दी ऐ। जिस थमां युद्ध जां बाहरी हमले जां ¹[सशस्त्र विद्रोह] दे कारण भारत जां उसदे राज्य क्षेत्र दे कुसै हिस्से दी सुरक्षा खतरे'च ऐ तां ओह उदघोशना राहें ²[सबूरे भारत च जां उसदे राज्यक्षेत्र दे नेह हिस्से दे सरबंधे'च जेहड़े उदघोषना'च खास तौरै पर दस्से जाहन] इस मकसद आस्तै घोशना करी सकग।

³[**स्पष्टीकरण** – जेकर राष्ट्रपति गी एह संतुष्टी होई जंदी ऐ जे युद्ध जां बाहरी हमले जां सशस्त्र विद्रोह दा खतरा नेडे ऐ तां एह घोशत करने आहली अमरजैसी दी उदघोशना जे युद्ध जां बाहरी हमला जां सशस्त्र विद्रोह थमां भारत जां उसदे राज्यक्षेत्र दे कुसै हिस्से दी सुरक्षा खतरे'च ऐ, युद्ध जां नेह कुसै हमले जां विद्रोह दे असल'च होने थमां पैहलें बी कीती जाई सकग।]

⁴[(2) खंड (1) दे तैहत कीती गेदी उदघोशना'च कुसै अगेत्तरी उदघोशना राहें बदलाव कीता जाई सकग जां उसगी बापस लैता जाई सकग।

(3) राष्ट्रपति, खंड (1) दे तैहत उदघोशना जां नेही उदघोशना'च बदलाऽ करने आहली उदघोशना उसलै तगर नेई करग जिसलै तगर संघ दे मंत्रिमंडल दा (अर्थात् उस परिशद दा जेहड़ा अनुच्छेद 75 दे तैहत प्रधानमंत्री ते मंत्रिमंडल स्तर दे होरनें मंत्रियें कन्नै मिलियै बनदी ऐ) एह निश्चा जे नेही उदघोशना कीती जा, उसगी लिखती रूपै'च सूचत नेई कीता जंदा ऐ।

(4) इस अनुच्छेद तैहत कीती गेदी हर इक उदघोषना संसद दे हर इक सदन सामनै रक्खी जाहग ते जित्थै ओह पछेत्तरी उदघोषना गी बापस लैने आहली नेई ऐ उत्थै ओह इक म्हीने दे मुक्कने पर, जेकर उस औद्ध दी समाप्ति थमां पैहलें संसद दे दौनें सदन दे प्रस्ताव राहें उसगी मंजूर नेई करी दित्ता जंदा ऐ तां, चलन च नेई रौहग:

पर जेकर नेही कोई उदघोषना (जेहड़ी पछेत्तरी उदघोषना गी बापस लैने आहली उदघोषना नेई ऐ) उसलै कीती जंदी ऐ जिसलै लोक सभा भंग होई गेदी ऐ जां इस खंड'च दित्ते गेदे इक म्हीने दी औद्ध दरान लोक सभा भंग होई जंदी ऐ ते जेकर उदघोषना गी मंजूर करने आहला प्रस्ताव राज्य सभा आसेआ पास करी दित्ता गोआ ऐ, पर इस चाल्ली दी उदघोषना दे सरबंधे'च कोई प्रस्ताव लोक सभा आसेआ उस औद्ध दे मुक्कने थमां पैहलें पास नेई कीता गेदा ऐ तां, उदघोषना उस तरीक थमां जिसगी लोक सभा अपने मुठ-गठन दे बाद पैहली बारी बौहदी ऐ, त्रीहें दिनें दे मुक्कने पर, चलन च नेई रौहग जेकर उप्पर दित्ती गेदी त्रीहें दिनें दी औद्ध दे मुक्कने थमां पैहलें उदघोषना गी मंजूरी देने आहला प्रस्ताव लोक सभा आसेआ बी पास नेई करी दित्ता जंदा ऐ।

-
1. संविधान (चरतालिसी तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 37 राहें (20-6-1979 थमां) "अंदरूनी गड़बड़ी" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 2. संविधान (बतालिसी तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 48 राहें (3-1-1977 थमां) अंतरस्थापत।
 3. संविधान (चरतालिसी तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 37 राहें (20-6-1979 थमां) अंतरस्थापत।
 4. संविधान (चरतालिसी तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 37 राहें (20-6-1979 थमां) खंड (2), खंड (2क) ते खंड (3) दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।

भारत दा संविधान

(भाग 18 – अमरजैसी प्रावधान)

(5) इस चाल्ली मंजूर उद्घोषना, जेकर बापस नेई लैती जंदी ऐ तां, खंड (4) दे तैह्त उद्घोषना गी मंजूर करने आहले प्रस्तावें चा दूर प्रस्ताव दे पास कीते जाने दी तरीक थमां छें म्हीनें दी औद्ध दे मुक्कने पर चलन च नेई रौहगः

पर, जेकर ते जिन्नी बारी नेही उद्घोषना गी जारी रक्खने गी मंजूरी देने आहला प्रस्ताव संसद दे दौनें सदनें आसेआ पास करी दित्ता जंदा ऐ ते उन्नी बारी एह उद्घोषना, जेकर बापस नेई लैती जंदी ऐ तां, उस तरीक थमां जिसगी ओह उस खंड दे तैह्त जां पही चलन च नेई रौहदी, छें म्हीनें दी औद्ध तगर चलन च बनी रौहगः

पर एह होर जे लोक सभा जेकर छें म्हीनें दी नेही औद्ध दरान भंग होई जंदी ऐ ते इस चाल्ली दी उद्घोषना गी चलन च बनाई रक्खने गी मंजूर करने आहला प्रस्ताव राज्य सभा आसेआ पास करी दित्ता गेआ ऐ , पर नेही उद्घोषना गी चलन च बनाई रक्खने दे सरबंधेंच कोई प्रस्ताव लोक सभा आसेआ उप्पर आखी गेदी औद्ध दरान पास नेई कीता गेआ ऐ तां, उद्घोषना उस तरीक थमां जिसगी लोक सभा अपने मुढ़-गठन परेंत पैहली बारी बाँहदी ऐ, त्रीहें दिने दे मुक्कने पर, चलन च नेई रौहग जेकर आखी गेदी त्रीहें दिनें दी औद्ध दे मुक्कने थमां पैहलें उद्घोषना गी चलन च बनाई रक्खने गी मंजूर करने आहला प्रस्ताव लोक सभा आसेआ बी पास नेई करी दित्ता जंदा ऐ।

(6) खंड (4) ते खंड (5) दे मकसदें आस्तै, प्रस्ताव संसद दे कुसै सदन आसेआ उस सदन दी कुल सदस्यें दी गितरी दे बहुमत राहें ते उस सदन दे मजूद ते वोट देने आहले सदस्यें चा घट्टो-घट्ट दो तिहाई बहुमत राहें गै पास कीता जाई सकग।

(7) पछेत्तरे खंडें च बावजूद एहदे जेकर लोक सभा खंड (1) दे तैह्त कीती गेदी उद्घोषना जां नेही उद्घोषना च बदलाऽ करने आहली उद्घोषना दा, स्थिति मताबक, ना-मंजूरी जां उसगी चलन च बनाई रक्खने गी ना-मंजूर करने आहला प्रस्ताव पास करी दिंदी ऐ तां राष्ट्रपति नेही उद्घोषना गी बापस लेई लैहग।

(8) जित्थै खंड (1) दे तैह्त कीती गेदी उद्घोषना जां नेही उद्घोषना च तब्दील करने आहली उद्घोषना दा, स्थिति मताबक, ना-मंजूर जां उसगी असरी बनाई रक्खने गी ना-मंजूर करने आहले प्रस्ताव गी पेष करने दी अपनी मंषा दी सूचना लोक सभा दी कुल सदस्यें दी गितरी दे घट्टो-घट्ट दसमें हिस्से आसेआ दसखत करिये लिखती रूपे च, -

(क) जेकर लोक सभा सत्र च ऐ तां अध्यक्ष गी, जां

(ख) जेकर लोक सभा सत्र च नेई ऐ तां राष्ट्रपति गी,

दित्ती गेदी ऐ उत्थै नेह प्रस्तावै पर विचार करने दे मकसद आस्तै लोक सभा दी चेची बैठक, स्थिति मताबक, अध्यक्ष जां राष्ट्रपति गी नेही सूचना थहोने दी तरीक थमां चौहदें दिनें दे अंदर कीती जाहग।]

¹[²(9)] इस अनुच्छेद राहें राष्ट्रपति गी दित्ते गेदे अख्तेआरें तैह्त, युद्ध जां बाहरी हमले जां ³[सशस्त्र विद्रोह] जां युद्ध जां बाहरी हमले जां ³[सशस्त्र विद्रोह] दा खतरा नेडे होने दे बक्ख-बक्ख अधारें पर बक्ख-बक्ख उद्घोषनां करने दा अख्तेआर होग भाएं राष्ट्रपति ने खंड (1) दे तैह्त पैहलें गै कोई उद्घोषना कीती दी ऐ जां नेई ते नेही उद्घोषना चलन च है जां नेई।

⁴*

*

*

*

1. संविधान (ठत्तिमीं तरमीम) अधिनियम, 1975 दी धारा 5 राहें (पछेत्तरे प्रभाव थमां) अंतरस्थापत।
2. संविधान (चरतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 37 राहें (20-6-1979 थमां) खंड (4) गी खंड (9) दे रूपे च मुढी गिनेआ गेआ।
3. संविधान (चरतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 37 राहें (20-6-1979 थमां) "अंदरुनी गड़बडी" दे थाहरे पर प्रतिस्थापत।
4. संविधान (चरतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 37 राहें (20-6-1979 थमां) खंड (5) दा लोप कीता गेआ।

भारत दा संविधान

(भाग 18 - अमरजैसी प्रावधान)

353. अमरजैसी दी उद्घोषणा दा असर – जिसलै अमरजैसी दी उद्घोषणा चलन च ऐ उसलै –

(क) संविधान'च बावजूद एहदे, संघ दे कार्यपालिका अख्तेआरें दा विस्तार कुसै रियासत गी इस बारे'च हिदायत देने तगर होग जे ओह रियासत अपने कार्यपालिका अख्तेआरें दी किस चाल्ली कन्नै बरतून करै;

(ख) कुसै मामले दे सरबंधै'च कनून बनाने दे संसद दे अख्तेआर तैहत बावजूद एहदे, जे ओह संघ सूची दी गिंतरी 'च शामिल मामला नेई ऐ, नेह कनून बनाने दा अख्तेआर होग जेहडे उस मामले दे सरबंधै'च संघ गी जां संघ दे अधिकारियें ते प्राधिकारियें गी अख्तेआर प्रदान करदे न ते उं'दे पर जिम्मेवारियां सौंपने दा अधिकार दिंदे न ते कर्तबबे दा अधिकार दित्ते जाने लेई प्राधिकृत करदे न:

¹[पर जित्थे अमरजैसी दी उद्घोषणा भारत दे राज्यक्षेत्र दे सिर्फ कुसै हिस्से'च चलन'च ऐ उत्थे जेकर ते जित्थूं तगर भारत जां उसदे राज्यक्षेत्र दे कुसै हिस्से दी सुरक्षा, भारत दे राज्यक्षेत्र दे उस हिस्से च जां उसदे सरबंधै'च, जिस'च अमरजैसी दी उद्घोषणा चलन च ऐ, होने आहली गतिविधियें कारण खतरे'च ऐ तां ते उत्थूं तगर, –

(i) खंड (क) तैहत हिदायत देने दी संघ दे कार्यपालिका अख्तेआर दा, ते

(ii) खंड (ख) तैहत कनून बनाने दे संसद दे अख्तेआर दा, विस्तार कुसै नेही रियासतें पर बी होग जेहड़ी उस रियासतें थमां बकख ऐ जिस'च जां जिसदे कुसै हिस्से'च अमरजैसी दी घोषणा चलन च ऐ।]

354. जिसलै अमरजैसी दी उद्घोषणा लागू ऐ उसलै राजस्वें दी बंड सरबन्धी प्रावधानें दा लागू होना –(1) जिसलै अमरजैसी दी उद्घोषणा चलन'च ऐ उसलै राष्ट्रपति, हुकमै राहें, एह हिदायत देई सकग जे इस संविधान दे अनुच्छेद 268 थमां अनुच्छेद 279 दे सब्भै जां कोई प्रावधान नेही कुसै औद्ध आस्तै, जेहडे उस हुकमै'च टकोहदे दस्से जाहन ते जेहडे कुसै बी सूरतै'च उस माल्ली ब'रे दे मुक्कने थमां अगें नेई बधडन, जिस'च इस चाल्ली दी उद्घोषणा चलन'च नेई रौहदी ऐ, इस चाल्ली दे अपवादें जां सुधारें तैहत रौहदे होई असरी होडन जेहडे ओह ठीक समझै।

(2) खंड (1) दे तैहत कीता गेदा हर इक हुकम, कीते जाने दे बाद, तौले थमां तौले, संसद दे हर इक सदन दे सामनै रक्खेआ जाहग।

355. बाहरी हमला ते अंदरूनी गडबड़ी कन्नै रियासतें दी रक्षा करने दा संघ दा कर्तबब – संघ दा एह फर्ज होग जे ओह बाहरी हमले ते अंदरूनी गडबड़ी थमां हर इक रियासतै दी रक्षा करै ते हर इक रियासत दी सरकार दा इस संविधान दे प्रावधानें मताबक चलाया जाना जकीनी बनाऽ।

356. रियासतें च संविधानक तंत्र दे नाकाम होई जाने दी सूरत च प्रावधान – (1) जेकर राष्ट्रपति दा कुसै रियासत दे राज्यपाल ²*** थमां रपोट मिलने पर जां पही, एह संतुष्टी होई जंदी ऐ जे नेही स्थिति पैदा होई गई ऐ जिस'च उस रियासतै दा शासन इस संविधान दे प्रावधानें मताबक नेई चलाया जाई सकदा ऐ तां राष्ट्रपति उद्घोषणा राहें –

(क) उस रियासतै दी सरकार दे सब्भै जां कोई कम्म ते ³[राज्यपाल] च जां राज्य दे विधान-मंडल थमां बकख रियासतै दे कुसै अदारे जां प्राधिकारी गी हासल जां उसदे आसेआ बरतून जोग सब्भै जां कोई अख्तेआर अपने हत्थे च लेई सकग;

1. संविधान (बतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 49 राहें (3-1-1977 थमां) अंतरस्थापत।

2. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें "जां राजप्रमुख" शब्दें दा लोप कीता गेआ।

3. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें "स्थिति मताबक, राज्यपाल जां राजप्रमुख" शब्दें दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।

(ख) एह घोषणा करी सकग जे रियासती विधान-मंडल दे अख्तेआर संसद आसेआ जां ओहदे प्राधिकार दे तैह्त बरतून'च होडन;

(ग) रियासत दे कुसै अदारे जां प्राधिकारी कन्नै सरबंधत इस संविधान दे किष प्रावधानें दे चलन गी पूरी चाल्ली जां हिस्सें च स्थगत करने आस्तै प्रावधानें सनें नेह् घटनात्मी ते नतीजक सरिस्ते करी सकग जेह्दे उद्घोषणा दे मकसदें गी असरी करने आस्तै राष्ट्रपति गी जरूरी जां लोडचदे मसूस होन :

पर इस खंड दी कोई गल्ल राष्ट्रपति गी उच्च अदालत च शामल, जां ओहदे आसेआ बरते जाने आहले कुसै अख्तेआर गी अपने हत्थे'च लैने जां उच्च अदालत कन्नै सरबंधत इस संविधान दे कुसै प्रावधान दे चलन गी पूरी चाल्ली जां हिस्सें च स्थगत करने आस्तै प्राधिकृत नेई करग।

(2) नेही कोई उद्घोषणा कुसै परैतरी उद्घोषणा राहें बापस लैती जाई सकग जां उस'च बदलाऽ कीता जाई सकग।

(3) इस अनुच्छेद दे तैह्त कीती गेदी हर इक उद्घोषणा संसद दे हर इक सदन दे सामनै रक्खी जाह्ग ते जित्थै ओह् पछेत्तरी उद्घोषणा गी परताने आहली उद्घोषणा नेई ऐ उत्थै ओह् द'ऊं म्हीनें दे मुक्कने पर चलन'च नेई रौह्ग जेकर उस औद्ध दे मुक्कने थमां पैहलें संसद दे दौनें सदनें दे प्रस्तावें राहें उसगी मंजूर नेई करी दित्ता जंदा ऐ:

पर जेकर नेही कोई उद्घोषणा (जेह्डी पछेत्तरी उद्घोषणा गी परताई लैने आहली उद्घोषणा नेई ऐ) उसलै कीती जंदी ऐ जिसलै लोक सभा भंग होई गेदी ऐ जां लोक सभा इस खंड'च दस्सी गेदी द'ऊं म्हीनें दी औद्ध दरान भंग होई जंदी ऐ ते जेकर उद्घोषणा गी मंजूर करने आहला प्रस्ताव राज्य सभा आसेआ पास करी दित्ता गेआ ऐ, पर नेही उद्घोषणा दे सरबंधे'च कोई प्रस्ताव लोक सभा आसेआ उस औद्ध दे मुक्कने थमां पैहलें पास नेई कीता गेदा ऐ तां, उद्घोषणा उस तरीक थमां जिसगी लोक सभा अपने मुढ-गठन परैत पैहली बारी बाँहदी ऐ, त्रीहें दिनें दे मुक्कनें पर, चलन'च नेई रौह्ग जेकर आखे गेदे त्रीहें दिनें दी औद्ध दे मुक्कने थमां पैहलें उद्घोषणा गी मंजूर करने आहला प्रस्ताव लोक सभा आसेआ बी पास नेई करी दित्ता जंदा ऐ।

(4) इस चाल्ली मंजूरशुदा उद्घोषणा, जेकर बापस नेई लैती जंदी ऐ तां, ¹[नेही उद्घोषणा दे कीते जाने दी तरीक थमां छें म्हीनें] दी औद्ध दे मुक्कने पर चलन'च नेई रौह्ग:

पर जेकर ते जिन्नीं बारी नेही उद्घोषणा गी चलन च बनाई रक्खने गी मंजूर करने आहला प्रस्ताव संसद दे दौनें सदनें आसेआ पास करी दित्ता जंदा ऐ तां होर उन्नीं बारी एह् उद्घोषणा, जेकर परताई नेई लैती जंदी ऐ तां, उस तरीक थमां जिसगी ओह् इस खंड दे तैह्त जां पही चलन च नेई रौह्दी ऐ, ²[छें म्हीनें] दी औद्ध तगर चलन'च रौह्ग, पर नेही उद्घोषणा कुसै बी सूरतै'च त्र'ऊं ब'रें थमां बद्ध चलन च नेई रौह्ग:

-
1. संविधान (चरतालिमी तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 38 राहें (20-6-1979 थमां) "खंड (3) दे तैह्त उद्घोषणा जां अनुमोदन करने आहले प्रस्तावें चा दूर दे पास होई जाने दी तरीक थमां इक ब'रा" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत। संविधान (बतालिमी तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 50 राहें (3-1-1977 थमां) मूल शब्द "छे म्हीनें" दे थाहरै पर "इक ब'रा" शब्द प्रतिस्थापत कीते गे हे।
 2. संविधान (चरतालिमी तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 38 राहें (20-6-1979 थमां) "इक ब'रा" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत। संविधान (बतालिमी तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 50 राहें (3-1-1977 थमां) "छे म्हीनें" मूल शब्द दे थाहरै पर "इक ब'रा" शब्द प्रतिस्थापत कीते गे हे।

भारत दा संविधान

(भाग 18 - अमरजैसी प्रावधान)

पर अगें इ'यां जे लोक सभा जेकर ¹[छें म्हीनें] दी नेही औद्ध दरान भंग होई जंदी ऐ ते नेही उद्घोषना गी चलन'च रक्खने गी मंजूर करने आह्ला प्रस्ताव राज्य सभा आसेआ पास करी दित्ता गोआ ऐ, पर नेही उद्घोषना गी चलन'च रक्खने दे सरबंध'च कोई प्रस्ताव लोक सभा आसेआ उपपर आखी गेदी औद्ध दरान पास नेई कीता गोआ ऐ तां, उद्घोषना उस तरीक थमां, जिसगी लोक सभा अपने मुढ-गठन परेंत पैहली बारी बाँह्दी ऐ, त्रीहें दिनें दे मुक्कने पर, चलन च नेई रौह्ग जेकर इ'नें त्रीहें दिनें दी औद्ध दे मुक्कने थमां पैहलें उद्घोषना गी चलन'च रक्खने गी मंजूर करने आह्ला प्रस्ताव लोक सभा आसेआ बी पास नेई करी दित्ता जंदा ऐ:

²[पर एह बी जे पंजाब रियासत दे सरबंध'च 11 मई, 1987 गी खंड (1) दे तैह्त कीती गेदी उद्घोषना दी सूत'च, इस खंड दे पैहले परंतुक च "त्र'ऊं ब'रें" आस्तै हिदायत दा अर्थ इस चाल्ली लाया जाह्ग जि'यां आखो ओह ³[प'जें ब'रें] आस्तै हिदायत होऐ।]

⁴[(5) खंड (4) च बावजूद एह्दे, खंड(3) दे तैह्त मंजूरपुदा उद्घोषना दे कीते जाने दी तरीक थमां इक ब'रे दे मुक्कने थमां अगें कुसै औद्ध आस्तै नेही उद्घोषना गी चलन च रक्खने दे सरबंध'च कोई प्रस्ताव संसद दे कुसै सदन आसेआ उसलै पास कीता जाह्ग जिसलै -

(क) नेह प्रस्ताव दे पास कीते जाने बेल्लै अमरजैसी दी उद्घोषना, स्थिति मताबक, सबूरे भारत'च जां सबूरी रियासतै जां उसदे कुसै हिस्से'च चलन'च ऐ; ते

(ख) चनांS आयोग एह साबत करी ओड़दा ऐ जे नेह प्रस्ताव च टकोह्दी दस्सी गेदी औद्ध दरान खंड (3) दे तैह्त मंजूर उद्घोषना गी चलन'च बनाई रक्खना, सरबंधत रियासती विधान सभा दे आम चनांS करोआने'च औखें कारण, जरूरी ऐ:]

⁵[पर इस खंड दी कोई गल्ल पंजाब रियासतै दे सरबंध'च 11 मई, 1987 गी खंड (1) दे तैह्त कीती गेदी उद्घोषना पर लागू नेई होग।]

357. अनुच्छेद 356 दे तैह्त कीती गेदी उद्घोषना तैह्त विधायी अख्तेआरें दी बरतून - (1) जित्थै अनुच्छेद 356 दे खंड (1) दे तैह्त कीती गेदी उद्घोषना राहें एह घोषना कीती गई ऐ जे रियासती विधान-मंडल दे अख्तेआर संसद आसेआ जां उसदे प्राधिकार तैह्त बरतूनजोग होडन उत्थै -

(क) रियासती विधान-मंडल दा कनून बनाने दा अख्तेआर राष्ट्रपति गी दुआने दा ते इस चाल्ली दुआए गेदे अख्तेआर दा कुसै होर प्राधिकारी गी, जिसी राष्ट्रपति इस नमित्त टकोह्दा निष्चत करै, नेहियें शर्तें तैह्त, जि'नें गी

1. संविधान (चरतालिसी तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 38 राहें (20-6-1979 थमां) "इक ब'रा" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत। संविधान (बतालिसी तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 50 राहें (3-1-1977 थमां) मूल शब्द "छे म्हीनें" दे थाहरै पर "इक ब'रा" शब्द प्रतिस्थापत कीते गे हे।
2. संविधान (चौहठमी तरमीम) अधिनियम, 1990 दी धारा 2 राहें अंतरस्थापत।
3. संविधान (सताहठमी तरमीम) अधिनियम, 1990 दी धारा 2 राहें ते ओह्दे परेंत संविधान (ठाहरमी तरमीम) अधिनियम, 1991 दी धारा 2 राहें तरमीम होइयै मजूदा रूप'च आया।
4. संविधान (चरतालिसी तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 38 राहें (20-6-1979 थमां) "खंड 5 दे थाहरै पर प्रतिस्थापत। संविधान (ठत्तिसी तरमीम) अधिनियम, 1975 दी धारा 6 राहें (पछेत्तरे प्रभाव थमां) खंड (5) अंतरस्थापत कीता गोआ।
5. संविधान (त्रेंहठमी तरमीम) अधिनियम, 1989 दी धारा 2 राहें (6-1-1990 थमां) मूल परंतुक दा लोप कीता गोआ जिसगी संविधान (चौहठमी तरमीम) अधिनियम, 1990 दी धारा 2 राहें अंतरस्थापत कीता गोआ हा।

भारत दा संविधान

राष्ट्रपति सौंपना ठीक समझै, नुमायंदगी करने आस्तै राष्ट्रपति गी अधिकार देने दी संसद गी;

(ख) संघ जां ओहदे अधिकारियें ते प्राधिकारियें गी अख्तेआर प्रदान करने जां उं दे पर जिम्मेदारियां पाने आस्तै जां अख्तेआरें दा दित्ता जाना जां कर्त्तबबें दा सौंपेआ जाना प्राधिकृत करने आस्तै, कनून बनाने दा संसद गी जां राष्ट्रपति गी जां नेह होरनें प्राधिकारियें गी, जिस'च नेहा कनून बनाने दा अख्तेआर उपखंड (क) दे तैहत् शामिल ऐ;

(ग) जिसलै लोक सभा सत्र च नेई ऐ उसलै राज्य दे कठेरमे कोष चा खर्च आस्तै, संसद दी मंजूरी नेई मिलने तगर इस चाल्ली दे खर्चें गी अधिकार देने दी राष्ट्रपति गी;

समर्था होग।

¹[(2) रियासती विधान-मंडल दे अख्तेआरें दी बरतून करदे होई संसद आसेआ, जां राष्ट्रपति जां, खंड (1) दे उपखंड (क) च दस्से गेदे होर प्राधिकारी आसेआ, बनाए गेदे नेह कनून, जिसगी संसद जां राष्ट्रपति जां नेहा होर प्राधिकारी अनुच्छेद 356 दे तैहत् कीती गेदी उद्घोषना दे नेई होने दी सूरतें'च बनाने आस्तै समर्थ नेई होंदा, उद्घोषना दे चलन'च नेई रौहने परैत्त उसलै तगर चलन'च बनी रौहग जिसलै तगर समर्थ विधान-मंडल जां कुसै होर प्राधिकारी आसेआ उसगी बदलेआ, रद्द जां तरमीम नेई करी दित्ता जंदा ऐ।]

358. अमरजैसी दरान अनुच्छेद 19 दे प्रावधानं दी मोत्तली – ²[(1)] ³[जिसलै युद्ध जां बाहरी हमले कारण भारत जां ओहदे राज्यक्षेत्र दे कुसै हिस्से दी सुरक्षा दे खतरे च होने दी घोषना करने आहली अमरजैसी दी उद्घोषना चलन'च ऐ] उसलै अनुच्छेद 19 दी कोई गल्ल भाग 3 च जि'यां परिभाषत रियासत दा कोई नेहा कनून बनाने दा जां कोई नेही कार्यपालिका कारवाई करने दे अख्तेआर गी, जिसगी ओह रियासत उस हिस्से'च शामिल प्रावधानें दे नेई होने पर बनाने जां करने आस्तै समर्थ होंदा, नेई रोकग, पर इस चाल्ली बनाया गेदा कोई कनून उद्घोषना दे चलन च नेई रौहने पर असमर्थता दी मात्तरा तगर उ'नें गल्लें दे छुट्ट झट्ट प्रभाव-हीन होई जाहग, जि'नेंगी कनून दे इस चाल्ली प्रभाव-हीन होने थमां पैहलें कीता गेदा ऐ जां करने दा लोप कीता गेआ ऐ:

⁴[पर ⁵[जित्थै अमरजैसी दी नेही उद्घोषना] भारत दे राज्यक्षेत्र दे सिर्फ कुसै हिस्से च चलन'च ऐ उत्थै, जेकर ते जित्थै भारत जां उसदे राज्यक्षेत्र दे कुसै हिस्से दी हिफाजत, भारत दे राज्यक्षेत्र दे उस हिस्से च जां उसदे सरबंधें'च, जिस'च अमरजैसी दी उद्घोषना चलन'च ऐ, होने आहली गतिविधियें कारण खतरे च ऐ तां ते उत्थूं तगर, नेह राज्य जां संघ राज्यक्षेत्र च जां उसदे सरबंधें'च जिस'च जां जिसदे कुसै हिस्से'च अमरजैसी दी उद्घोषना चलन'च नेई ऐ, इस अनुच्छेद दे तैहत् नेहा कोई कनून बनाया जाई सकग जां नेही कोई कार्यपालिका कारवाई कीती जाई सकग।]

⁶[(2) खंड (1) दी कोई गल्ल, –

1. संविधान (बतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 51 राहें (3-1-1977 थमां) खंड (2) दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
2. संविधान (चरतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 39 राहें (20-6-1979 थमां) अनुच्छेद 358 गी उसदे खंड (1) दे रूपें'च मुड़ी गिनेआ गेआ।
3. संविधान (चरतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 39 राहें (20-6-1979 थमां) "जिसलै अमरजैसी दी उद्घोषना चलन च ऐ" शब्दें दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
4. संविधान (बतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 52 राहें (3-1-1977 थमां) अंतरस्थापत।
5. संविधान (चरतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 39 राहें (20-6-1979 थमां) "जिसलै अमरजैसी दी उद्घोषना चलन च ऐ" शब्दें दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
6. संविधान (चरतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 39 राहें (20-6-1979 थमां) अंतरस्थापत।

भारत दा संविधान

(भाग 18 – अमरजैसी प्रावधान)

(क) कुसै नेह कनूनै गी लागू नेई होग जिस'च इस अभिप्राय दा उल्लेख शामिल नेई ऐ जे इस चाल्ली दा कनून उसदे बनाए जाने दे बेल्लै चलन'च अमरजैसी दी उद्घोषना दे सरबंधे च ऐ; जां

(ख) कुसै नेही कार्यपालिका कारवाई गी लागू नेई होग जेहड़ी इस चाल्ली दा उल्लेख शामिल करने आहले कनूनै दे तैहत नेई करिये कुसै होर रूपै'च कीती गेदी ऐ।]

359. अमरजैसी दरान भाग 3 राहें दित्ते गेदे अधिकारें दे लागू रौहने पर स्थगन – (1) जित्थै अमरजैसी दी उद्घोषना चलन'च ऐ उत्थै राष्ट्रपति, हुकमै राहें एह घोषना करी सकग जे ¹[(अनुच्छेद 20 ते अनुच्छेद 21 गी छोड़िये) भाग 3 राहें दित्ते गेदे नेह अधिकारें] गी लागू करोआने आस्तै जेहड़े उस हुकमै'च जकरोए जाहन, कुसै अदालत च जाने दा अधिकार ते इस चाल्ली जकरोए दे अधिकारें गी चलन च आहनने आस्तै कुसै अदालत च विचाराधीन सभै कारवाइयां उस औद्ध आस्तै जिसदे दरान उद्घोषना चलन'च रौहदी ऐ जां उस थमां घट्टो-घट्ट नेही औद्ध आस्तै जेहड़ी हुकमै च खास तौरै पर दित्ती जा, स्थगत रौहग।

²[(1क) जिसलै ¹[(अनुच्छेद 20 ते अनुच्छेद 21 गी छोड़िये) भाग 3 राहें दित्ते गेदे किष अधिकारें] दा जिकर करने आहले खंड (1) दे तैहत कीता गेदा हुकम चलन'च ऐ उसलै उस भाग च उ'नें अधिकारें गी देने आहली कोई गल्ल उस भाग'च जि'यां परिभाषत रियासत दा कोई नेहा कनून बनाने दी जां कोई नेही कार्यपालिका कारवाई करने दे अख्तेआर गी, जिसगी ओह रियासत उस भाग'च शामिल प्रावधानें दे नेई होने दी स्थिति च, बनाने जां करने आस्तै समर्थ होंदा, रकावट नेई पाहग, पर इस चाल्ली बनाया गेदा कोई कनून पैहलें जकरोए दे हुकमै दे चलन'च नेई रौहने पर समर्थ नेई रौहने दी मात्रा तगर उ'नें गल्ले दे छुट्ट झट्ट प्रभाव-हीन होई जाहग, जि'नेंगी कनूनै दे इस चाल्ली प्रभाव-हीन होने थमां पैहलें कीता गेआ ऐ जां करने दा लोप कीता गेआ ऐ:]

³[पर जित्थै अमरजैसी दी उद्घोषना भारत दे राज्यक्षेत्र च सिर्फ कुसै हिस्से'च चलन'च ऐ उत्थै, जेकर ते जित्थूं तगर भारत जां उसदे राज्यक्षेत्र दे कुसै हिस्से दी सुरक्षा, भारत दे राज्यक्षेत्र दे उस हिस्से'च जां उसदे सरबंधे'च , जिस'च अमरजैसी दी उद्घोषना चलन च ऐ, होने आहली गतिविधियें कारण खतरे'च ऐ तां होर जित्थूं तगर, नेही रियासत जां संघ राज्यक्षेत्र'च जां उसदे सरबंधे'च, जिस'च जां जिस कुसै हिस्से'च अमरजैसी दी उद्घोषना चलन'च नेई ऐ, इस अनुच्छेद दे तैहत नेहा कोई कनून बनाया जाई सकग जां नेही कोई कार्यपालिका कारवाई कीती जाई सकग।]

⁴[(1ख) खंड (1क) दी कोई गल्ल –

(क) कुसै नेह कनूनै गी लागू नेई होग जिस'च इस मकसद दा जिकर शामिल नेई है जे नेहा कनून उसदे बनाए जाने दे बेल्लै लागू अमरजैसी दी उद्घोषना दे सरबंधे'च ऐ; जां

(ख) कुसै नेही कार्यपालिका कारवाई गी लागू नेई होग जेहड़ी नेहा जिकर शामिल करने आहले कनूनै तैहत नेई करिये होर कुसै रूपै'च कीता गेदा ऐ।]

(2) पैहलें आखे गेदे रूपै'च कीते गेदे हुकमै दा विस्तार भारत दे सबूरे राज्यक्षेत्र जां उसदे कुसै हिस्से पर होई सकग:

1. संविधान (चरतालिमी तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 40 राहें (20-6-1979 थमां) "भाग 3 राहें दित्ते गेदे अधिकारें" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
2. संविधान (ठत्तिमी तरमीम) अधिनियम, 1975 दी धारा 7 राहें (पछेत्तरे प्रभाव थमां) अंतरस्थापत।
3. संविधान (बतालिमी तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 53 राहें (3-1-1977 थमां) अंतरस्थापत।
4. संविधान (चरतालिमी तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 40 राहें (20-6-1979 थमां) अंतरस्थापत।

भारत दा संविधान

(भाग 18 – अमरजैसी प्रावधान)

¹[पर जित्थे अमरजैसी दी उद्घोषना भारत दे राज्यक्षेत्र दे सिर्फ कुसै हिस्से'च चलन'च ऐ उत्थे कुसै नेह हुकमै दा विस्तार भारत दे राज्यक्षेत्र दे कुसै होर हिस्से पर उसलै गै होग जिसलै राष्ट्रपति गी एह संतुष्टी होई जाने पर जे भारत जां उसदे राज्यक्षेत्र दे कुसै हिस्से दी सुरक्षा, भारत दे राज्यक्षेत्र दे उस हिस्से'च जां उसदे सरबंधे'च, जिस'च अमरजैसी दी घोषना चलन'च ऐ, होने आहली गतिविधिये कारण खतरे'च ऐ, नेहा विस्तार जरूरी समझदा ऐ।]

(3) खंड (1) दे तैहत कीता गेदा हर इक हुकम, कीते जाने दे बाद तौले थमां तौले, संसद दे हर इक सदन सामनै रक्खेआ जाहग।

²359क. [इस भाग दा पंजाब रियासतै पर लागू होना।]— संविधान (त्रेहठमी तरमीम) अधिनियम, 1989 दी धारा-3 राहें (6-1-1990 थमां) रदद।

360. वित्त सरबन्धी अमरजैसी दे बारै प्रावधान — (1) जेकर राष्ट्रपति गी एह संतुष्टी होई जंदी ऐ जे नेही स्थिति पैदा होई गई ऐ जिस कन्ने भारत जां उसदे राज्यक्षेत्र दे कुसै हिस्से दी माल्ली स्थिरता जां ज'मा पूंजी खतरे'च ऐ तां ओह उद्घोषना राहें इस आस्तै घोषना करी सकग।

³[(2) खंड (1) दे तैहत कीती गेदी उद्घोषना —

(क) कुसै अगेत्तरी उद्घोषना राहें बापस लैती जाई सकग जां बदली जाई सकग;

(ख) संसद दे हर इक सदन सामनै रक्खी जाहग;

(ग) द'ऊं म्हीनें दे मुक्कने पर, चलन'च नेई रौहग जेकर उस औद्ध दे मुक्कने थमां पैहलें संसद दे दौनें सदन दे प्रस्तावे राहें उसगी मंजूर नेई करी दित्ता जंदा ऐ;

पर जेकर नेही कोई उद्घोषना उसलै कीती जंदी ऐ जिसलै लोक सभा भंग होई गेदी ऐ जां लोक सभा उपखंड (ग) च दस्से गेदे द'ऊं म्हीने दी औद्ध दरान भंग होई जंदी ऐ ते जेकर उद्घोषना गी मंजूर करने आहला प्रस्ताव राज्य सभा आसेआ पास करी दित्ता गेआ ऐ, पर नेही उद्घोषना दे सरबन्धे'च कोई प्रस्ताव लोक सभा आसेआ उस औद्ध दे मुक्कने थमां पैहलें पास नेई कीता गेआ ऐ तां उद्घोषना उस तरीक थमां जिसगी लोक सभा अपने मुढ-गठन दे बाद पैहली बारी बाँहदी ऐ, त्रीहें दिनें दी औद्ध मुक्कने पर चलन'च नेई रौहग जेकर आखे गेदे त्रीहें दिनें दी औद्ध दे मुक्कने थमां पैहलें उद्घोषना गी मंजूर करने आहला प्रस्ताव लोक सभा आसेआ बी पास नेई करी दित्ता जंदा ऐ।]

(3) उस औद्ध दे दरान, जिस'च खंड (1)'च जकरोई दी उद्घोषना चलन'च नेई रौहदी ऐ, संघ दे कार्यपालिका अख्तेआरें दा विस्तार कुसै रियासत गी माल्ली औचित्य सरबन्धी नेह नियमें दा पालन करने आस्तै हिदायत देने तगर, जेहड़ा हिदायतें च दस्सेआ जा, ते नेहियां होर हिदायतां देने तगर होग जि'नेंगी राष्ट्रपति उस मकसद आस्तै देना जरूरी ते ठीक समझै।

-
1. संविधान (बतालिमी तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 53 राहें (3-1-1977 थमां) अंतरस्थापत।
 2. संविधान (नाहठमी तरमीम) अधिनियम, 1988 दी धारा 3 राहें अंतरस्थापत। एह, इस अधिनियम दे रम्भ थमां, अर्थात् 1988 दे मार्च दे तेहरमें दिने थमां द'ऊं ब'रें दी औद्ध दे मुक्कने परेंत चलन च नेई रौहग।
 3. संविधान (चरतालिमी तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 41 राहें (20-6-1979 थमां) खंड (2) दे धाहरे पर प्रतिस्थापत।

भारत दा संविधान

(भाग 18 — अमरजैसी प्रावधान)

(4) इस संविधान'च बावजूद एहदे, -

(क) नेही कुसै हिदायत दे तैह्त -

(i) कुसै रियासत दे कम्म-काजें दे सरबंघे'च सेवा करने आहले सभनें जां कुसै वर्ग दे व्यक्तियें दियें तनखाहीं ते भत्ते'च कमी दी मेद करने आह्ला प्रावधान;

(ii) धन बिल्लें जां होरनें नेह् बिल्लें गी, जि'नेंगी अनुच्छेद 207 दे प्रावधान लागू होंदे न, रियासत दे विधान-मंडल आसेआ पास कीते जाने दे बाद राष्ट्रपति दे विचार आस्तै मखसूस रक्खने आस्तै प्रावधान,

होई सकडन;

(ख) राष्ट्रपति, उस औद्ध दरान, जिस'च इस अनुच्छेद दे तैह्त कीती गेदी उद्घोषना चलन'च रौहदी ऐ, संघ दे कम्म-काजें दे सरबंघे'च सेवा करने आहले सभनें जां कुसै वर्ग दे व्यक्तियें दे, जि'दे तैह्त सर्वोच्च अदालत ते उच्च अदालतें दे जज्ज न, तनखाहीं ते भत्ते'च कमी करने आस्तै हिदायत देने आस्तै समर्थ होग।

1

*

*

*

*

*

1. संविधान (ठत्तिमी तरमीम) अधिनियम, 1975 दी धारा 8 राहें (पछेत्तरे प्रभाव थमां) खंड (5) अंतरस्थापत कीता गेआ हा ते ओह्दा संविधान (चरतालिमी तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 41 राहें (20-6-1979 थमां) लोप कीता गेआ।

361. राष्ट्रपति ते राज्यपालें ते राजप्रमुखें दा संरक्षण – राष्ट्रपति जां रियासतें दे राज्यपाल जां राजप्रमुख अपने ओहदे दे अख्तेआरें दे इस्तेमाल ते कर्तबें दे पालन आस्तै जां उ'नें अख्तेआरें दी बरतून ते कर्तबें दा पालन करदे होई अपने आसेआ कीते गेदे जां कीते जाने आहले कुसै इच्छत कम्मै आस्तै कुसै अदालती गी जवाबदेह नेई होग:

पर अनुच्छेद 61 दे तैहूत दोष दी पड़ताल आस्तै संसद दे कुसै सदन आसेआ नियुक्त जां मनोनीत कुसै अदालतै, ट्रिब्यूनल जां अदारे आसेआ राष्ट्रपति दे आचरण दी नज़रसानी कीती जाई सकग;

पर एह होर जे इस खंड दी कुसै गल्लै दा एह अर्थ नेई लाया जाहग जे ओह भारत सरकार जां कुसै रियासती सरकार दे खलाफ उचित कारवाइयां चलाने दे कुसै व्यक्ति दे अख्तेआरें पर रोक लांदी ऐ।

(2) राष्ट्रपति जां कुसै रियासतें दे राज्यपाल ^{1***} दे खलाफ उसदे ओहदे दी औद्ध दरान कुसै अदालती'च कुसै बी किसम दी अपराधक कारवाई नां ते चलाई जाहग ते नां गै चालू रक्खी जाहग।

(3) राष्ट्रपति जां कुसै रियासतें दे राज्यपाल ^{1***} दे ओहदे दी औद्ध दरान उसदी गिरफ्तारी जां कैद आस्तै कुसै अदालती थमां कोई हुकम जारी नेई कीता जाहग।

(4) राष्ट्रपति जां कुसै रियासतें दे राज्यपाल ^{1***} दे रूपै'च अपना ओहदा सम्हालने थमां पैहलें जां उसदे बाद उसदे आसेआ अपनी निजी हैसियत च कीते गेदे जां कीते जाने आस्तै इच्छत कुसै कम्मै दे सरबंधै'च कोई सिविल कारवाइयां, जिं'दे च राष्ट्रपति जां नेही रियासतें दे राज्यपाल ^{1***} दे खलाफ राहत दा दा'वा कीता जंदा ऐ, उसदे ओहदे दी औद्ध दरान कुसै अदालती'च उसलै तगर नेई लाया जाहग जिसलै तगर कारवाइयें दी प्रकृति, इस आस्तै कारवाई दा कारण, नेहियें कारवाइयें गी लाने आहली पार्टियें दे नांS, वर्णन, रिहायष ते उस राहत दा जिसदा ओह दा'वा करदा ऐ, दी व्याख्या करने आहली लिखत सूचना, स्थिति मताबक, राष्ट्रपति जां राज्यपाल ^{1***} गी प्रदान कीते जाने जां उसदे दपतरै'च छोड़े जाने परैत द'ऊं म्हीनें दा समां समाप्त नेई होई गोआ ऐ।

²[**361क. संसद ते रियासतें दे विधान-मंडलें दियें कारवाइयें दे प्रकाशन दा संरक्षण** – (1) कोई व्यक्ति संसद दे कुसै सदन जां, स्थिति मताबक, कुसै रियासत दी विधान सभा जां कुसै रियासत दे विधान-मंडल दे कुसै सदन दी कु'नें कारवाइयें दे काफी हद्दा तगर स्हेई ब्यौरे दे कुसै अखबारै'च प्रकाषन दे सरबंधै'च कुसै अदालती च कुसै बी चाल्ली दी सिविल जां अपराधक कारवाई उसलै तगर नेई कीती जाहग जिसलै तगर एह साबत नेई करी दित्ता जंदा जे प्रकाषन द्वेष दी भावना कन्नै कीता गेदा ऐ:

पर इस खंड दी कोई गल्ल संसद दे कुसै सदन जां, स्थिति मताबक, कुसै रियासत दी विधान सभा जां कुसै रियासत दे विधान-मंडल दे कुसै सदन दी गुप्त बैठक दी कारवाइयें दे ब्यौरें दे प्रकाषन पर लागू नेई होग।

(2) खंड (1) कुसै प्रसारण केंद्र दे जरिये कन्नै उपलब्ध कुसै कार्यक्रम जां सेवा दे हिस्सें दे रूपै'च बेतार टैलीग्राफी राहें प्रसारत रपोटें जां समगरी दे सरबंधै'च उससै चाल्ली लागू होग जिस चाल्ली ओह कुसै अखबारै'च प्रकाषत रपोट जां समगरी दे सरबंधै'च लागू होंदा ऐ।

स्पष्टीकरण – इस अनुच्छेद'च, "अखबार" तैहूत समाचार अजैसी दी नेही रपोट ऐ जिस'च कुसै अखबारै च प्रकाषन आस्तै समगरी शामिल ऐ।]

1. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें "जां राजप्रमुख" शब्दें दा लोप कीता गोआ।
2. संविधान (चरतालामीं तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 42 राहें (20-6-1979 थमां) अंतरस्थापत।

¹[361ख. लाह आहले राजनीतक आहदे पर नियुक्ति आस्तै अयोग्यता – कुसै राजनीतक दलै दे कुसै सदन दा कोई सदस्य, जेहड़ा दसमीं अनुसूची दे पैरा 2 दे तैहत सदन दा सदस्य होने आस्तै अयोग्य ऐ, अपनी अयोग्यता दी तरीक थमां रम्भ होने आहली ते उस तरीक तगर जिसगी नेह सदस्य दे रूपै च उसदे औहदे दी औद्ध समाप्त होग जां उस तरीक तगर जिसगी ओह कुसै सदन आस्तै कोई चनांऽ लड़दा ऐ, ते चनोए दा घोषत कीता जंदा ऐ, इंदे चा जेहड़ा बी पैहलें होऐ, दी औद्ध दरान, कुसै लाह आहले राजनीतक औहदे गी धारण करने आस्तै बी अयोग्य होग ।

स्पष्टीकरण – इस अनुच्छेद दे मकसदें आस्तै, –

(क) “सदन” पद दा उंऐ मतलब ऐ जेहड़ा उसदा दसमीं अनुसूची दे पैरा 1 दे खंड (क) च ऐ;

(ख) “लाह आहला राजनीतक औहदा” उक्ति दा मतलब ऐ, –

(i) भारत सरकार जां कुसै रियासती सरकार दे तैहत कोई औहदा, जित्थै नेह औहदे आस्तै तनखाह जां मेहनताना, स्थिति मताबक, भारत सरकार जां रियासती सरकार दे लोक राजस्व थमां दित्ता जंदा ऐ; जां

(ii) कुसै अदारे दे तैहत, भाएं निगमत होऐ जां नेई, जेहड़ा पूरी चाल्ली जां आंषिक रूपै च भारत सरकार जां कुसै रियासती सरकार दी मलकीयत ऐ, कोई औहदा ते नेह औहदे आस्तै तनखाह जां मेहनताना नेह अदारे थमां दित्ता जंदा ऐ,

छुट्ट इत्थूं दे जित्थै नेही तनखाह जां मेहनताना मुआवजे दे रूपै च दित्ता जंदा होऐ ।]

²[362. [देसी रियासतें दे हाकमें दे अधिकार ते चेचे अधिकार।] – संविधान (छब्बिमीं तरमीम) अधिनियम, 1971 दी धारा 2 राहें रदद ।

363. किश संधियें, करारें वगैरा थमां पैदा होऐ दे विवादें च अदालतें दे दखल पर रोक –(1) इस संविधान च बावजूद एहदे, पर अनुच्छेद 143 दे प्रावधानें तैहत रौहदे होई, सर्वोच्च अदालत जां कुसै होर अदालत गी कुसै नेही संधि, करार, अनुबंध, वचनबद्धता, सनद जां उंऐ जनेही गै कुसै होर लिखत दे कुसै प्रावधान कन्नै, जेहड़ा इस संविधान दे शुरु थमां पैहलें कुसै देसी रियासत दे हाकमें राहें शुरु जां लागू कीता गेआ हा ते जिस च भारत डोमिनियन दी सरकार जां उस थमां पैहली कोई सरकार इक पक्खकार ही ते जेहड़ी नेही शुरुआत दे बाद चलन च ऐ जां चलन च बनी रेही ऐ, पैदा कुसै विवाद च जां नेही संधि, करार, अनुबंध, वचनबद्धता, सनद जां उंऐ जनेही होर लिखत कन्नै सरबंधत इस संविधान दे कुसै प्रावधान दे तैहत हासल कुसै अधिकार जां उस थमां पैदा कुसै जिम्मेवारी जां बाध्यता दे सरबंधे च कुसै विवाद च अधिकारता नेई होग ।

(2) इस अनुच्छेद च –

(क) “देसी रियासत” दा मतलब नेहा राज्यक्षेत्र ऐ जिसगी हिज मजेस्टी कन्नै जां भारत डोमिनियन दी सरकार कन्नै इस संविधान दे शुरु थमां पैहलें नेही रियासतें दे रूपै च मानता हासल ही; ते

(ख) “हाकम” दे तैहत नेहा राजा, प्रमुख जां होर शख्स ऐ जिसगी हिज मजेस्टी कन्नै जां भारत डोमिनियन दी सरकार कन्नै नेही शुरुआत थमां पैहलें कुसै देसी रियासत दे हाकम दे रूपै च मानता हासल ही ।

1. संविधान (काहनमीं तरमीम) अधिनियम, 2003 दी धारा 4 राहें अंतरस्थापत ।
2. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम 1956, धारा 29 राहें (1-11-1956) ।

[363क. देशो रियासतं दे शासकं गी दित्ती गेदी मानता दी समाप्ति ते प्रिवी पर्स दा अंत – इस संविधान जां उसलै लागू कुसै कनून च बावजूद एहदे बी –

(क) नेहा राजा, प्रमुख जां होर व्यक्ति, जिसगी संविधान (छबिमीं तरमीम) अधिनियम, 1971 दे शुरु थमां पैहलें कुसै बेल्लै राष्ट्रपति थमां कुसै देसी रियासतै दे हाकम दे रूपै च मानता हासल ही, जां नेहा व्यक्ति, जिसी नेही शुरुआत थमां पैहलें कुसै बेल्लै राष्ट्रपति कन्नै नेह शासक दे उत्तराधिकारी दे रूपै च मानता हासल ही, नेही शुरुआत थमां नेह शासक जां नेह शासक दे उत्तराधिकारी दे रूपै च मानता हासल नेई रौहग;

(ख) संविधान (छबिमीं तरमीम) अधिनियम 1971 दी शुरुआत थमां प्रिवी पर्से गी खतम कीता जंदा ऐ ते प्रिवी पर्से कन्नै सरबंधत सबै अधिकार, जिम्मेवारियां ते बाध्यतां खतम कीतियां जंदियां न ते उसदे मताबक खंड (क) च दस्से गेदे, स्थिति मताबक, हाकम जां नेह शासक दे उत्तराधिकारी गी जां होर व्यक्ति गी कुसै राषि गी प्रिवी पर्स दे रूपै च नेई दित्ता जाहग।]

364. बडिडयें बंदरगाहें ते हवाई अड्डें दे बारै बशेश प्रावधान – (1) इस संविधान च बावजूद एहदे बी, राष्ट्रपति लोक अधिसूचना राहें हिदायत देई सकग जे नेही तरीक थमां, जेह्डी उस अधिसूचना च दस्सी जा, –

(क) संसद जां कुसै रियासत दे विधान-मंडल आसेआ बनाया गेदा कोई कनून कुसै महापत्तन जां विमान क्षेत्र गी लागू नेई होग जां नेह अपवादें जां सुधारें दे तैहत् रौहदे होई लागू होग जेह्डे उस अधिसूचना च चेचे तौर पर दस्से जाहन; जां –

(ख) कोई मजूदा कनून कुसै महापत्तन जां विमानक्षेत्र च उ'नें गल्लें दे इलावा असरी नेई रौहग जि'नेंगी आखी गेदी तरीक थमां पैहलें कीता गेआ ऐ जां करने दा लोप कीता गेआ ऐ जां नेह पत्तन जां विमानक्षेत्र गी लागू होने च नेह अपवादें जां सुधारें दे तैहत् रौहदे होई असरी होग जेह्डा उस अधिसूचना च खास तौर पर दस्सेआ जा।

(2) इस अनुच्छेद च –

(क) 'महापत्तन' दा अर्थ नेहा पत्तन ऐ जिसगी संसद आसेआ बनाए गेदे कुसै कनूनें जां कुसै मजूदा कनून राहें जां उसदे तैहत् महापत्तन घोषत कीता गेआ ऐ ते एहदे तैहत् नेह सबै क्षेत्र न जेह्डे उस बेल्लै नेह पत्तन दी हद्दें दे अंदर न;

(ख) "विमानक्षेत्र" कन्नै हवाई रस्ते, हवाई ज्हाजें ते विमान चालन कन्नै सरबंधत अधिनियमितियों दे मकसदें आस्तै परिभाषत विमानक्षेत्र ऐ।

365. संघ आसेआ दित्तियें गेदियें हिदायतें दा पालन करने च जां उ'नेंगी असरी बनाने च असफलता दा प्रभाव – जित्थै इस संविधान दे कुसै प्रावधान दे तैहत् संघ दे कार्यपालिका अख्तेआर दी बरतून करदे होई दित्ती गेदी कुसै हिदायत दा अनुपालन करने च जां उ'नेंगी असरी करने च कोई रियासत नाकामायाब रौहदी ऐ उत्थै राष्ट्रपति आस्तै एह मन्नना कनूनी होग जे नेही स्थिति पैदा होई गई ऐ जिस च उस रियासत दा शासन इस संविधान दे प्रावधानें मताबक नेई चलाया जाई सकदा ऐ।

366. परिभाशां – इस संविधान च, जिसलै तगर जे संदर्भ थमां जां पही लोड नेई होऐ, हेठ लिखे दे पदें दे एह अर्थ न, अर्थात् :-

(1) "करसानी औंदन" दा अर्थ भारती औंदन-टैक्स कन्नै सरबंधत अधिनियमितियों दे मकसदें आस्तै परिभाषत करसानी औंदन ऐ।

(2) "ऐंग्लो इंडियन" दा अर्थ नेहा व्यक्ति ऐ जिसदा पिता जा पितृ-परंपरा च कोई होर आदमी दा जनक यूरोपी उद्भव दा ऐ जां हा, पर जेह्डा भारत दे राज्यक्षेत्र च रौहदा ऐ ते जेह्दा नेह राज्यक्षेत्र च नेह माता-पिता थमां

1. संविधान (छबिमीं तरमीम) अधिनियम, 1971 दी धारा 3 राहें अंतरस्थापत।

जनम होए दा ऐ जां जनम होआ हा जेहड़े उत्थै आमतौर पर निवासी रेह न ते सिर्फ आरजी मकसदें आस्तै वास नेई करा करदे न;

(3) "अनुच्छेद" दा मतलब इस संविधान दा अनुच्छेद ऐ;

(4) "दोहार लैना" दे तैहत् वार्षिकियां देइयै धन लैना ऐ ते "दोहार" दा उसदे मताबक अर्थ लाया जाहग;

¹ * * * * *

(5) "खंड" दा मतलब उस अनुच्छेद दा खंड ऐ जिस'च ओह औहदा औंदा ऐ;

(6) "निगम कर" दा अर्थ कुसै औंदनी पर टैक्स ऐ, जित्थूं तगर ओह टैक्स कंपनियें आसेआ दित्ता जंदा ऐ ते नेहा टैक्स ऐ जिसदे सरबंधें'च हेठ लिखी दियां शर्तां पूरियां होंदियां न, अर्थात् :-

(क) ओह करसानी औंदन दे सरबंधें'च लागू नेई ऐ;

(ख) कंपनियें आसेआ दित्ते जाने आहले टैक्स दे सरबंधें'च कंपनियें आसेआ व्यष्टियें गी दित्ते जाने आहले लाह दे हिस्सें चा कुसै कटौती दा कीता जाना उस टैक्स गी लागू अधिनियमितियें राहें अधिकार प्राप्त नेई ऐ;

(ग) नेह लाह दे अंश हासल करने आहलियें व्यष्टियें दी कुल औंदन दी भारती औंदन टैक्स दे प्रयोजनें आस्तै गिंतरी करने च जां नेहियें व्यष्टियें आसेआ दित्ते जाने आहले जां उं'दे आसेआ लैती जाने आहली भारती औंदन टैक्स दी गिंतरी करने'च, इस चाल्ली दित्ते जाने आहले टैक्स गी स्हाबें'च लैने आस्तै कोई प्रावधान मजदूद नेई ऐ;

(7) शकक दी स्थिति च, "उस-थाहरा आहला प्रांत" "उस-थाहरी देसी रियासत" जां "उस-थाहरी रियासत" दा मतलब नेहा प्रांत, देसी रियासत जां रियासत ऐ, जिसी राष्ट्रपति, सुआल हेठ कुसै खास मकसद आस्तै, स्थिति मताबक, उस-थाहरी प्रांत, उस-थाहरी देसी रियासत जां उस-थाहरी रियासत नर्धारत करै;

(8) "रिण" दे तैहत् वार्षिकियें दे रूपें'च मूल-धन दे परतियै देने दी कुसै बाध्यता दे सरबंधे च कोई जिम्मेवारी ते कुसै गरंटी दे तैहत् कोई जिम्मेवारी ऐ ते "रिण-भार" दा उसदे मताबक अर्थ लाया जाहग;

(9) "संपदा शुल्क" दा मतलब ओह शुल्क ऐ जेहड़ा नेह नियमें दे मताबक जेहड़े संसद जां कुसै रियासत दे विधान-मंडल आसेआ नेह शुल्क दे सरबंधे च बनाए गेदे कनूनें राहें जां उं'दे तैहत् नर्धारत कीते जाहग, मौती पर थांतरण होने आहली जां उप्पर आखे गेदे कनूनें दे प्रावधानें दे तैहत् इस चाल्ली थांतरत समझी गेदी सभनें जायदादें दे मूल मुल्ल पर जां उसदे प्रति हिदायत कन्नै नर्धारत कीता जा;

(10) "मजदूदा कनून" दा अर्थ नेहा कनून, अध्यादेश, हुकम, उपकनून, नियम जां विनियम ऐ जेहड़ा इस संविधान दी शुरुआत थमां पैहलें नेह कनून, अध्यादेश, हुकम, उपकनून, नियम जां विनियमन बनाने दा अख्तेआर रक्खने आहले कुसै विधान-मंडल, प्राधिकारी जां व्यक्ति आसेआ पास कीता गेआ ऐ जां बनाया गेआ ऐ;

(11) "फेडरल अदालत" दा अर्थ भारत शासन अधिनियम, 1935 दे तैहत् गठत फेडरल अदालत ऐ;

(12) "माल" दे तैहत् सभ्भै समगरी, चीजां-बस्तां ते समान ऐ;

²[(12(क)) माल ते सेवाएं उप्पर टैक्स दा अर्थ ऐ माल जां सेवाएं जां दौनें उप्पर टैक्स, बजाय शराबे उप्पर टैक्स दे]

1. संविधान (बतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 54 राहें (1-2-1977 थमां) खंड 4क अंतरस्थापत कीता गेआ हा ते संविधान (तरतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1977 दी धारा 11 राहें (13-4-1978 थमां) लोप कीता गेआ ।

2. संविधान (इक सौ इक तरमीम) अधिनियम 2016, धारा 14(i), (16-9-2016) राहें अंतरस्थापत ।

(13) "गरंटी" दे तैहत् नेही बाध्यता ऐ जिसदा, कुसै उपक्रम दे फायदें दे कुसै दस्सी गेदी रकम थमां घट्ट होने दी हालती च, भुगतान करने दी वचनबद्धता इस संविधान दे रम्भ थमां पैहलें कीती गई ऐ;

(14) "उच्च अदालत" दा मतलब नेही अदालत ऐ जेहड़ी इस संविधान दे मकसदें आस्तै कुसै रियासत आस्तै उच्च अदालत समझी जंदी ऐ ते इसदे तैहत् –

(क) भारत दे राज्यक्षेत्र च इस संविधान दे तैहत् उच्च अदालत दे रूपै'च गटत जां परती गटत कोई अदालत ऐ, ते

(ख) भारत दे राज्यक्षेत्र'च संसद आसेआ कनूनै राहें इस संविधान दे सब्भै जां कु'नें मकसदें आस्तै उच्च अदालत दे रूपै च घोषत कोई होर अदालत ऐ;

(15) "देशी रियासत" दा मतलब नेहा राज्यक्षेत्र ऐ जिसी भारत डोमिनियन दी सरकार आसेआ नेही रियासतै दे रूपै'च मानता हासल ही;

(16) "भाग" दा अर्थ इस संविधान दा भाग ऐ;

(17) "पैषन" दा मतलब कुसै व्यक्ति गी जां उसदे सरबंधे च दिती जाने आहली कुसै चाल्ली दी पैषन ऐ, भाएं ओह स्हायक ऐ जां नेई ते इसदे तैहत् इस चाल्ली दिती जाने आहली सेवानिवृत्ति तनखाह, इस चाल्ली दिती जाने आहली ग्रैज्यूटी ते कुसै भविक्ख निधि दे अंषदानें दी, उ'दे पर ब्याज जां उ'दे'च होर बादधे समेत जां उसदे बगैर बापसी दे रूपै'च इस चाल्ली दिती जाने आहली कोई राषि जां राषियां न;

(18) "अमरजैसी दी उद्घोषना" दा अर्थ अनुच्छेद 352 दे खंड (1) दे तैहत् कीती गेदी उद्घोषना ऐ;

(19) "लोक अधिसूचना" दा अर्थ, स्थिति मताबक, भारत दी गजट च जां कुसै रियासतै दी गजट च अधिसूचना ऐ;

(20) "रेल" दे तैहत् –

(क) कुसै नगरपालिका क्षेत्रै'च पूरी चाल्ली स्थित ट्राम नेई ऐ, जां

(ख) कुसै रियासतै'च पूरी चाल्ली स्थित संचार दी नेही कोई होर लाइन नेई ऐ जिसदे सरबंधे च संसद ने कनूनै राहें घोषत कीता ऐ जे ओह रेल नेई ऐ;]

¹ * * * * *

²[(22) "हाकम" दा मतलब नेहा राजा, प्रमुख,जां होर व्यक्ति ऐ जिसी संविधान (छबिमीं तरमीम) अधिनियम 1971 दे रम्भ थमां पैहलें कुसै बेल्लै, राष्ट्रपति आसेआ कुसै देशी रियासत दे शासक दे रूपै'च मानता हासल ही जां नेहा व्यक्ति ऐ जिसी नेह रम्भ थमां पैहलें कुसै बेल्लै, राष्ट्रपति थमां नेह हाकम दे उत्तराधिकारी दे रूपै'च मानता हासल ही;]

(23) "अनुसूची" दा मतलब इस संविधान दी अनुसूची ऐ;

1. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें खंड (21) दा लोप कीता गेआ।
2. संविधान (छबिमीं तरमीम) अधिनियम, 1971 दी धारा 4 राहें खंड (22) दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।

(24) "अनुसूचित जातियों" का अर्थ नेहियां जातियां, कबीले जां जनजातियां जां नेहियें जातियें, कबीलें जां जनजातियें दे हिस्से जां उं'दे किट्ट न जि'नेंगी इस संविधान दे मकसदें आस्तै अनुच्छेद 341 दे तैह्त अनुसूचित जातियां समझेआ जंदा ऐ;

(25) "अनुसूचित जनजातियों" का अर्थ नेहियां जनजातियां जां जनजाति समुदाय जां नेहियें जनजातियें जां जनजाति समुदाएं दे हिस्से जां उं'दे किट्ट न जि'नेंगी इस संविधान दे मकसदें आस्तै अनुच्छेद 342 दे तैह्त अनुसूचित जनजातियां समझेआ जंदा ऐ;

(26) "जमानत राषियें" च स्टाक शामिल ऐ;

¹[26(क) 'सेवाएं' दा मतलब ऐ माल दे इलावा कोई होर चीज ।

²[26(ख) 'राज्य' अनुच्छेद 246(क), 268, 269, 269(क) ते 279(क) दे संदर्भ च विधायिका कन्ने केंदर शासित प्रदेश ऐ।

* (26ग) समाजक ते शैक्षणक तौरा उप्पर पिछड़े दे वर्ग दा अर्थ ऐ, नेह पिछड़े दे वर्ग जि'नेंगी अनुच्छेद 342(क) दे तैह्त केंदर सरकार, राज्य सरकार जां केंदर शासित प्रदेश, स्थिति मताबक दे प्रयोजनें आस्तै समझेआ जा ।

³
* * * * *
(27) "उपरखंड" दा मतलब उस खंड दा उपखंड ऐ जिस'च ओह ओहदा औंदा ऐ;

(28) "टैक्स लाना" दे तैह्त कुसै टैक्स जां चुंगी दा लाना ऐ भाएं ओह आम जां स्थानी जां खास ऐ ते टैक्स दा उसदे मताबक अर्थ लाया जाहग;

(29) "औंदनी पर टैक्स" दे तैह्त अति लाभ-टैक्स दी किसमै दा टैक्स ऐ;

⁴[(29क) "माल दे खरीदने ते बेचने पर टैक्स" च शामिल ऐ -

(क) ओह टैक्स ऐ जेहड़ा नगदी, थोड़े समें आस्तै भुगतान जां होर मुल्लवान प्रतिफल आस्तै कुसै माल च जायदाद दे नेह थांतरण पर ऐ जेहड़ा कुसै ठेके दे पालन च नेई करिये होर चाल्ली कीता गेदा ऐ;

(ख) ओह टैक्स ऐ जेहड़ा माल च जायदाद दे (भाएं ओह माल दे रूपै'च होऐ जां कुसै होर रूपै च) नेह थांतरण पर ऐ जेहड़े कुसै कम्मै दे ठेके दे लागू करने च शामिल ऐ;

(ग) ओह टैक्स ऐ जेहड़ा अवक्रय जां किषतें च भुगतान दे तौर-तरीके कन्ने माल दी सपुर्दगी पर ऐ;

(घ) ओह टैक्स ऐ जेहड़ा नगदी, थोड़े समें आस्तै स्थगत भुगतान जां होर मुल्लवान प्रतिफल आस्तै कुसै माल दा कुसै मकसद आस्तै बरतून करने दे अधिकार दे (भाएं ओह दस्सी गेदी औदध आस्तै होऐ जां नेई) थांतरण पर ऐ;

(ङ) ओह टैक्स ऐ जेहड़ा नगदी, थोड़े समें आस्तै स्थगत भुगतान जां होर मुल्लवान प्रतिफल आस्तै कुसै माल दी सप्लाई पर ऐ जेहड़ी कुसै अनिगमित संस्था जां व्यक्ति-निकाय आसेआ अपने कुसै सदस्य गी कीती गेदी ऐ;

(च) ओह टैक्स ऐ, जेहड़ा नेह माल दे, जेहड़ा खादय जां माहनू बरतून आस्तै कोई होर चीज जां कोई पेय ऐ (भाएं ओह नषीला होऐ जां नेई) नेही सप्लाई पर ऐ, जेहड़ा कुसै सेवा दे रूपै च जां सेवा दे भाग दे रूपै च जां कुसै बी होर ढंगै कन्ने कीता गेदा ऐ ते नेही सप्लाई जां सेवा नगदी, थोड़े समें आस्तै स्थगत भुगतान जां होर मुल्लवान प्रतिफल आस्तै कीती गई ऐ,

ते माल दे नेह थांतरण, सपुर्दगी जां सप्लाई दे बारे च एह समझेआ जाहग जे ओह उस व्यक्ति आसेआ, जेहड़ा नेहा थांतरण, सपुर्दगी जां सप्लाई करै करदा ऐ, उस माल दी बिक्री ऐ, ते उस व्यक्ति आसेआ, जिसगी नेहा थांतरण, सपुर्दगी जां सप्लाई कीती जंदी ऐ, उस माल दी खरीद ऐ।]

⁵[(30) "संघ राज्यक्षेत्र" दा अर्थ पैहली अनुसूची च खासतौर पर दस्सेआ गेदा कोई संघ राज्यक्षेत्र ऐ ते इसदे तैह्त नेहा होर राज्यक्षेत्र ऐ जेहड़ा भारत दे राज्यक्षेत्र च शामिल ऐ पर उस अनुसूची च नेई दस्सेआ गेदा ऐ।]

* संविधान (इक सौ पंज तरमीम) अधिनियम, 2021, 18 अगस्त, 2021 ।

1. संविधान (इक सौ इक तरमीम) अधिनियम 2016, धारा 14 (i) (16-9-2016 राहें अतरस्थापत ।

2. संविधान (इक सौ इक तरमीम) अधिनियम 2016, धारा 14 (i) (16-9-2016 राहें अतरस्थापत ।

3. संविधान (बतालिमी तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 54 राहें (1-2-1977 थमां) खंड (26क) अंतरस्थापत कीता गेआ हा ते उसदा संविधान (तरतालिमी तरमीम) अधिनियम, 1977 दी धारा 11 राहें (13-4-1978 थमां) लोप कीता गेआ ।

4. संविधान (छतालिमी तरमीम) अधिनियम, 1982 दी धारा 4 राहें अंतरस्थापत ।

5. संविधान (सतमी तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें खंड (30) दे थाहरै पर प्रतिस्थापत ।

भारत दा संविधान

(भाग 19 – प्रकीर्ण)

367. व्याख्या – (1) जिसलै तगर जे संदर्भ थमां जां पही लोड़ नेई होए, इस संविधान दी व्याख्या आस्तै सधारण खंड अधिनियम, 1897, नेह अनुकूलनें ते सुधारें दे तैहत् रौहदे होई, जेहड़े अनुच्छेद 372 दे तैहत् उस च कीते जाहन, उ'आं गै लागू होग जि'यां ओह भारत डोमिनियन दे विधान-मंडल दे कुसै अधिनियम दी व्याख्या आस्तै लागू होंदा ऐ।

(2) इस संविधान'च संसद दे जां ओहदे आसेआ बनाए गेदे अधिनियमं जां कनूनें दे प्रति कुसै हिदायत दा जां ^{1***} कुसै रियासत दे विधान-मंडल दे जां ओहदे आसेआ बनाए गेदे अधिनियमं जां कनूनें दे प्रति कुसै हिदायत दा एह मतलब लाया जाहग जे उसदे तैहत्, स्थिति मताबक, रा"ट्रपति आसेआ बनाए गेदे अध्यादे"। जां कुसै राज्यपाल ^{2***} आसेआ बनाए गेदे अध्यादे"। दे प्रति हिदायत ऐ।

(3) इस संविधान दे मकसदें आस्तै "बदे"ी राज्य" दा अर्थ भारत थमां बक्ख कोई होर राज्य ऐ:

पर संसद आसेआ बनाए गेदे कुसै कनूनै दे प्रावधानें दे तैहत् रौहदे होई, रा"ट्रपति हुकमै³ राहें एह घो"ना करी सकग जे कोई राज्य उ'नें मकसदें आस्तै, जेहड़े उस हुकमै'च खास तौर पर दस्से जाहन बदे"ी राज्य नेई ऐ।

⁴[(4) संविधान, जित्थूं तगर एह जम्मू ते क"मीर दे सरबंधें च लागू ऐ, दे मकसदें आस्तै-

(क) इस संविधान जां एहदे प्रावधानें दियें हिदायतें गी, आखी गेदी रियासतें दे सरबंधे च जि'यां लागू संविधान ते ओहदे प्रावधानें दी हिदायत मन्नेआ जाहग;

(ख) जिस व्यक्ति गी रियासत दी विधान सभा दी सफार"। पर रा"ट्रपति आस्सेआ जम्मू ते क"मीर दे सदर-ए-रियासत, जेहड़े कि"। समें आस्तै औहदे पर बैठे दे रियासत दी मंत्रि-परि"।द दी सलाह पर कम्म करा करदे होन, दे रूपे च कि"। समें आस्तै मान्यता दिती गेदी ऐ, उं'दे आस्तै हिदायतें गी जम्मू क"मीर दे राज्यपाल आस्तै हिदायत मन्नेआ जाहग;

(ग) आखी गेदी रियासत दा सरकार दियें हिदायतें गी, उं'दी मंत्रि-परि"।द दी सलाह पर कम्म करा करदे जम्मू ते क"मीर दे राज्यपाल आस्तै हिदायतें गी शामिल कीते दा मन्नेआं जाहग; ते

(घ) इस संविधान दे अनुच्छेद 370 दे परंतुक च "खंड (2) च लखोई दी रियासत दी संविधान सभा" अभिव्यक्ति गी "रियासत दी विधान सभा" पढ़ेआ जाहग।]

1. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें "पैहली अनुसूची दे भाग क जां भाग ख च दस्से गेदे" शब्दें ते अक्खरें दा लोप कीता गेआ।

2. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें "जां राजप्रमुख" शब्दें दा लोप कीता गेआ।

3. संविधान (बदे"ी रियासतें दे बारै घो"ना) अदे"।, 1950 (स.अ. 2) दिक्खो।

4. संविधान (जम्मू ते क"मीर पर लागू आदे"।, 2019 (सं. आ) आसेआ (5 अगस्त, 2019 थमां) जोड़ेआ गेआ।

संविधान दो तरमीम

368. ¹[संविधान दो तरमीम करने दा संसद दा अख्तेआर ते ओह्दे आस्तै प्रक्रिया] – ²[(1) इस संविधान च बावजूद एह्दे संसद अपने संविधाई अख्तेआर दी बरतून करदे होई इस संविधान दे कुसै प्रावधान च बाद्धा, बदलाव जां समाप्ति दे रूपै च तरमीम इस अनुच्छेद च दिती गेदी प्रक्रिया मताबक करी सकग।]

³[(2)] इस संविधान दी तरमीम दा रम्भ संसद दे कुसै सदन च इस मकसद आस्तै बिल्ल पेष करियै गै कीता जाई सकग ते जिसलै ओह् बिल्ल हर इक सदन च उस सदन दी कुल सदस्य संख्या दे बहुमत राहें ते उस सदन दे हाजर ते वोट देने आह्ले सदस्ये दे घट्टो-घट्ट दो-तिहाई बहुमत राहें पास करी दिता जंदा ऐ उसलै ⁴[ओह् राष्ट्रपति दे सामनै पेष कीता जाह्ग, जेह्ड़ा बिल्ल गी अपनी मंजूरी देह्ग ते उसलै] संविधान उस बिल्ल दिये शर्ते मताबक संषोधत होई जाह्ग:

पर जेकर नेही तरमीम –

(क) अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 73, *[अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 241 च, जां अनुच्छेद 279क] जां

(ख) भाग-5 दे ध्याऽ 4, भाग 6 दे ध्याऽ 5 जां भाग 11 दे ध्याऽ 1 च, जां

(ग) सतमीं अनुसूची दी कुसै सूची च, जां

(घ) संसद च रियासते दी नुमायंदगी च, जां

(ङ) इस अनुच्छेद दे प्रावधाने च,

कोई तब्दीली करने आस्तै ऐ तां नेही तरमीम आस्तै प्रावधान करने आह्ला बिल्ल राष्ट्रपति दे सामनै मंजूरी आस्तै पेष कीते जाने थमां पैह्लें उस तरमीम आस्तै ⁵*** घट्टो-घट्ट अदिधये रियासते दे विधान-मंडलें आसेआ पास इस मेद दे प्रस्तावे राहें उ'नें विधान-मंडलें दा समर्थन बी लोड़चदा होग।

²[(3) अनुच्छेद 13 दी कोई गल्ल इस अनुच्छेद दे तैह्त कीती गेदी कुसै तरमीम गी लागू नेई होग।]

⁶[(4) इस संविधान दा (जेह्दे तैह्त भाग-3 दे प्रावधान न) उस अनुच्छेद दे तैह्त [संविधान (बतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 55 दे रम्भ थमां पैह्लें जां उसदे परेंत] कीता गेआ जां कीते जाने आस्तै प्रस्तावत कुसै तरमीम पर कुसै बी अधार पर सुआल नेई पुट्टेआ जाह्ग।

(5) शकें गी दूर करने आस्तै एह् घोषत कीता जंदा ऐ जे इस अनुच्छेद दे तैह्त इस संविधान दे प्रावधाने च बाद्धा, तब्दीली जां रद्द दे रूपै च तरमीम करने आस्तै संसद दे संविधाई अख्तेआरे पर कुसै चाल्ली दी कोई रोक नेई होग।]

-
1. संविधान (चौहविमीं तरमीम) अधिनियम, 1971 दी धारा 3 राहें "संविधान च तरमीम करने दी प्रक्रिया" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 2. संविधान (चौहविमीं तरमीम) अधिनियम, 1971 दी धारा 3 राहें अंतरस्थापत।
 3. संविधान (चौहविमीं तरमीम) अधिनियम, 1971 दी धारा 3 राहें अनुच्छेद 368 गी खंड (2) दे रूपै च मुठी गिनेआ गेआ।
 4. संविधान (चौहविमीं तरमीम) अधिनियम, 1971 दी धारा 3 राहें "उसलै ओह् राष्ट्रपति दे सामनै उसदी इजाजत आस्तै रक्खेआ जाह्ग ते बिल्ल गी नेही इजाजत दिते जाने परेंत" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 - * संविधान (इक सौ इक तरमीम) अधिनियम 2016, दी धारा 15 राहें प्रतिस्थापत।
 5. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें "पैहली अनुसूची दे भाग क ते ख च दस्से दे" शब्द ते अक्खरे दा लोप कीता गेआ।
 6. अनुच्छेद 368 च खंड (4) ते खंड (5) संविधान (बतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 55 राहें अंतरस्थापत कीते गे हे। सर्वोच्च न्यायालय ने **मिनर्वा लिमिटेड** ते **होर बनाम भारत संघ** ते **होर** (1980) 2 एस.सी.सी. 591 दे मामले च इस धारा गी गैरकनूनी घोषत कीता ऐ।

¹[आरजी, संक्रमणकाली ते चेचे प्रावधान]

369 राज्य सूची दे किश विशें दे सरबंधें च कनून बनाने द संसद दे इस चाल्ली आरजो अख्तेआर जि'यां आखो ओह समवर्ती सूचो दे विशे होन — इस संविधान'च बावजूद एहदे, संसद गी इस संविधान दी शुरुआत थमां पं'जें बरें दी औद्ध दरान हेठ लिखे दे मामलें दे बारे'च कनून बनाने दे इस चाल्ली दे अख्तेआर होडन जि'यां आखो ओह मामले समवर्ती सूची च गनोए दे होन, अर्थात् :-

(क) सूती ते ऊनी कप्पड़े, कच्ची कपाह (जिसदे तैहूत पिंझे दा रुंह ते बिना पिंझे दा रुंह जां कपाह ऐ), बाड़े, कागज (जिसदे तैहूत अखबारी कागज ऐ), खाद्य पदार्थ (जिसदे तैहूत खाने आहले तेलके बीऽ ते तेल न), प'युयें दे चारे (जिसदे तैहूत खल ते होर सारकृत चारे न), कोले (जिसदे तैहूत कोक ते कोलें थमां बने दे उत्पाद न), लोहा, स्टील ते अन्नक दा कुसै रियासत दे अंदर बपार ते बन्ज ते उं'दा उत्पादन, सप्लाई ते बंड;

(ख) खंड (क) च वर्णत मामलें चा कुसै मामले कन्नै सरबंधत कनूनें दे खलाफ अपराध, उं'नें मामलें चा कुसै दे सरबंधें'च सर्वोच्च अदालत थमां बक्ख सभनें अदालतें दी अधिकारता ते अख्तेआर ते उं'नें मामलें चा कुसै दे सरबंधें च फीस पर इसदे तैहूत कुसै अदालत च लैती जाने आहली फीस नेई ऐ,

पर संसद आसेआ बनाया गेदा कोई कनून, जिसी संसद इस अनुच्छेद दे प्रावधानें दी कमी'च बनाने आस्तै समर्थ नेई होंदी, आखी गेदी औद्ध दे मुक्कने पर असमर्थता दी मात्तरा तगर उं'नें गल्लें दे छुट्ट असरी नेई रौहग जि'नेंगी उस औद्ध दे मुक्कने दे पैहलें कीता गेआ ऐ जां करने दा लोप कीता गेआ ऐ।

²[370 जम्मू-कश्मीर रियासत दे सरबंधें च आरजी प्रावधान]

इस संविधान दे समें-समें पर जि'यां-सं'गोधत, सब्भे प्रावधान बगैर कु'नें उपांतरणें जां अपवादें दे अनुच्छेद 152 जां अनुच्छेद 308 जां इस संविधान दे कुसै होर अनुच्छेद जां जम्मू-क'मीर दे संविधान च कुसै होर प्रावधान जां कुसै कनून, दस्तावेजें, निर्ण, अध्यादे'ग, अदे'ग, उप-कनून, नियम, विनियम, अधिसूचना जां भारत दे राज्यक्षेत्र च कनून दा बल रक्खने आहली कुसै रूढ़ी जां प्रथा जां कुसै होर लिखत, संधि जां करार जेहडे अनुच्छेद 363 दे तैहूत जि'यां परिकल्पत जां पही होर न, च ओहदे प्रतिकूल कुसै गल्लै दे शामिल होंदे होई बी, जम्मू-क'मीर राज्य पर लागू होंडन।]³

1. संविधान (तेहरमी तरमीम) अधिनियम, 1962 दी धारा 2 राहें (1-12-1963 थमां) "आरजी ते अंतःकाली प्रावधान" दे थारै पर प्रतिस्थापत।
2. इस अनुच्छेद राहें दित्ते गेदे अख्तेआरें दी बरतून करदे होई रा'ट्रपति ने जम्मू ते क'मीर रियासत दी संविधान सभा दी सफार'ग पर एह घो'ना कीती जे 17 नवंबर, 1952 थमां आखे गेदे अनुच्छेद 370 इस उपांतरण दे कन्नै प्रवर्तनीय होग जे उसदे खंड (1) च स्प'टीकरण दे थारै पर हेठ लिखे दा स्प'टीकरण रक्खी दिता गेआ ऐ, अर्थात् :-

"स्पष्टीकरण — इस अनुच्छेद दे मकसदें आस्तै रियासती सरकार दा अर्थ ओह व्यक्ति ऐ जिसी रियासत दी विधान सभा दी सफार'ग पर रा'ट्रपति ने रियासत दी उसलै औहदेर मंत्रि परि'गद दी सलाह पर कम्म करने आहले जम्मू-क'मीर दे सदरे रियासत* दे रूपै च मानता प्रदान कीती होऐ।"

(कनून मंत्रालय हुकम सं.अ. 44, तरीक 15 नवंबर 1952)।

- * हून "राज्यपाल"।
3. प्रचलन च अनुच्छेद 370 दे प्रावधान, दिक्खो, संविधान दे अनुच्छेद 370(3) दे तैहूत घो'ना (सं. अ. 273), असरी 6 अगस्त, 2019) राष्ट्रपति नें, संसद दी सफार'ग पर भारत दे संविधान दे अनुच्छेद 370 दे खंड (1) दे कन्नै पढ़े जाने आहले अनुच्छेद 370 दे खंड (3) राहें, दित्ते गेदे अख्तेआरें दी बरतून करदे होई एह घो'ना कीता जे, 6 अगस्त, 2019 थमां हेठ दित्ते गेदे अनुच्छेद 370 दे सब्भे खंड, प्रचलन च नेई रौहडन, दिक्खो, संविधान दे अनुच्छेद 370(3) दे तैहूत घो'ना (सं.अ. 273) असरी तरीक 6 अगस्त, 2019। इस घो'ना थमां पैहलें अनुच्छेद 370 हेठ लिखे मताबक हा :-
"370 जम्मू-क'मीर राज्य दे सरबंधें च आरजी प्रावधान — (1) इस संविधान च बावजूद एहदे बी —
(क) अनुच्छेद 238 दे प्रावधान जम्मू-क'मीर रियासत दे सरबंधें च लागू नेई होडन;
(ख) आखी गेदी रियासत आस्तै कनून बनाने दे अख्तेआर, —
(i) संघ सूची ते समवर्ती सूची दे उं'नें मामलें तगर सीमत होग जि'नेंगी रा'ट्रपति, उस रियासत दी सरकार कन्नै सलाह-सूतर करियै, उं'नें मामलें दे उस-थाहरी मामले घो'ना करी देऐ जेहडे भारत डोमिनियन च उस रियासत दे विलय गी शासत करने आहले विलय-पत्तर च नेह मामलें दे रूपै च चेचे दस्से गेदे न जि'दे सरबंधें च डोमिनियन विधान-मंडल उस रियासत आस्तै कनून बनाई सकदा ऐ; ते
(ii) आखी गेदियें सूचियें दे उं'नें होरनें मामलें तगर सीमत होग जेहडे रा'ट्रपति, उस रियासत दी सरकार दी सैहमती कन्नै, हुकमै राहें चेचे तौरा उपपर दस्से;

भारत दा संविधान
(भाग 21 – आरजी, संक्रमणकाली ते चेचे प्रावधान)

¹[371. ²*** महाराष्ट्र ते गुजरात रियासतें दे सरबंधै च चेचे प्रावधान – ³ * * *

(2) इस संविधान'च बावजूद एहदे, राष्ट्रपति, ⁴[महाराष्ट्र जां गुजरात रियासत] दे सरबंधे च कीते गेदे हुकमै राहें :-

(क) स्थिति मताबक, विदर्भ, मराठवाड़ा ⁵[ते बाकी महाराष्ट्र जां] सौराष्ट्र, कच्छ ते बाकी गुजरात आस्तै बक्खरे विकास बोर्डे दी स्थापना आस्तै, इस प्रावधाने सनें जां इ'नें बोर्डे चा हर इक दे कम्मै-काजै पर इक रपोट रियासती विधान सभा सामनें हर ब'रे रक्खी जाहग,

(ख) सबूरी रियासतै दी लोडें दा ध्यान रखदे होई, आखे गेदे क्षेत्रे दे विकास खर्च आस्तै कोषे दे इक बरोबर बंड आस्तै, ते

(ग) सबूरी रियासतै दी लोडें दा ध्यान रखदे होई, आखे गेदे सभनें क्षेत्रे दे सरबंधे'च तकनीकी, शिक्षा ते व्यवसायक सखलाई आस्तै लोडचदियें स्थूलतें दी ते रियासती सरकार दे नियंत्रण हेट सेवाएं दे सरिस्तें आस्तै लोडचदे मौकें दी व्यवस्था करने आहली ठीक बंदोबस्त करने आस्तै, राज्यपाल दी कुसै खास जिम्मेदारी आस्तै प्रावधान करी सकग।]

स्पष्टीकरण – इस अनुच्छेद दे मकसदें आस्तै, उस रियासत दी सरकार दा मतलब ऐ, ओह व्यक्ति जिसी राष्ट्रपति थमां, जम्मू-कश्मीर दे महाराजा दी 5 मार्च, 1948 दी उद्घोषना दे तैहत उसलै पदस्थ मंत्रि-परिषद् दी सलाह पर कम्म करने आहली जम्मू-कश्मीर दे महाराज दे रूपै च मानता हासल ही;

(ग) अनुच्छेद-1 ते इस अनुच्छेद दे प्रावधान उस रियासत दे सरबंधे च लागू होंडन;

(घ) इस संविधान दे नेह होर प्रावधान नेह अपवादें ते सुधारें दे तैहत रौहदे होई, जेहड़े राष्ट्रपति हुकमै राहें, चेचे तौरा उप्पर दस्सै, उस रियासत दे सरबंधे च लागू होंडन। :

पर नेहा कोई हुकम जेहड़ा उपखंड (ख) दे पै'रा (ii) च दस्सी गेदी रियासतै दे विलय-पत्तर च चेचे दस्से गेदे मामलें कन्नै सरबंधत ऐ, उस रियासत दी सरकार कन्नै सलाह-सूत्तर करियै गै कीता जाहग, नेई तां नेई :

पर, बावजूद एहदे जे नेहा कोई हुकम जेहड़ा पछेत्तरे परंतुक च दस्से गेदे मामलें थमां बक्खरे मामलें कन्नै सरबंधत ऐ, उस सरकार दी सैहमती कन्नै गै कीता जाहग नेई तां नेई।

(2) जेकर खंड (1) दे उपखंड (ख) दे पै'रा (ii) च जां उस खंड दे उपखंड (घ) दे दूर परंतुक च दस्सी गेदी उस रियासत दी सरकार दी सैहमती, उस रियासत दा संविधान बनाने दे मकसद आस्तै संविधान सभा दे बलाए जाने थमां पैहलें दिती जा तां उसी नेही संविधान सभा दे सामनें नेह फेसलें आस्तै रक्खेआ जाहग जेहड़ा ओह उस पर करै।

(3) इस अनुच्छेद दे पछेत्तरे प्रावधाने च बावजूद एहदे, राष्ट्रपति लोक अधिसूचना राहें घोषना करी सकग जे एह अनुच्छेद बरतून च नेई रौहग जां नेह अपवादें ते सुधारें सनें गै ते ऐसी तरीके थमां, चलन च रौहग, जेहड़ा ओह चेचे तौरा उप्पर दस्सै :

पर, राष्ट्रपति आसेआ ऐसी अधिसूचना कड्डे जाने थमां पैहलें खंड (2) च दस्सी गेदी उस रियासतै दी संविधान सभा दी सफारष लाजमी होग।

1. संविधान (सतमी तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 22 राहें अनुच्छेद 371 दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
2. संविधान (बत्तिमी तरमीम) अधिनियम, 1973 दी धारा 2 राहें (1-7-1974 थमां) "आंध्रप्रदेश" शब्दें दा लोप कीता गेआ।
3. संविधान (बत्तिमी तरमीम) अधिनियम, 1973 दी धारा 2 राहें (1-7-1974 थमां) खंड (1) दा लोप कीता गेआ।
4. मुंबई मुद्द-गठन अधिनियम, 1960 (1960 दा 11) दी धारा 85 राहें (1-5-1960 थमां) "मुंबई रियासत" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
5. मुंबई मुद्द-गठन अधिनियम, 1960 (1960 दा 11) दी धारा 85 राहें (1-5-1960 थमां) "बाकी महाराष्ट्र" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।

भारत दा संविधान

(भाग 21 — आरजी, संक्रमणकाली ते चेचे प्रावधान)

[371क. नागालैंड रियासत दे सरबंधै च चेचे प्रावधान —(1) इस संविधान'च बावजूद एहदे बी, —

(क) हेठ दित्ते दे सरबंधै'च संसद दा कोई अधिनियम नागालैंड रियासत गी उसलै तगर लागू नेई होंग जिसलै तगर नागालैंड दी विधान सभा प्रस्ताव राहें नेहा फैसला नेई करदी ऐ, अर्थात् :-

- (i) नागें दी धार्मिक जां समाजक प्रथां;
- (ii) नागा रूढ़ीवादी कनून ते प्रक्रिया;
- (iii) सिवल ते अपराधक न्यांऽ प्रशासन, जित्थै फैसले नागा रूढ़ीवादी कनूनै मताबक होने न;
- (iv) जमीन ते उसदे जायदाद स्रोतें दी मलकीयत ते थांतरण;

(ख) नागालैंड दे राज्यपाल दा नागालैंड राज्य'च कनून ते व्यवस्था दे सरबंधै'च उसलै तगर चेची जवाबदेही रौहग जिसलै तगर उस रियासत दे नर्माण दे ठीक पैहलें नागा फ्हाडी त्पुएनसांग क्षेत्र'च मजूद अंदरुनी गड़बड़ी, उसदी राऽ'च, उस च जां उसदे कुसै हिस्से'च बनी रौहदी ऐ ते राज्यपाल, उस सरबंधै'च अपने कम्मं दे नर्बाह आस्तै कीती जाने आहली कारवाई दे बारे'च अपने निजी फैसलें दा इस्तेमाल, मंत्रि-परिषद् कन्नै सलाह-सूत्तर करने परैत करग:

पर जेकर एह सुआल पटोंदा ऐ जे कोई मामला नेहा मामला ऐ जां नेई जिसदे सरबंधै'च राज्यपाल थमां इस उपखंड दे तैहत् मेद कीती गई ऐ जे ओह अपने निजी फैसले दा इस्तेमाल करियै कम्म करै तां राज्यपाल दा अपनी स्यानप कन्नै कीता गेदा फैसला खीरी होंग ते राज्यपाल आसेआ कीती गेदी कुसै गल्लै दी कनूनी मानता पर इस अधार पर सुआल नेई पुट्टेआ जाहग जे उसगी अपने निजी फैसले दा इस्तेमाल करियै कम्म करना चाहिदा हा जां नेई:

पर एह होर जे, जेकर राज्यपाल थमां रपोट मिलने पर जां फही राष्ट्रपति गी एह संतुष्टी होई जंदी ऐ जे हून एह लाज्मी नेई ऐ जे नागालैंड रियासत'च कनून ते व्यवस्था दे सरबंधै'च राज्यपाल दी चेची जवाबदेही र'वै तां ओह, हुकमै राहें, हिदायत देई सकग, जे राज्यपाल दी नेही जवाबदेही उस तरीकै थमां नेई रौहग जेहड़ी हुकमै च चेची दस्सी जा;

(ग) अनुदान दी कुसै मंगै दे सरबंधै'च अपनी सफारष करने'च, नागालैंड दा राज्यपाल एह पक्का करग जे कुसै चेची दस्सी गेदी सेवा जां मकसद आस्तै भारत दे कठेरमें कोष चा भारत सरकार आसेआ दित्ता गेदा कोई धन उस सेवा जां मकसद कन्नै सरबंधत अनुदान दी मंग च, नां के कुसै होर मंग'च, शामिल कीता जा;

(घ) उस तरीक थमां जिसी नागालैंड दा राज्यपाल इस नमित्त लोक अधिसूचना राहें चेचे तौर पर दस्सै, त्पुएनसांग जि'ले आस्तै इक इलाकाई परिषद् स्थापत कीती जा जेहड़ी पै'तियें सदस्यें गी मलाइयै बनग ते राज्यपाल हेठ लिखी दी गल्लें दा प्रावधान करने आस्तै नियम अपनी स्यानप कन्नै बनाहग, अर्थात् :-

- (i) इलाकाई परिषद् दी बनावट ते ओह ढंग जिस कन्नै इलाकाई परिषद् दे सदस्य चुनें जाहडन;

पर त्पुएनसांग जि'ले दा उपायुक्त इलाकाई परिषद् दा पदेन अध्यक्ष होंग ते इलाकाई परिषद् दा उपाध्यक्ष उसदे सदस्यें आसेआ अपने चा चुनेआ जाहग;

- (ii) इलाकाई परिषद् दे सदस्य चुने जाने आस्तै ते सदस्य होने आस्तै योग्यतां;

- (iii) इलाकाई परिषद् दे सदस्यें दे औहदें दी औध ते उ'नेंगी दित्ती जाने आहली तनखाह ते भत्ते, जेकर कोई होंग;

भारत दा संविधान

(भाग 21 – आरजी, संक्रमणकाली ते चेचे प्रावधान)

(iv) इलाकाई परिषद् दी प्रक्रिया ते कम्म संचालन;

(v) इलाकाई परिषद् दे अफसरें ते अमले दी नियुक्ति ते उं दी सेवा दियां शर्ता;

ते

(vi) कोई होर मामला जेहदे सरबंधे च इलाकाई परिषद् दे गठन ते उसदे स्हेई कम्म करने आसतै नियम बनाने जरूरी न।

(2) इस संविधान'च बावजूद एहदे सबूरी नागालैंड रियासतै दे बनने दी तरीक थमां दस्सें ब'रें दी औद्ध तगर जां नेही बादधू औद्ध आसतै जिसगी राज्यपाल, इलाकाई परिषद् दी सफारष पर, लोक अधिसूचना राहें, इस नमित्त चेचे तौर पर दस्सै, –

(क) त्युएनसांग जि'ले दा प्रषासन राज्यपाल आसेआ चलाया जाहग;

(ख) जित्थै भारत सरकार आसेआ नागालैंड सरकार गी, सबूरी नागालैंड रियासतै दी लोडें गी पूरा करने आसतै कोई धन दिता जंदा ऐ उत्थै, राज्यपाल अपनी स्थानप कन्नै त्युएनसांग जि'ले ते बाकी रियासतै च उस धन दे बरोबर बंडन आसतै सरिस्ता करग;

ग) नागालैंड विधान-मंडल दा कोई अधिनियम त्युएनसांग जि'ले पर उसलै तगर लागू नेई होग जिसलै तगर राज्यपाल, इलाकाई परिषद् दी सफारष पर, लोक अधिसूचना राहें, इस चाल्ली हिदायत नेई दिंदा ऐ ते नेह कुसै अधिनियम दे सरबंधे'च नेही हिदायत दिंदे होई राज्यपाल एह चेचे तौर पर दस्सी सकग जे ओह अधिनियम त्युएनसांग जि'ले जां उसदे कुसै हिस्से गी लागू होने च नेह अपवादें जां सुधारें दे तैहत् रौहदे होई, असरी होग जि'नेगी राज्यपाल इलाकाई परिषद् दी सफारष पर चेचे तौर पर दस्सै:

पर इस उपखंड दे तैहत् दिती गेदी कोई हिदायत इस चाल्ली दिती जाई सकग जे उसदा पुज्जअसरी प्रभाव होऐ;

(घ) राज्यपाल त्युएनसांग जि'ले दी शांति, तरक्की ते खरे प्रषासन आसतै विनियम बनाई सकग ते इस चाल्ली बनाए गेदे विनियम उस जि'ले गी उसलै लागू संसद दे कुसै अधिनियम जां कुसै होर कनूनै दा, जेकर जरूरी होऐ तां पुज्जअसरी प्रभाव थमां रद्द जां तरमीम करी सकग;

(ङ) (i) नागालैंड विधान सभा'च त्युएनसांग जि'ले दी नुमायंदगी करने आहले सदस्यें चा इक सदस्य गी राज्यपाल, मुखमंत्रि दी सलाह पर त्युएनसांग मामलें दा मंत्री नियुक्त करग ते मुखमंत्रि अपनी सलाह देने'च पैहलें आखे गेदे' सदस्यें चा मतें सदस्यें दी सफारषे पर कम्म करग;

(ii) त्युएनसांग मामलें दा मंत्री त्युएनसांग जि'ले कन्नै सरबंधत सभनें विषे दे सरबंधे च कम्म करग ते उं दे सरबंधे च राज्यपाल कोल ओहदी सिद्धी पौहच होग पर ओह उं दे सरबंधे च मुखमंत्रि गी जानकारी दिंदा रौहग;

(च) इस खंड दे पछेत्तरे प्रावधाने च बावजूद एहदे बी, त्युएनसांग जि'ले कन्नै सरबंधत सभनें मामलें पर खीरी फैसला राज्यपाल अपनी स्थानप कन्नै करग;

(N) अनुच्छेद 54 ते अनुच्छेद 55 च ते अनुच्छेद 80 दे खंड (4) रियासत दी विधान सभा दे चुने गेदे सदस्यें दे जां नेह हर इक सदस्य दे प्रति हिदायतें दे तैहत् इस अनुच्छेद दे तैहत् स्थापत इलाकाई परिषद् आसेआ चुने गेदे

1. संविधान (ओखें दा निराकरण) अदेष सं.-10 दे पैरा 2 च एह प्रावधान ऐ जे भारत दे संविधान दा अनुच्छेद 371क इस चाल्ली असरी होग जि'यां आखो उसदे खंड (2) दे उपखंड (ङ) दे पैरा (i) च हेट लिखे दा परतुंक (1-12-1963) थमां जोडी दिता गेआ होऐ, अर्थात् :-

“पर राज्यपाल, मुखमंत्रि दी सलाह पर कुसै आदमी गी त्युएनसांग कार्यमंत्रि दे रूपै'च नेह समें तगर आसतै नियुक्त करी सकग, जिसलै तगर जे नागालैंड दी विधान सभा च त्युएनसांग जि'ले आसतै, बंडी गेदी सीटें गी भरने आसतै कनूनै मताबक आदमियें गी चुनी नेई लैता जंदा ऐ”।

भारत दा संविधान
(भाग 21 – आरजी, संक्रमणकाली ते चेचे प्रावधान)

नागालैंड विधान सभा दे सदस्ये जां सदस्य दे प्रति हिदायतां होडन;

(ज) अनुच्छेद 170 च –

(i) खंड (1) नागालैंड विधान सभा दे सरबंधे'च इस चाल्ली असरी होग जि'यां आखो "सट्ट" शब्द दे थाहरै पर "छताली" शब्द रक्खी दित्ता गोआ होऐ;

(ii) आखे गेदे खंड'च, उस रियासत'च इलाकाई चनांS-क्षेत्रे थमां प्रतक्ख चनांS दे प्रति हिदायत दे तैहत इस अनुच्छेद दे हेठ स्थापत इलाकाई परिषद् दे सदस्ये आसेआ चनांS होग;

(iii) खंड (2) ते खंड (3) च इलाकाई चनांS-क्षेत्रे दे प्रति हिदायत दा अर्थ कोहिमा ते मोकोकचुंग जि'ले च इलाकाई चनांS-क्षेत्रे दे प्रति हिदायतां होडन।

(3) जेकर इस अनुच्छेद दे पछेत्तरे प्रावधाने गी असरी करने'च कोई औख पैदा होंदी ऐ तां राष्ट्रपति, हुकमै राहें, कोई नेही गल्ल (जिसदे तैहत कुसै होर अनुच्छेद दा कोई अनुकूलन जां सुधार करी सकग जेहड़ा उस औखै गी दूर करने दे मकसद आस्तै उसगी जरूरी मसूस होंदा ऐ:

पर नेहा कोई हुकम नागालैंड रियासत दे बनने दी तरीक थमां त्र'ऊं ब'रे दे मुक्कने दे बाद नेई कीता जाह्ग।

स्पष्टीकरण – इस अनुच्छेद च, कोहिमा, मोकोकचुंग ते त्युएनसांग जि'ले दा उ'ऐ मतलब ऐ जेहड़ा नागालैंड रियासत अधिनियम, 1962 च ऐ।]

¹[371ख. असम रियासत दे सरबंधे'च चेचे प्रावधान – इस संविधान च बावजूद एहदे, राष्ट्रपति, असम रियासत दे सरबंधे च कीते गेदे हुकमै राहें, उस रियासत दी विधान सभा दी इक समिति दे गठन ते कम्म आस्तै, जेहड़ी समिति छेमी अनुसूची दे पै'रा 20 कन्ने नत्थी सारणी दे ²[भाग 1] च चेचे दस्से गेदे जनजाति क्षेत्रे थमां चनोए दे उस विधान सभा दे सदस्ये कन्ने ते उस विधान सभा दे उन्ने होर सदस्ये कन्ने मिलियै बनग जिन्ने हुकमै च चेचे तौर पर दस्से जाहन ते नेही समिति दे गठन ते उसदे रहेई कम्म करने आस्तै उस विधान सभा दी प्रक्रिया दे नियमें च कीते जाने आहले सुधारें आस्तै प्रावधान करी सकग।]

³[371ग. मणिपुर रियासत दे सरबंधे'च चेचे प्रावधान – (1) इस संविधान'च बावजूद एहदे बी, राष्ट्रपति, मणिपुर रियासत दे सरबंधे'च कीते गेदे हुकमै राहें, उस रियासत दी विधान सभा दी इक समिति दे गठन ते कम्म आस्तै, जेहड़ी समिति उस रियासत दे फ्हाड़ी क्षेत्रे थमां चनोए दे उस विधान सभा दे सदस्ये कन्ने मिलियै बनग, रियासत दी सरकार दे कम्मै-काजै दे नियमें च ते रियासत दी विधान सभा दी प्रक्रिया दे नियमें च कीते जाने आहले सुधारें आस्तै ते नेही समिति दा रहेई कम्म करना निष्वित करने दे मकसद कन्ने राज्यपाल दी कुसै खास जिम्मेवारी आस्तै प्रावधान करी सकग।

(2) राज्यपाल हर ब'रे जां जदू कदे राष्ट्रपति नेही लोड़ मसूस करै मणिपुर रियासत दे फ्हाड़ी क्षेत्रे दे प्रषासन दे सरबंधे'च राष्ट्रपति गी रपोट देह्ग ते संघ दे कार्यपालिका अख्तेआर दा विस्तार आखे गेदे क्षेत्रे दे प्रषासन दे बारे च रियासत गी हिदायत देने तगर होग।

स्पष्टीकरण – इस अनुच्छेद'च, "फ्हाड़ी क्षेत्रे" दा अर्थ नेह् क्षेत्र न जि'नेगी राष्ट्रपति हुकमै राहें, फ्हाड़ी क्षेत्र घोषत करै।]

1. संविधान (बाइमी तरमीम) अधिनियम, 1969 दी धारा 4 राहें अंतरस्थापत।

2. पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुढ-गठन) अधिनियम, 1971 (1971 दा 81) दी धारा 71 राहें (21-1-1972 थमां) "भाग क" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।

3. संविधान (सताइमी तरमीम) अधिनियम, 1971 दी धारा 5 राहें (15-2-1972 थमां) अंतरस्थापत।

भारत दा संविधान

(भाग 21 – आरजी, संक्रमणकाली ते चेचे प्रावधान)

1[371घ. आंध्र प्रदेश रियासत दे सरबंधे'च चेचे प्रावधान – (1) राष्ट्रपति, आंध्र प्रदेश रियासत दे सरबंधे'च कीते गेदे हुकमै राहें, सबूरी आंध्र प्रदेश रियासतै दी लोडें गी ध्यानै च रखदे होई, उस रियासत दे बकख-बकख हिस्सें दे लोकें आस्तै लोकें दे रुजगार दे मामले च ते शिक्षा दे मामले च बरोबरी दे मौकें ते स्हूलतें दा प्रावधान करी सकग ते रियासत दे बकख-बकख हिस्सें आस्तै बकख-बकख प्रावधान कीते जाई सकडन।

(2) खंड (1) दे तैहत कीता गेदा हुकम खासतौरा पर –

(क) रियासती सरकार थमां एह मेद करी सकग जे ओह रियासत दी सिवल सेवा च औहदें दे कुसै वर्ग जां वर्गे दा जां रियासतै अधीन सिवल औहदें दे कुसै वर्ग जां वर्गे दा रियासत दे बकख-बकख हिस्सें आस्तै बकख-बकख स्थानी काडरें'च गठन करै ते नेह सिद्धांतें ते प्रक्रिया मताबक जेहड़ी हुकमै'च चेचे तौर पर दस्सी जा, नेह औहदें गी धारण करने आहले व्यक्तियें दी इस चाल्ली गठत स्थानी काडरें च बंड करै;

(ख) रियासत दे नेह हिस्से जां हिस्सें गी चेचे तौरा पर दस्सी सकग जेहड़े –

(i) रियासती सरकारै तैहत कुसै स्थानी काडर च (भाएं उसदा गठन इस अनुच्छेद दे तैहत हुकमै दे अनुसरण च जां होर चाल्ली कीता गेआ ऐ) औहदें आस्तै सिद्धी भर्थी आस्तै,

(ii) रियासतै अंदर कुसै स्थानी प्राधिकारी दे मतैहत कुसै काडर च औहदे आस्तै सिद्धी भर्थी आस्तै, ते

(iii) रियासत दे अंदर कुसै विष्वविद्यालय च जां रियासती सरकारै दे नियंत्रण दे तैहत कुसै होर शिक्षा संस्था'च दाखले दे मकसद आस्तै,

स्थानी क्षेत्र समझे जाहडन;

(ग) ओह विस्तार चेचे तौर पर दस्सी सकग जिस तगर, ओह ढंग दस्सी सकग जिस कन्नै ते ओह शर्ता दस्सी सकग जिं'दे तैहत, स्थिति मताबक, नेह काडर, विष्वविद्यालय जां होर शिक्षा संस्था दे सरबंधे च नेह मेदबारें गी, जिं'नें हुकमै'च दस्सी गेदी कुसै औद्ध आस्तै स्थानी क्षेत्र च निवास जां अध्ययन कीते दा ऐ –

(i) उपखंड (ख) च दस्से गेदे नेह काडर'च जेहड़ा इस नमित्त हुकमै च खास तौर पर दस्सेआ जा, औहदें आस्तै सिद्धी भर्थी दे विषे च;

(ii) उपखंड (ख) च दित्ते दे नेह विष्वविद्यालय जां होर शिक्षा संस्था च जेहड़ा इस नमित्त हुकमै च दस्सेआ जा, दाखले दे विषे'च,

पैहल दित्ती जाहग जां उ'दे आस्तै मखसूस कीता जाहग।

(3) राष्ट्रपति, हुकमै राहें, आंध्र प्रदेश रियासत आस्तै इक प्रषासनक ट्रिब्यूनल दे गठन आस्तै प्रावधान करी सकग जेहड़ा ट्रिब्यूनल हेठ दित्ते दे विषे दे सरबंधे च नेही अधिकारता, अख्तेआर ते अधिकार प्राप्ति दा जिसदे तैहत ओह अधिकारता, अख्तेआर जां अधिकार प्राप्ति जेहड़ी संविधान (बत्तिमी तरमीम) अधिनियम 1973 दे रम्भ थमां ठीक पैहलें (उच्च अदालती दे इलावा) कुसै अदालत आसेआ जां कुसै ट्रिब्यूनल जां होर प्राधिकारी आसेआ बरतून'च हा, प्रयोग करग जेहड़ा हुकमै च खास तौर पर दस्सेआ जा, अर्थात् :-

(क) रियासत दी सिवल सेवा च नेह वर्ग जां वर्गे दे औहदें पर जां रियासत दे तैहत नेह वर्ग जां वर्गे दे सिवल औहदें पर जां रियासतै अंदर कुसै स्थानी अधिकारी दे नियंत्रण दे अधीन नेह वर्ग जां वर्गे दे औहदें पर जेहड़े हुकमै'च दस्से जाहग, नियुक्ति, बंड जां तरक्की;

(ख) रियासत दी सिवल सेवा च नेह वर्ग जां वर्गे दे औहदें पर जां रियासतै दे अधीन नेह वर्ग जां वर्गे दे सिवल औहदें पर जां रियासती अंदर कुसै स्थानी अधिकारी दे नियंत्रण दे तैहत नेह वर्ग जां वर्गे दे औहदें पर जेहड़े हुकमै'च

1. संविधान (बत्तिमी तरमीम) अधिनियम, 1973 दी धारा 3 राहें (1-7-1974 थमां) अंतरस्थापत।

भारत दा संविधान
(भाग 21 — आरजी, संक्रमणकालीन ते चेचे प्रावधान)

दस्से जाहन, नियुक्ति, बंड जां तरक्कीयापता व्यक्तियें दी सिनियारटी;

(ग) रियासत दी सिवल सेवा'च नेह वर्ग जां वर्गें दे औहदें पर जां रियासत दे तैहत नेह वर्ग जां वर्गें दे सिवल औहदें पर जां रियासत दे अंदर कुसै स्थानी प्राधिकारी दे नियंत्रण हेठ नेह वर्ग जां वर्गें दे औहदें पर नियुक्ति, बंड जां तरक्कीयापता व्यक्तियें दी सेवा दियां नेहियां होर शर्ता जेहडियां हुकमै'च चेचियां दरिसयां जाहन।

(4) खंड (3) दे तैहत कीता गेदा हुकम —

(क) प्रशासनक ट्रिब्यूनल गी उसदी अधिकारता दे अंदर कुसै विषे कन्नै सरबंधत षिकायतें दे निवारण आस्तै नेहियां अर्जियां हासल करने आस्तै, जेहडियां राष्ट्रपति हुकमै च चेचियां दस्सै ते उस पर नेह हुकम करने आस्तै जेहडा ओह प्रशासनक ट्रिब्यूनल ठीक समझदा ऐ, अधिकार देई सकग;

(ख) प्रशासनक ट्रिब्यूनल दे अख्तेआरें ते प्राधिकारें ते प्रक्रिया दे सरबंधें च नेह प्रावधान (जिं'दे तैहत प्रशासनक ट्रिब्यूनल दी अपनी अवमान आस्तै स'जा देने दे अख्तेआर दे सरबंधें च प्रावधान ऐ) शामिल करी सकग जेहडे राष्ट्रपति लाजमी समझै।

(ग) प्रशासनक ट्रिब्यूनल गी ओहदी अधिकारता दे अंदर औने आहले विषे कन्नै सरबंधत ते उस हुकमै दे रम्भ थमां ठीक पैहलें (सर्वोच्च अदालतै दे इलावा) कुसै अदालतै जां कुसै ट्रिब्यूनल जां होर प्राधिकारी सामनै बकाया पेदियें कारवाइयें दे नेह वर्गें दे, जेहडे हुकमै च चेचियां दरिसयां जाहन, थांतरण आस्तै प्रावधान करी सकग;

(घ) नेह जिमनी, घटनात्मी ते नतीजक प्रावधान (जिं'दे तैहत फीसै दे बारे च ते हदबंदी, सबूत दे बारे'च जां उसलै लागू कुसै कन्नै गी कु'नें अपवादें जां सुधारें दे तैहत रौहदे होई लागू करने आस्तै प्रावधान न, शामिल करी सकग जेहडे राष्ट्रपति जरूरी समझै।

¹(5) प्रशासनक ट्रिब्यूनल दा कुसै मामले गी खीरी रूपै च नबेडने आहला हुकम, रियासती सरकार आसेआ उसदी पुष्टी कीते जाने पर जां हुकम कीते जाने दी तरीक थमां त्र'ऊं म्हीनें दी समाप्ति पर, इं'दे चा जेहडा बी पैहलें होऐ, असरी होई जाहग:

पर रियासती सरकार, चेचे हुकमै राहें, जेहडा लिखती रूपै'च कीता जाहग ते जिस'च उसदे कारण चेचे तौर पर दस्से जाहडन, प्रशासनक ट्रिब्यूनल दे कुसै हुकमै गी उसदे असरी होने दे पैहलें सुधारी सकग जां रद्द करी सकग ते नेह मामलें च प्रशासनक ट्रिब्यूनल दा हुकम, स्थिति मताबक, नेह सुधरे दे रूपै च गै प्रभावी होग जां ओह प्रभावहीन होई जाहग।

(6) रियासती सरकार आसेआ खंड (5) दे परंतुक दे तैहत कीता गेदा हर इक खास हुकम, कीते जाने दे परैत, तौले थमां तौले, रियासती विधान—मंडल दे दौनें सदनें सामनै रक्खेआ जाहग।

(7) रियासतै दी उच्च अदालतै गी प्रशासनक ट्रिब्यूनल पर अधीक्षण दा अख्तेआर नेई होग ते (सर्वोच्च अदालतै दे इलावा) कोई अदालत जां कोई ट्रिब्यूनल, प्रशासनक ट्रिब्यूनल दी जां उसदे सरबंधें'च अधिकारता, अख्तेआर जां प्राधिकार दे तैहत कुसै विषे दे सरबंधें'च कुसै अधिकारता, अख्तेआर जां प्राधिकार दा इस्तेमाल नेई करग।

(8) जेकर राष्ट्रपति गी एह संतुष्टी होई जंदी ऐ जे प्रशासनक ट्रिब्यूनल दा लगातार बनेआ रौहना लाजमी नेई है तां राष्ट्रपति हुकमै राहें प्रशासनक ट्रिब्यूनल गी खतम करी सकग ते नेह खातमे थमां ठीक पैहलें ट्रिब्यूनल दे सामनै बकाया पेदे मामलें दे थांतरण ते नपटारे आस्तै नेह हुकमै च नेह प्रावधान करी सकग जेहडे ओह ठीक समझै।

1. सर्वोच्च अदालतै ने पी. सांबमूर्ति ते होर बनाम आंध्र प्रदेश रियासत ते इक होर 1987(1) एस.सी.सी.,सफा-362 च अनुच्छेद 371घ दे खंड (5) ते उसदे परंतुक गी असंविधानक ते सिफर घोषत कीता।

भारत दा संविधान

(भाग 21 — आरजी, संक्रमणकाली ते बपेष प्रावधान)

(9) कुसै अदालतै, ट्रिब्यूनल जां होर प्राधिकारी दे कुसै फेसले, डिक्ली जां हुकमै दे होंदे होई बी, —

(क) कुसै आदमी दी कोई नियुक्ति, पदस्थापना, तरक्की जां थांतरण दे सरबंधै च जेहड़ा —

(i) 1 नवंबर, 1956 थमां पैहलें जि'यां मजूद हैदराबाद रियासत दी सरकार दे जां ओहदे अंदर कुसै स्थानी प्राधिकारी दे तैह्त उस तरीक थमां पैहलें कुसै औहदे पर कीता गोआ हा, जां

(ii) संविधान (बत्तिमी तरमीम) अधिनियम, 1973 दे रम्भ थमां पैहलें आंध्र प्रदेश रियासत दी सरकार दे तैह्त जां उस रियासत दे अंदर कुसै स्थानी जां होर प्राधिकारी दे अधीन कुसै औहदे पर कीता गोआ हा, ते

(ख) उपखंड (क) च दरसे गोदे कुसै व्यक्ति आसेआ जां उसदे सामनै कीती गोदी कारवाई जां गल्लै दे सरबंधै च सिर्फ इस अधार पर जे नेह व्यक्ति दी नियुक्ति, पदस्थापना, तरक्की जां थांतरण दे सरबंधै च, स्थिति मताबक, हैदराबाद रियासत दे अंदर जां आंध्र प्रदेश रियासत दे कुसै हिस्से दे अंदर निवास दे बारे च कुसै लोडै दा प्रावधान करने आहले उसलै लागू कनूनै दे मताबक नेई कीता गोआ हा, एह नेई समझेआ जाहग जे ओह गैर—कनूनी जां सिफर ऐ जां कदें बी गैर—कनूनी जां सिफर रेहा हा।

(10) इस अनुच्छेद दे ते राष्ट्रपति आसेआ इसदे तैह्त कीते गोदे कुसै हुकमै दे प्रावधान इस संविधान दे कुसै होर प्रावधान च जां उसलै लागू कुसै होर कनूनै च बावजूद एहदे बी असरी होडन।

371ड. आंध्र प्रदेश च केंदरो विश्वविद्यालय दो स्थापना — संसद कनूनै राहें, आंध्र प्रदेश रियासत च इक विश्वविद्यालय दी स्थापना आस्तै प्रावधान करी सकग।]

1[371च. सिक्किम रियासत दे सरबंधै च चेचे प्रावधान — इस संविधान'च बावजूद एहदे बी, —

(क) सिक्किम रियासतै दी विधान सभा घट्टो—घट्ट त्रीहें सदस्यें गी मलाइयै बनग;

(ख) संविधान (छित्तिमी तरमीम) अधिनियम, 1975 दे रम्भ दी तरीक थमां (जिसगी इस अनुच्छेद'च इसदे परैत तैऽपुदा दिन आखेआ गोआ ऐ) —

(i) सिक्किम दी विधान सभा, जेहड़ी अप्रैल, 1974 च सिक्किम च होए दे चनाएं दे फलसरूप आखे गोदे चनाएं च चनोए दे बत्तियें सदस्यें कन्नै (जि'नेंगी इस'च इसदे परैत आसीन सदस्य आखेआ गोआ ऐ) मलाइयै बनी ऐ, इस संविधान दे तैह्त ठीक चाल्ली कन्नै गटत सिक्किम रियासतै दी विधान सभा समझी जाहग;

(ii) आसीन सदस्य इस संविधान दे तैह्त ठीक चाल्ली चनोई दी सिक्किम रियासतै दी विधान सभा दे सदस्य समझे जाहडन; ते

(iii) सिक्किम रियासतै दी आखी गोदी विधान सभा इस संविधान दे तैह्त रियासतै दी विधान सभा दे अखेआरें दा इस्तेमाल करग ते उसदा कम्म—काज चलाहग;

(ग) खंड (ख) दे तैह्त सिक्किम रियासत दी विधान सभा समझी गई विधान सभा दी सूरत च, अनुच्छेद 172 दे खंड (1) च ²[पंज ब'रें] दी औद्ध दे प्रति हिदायतें दा एह अर्थ लाया जाहग जे ओह ³[चार ब'रें] दी औद्ध दे प्रति हिदायतां न ते ³[चार ब'रें] दी आखी गोदी औद्ध तैऽपुदा दिनै थमां रम्भ होई दी समझी जाहग;

1. संविधान (छित्तिमी तरमीम) अधिनियम, 1975 दी धारा 3 राहें (26-4-1975 थमां) अंतरस्थापत।
 2. संविधान (चरतालिमी तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 43 राहें (6-9-1979 थमां) "छे ब'रें" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत। संविधान (बतालिमी तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 56 राहें (3-1-1977 थमां) "पंज ब'रें" मूल शब्दें दे थाहरै पर "छे ब'रें" शब्द प्रतिस्थापत कीते गे हे।
 3. संविधान (चरतालिमी तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 43 राहें (6-9-1979 थमां) "पंज ब'रें" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत। संविधान (बतालिमी तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 56 राहें (3-1-1977 थमां) "चार ब'रें" शब्द प्रतिस्थापत कीते गे हे।

भारत दा संविधान

(भाग 21 – आरजी, संक्रमणकाली ते चेचे प्रावधान)

(घ) जिसलै तगर संसद कनूनै राहें होर प्रावधान नेई करदी ऐ उसलै तगर सिक्किम रियासत गी लोक सभा'च इक सीट लाट कीती जाहग ते सिक्किम रियासत इक संसदी चनांS-क्षेत्र होग जेहदा नांS सिक्किम संसदी चनांS क्षेत्र होग;

(ङ) तैऽपुदा दिनै गी मजूदा लोक सभा'च सिक्किम रियासत दा नुमायंदा सिक्किम रियासत दी विधान सभा दे सदस्ये आसेआ चुनेआ जाहग;

(च) संसद सिक्किम दी जनता दे बक्ख-बक्ख तबकें दे अधिकारें ते हितें दी हिफाजत दे मकसद आस्तै सिक्किम रियासत दी विधान सभा'च उ'नें सीटें दी गिंतरी आस्तै जेहड़े नेह तबकें दे मेदबारें आसेआ भरियां जाई सकडन ते नेह सभा चनांS-क्षेत्रें दी हदबंदी आस्तै, जि'दे थमां सिर्फ नेह तबकें दे मेदबार गै सिक्किम रियासत दी विधान सभा दे चनांS आस्तै खड़ोई सकडन, प्रावधान करी सकग;

(छ) सिक्किम दे राज्यपाल दा, शांति आस्तै ते सिक्किम दी जनता दे बक्ख-बक्ख तबकें दी समाजक ते आर्थक तरक्की गी पक्का करने आस्तै ठीक चाल्ली सरिस्ते करने आस्तै खास तौर पर जिम्मेदार होग ते इस खंड दे तैह्त अपनी खास जिम्मेदारी गी नभाने'च सिक्किम दे राज्यपाल नेही हिदायतें तैह्त रौहदे होई जेहड़ियां राष्ट्रपति समें-समें पर देना ठीक समझे, अपनी स्यानप कन्नै कम्म करग;

(ज) सारियां संपत्तियां ते जायदादां (भाएं ओह सिक्किम रियासतै च शामिल राज्यक्षेत्रें दे अंदर होन जां बाहर) जेहड़ियां तैऽपुदा दिनै थमां ठीक पैहलें सिक्किम सरकार च जां सिक्किम सरकार दे मकसदें आस्तै कुसै होर प्राधिकारी जां व्यक्ति कोल हियां, तैऽपुदा दिनै थमां सिक्किम रियासतै दी सरकारै'च शामिल होई जाहडन;

(झ) सिक्किम रियासतै'च शामिल राज्यक्षेत्रें च तैऽपुदा दिनै थमां ठीक पैहलें उच्च अदालत दे रूप च कम्म करा करदी उच्च अदालत तैऽपुदा दिनै गी ते थमां सिक्किम रियासतै दी उच्च अदालत समझेआ जाहग;

(ञ) सिक्किम रियासत दे क्षेत्र च सब्भै सिवल, अपराधक ते राजस्व अधिकारता आहलियां सब्भै अदालतां ते सब्भै न्यायिक, कार्यपालक ते मंत्रालय सरबंधी प्राधिकारी ते अफसर तैऽपुदा दिनै गी ते थमां अपने-अपने कम्मं गी इस संविधान दे प्रावधानें दे तैह्त रौहदे होई करदे रौहडन;

(ट) सिक्किम रियासतै च शामिल राज्यक्षेत्र च जां उसदे कुसै हिस्से'च तैऽपुदा दिनै थमां ठीक पैहलें लागू सब्भै कनून उत्थै उसलै तगर लागू रौहडन जिसलै तगर कोई समर्थ विधान-मंडल जां होर काबल प्राधिकारी राहें उ'दी तरमीम जां समाप्ति नेई करी दिती जंदी ऐ;

(ठ) सिक्किम रियासत दे प्रशासन दे सरबंधे'च कुसै नेह कनूनै गी, जेहड़ा खंड (ट) च दस्सेआ गेदा ऐ, लागू कीते जाने गी सुकर बनाने दे मकसद आस्तै ते कुसै नेह कनूनै दे प्रावधानें गी इस संविधान दे प्रावधानें दे अनुरूप बनाने दे मकसद आस्तै राष्ट्रपति तैऽपुदा दिनै थमां द'ऊं ब'रें अंदर, हुकमै राहें, नेह कनूनै दी समाप्ति दे रूपै'च जां तरमीम दे रूपै'च नेह अनुकूलन जां सुधार करी सकग जेहड़े जरूरी जां उचित होन ते उसलै नेहा हर कोई कनून इस चाल्ली कीते गेदे अनुकूलन ते सुधारें तैह्त रौहदे होई असरी होग ते कुसै नेह अनुकूलन जां सुधार पर कुसै अदालत'च सुआल नेई पुट्टेआ जाहग;

(ड) सर्वोच्च अदालत जां कुसै होर अदालत गी, सिक्किम दे सरबंधे'च नेही संधि, करार, वचनबद्धता जां उ'ऐ जनेही गै होर लिखतै कन्नै, जेहड़ी तैऽपुदा दिनै थमां पैहलें शुरू जां लागू कीती गई ही ते जिस'च भारत सरकार जां उस थमां पछेत्तरी कोई सरकार पक्खकार ही, पैदा कुसै विवाद जां होर विषे दे सरबंधे च अधिकारता नेई होग, पर इस खंड दी कुसै गल्लै दा एह मतलब नेई समझेआ जाहग जे ओह अनुच्छेद 143 दे प्रावधानें गी घटांदी ऐ;

भारत दा संविधान

(भाग 21 — आरजी, संक्रमणकाली ते चेचे प्रावधान)

(ढ) राष्ट्रपति, लोक अधिसूचना राहें, कुसै नेह् अधिनियमन दा विस्तार, जेह्डी उस अधिसूचना दी तरीक गी भारत दी कुसै रियासतै'च लागू ऐ, नेही रकावटें जां सुधारें सनें, जेह्डे ओह् ठीक समझदा ऐ, सिक्किम रियासतै पर करी सकग;

(ण) जेकर इस अनुच्छेद दे पछेत्तरे प्रावधानें चा कुसै प्रावधान गी असरी करने च कोई औख औंदी ऐ तां राष्ट्रपति, हुकमै' राहें, कोई नेही गल्ल (जिसदे तैह्त्त कुसै होर अनुच्छेद दा कोई अनुकूलन जां सुधार ऐ) करी सकग जेह्डी उस औखै गी दूर करने दे मकसद आस्तै उसी जरूरी मसूस होंदी ऐ;

पर नेहा कोई हुकम तैऽपुदा दिनै थमां द'ऊं ब'रें दी समाप्ति परेंत्त नेई कीता जाह्ग;

(त) सिक्किम रियासत जां उस'च शामिल राज्यक्षेत्रें च जां उ'दे सरबंधै'च तैऽपुदा दिनै गी रम्भ होने आहली ते उस तरीक थमां जिसगी संविधान (छित्तिमीं तरमीम) अधिनियम 1975, राष्ट्रपति दी मंजूरी हासल करदा ऐ, ठीक पैहलें मुक्कने आहली औद्ध दे दरान कीतियां गेदियां सब्भै गल्लां, कारवाइयां, जित्थूं तगर ओह् संविधान (छित्तिमीं तरमीम) अधिनियम 1975 राहें तरमीम मताबक इस संविधान दे प्रावधानें दे मताबक ऐ, सभनें मकसदें आस्तै इस चाल्ली तरमीम मताबक इस संविधान दे तैह्त्त कनूनी तौरा पर मन्नी गेदी समझी जाह्ग।

²[371छ. मिज़ोरम रियासत दे सरबंधै च चेचे प्रावधान — इस संविधान'च बावजूद एह्दे बी,—

(क) हेठ लिखे दे सरबंधै'च कोई अधिनियम मिज़ोरम रियासतै पर उसलै तगर लागू नेई होग जिसलै तगर मिज़ोरम रियासत दी विधान सभा प्रस्तावें आसेआ नेहा फैसला नेई करदी ऐ, अर्थात् :-

(i) मिज़ो लोकें दियां धार्मिक जां समाजक प्रथां;

(ii) मिज़ो रुढ़ीवादी कनून ते प्रक्रिया;

(iii) सिवल ते अपराधक न्यांऽ प्रशासन, जित्थै फ़ैसले मिज़ो रुढ़ीवादी कनूनै मताबक होने न;

(iv) जमीने दी मलकीयत ते थांतरण;

पर इस खंड दी कोई गल्ल, संविधान (त्रुं'जमीं तरमीम) अधिनियम, 1986 दे रम्भ थमां ठीक पैहलें मिज़ोरम संघ राज्यक्षेत्र'च लागू कुसै केंदरी अधिनियम गी लागू नेई होग;

(ख) मिज़ोरम रियासतै दी विधान सभा घट्टो-घट्ट चाहलियें सदस्यें गी मलाइयै बनग।]

³[371ज. अरुणाचल प्रदेश रियासत दे सरबंधै च चेचे प्रावधान — इस संविधान च बावजूद एह्दे बी, —

(क) अरुणाचल प्रदेश दे राज्यपाल दा अरुणाचल प्रदेश रियासत च कनून ते व्यवस्था दे सरबंधै'च खास जिम्मेदारी रौह्ग ते राज्यपाल, उस सरबंधै'च अपने कम्मं दा नर्बाह् करने च कीती जाने आहली कारवाइ दे बारे'च अपने निजी फ़ैसले दी बरतून मंत्रि-परिषद् कन्नै सलाह-सूत्तर करने दे परेंत्त करग:

पर जेकर एह् सुआल पटोंदा ऐ जे कोई मामला नेहा मामला है जां नेई जिसदे सरबंधै'च राज्यपाल थमां इस खंड दे तैह्त्त मेद कीती गई ऐ जे ओह् अपने निजी फ़ैसले दी बरतून करियै कम्म करै ते राज्यपाल दा अपनी स्यानप कन्नै कीता गेदा फ़ैसला खीरी होग ते राज्यपाल आसेआ कीती गेदी कुसै गल्लै दी कनूनी मानता पर इस अधार पर सुआल नेई पुट्टेआ जाह्ग जे उसगी अपने निजी फ़ैसले गी लागू करियै कम्म करना चाहिदा हा जां नेई:

1. संविधान (औखें दा नबेड़ा) हुकम सं. 11 (सं.अ. 99) दिक्खो।

2. संविधान (त्रुं'जमीं तरमीम) अधिनियम, 1986 दी धारा 2 राहें (20-2-1987 थमां) अंतरस्थापित।

3. संविधान (पचुं'जमीं तरमीम) अधिनियम, 1986 दी धारा 2 राहें (20-2-1987 थमां) अंतरस्थापित।

भारत दा संविधान

(भाग 21 – आरजी, संक्रमणकाली ते चेचे प्रावधान)

पर एह होर जे जेकर राज्यपाल थमां रपोट थडोने पर जां पही राष्ट्रपति गी एह संतुष्टी होई जंदी ऐ जे हून एह जरूरी नेई ऐ जे अरुणाचल प्रदेश रियासत च कनून ते व्यवस्था दे सरबधै च राज्यपाल दी खास जिम्मेदारी र'वै तां ओह, हुकमै राहें, हिदायत देई सकग जे राज्यपाल दी नेही जिम्मेदारी उस तरीक थमां नेई रौहग जेहड़ी हुकमै च चेची दस्सी जा;

(ख) अरुणाचल प्रदेश दी विधान सभा घट्टो-घट्ट त्रीहें सदस्यें गी मलाइयै बनग]]

[371अ. गोवा रियासत दे सरबधै च चेचे प्रावधान – इस संविधान च बावजूद एहदे बी, गोवा रियासतै दी विधान सभा घट्टो-घट्ट त्रीहें सदस्यें गी मलाइयै बनग]]

372. मजूदा कनूनें दा चलन च बनेआ रौहना ते उं'दा अनुकूलन – (1) अनुच्छेद 395 च दित्तियें गेदियें अधिनियमितियें दा इस संविधान राहें खतम होने पर बी, पर इस संविधान दे होरनें प्रावधानें तैहत रौहदे होई, इस संविधान दे रम्भ थमां ठीक पैहलें भारत दे राज्यक्षेत्र च सभ्मे लागू कनून उत्थै अदू तगर प्रचलन च रौहडन जदू तगर कुसै काबल विधान-मंडल जां होर समर्थ प्राधिकारी आसेआ उसगी बदलेआ जां रदद जां तरमीम नेई करी दित्ता जंदा ऐ।

(2) भारत दे राज्यक्षेत्र च कुसै लागू कनूनै दे प्रावधानें गी इस संविधान दे प्रावधानें दे मताबक बनाने दे मकसद आस्तै राष्ट्रपति, हुकमै राहें, नेह कनूनै दी समाप्ति दे रूपै च जां तरमीम दे रूपै च नेह अनुकूलन ते सुधार करी सकग जेहडे जरूरी जां समें मताबक स्हेई होन ते एह प्रावधान करी सकग जे ओह कनून नेही तरीक थमां जेहड़ी हुकमै च दस्सी जा, इस चाल्ली कीते गेदे अनुकूलनें ते सुधारें तैहत रौहदे होई असरी होग ते कुसै नेह अनुकूलन जां सुधार पर कुसै अदालती च सुआल नेई पुट्टेआ जाहग।

(3) खंड (2) दी कोई गल्ल –

(क) राष्ट्रपति गी इस संविधान दे रम्भ थमां ³[त्र'ऊं ब'रें] दे मुक्कने परैत कुसै कनूनै दा कोई अनुकूलन जां सुधार करने आस्तै सषक्त करने आहली, जां

(ख) कुसै समर्थ विधान-मंडल जां होर समर्थ प्राधिकारी, राष्ट्रपति आसेआ आखे गेदे खंड दे तैहत अनुकूलत जां संधोधत कुसै कनूनै दी समाप्ति जां तरमीम करने थमां रोकने आहली, नेई समझी जाहग।

स्पष्टीकरण 1 – इस अनुच्छेद च “लागू कनून” पद दे तैहत नेहा कनून ऐ जेहड़ा इस संविधान दे रम्भ थमां पैहलें भारत दे राज्यक्षेत्र च कुसै विधान-मंडल आसेआ जां होर समर्थ प्राधिकारी आसेआ पास कीता गेदा ऐ जां बनाया गेदा ऐ ते पैहलें गै रदद नेई करी दित्ता गेदा ऐ, भाएं ओह जां उसदे कोई हिस्से उसलै पूरी चाल्ली जां कु'नें खास क्षेत्रें च चलन च नेई होन।

स्पष्टीकरण 2 – भारत दे राज्यक्षेत्र च कुसै विधान-मंडल आसेआ जां होर समर्थ प्राधिकारी आसेआ पास कीता गेदा जां बनाया गेदा कोई नेहा कनून, जिसदा इस संविधान दे रम्भ थमां ठीक पैहलें बादधू राज्यक्षेत्री असर हा ते भारत

1. संविधान (छपुंजमीं तरमीम) अधिनियम, 1987 दी धारा 2 राहें (30-5-1987 थमां) अंतरस्थापत।
2. दिक्खो, अधिसूचना सं.क.नि.अ. 115, तरीक 5 जून 1950, भारत दी गजट, असाधारण, भाग II, अनुभाग 3, सफा 51; सं. क.नि.अ. 870, तरीक 4 नवंबर 1950, भारत दा गजट, असाधारण, भाग II, अनुभाग 3, सफा-903; अधिसूचना सं. क.नि.अ. 508, तरीक 4 अप्रैल 1951, भारत दी गजट, असाधारण, भाग II, अनुभाग 3, सफा-287; अधिसूचना सं. क.नि.अ. 1140-ख, तरीक 2 जुलाई 1952, भारत दा गजट, असाधारण, भाग II, अनुभाग 3, सफा-616/I; ते त्रावणकोर कोचीन भूमि अर्जन कनून अनुकूलन अदेश, 1952, तरीक 20 नवंबर, 1952, भारत दी गजट, असाधारण, भाग II, अनुभाग 3, सफा-923; राहें तरमीम मताबक कनून अनुकूलन अदेश, 1950, तरीक 26 जनवरी, 1950, भारत दी गजट, असाधारण, सफा-449।
3. संविधान (पैहली तरमीम) अधिनियम, 1951 दी धारा 12 राहें “दो ब'रें” दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।

भारत दा संविधान

(भाग 21 – आरजी, संक्रमणकाली ते चेचे प्रावधान)

दे राज्यक्षेत्र'च बी असर हा, पैहलें आखे दे कु'ने अनुकूलनें ते सुधारें दे तैह्त रौहदे होई, नेहा बादधू राज्यक्षेत्री असर बनेआ रौहग ।

स्पष्टीकरण 3 – इस अनुच्छेद दी कुसै बी गल्लै दा एह अर्थ नेई लाया जाहग जे ओह कुसै आरजी लागू कनूने गी, उसदी समाप्ति आसतै तैऽपुदा तरीक थमां, जां उस तरीक थमां जिसगी, जेकर ओह संविधान लागू नेई होए दा होंदा तां, ओह समाप्त होई जंदा, अगमें चलन च रौहदा ऐ ।

स्पष्टीकरण 4 – कुसै प्रांत दे राज्यपाल आसेआ भारत शासन अधिनियम, 1935 दी धारा 88 दे तैह्त जारी ते इस संविधान दे रम्भ थमां ठीक पैहलें लागू अध्यादेश, जेकर उस-थाहरी रियासत दे राज्यपाल आसेआ पैहलें गे बापस नेई लैता गेआ ऐ तां, नेह रम्भ दे परैत अनुच्छेद 382 दे खंड (1) दे तैह्त कम्म करै'रदी उस रियासतै दी विधान सभा दे पैहले इजलास थमां छें हपतें दे मुक्कने पर चलन च नेई रौहग ते इस अनुच्छेद दी कुसै गल्लै दा एह अर्थ नेई लैता जाहग जे ओह नेह अध्यादेश गी आखी गेदी औद्ध थमां अगमें चलन च बनाई रखदी ऐ ।

[372क. कनूनें गी अनुकूल बनाने दा राष्ट्रपति दा अखेआर – (1) संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम 1956 दे रम्भ थमां ठीक पैहलें भारत'च जां उसदे कुसै हिस्से च लागू कुसै कनूनें दे प्रावधानें गी उस अधिनियम राहें तरमीम मताबक इस संविधान दे प्रावधानें दे मताबक बनाने दे मकसदें आसतै, राष्ट्रपति, 1 नवंबर, 1957 थमां पैहलें कीते गेदे हुकमै राहें, नेह कनून दी समाप्ति दे रूपै'च जां तरमीम दे रूपै'च नेह अनुकूलन ते सुधार करी सकग जेहडे जरूरी जां समें मताबक स्हेई होन ते एह प्रावधान करी सकग जे ओह कनून नेही तरीक थमां जेहडी हुकमै च दस्सी जा, इस चाल्ली कीते गेदे अनुकूलनें ते सुधारें दे तैह्त रौहदे होई असरी होग ते कुसै नेह अनुकूलन जां सुधारें पर कुसै अदालत'च सुआल नेई पुट्टेआ जाहग ।

(2) खंड (1) दी कोई गल्ल, कुसै समर्थ विधान-मंडल जां होर समर्थ प्राधिकारी गी, राष्ट्रपति आसेआ आखे गेदे खंड दे तैह्त अनुकूलत जां संपोधत कुसै कनूनें दी समाप्ति जां तरमीम करने थमां रोकने आहली नेई समझी जाहग ।]

373. निवारक नजरबंदी च रक्खे गेदे व्यक्तियें दे सरबंधै च किश सूरतें च हुकम देने दा राष्ट्रपति दा अखेआर – जदूं तगर अनुच्छेद 22 दे खंड (7) दे तैह्त संसद प्रावधान नेई करदी ऐ जां जदूं तगर इस संविधान दे रम्भ थमां इक ब'रा समाप्त नेई होई जंदा ऐ, इ'दे'चा जेहडा बी पैहलें होऐ, अदूं तगर आखेआ गेदा अनुच्छेद इ'यां असरी होग जि'यां उसदे खंड (4) खंड (7) च संसद दे प्रति कुसै हिदायत दे थाहरै पर राष्ट्रपति दे प्रति हिदायत ते उ'नें खंडें'च संसद आसेआ बनाए गेदे कनूनें दे प्रति हिदायत दे थाहरै पर राष्ट्रपति आसेआ कीते गेदे हुकमै दे प्रति हिदायत रक्खी दिती गई होऐ ।

374. फेडरल अदालत दे जज्जें ते फेडरल अदालत च जां हिज मजेस्टी दी परिशद कोल बकाया पेदियं कारवाइयें दे बारे च प्रावधान – (1) इस संविधान दे रम्भ थमां ठीक पैहलें फेडरल अदालत दे औहदा धारण करने आहले जज्ज, जेकर ओह नेई तां चनोई नेई चुके दे होन तां, नेह रम्भ पर सर्वोच्च अदालत दे जज्ज होई जाहडन ते उसलै नेही तनखाहीं ते भत्ते ते गैर-हाजरी छुट्टी ते पैषन दे सरबंधै'च नेह अधिकारें दे हकदार होडन जेहडे सर्वोच्च अदालत दे जज्जें दे सरबंधै 'च अनुच्छेद 125 दे तैह्त प्रावधान कीते गेदे न ।

(2) इस संविधान दे रम्भ पर फेडरल अदालती च बकाया पेदे सभनें सिवल जां अपराधक झगडे, अपीलां ते कारवाइयां, सर्वोच्च अदालती गी थांतरत होई जाहडन ते सर्वोच्च अदालत गी उ'नेंगी सुनने ते उ'नेंगी निष्चित करने दी अधिकारता होग ते फेडरल अदालत आसेआ इस संविधान दे रम्भ थमां पैहलें सनाए गेदे जां दित्ते गेदे फैसलें ते हुकमं दा उ'ऐ बल ते प्रभाव होग जि'यां आखो ओह सर्वोच्च अदालत आसेआ सनाए गेदे होन जां दित्ते गेदे होन ।

1. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 23 राहें अंतरस्थापत ।
2. दिक्खो 1956 ते 1957 दे कनून अनुकूलन अदेश ।

भारत दा संविधान

(भाग 21 – आरजी, संक्रमणकाली ते चेचे प्रावधान)

(3) इस संविधान दी कोई गल्ल भारत दे राज्यक्षेत्र दे अंदर कुसै अदालत दे कुसै फैसले, डिक्री जां हुकमै दी जां उसदे सरबंधे च अपीलें ते दरखास्तें गी नबेड़ने आस्तै सपरिषद् हिज मजेस्टी आसेआ अधिकारता दी बरतून गी उत्थूं तगर गैर कनूनी नेई करग जित्थूं तगर नेही अधिकारता दी बरतून कनूनै राहें हासल ऐ ते नेही अपील जां दरखास्तें पर इस संविधान दे रम्भ दे परैत कीता गेदा सपरिषद् हिज मजेस्टी दा कोई हुकम सभनें मकसदें आस्तै इ'यां असरी होग जि'यां आखो ओह सर्वोच्च अदालती आसेआ उस अधिकारता दी बरतून च जेहड़ा नेही अदालती गी इस संविधान आसेआ प्रदान कीती गेदी ऐ, कीता गेदा कोई हुकम जां डिक्री होऐ।

(4) इस संविधान दे रम्भ थमां गै पैहली अनुसूची दे भाग ख'च दस्से गेदे कुसै रियासतै च प्रिवी कौंसल दे रूपे'च कम्म करै'रदे प्राधिकारी दी उस रियासतै दे अंदर कुसै अदालत दे कुसै फैसले, डिक्री जां हुकमै दी जां उसदे सरबंधे च अपीलें, जां दरखास्तें गी ग्रैहण करने जां नबेड़ने दी अधिकारता मुक्की जाहग ते आखे गेदे प्राधिकारी दे सामनै नेह रम्भ पर बकाया सभ्भै अपीलां ते कारवाइयां सर्वोच्च अदालत गी थांतरत करी दित्तियां जाहडन जेहडियां उसदे आसेआ नबेड़ियां जाहडन।

(5) इस अनुच्छेद दे प्रावधानें गी असरी करने आस्तै संसद कनूनै राहें होर प्रावधान करी सकग।

375. संविधान दे प्रावधानें दे तैहत् रौहदे होई अदालतें, प्राधिकारियें ते अधिकारियें दा कम्म करदे रौहना – भारत दे राज्यक्षेत्र'च सभनें सिवल, अपराधक ते राजस्व अधिकारता आहली सभनें अदालतें ते सभनें न्यायिक, कार्यपालक ते मंत्रालय सरबंधी प्राधिकारी ते अफसर अपने-अपने कम्में गी, इस संविधान दे प्रावधानें दे तैहत् रौहदे होई, करदे रौहडन।

376. उच्च अदालतें दे जज्जें दे बारे च प्रावधान – (1) अनुच्छेद 217 दे खंड (2) च कुसै गल्लै दे होंदे होई बी, इस संविधान दे रम्भ थमां ठीक पैहलें कुसै प्रांत दी उच्च अदालत दा औहदा धारण करने आहले जज्ज, जेकर ओह होर कुतै चनोई नेई चुके दे होन तां, नेह रम्भ पर उस-थाहरी रियासत दी उच्च अदालत दे जज्ज होई जाहडन ते उसलै नेहियां तनखाहीं, भत्तें ते गैर-हाजरी छुट्टी ते पैषन दे सरबंधे'च नेह अधिकारें दे हकदार होडन जि'दा प्रावधान नेही उच्च अदालतें दे जज्जें दे सरबंधे'च अनुच्छेद 221 दे तैहत् कीता गेदा ऐ। '[नेहा जज्ज इस गल्लै दे होंदे होई बी जे ओह भारत दा नागरिक नेई है, नेही उच्च अदालतें दा मुख्ख न्यांमूर्ति जां कुसै होर उच्च अदालत दा मुख्ख न्यांमूर्ति जां होर जज्ज नियुक्त होने दा पात्र होग।]

(2) इस संविधान दे रम्भ थमां ठीक पैहलें पैहली अनुसूची दे भाग ख च दस्से गेदे कुसै रियासतै दे उस-थाहरी कुसै देषी रियासतै दी उच्च अदालत दे औहदा धारण करने आहले जज्ज, जेकर ओह होर कुतै चनोए नेई जाई चुके दे होन तां, नेह रम्भ पर इस चाल्ली दस्सी गेदी रियासतै दी उच्च अदालत दे जज्ज होई जाहडन ते अनुच्छेद 217 दे खंड (1) ते खंड (2) च कुसै गल्लै दे होंदे होई बी, पर उस अनुच्छेद दे खंड (1) दे परंतुक दे तैहत् रौहदे होई, नेही औद्ध दे मुक्कने तगर औहदा धारण करदे रौहडन जेहड़ी राष्ट्रपति हुकमै राहें निष्वत करै।

(3) इस अनुच्छेद च, "जज्ज" पद दे तैहत् कार्यकारी जज्ज जां अपर जज्ज नेई ऐ।

377. भारत दे नियंत्रक-महालेखापारखी दे बारे च प्रावधान – इस संविधान दे रम्भ थमां ठीक पैहलें औहदा धारण करने आहला भारत दा महालेखापारखी, जेकर ओह होर कुतै नेई चनोए दा होऐ तां, नेह रम्भ पर भारत दा नियंत्रक-महालेखापारखी होई जाहग ते उसलै नेहियां तनखाहीं ते गैर-हाजरी छुट्टी ते पैषन दे सरबंधे'च नेह अधिकारें दा हकदार होग जि'दे प्रावधान भारत दे नियंत्रक-महालेखापारखी दे सरबंधे'च अनुच्छेद 148 दे खंड (3) दे तैहत् कीते गेदे न ते अपने औहदे दी औद्ध दे मुक्कने तगर औहदा धारण करने दा हकदार होग जेहड़ा नेह रम्भ थमां ठीक पैहलें उसगी लागू होने आहले प्रावधानें दे तैहत् निष्वित कीता जा।

1. संविधान (पैहली तरमीम) अधिनियम, 1951 दी धारा 13 राहें जोड़ेआ गेआ।

भारत दा संविधान

(भाग 21 – आरजी, संक्रमणकाली ते चेचे प्रावधान)

378. लोक सेवा आयोगें दे बारे च प्रावधान – (1) इस संविधान दे रम्भ थमां ठीक पैहलें भारत डोमिनियन दे लोक सेवा आयोग दे औहदा धारण करने आहले सदस्य, जेकर ओह जां फही ओह चनोई नेई गेदे होन तां नेह रम्भ पर संघ दे लोक सेवा आयोग दे सदस्य होई जाहडन ते अनुच्छेद 316 दे खंड (1) ते खंड (2) च कुसै गल्लै दे होंदे होई बी, पर उस अनुच्छेद दे खंड (2) दे परंतुक तैहत् रौहदे होई, अपने उस औहदे दी औद्ध दे मुक्कने तगर औहदा धारण करदे रौहडन जेहड़ी नेह रम्भ थमां ठीक पैहलें नेह सदस्यें गी लागू नियमें दे तैहत् निष्चत ऐ।

(2) इस संविधान दे रम्भ थमां ठीक पैहलें कुसै प्रांत दे लोक सेवा आयोग दे जां प्रांतें दे समूह दी जरूरतें गी पूरा करने आहले कुसै लोक सेवा आयोग दे औहदा धारण करने आहले सदस्य, जेकर ओह जां फही चनोई नेई गेदे होन, नेह रम्भ पर, स्थिति मताबक, उस-थाहरी रियासत दे लोक सेवा आयोग दे सदस्य जां उस-थाहरी रियासतें दी लोडें गी पूरा करने आहले संयुक्त रियासती लोक सेवा आयोग दे सदस्य होई जाहडन ते अनुच्छेद 316 दे खंड (1) ते खंड (2) च कुसै गल्लै दे होंदे होई बी पर उस अनुच्छेद दे खंड (2) दे परंतुक तैहत् रौहदे होई, अपनी उस औहदे दी औद्ध दे मुक्कने तगर औहदा धारण करदे रौहडन जेहड़ी नेह रम्भ थमां ठीक पैहलें नेह सदस्यें गी लागू नियमें तैहत् निष्चत ऐ।

¹[378क. आंध्र प्रदेश विधान सभा दी औद्ध दे बारे च चेचे प्रावधान – अनुच्छेद 172 च कुसै गल्लै दे होंदे होई बी, राज्य मुद्द-गठन अधिनियम, 1956 दी धारा 28 ते धारा 29 दे प्रावधानें दे तैहत् गठत आंध्र प्रदेश रियासत दी विधान सभा, जेकर पैहलें गै भंग नेई करी दिती जंदी ऐ तां, आखी गेदी धारा 29'च दस्सी दी तरीक थमां पं'जें ब'रें दी औद्ध तगर बनी दी रौहग, एहदे थमां बद्ध नेई ते आखी गेदी औद्ध दे मुक्कने दा नतीजा उस विधान सभा दा भंग होना होग।]

379–391. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें रद्द।

392. औखें गो दूर करने दा राष्ट्रपति दा अख्तेआर – (1) राष्ट्रपति कु'नें नेहियें औखें गी, जेहडियां खास तौरा पर भारत शासन अधिनियम, 1935 दे प्रावधानें कन्नै इस संविधान दे प्रावधानें गी संक्रमण दे सरबंधें'च होन, दूर करने दे मकसद आस्तै हुकमै राहें हिदायत देई सकग जे एह संविधान उस हुकमै च दस्सी गेदी औद्ध दे दरान, तरमीम, बादधे जां लोप दे रूपै च नेह अनुकूलन तैहत् रौहदे होई असरी होग जेहडे ओह जरूरी जां समें मताबक स्हेई समझै:

पर नेहा कोई हुकम भाग 5 दे ध्याऽ 2 दे तैहत् ठीक चाल्ली कन्नै गठत संसद दे पैहले इजलास दे परैत नेई कीता जाहग।

(2) खंड (1) दे तैहत् कीता गेदा हर इक हुकम संसद दे सामनै रक्खेआ जाहग।

(3) इस अनुच्छेद , अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 367 दे खंड (3) ते अनुच्छेद 391 राहें राष्ट्रपति गी हासल अख्तेआर, इस संविधान दे रम्भ थमां पैहलें, भारत डोमिनियन दे गर्वनर जनरल आस्सेआ बरतून जोग होडन।

1. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 24 राहें अंतरस्थापत।

लौहका सिरलेख, रम्भ, ¹[हिंदी भाषा च प्राधिकृत पाठ] ते रद्द

393. लौहका सिरलेख – इस संविधान दा लौहका नांS भारत दा संविधान ऐ।

394. रम्भ – एह अनुच्छेद ते अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 ते 393 फौरी लागू होउन ते इस संविधान दे बाकी प्रावधान 26 जनवरी, 1950 गी लागू होउन जेहड़ा दिन इस संविधान दे रम्भ दे रूपै च दित्ता गोदा ऐ।

²[394क. हिंदी भाषा च प्राधिकृत पाठ – (1) राष्ट्रपति —

(क) इस संविधान दे हिंदी भाषा च अनुवाद गी, जिस पर संविधान सभा दे सदस्ये दसखत कीते हे, नेह सुधारें दे कन्ने जेहड़े उसगी केंदरी अधिनियमें दे हिंदी भाषा'च प्राधिकृत पाठै'च अपनाई गई भाषा, शैली ते शब्दावली दे मताबक बनाने आस्तै जरूरी न, ते नेह प्रकाषन दे पैहलें कीते गोदे इस संविधान दियें नेहियें सभनें तरमीमें गी ओहदे'च शामिल करदे होई, ते

(ख) अंग्रेजी भाषा च कीती गोदी इस संविधान दी हर इक तरमीम दे हिंदी भाषा च अनुवाद गी,

अपने प्राधिकार कन्ने प्रकाषत करोआहग।

(2) खंड (1) दे तैहत प्रकाषत इस संविधान ते इसदी हर इक तरमीम दे अनुवाद दा उ'ऐ अर्थ लैता जाहग जेहड़ा उसदे मूल दा अर्थ ऐ ते जेकर नेह अनुवाद दे कुसै हिस्से दा इस चाल्ली अर्थ लाने च कोई औख पैदा होंदी ऐ तां राष्ट्रपति उसदा परतियै मनासब नरीक्षण करोआहग।

(3) इस संविधान दा ते इसदी हर इक तरमीम दा इस अनुच्छेद दे तैहत प्रकाषत अनुवाद सभनें मकसदे आस्तै, उसदा हिंदी भाषा'च प्राधिकृत पाठ समझेआ जाहग।

395. रद्द – भारत स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 ते भारत शासन अधिनियम, 1935 दा, बाद'च आखे गोदे अधिनियम दी, संशोधक जां अनुपूरक सभनें अधिनियमितियें दे कन्ने, जिं'दे तैहत प्रिवी कौंसल अधिकारता समाप्ति अधिनियम, 1949 नेई ऐ, एहदे राहें खारज कीता जंदा ऐ।

1. संविधान (दुं'जमी तरमीम) अधिनियम, 1987 दी धारा 2 राहें अंतरस्थापत।

2. संविधान (दुं'जमी तरमीम) अधिनियम, 1987 दी धारा 3 राहें अंतरस्थापत।

¹[पैहली अनुसूची
(अनुच्छेद 1 ते अनुच्छेद4)

1. रियासतां

नांS	राज्यक्षेत्र
1. आंध्र प्रदेश	² [ओह राज्यक्षेत्र जेहड़े आंध्र राज्य अधिनियम, 1953 दी धारा 3 दी उपधारा (1) च, राज्य मुढ-गठन अधिनियम, 1956 दी धारा दी उपधारा (1) च, आंध्र प्रदेश ते मद्रास (हद्द-तब्दीली) अधिनियम, 1959 दी पैहली अनुसूची'च ते आंध्र प्रदेश ते मैसूर (राज्यक्षेत्र तबादला) अधिनियम, 1968 दी अनुसूची'च दस्से दे न, पर ओह राज्यक्षेत्र इसदे तैहत् नेई न जेहड़े आंध्र प्रदेश ते मद्रास (हद्द-तब्दीली अधिनियम, 1959 दी दूई अनुसूची च दस्से दे न।]
2. असम	ओह राज्यक्षेत्र जेहड़े इस संविधान दे रम्भ थमां ठीक पैहलें असम प्रांत, खासी रियासतें ते असम जनजाति क्षेत्रें च शामिल हे, पर ओह राज्यक्षेत्र इसदे तैहत् नेई न जेहड़े असम (हद्द-तब्दीली) अधिनियम , 1951 दी अनुसूची च दस्से दे न ³ [ते ओह राज्यक्षेत्र बी इसदे तैहत् नेई न जेहड़े नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962 दी धारा 3 दी उपधारा (1) च दस्से दे न] ⁴ [ते ओह राज्य क्षेत्र] बी इसदे तैहत् नेई न ⁴ [जेहड़े पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुढ-गठन) अधिनियम, 1971 दी धारा 5, धारा 6 ते धारा 7 च दस्से दे न।]
3. बिहार	⁵ [ओह राज्यक्षेत्र जेहड़े इस संविधान दे रम्भ थमां ठीक पैहलें जां ते बिहार प्रांत च शामिल हे जां इस चाल्ली प्रशासत हे जि'यां ओह उस प्रांत दे हिस्से रेह् होन ते ओह राज्यक्षेत्र जेहड़े बिहार ते उत्तर प्रदेश (हद्द-तब्दीली) अधिनियम, 1968 दी धारा 3 दी उपधारा (1) दे खंड (क) च दर्ज न, पर ओह राज्यक्षेत्र इसदे तैहत् नेई न जेहड़े बिहार ते पश्चिमी बंगाल (राज्यक्षेत्र तबादला) अधिनियम, 1956 दी धारा 3 दी उपधारा (1)च दस्से दे न ते ओह राज्यक्षेत्र बी इसदे तैहत् नेई न जेहड़े पैहलें वर्णत अधिनियम दी धारा 3 दी उपधारा (1) दे खंड (ख) च दस्से दे न ⁶ [ते ओह राज्यक्षेत्र जेहड़े बिहार मुढ-गठन अधिनियम, 2000 दी धारा 3 च दस्से दे न।]

1. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 2 राहें पैहली अनुसूची दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
2. आंध्र प्रदेश ते मैसूर (राज्यक्षेत्र तबादला) अधिनियम, 1968 (1968 दा 36) दी धारा 4 राहें (1-10-1968) थमां पछेत्तरे इंदराज दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
3. नागालैंड रियासत अधिनियम, 1962 (1962 दा 27) दी धारा 4 राहें (1-12-1963 थमां) जोड़ेआ गेआ।
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुढ-गठन) अधिनियम, 1971 (1971 दा 81) दी धारा 9 राहें (21-1-1972 थमां) जोड़ेआ गेआ।
5. बिहार ते उत्तर प्रदेश (हद्द-तब्दीली) अधिनियम, 1968 (1968 दा 24) दी धारा 4 राहें (10-6-1970 थमां) पछेत्तरे इंदराज दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।
6. बिहार मुढ-गठन अधिनियम, 2000 (2000 दा 30) दी धारा 5 राहें (15-11-2000 थमां) जोड़ेआ गेआ।

भारत दा संविधान
(पैहली अनुसूची)

- ²[4. गुजरात ओह राज्यक्षेत्र जेहड़े मुंबई मुढ-गठन अधिनियम, 1960 दी धारा 3 दी उपधारा (1) च दित्ते दे न।]
5. केरल ओह राज्यक्षेत्र जेहड़े राज्य मुढ-गठन अधिनियम, 1956 दी धारा 5 दी उपधारा (1) च दित्ते दे न।
6. मध्य प्रदेश ओह राज्यक्षेत्र जेहड़े राज्य मुढ-गठन अधिनियम, 1956 दी धारा 9 दी उपधारा (1) च ²[ते राजस्थान ते मध्य प्रदेश (राज्यक्षेत्र तबादला) अधिनियम, 1959 दी पैहली अनुसूची च दित्ते दे न ³[पर इंदे तैहत मध्य प्रदेश मुढ-गठन अधिनियम, 2000 दी धारा 3 च दित्ते गेदे राज्यक्षेत्र नेई न]।]
- ⁵[7. तमिलनाडु] ओह राज्यक्षेत्र जेहड़े इस संविधान दे रम्भ थमां ठीक पैहलें जां ते मद्रास प्रांत च शामिल हे जां इस चाल्ली प्रशासत हे जि'यां आखो ओह उस प्रांत दे हिस्से रेह होन ते ओह राज्यक्षेत्र जेहड़े राज्य मुढ-गठन अधिनियम, 1956 दी धारा 4 च ⁵[ते आंध्र प्रदेश ते मद्रास (हद्द-तब्दीली) अधिनियम, 1959 दी दूई अनुसूची च] दस्से गेदे न, पर ओह राज्यक्षेत्र इसदे तैहत नेई न जेहड़े आंध्र राज्य अधिनियम, 1953 दी धारा 3 दी उपधारा (1) ते धारा 4 दी उपधारा (1) च दस्से गेदे न ते ⁶[ओह राज्यक्षेत्र बी इसदे तैहत नेई न जेहड़े राज्य मुढ-गठन अधिनियम, 1956 दी धारा 5 दी उपधारा (1) दे खंड (ख), धारा 6 ते धारा 7 दी उपधारा (1) दे खंड (घ) च दस्से गेदे न ते ओह राज्यक्षेत्र बी इसदे तैहत नेई न जेहड़े आंध्र प्रदेश ते मद्रास (हद्द-तब्दीली) अधिनियम, 1959 दी पैहली अनुसूची च दस्से दे न]।
- ⁸[8. महाराष्ट्र ओह राज्यक्षेत्र जेहड़े राज्य मुढ-गठन अधिनियम, 1956 दी धारा 8 दी उपधारा (1) च दस्से दे न, पर ओह राज्यक्षेत्र इसदे तैहत नेई न जेहड़े मुंबई मुढ-गठन अधिनियम, 1960 दी धारा 3 दी उपधारा (1) च दित्ते दे न।]
- ⁹[¹⁰[9.] कर्नाटक ओह राज्यक्षेत्र जेहड़े राज्य मुढ-गठन अधिनियम, 1956 दी धारा 7 दी उपधारा (1) च दस्से दे न, ¹⁰[पर ओह राज्यक्षेत्र इसदे तैहत नेई न जेहड़े आंध्र प्रदेश ते मैसूर (राज्यक्षेत्र तबादला) अधिनियम, 1968 दी अनुसूची च दस्से दे न।]
- ¹[10.] ⁴[उड़ीसा] ओह राज्यक्षेत्र जेहड़े इस संविधान दे रम्भ थमां ठीक पैहलें जां ते उड़ीसा प्रांत च शामिल हे जां इस चाल्ली प्रशासत हे जि'यां आखो ओह उस प्रांत दे हिस्से रेह होन।

1. मुंबई मुढ-गठन अधिनियम, 1960 (1960 दा 11) दी धारा 4 राहें (1-5-1960 थमां) इंदराज 4 दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।
2. राजस्थान ते मध्य प्रदेश (राज्यक्षेत्र तबादला) अधिनियम, 1959 (1959 दा 47) दी धारा 4 राहें (1-10-1959 थमां) अंतरस्थापत।
3. मध्य प्रदेश मुढ-गठन अधिनियम, 2000 (2000 दा 28) दी धारा 5 राहें अंतरस्थापत।
4. मद्रास रियासत (नांS तब्दील) अधिनियम, 1968 (1968 दा 53) दी धारा 5 राहें (14-1-1969 थमां) "7 मद्रास" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
5. आंध्र प्रदेश ते मद्रास (हद्द-तब्दीली) अधिनियम, 1959 (1959 दा 56) दी धारा 6 राहें (1-4-1960 थमां) अंतरस्थापत।
6. आंध्र प्रदेश ते मद्रास (हद्द-तब्दीली) अधिनियम, 1959 (1959 दा 56) दी धारा 6 राहें (1-4-1960 थमां) किष शब्दें दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
7. मुंबई मुढ-गठन अधिनियम, 1960 (1960 दा 11) दी धारा 4 राहें (1-5-1960 थमां) अंतरस्थापत।
8. मैसूर रियासत (नांS तब्दील) अधिनियम, 1973 (1973 दा 31) दी धारा 5 राहें (1-11-1973 थमां) "9. मैसूर" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
9. मुंबई मुढ-गठन अधिनियम, 1960 (1960 दा 11) दी धारा 4 राहें (1-5-1960 थमां) इंदराज 8 थमां 14 तगर गी इंदराज 9 थमां 15 तगर दे रूपै च मुढी-गिनेआ गेआ।
10. आंध्र प्रदेश ते मैसूर (हद्द-तब्दीली) अधिनियम, 1968 (1968 दा 36) दी धारा 4 राहें (1-10-1968 थमां) अंतरस्थापत।

भारत दा संविधान
(पैहली अनुसूची)

- ¹[11.] पंजाब ओह राज्यक्षेत्र जेहड़े राज्य मुद्द-गठन अधिनियम, 1956 दी धारा 11'च दस्से दे न ²[ते ओह राज्य क्षेत्र जेहड़े अर्जित राज्य क्षेत्र (विलय) अधिनियम 1960 दी पैहली अनुसूची दे भाग 2 च दित्ते दे न] ³[पर ओह राज्यक्षेत्र एहदे तैहत् नेई न जेहड़े संविधान (नौमीं तरमीम) अधिनियम, 1960 दी पैहली अनुसूची दे भाग 2 च दित्ते दे न] ⁴[ते ओह राज्यक्षेत्र बी इसदे तैहत् नेई न जेहड़े पंजाब मुद्द-गठन अधिनियम 1966 दी धारा 3 दी उपधारा (1), धारा 4 ते धारा 5 दी उपधारा (1) च दस्से दे न]।
- ¹[12.] राजस्थान ओह राज्यक्षेत्र जेहड़े राज्य मुद्द-गठन अधिनियम, 1956 दी धारा 10 च दस्से दे न, ⁵[पर ओह राज्यक्षेत्र इसदे तैहत् नेई न जेहड़े राजस्थान ते मध्य प्रदेश (राज्यक्षेत्र तबादला) अधिनियम, 1959 दी पैहली अनुसूची च दस्से दे न]।
- ¹[13.] उत्तर प्रदेश ⁶[ओह राज्यक्षेत्र जेहड़े इस संविधान दे रम्भ थमां ठीक पैहलें जां ते संयुक्त प्रांत नांउ कन्नै जान्ने जाने आहले प्रांत'च शामिल हे जां इस चाल्ली प्रषासत हे जि'यां आखो ओह उस प्रांत दे हिस्से रेहदे होन, ओह राज्यक्षेत्र जेहड़े बिहार ते उत्तर प्रदेश (हद्द-तब्दीली) अधिनियम, 1968 दी धारा 3 दी उपधारा (1) दे खंड (ख) च दस्से दे न ते ओह राज्यक्षेत्र जेहड़े हरियाणा ते उत्तर प्रदेश (हद्द-तब्दीली) अधिनियम, 1979 दी धारा 4 दी उपधारा (1) दे खंड (ख) च दस्से दे न, पर ओह राज्य क्षेत्र इसदे तैहत् नेई न जेहड़े बिहार ते उत्तर प्रदेश (हद्द-तब्दीली) अधिनियम , 1968 दी धारा 3 दी उपधारा (1) दे खंड (क) ⁷[ते उत्तर प्रदेश मुद्द-गठन अधिनियम, 2000 दी धारा 3] च दस्से दे न ते ओह राज्य क्षेत्र बी इसदे तैहत् नेई न जेहड़े हरियाणा ते उत्तर प्रदेश (हद्द-तब्दीली) अधिनियम, 1979 दी धारा 4 दी उपधारा (1) दे खंड (क) च दस्से दे न।]
- ¹[14.] पच्छिमी बंगाल ओह राज्यक्षेत्र जेहड़े इस संविधान दे रम्भ थमां ठीक पैहलें जां ते पच्छिमी बंगाल प्रांत'च शामिल हे जां इस चाल्ली प्रषासत हे जि'यां ओह उस प्रांत दे हिस्से रेह होन ते चंद्रनगर (विलय) अधिनियम, 1954 दी धारा (2) दे खंड (ग) च परिभाषा मताबक चंद्रनगर दा राज्यक्षेत्र ते ओह राज्यक्षेत्र बी जेहड़े बिहार ते पच्छिमी बंगाल (राज्यक्षेत्र तबादला) अधिनियम, 1956 दी धारा 3 दी उपधारा (1) च दस्से दे न। ⁸[ते इसदे कन्नै गै पैहली अनुसूची दे भाग – III च दस्से गेदे राज्यक्षेत्र पर दूई अनुसूची दे भाग – III च दस्से गेदे राज्यक्षेत्रे गी बाहर रखदे होई (इक सौ तरमीम), अधिनियम 2015]

1. मुंबई मुद्द-गठन अधिनियम, 1960 (1960 दा 11) दी धारा 4 राहें (1-5-1960 थमां) इंदराज 4 थमां 14 गी इंदराज 9 थमां 15 तगर दे रूपै च मुद्दी गिनेआ गेआ।
2. अर्जत राज्य क्षेत्र (विलय) अधिनियम, 1960 (1960 दा 64) दी धारा 4 राहें (17-1-1961 थमां) अंतरस्थापत।
3. संविधान (नौमीं तरमीम) अधिनियम, 1960 दी धारा 3 राहें (17-1-1961 थमां) जोड़ेआ गेआ।
4. पंजाब मुद्द-गठन अधिनियम, 1966 (1966 दा 31) दी धारा 7 राहें (1-11-1966 थमां) अंतरस्थापत।
5. राजस्थान ते मध्य प्रदेश (राज्यक्षेत्र तबादला) अधिनियम, 1959 (1959 दा 47) दी धारा 4 राहें (1-10-1959 थमां) अंतरस्थापत।
6. हरियाणा ते उत्तर प्रदेश (हद्द-तब्दीली) अधिनियम, 1979 (1979 दा 31 थमां) दी धारा 5 राहें (15-9-1983 थमां) "13. उत्तर प्रदेश" दे सामने दे इंदराज दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
7. उत्तर प्रदेश मुद्द-गठन अधिनियम, 2000 (2000 दा 29) दी धारा 5 राहें (9-11-2000 थमां) अंतरस्थापत।
8. संविधान (इक सौ तरमीम) अधिनियम, 2015, दी धारा 3 (ग) (31-7-2015) राहें जोड़ेआ गेआ

भारत दा संविधान
(पैहली अनुसूची)

- ¹[***]
- ²[³[15]. नागालैंड ओह राज्यक्षेत्र जेहड़े नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962 दी धारा 3 दी उपधारा (1) च दस्से दे न।]
- ⁴[³[16]. हरियाणा ⁵[ओह राज्य क्षेत्र जेहड़े पंजाब मुद्द-गठन अधिनियम, 1966 दी धारा 3 दी उपधारा (1) च दस्से दे न ते ओह राज्यक्षेत्र जेहड़े हरियाणा ते उत्तर प्रदेश (हद्द-तब्दीली) अधिनियम, 1979 दी धारा 4 दी उपधारा (1) दे खंड (क) च दस्से दे न, पर ओह राज्यक्षेत्र इसदे तैहत् नेई न जेहड़े उस अधिनियम दी धारा 4 दी उपधारा (1) दे खंड (ख) च दस्से दे न।]]
- ⁶[³[17]. हिमाचल प्रदेश ओह राज्यक्षेत्र जेहड़े इस संविधान दे रम्भ थमां ठीक पैहलें इस चाल्ली प्रपासत हे जि'यां ओह हिमाचल प्रदेश ते बिलासपुर दे नांS कन्नै जान्ने जाने आहले मुख् आयुक्त आहले प्रांत रेह होन ते ओह राज्यक्षेत्र जेहड़े पंजाब मुद्द-गठन अधिनियम, 1966 दी धारा 5 दी उपधारा (1) च दस्से दे न।]
- ⁷[³[18]. मणिपुर ओह राज्यक्षेत्र जेहड़ा इस संविधान दे रम्भ थमां ठीक पैहलें इस चाल्ली प्रपासत हा जि'यां ओह मणिपुर दे नांS कन्नै जान्ने जाने आहला मुख् आयुक्त आहला प्रांत रेहा होऐ।
- ⁷[³[19]. त्रिपुरा ओह राज्यक्षेत्र जेहड़ा इस संविधान दे रम्भ थमां ठीक पैहलें इस चाल्ली प्रपासत हा जि'यां ओह त्रिपुरा दे ¹¹[ते पैहली अनुसूची दे भाग-II च दस्से गेदे राज्यक्षेत्र (इक सौ तरमीम) अधिनियम, 2015, बावजूद एहदे इस संविधान दी धारा 3 दे खंड (घ) च शामिल कुसै चीजै दे होंदे होई बी (नौमीं तरतीम) अधिनियम, 1960, जिथूं तगर संविधान (इक सौ तरमीम) दी पैहली अनुसूची च भाग II च दस्से गेदे राज्य क्षेत्रें कन्नै सरबंधत ऐ] नांS कन्नै मुख् आयुक्त दा प्रांत रेहा होऐ।
- ⁷[³[20]. मेघालय ओह राज्यक्षेत्र जेहड़े पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुद्द-गठन अधिनियम, 1971 दी धारा 5 च दस्से दे न।] ¹²[ते संविधान दी पैहली अनुसूची दे भाग I च दस्से गेदे राज्यक्षेत्र , संविधान दी दूई अनुसूची दे भाग II च दस्से गेदे राज्य क्षेत्रें गी छोड़ियै]
- ⁸[³[21]. सिक्किम ओह राज्यक्षेत्र जेहड़े संविधान (छित्तिमीं तरमीम) अधिनियम, 1975 दे रम्भ थमां ठीक पैहलें सिक्किम च शामिल हे।]
- ⁹[³[22]. मिज़ोरम ओह राज्यक्षेत्र जेहड़े संविधान पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुद्द-गठन) अधिनियम, 1971 दी धारा 6 च दस्से दे न।]
- ¹⁰[³[23]. अरुणाचल प्रदेश ओह राज्यक्षेत्र जेहड़े पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुद्द-गठन) अधिनियम, 1971 दी धारा 7 च दस्से दे न।]

1. मुंबई मुद्द-गठन अधिनियम, 1960 (1960 दा 11) दी धारा 4 राहें (1-5-1960 थमां) इंदराज 8 थमां 14 तगर गी इंदराज 9 थमां 15 तगर दे रूपै'च मुद्द गिनेआ गेआ।
1. जम्मू ते कश्मीर कन्नै सरबंधत इंदराज जम्मू ते कश्मीर मुद्द-गठन अधिनियम, 2019 दी धारा 6(क) राहें (31 अक्टूबर, 2019 थमा) लोप।
2. नागालैंड रियासत अधिनियम, 1962 (1962 दा 27) दी धारा 4 राहें (1-12-1963 थमां) अंतरस्थापत।
3. जम्मू ते कश्मीर मुद्द-गठन अधिनियम, 2019 (2019 दा 34) दी धारा 6(ख) राहें (31 अक्टूबर, 2019 थमा) इंदराज 15 थमां 28 दे रूपै च मुद्द-गिनती कीता गेआ।
4. पंजाब मुद्द-गठन अधिनियम, 1966 (1966 दा 31) दी धारा 7 राहें (1-11-1966 थमां) अंतरस्थापत।
5. हरियाणा ते उत्तर प्रदेश (हद्द-तब्दीली) अधिनियम, 1979 (1979 दा 31) दी धारा 5 राहें (15-9-1983 थमां) "17 हरियाणा" दे सामनै दे इंदराज दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
6. हिमाचल प्रदेश रियासत अधिनियम, 1970 (1970 दा 53) दी धारा 4 राहें (25-1-1971 थमां) अंतरस्थापत।
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुद्द-गठन) अधिनियम, 1971 (1971 दा 81) दी धारा 9 राहें (21-1-1972 थमां) अंतरस्थापत।
8. संविधान (छित्तिमी तरमीम) अधिनियम, 1975 दी धारा 2 राहें (26-4-1975 थमां) अंतरस्थापत।
9. मिज़ोरम रियासत अधिनियम, 1986 (1986 दा 34) दी धारा 4 राहें (20-2-1987 थमां) अंतरस्थापित।
10. अरुणाचल प्रदेश रियासत अधिनियम, 1986 (1986 दा 69) दी धारा 4 राहें (20-2-1987 थमां) अंतरस्थापत।
11. संविधान (इक सौ तरमीम), अधिनियम, 2015 राहें (31-7-2015) जोड़ेआ गेआ।
12. संविधान (इक सौ तरमीम), अधिनियम, 2015 राहें (31-7-2015) जोड़ेआ गेआ।

भारत दा संविधान
(पैहली अनुसूची)

¹ [² [24]. गोवा	ओह राज्यक्षेत्र जेहड़े गोवा,दमण ते दीव मुढ-गठन अधिनियम, 1987 दी धारा 3 च दस्से दे न।]
³ [² [25]. छत्तीसगढ	मध्य प्रदेश मुढ-गठन अधिनियम, 2000 दी धारा 3 च दस्से दे राज्यक्षेत्र।]
⁴ [² [26]. ⁵ [उत्तराखंड]	ओह राज्यक्षेत्र जेहड़े उत्तर प्रदेश मुढ-गठन अधिनियम, 2000 दी धारा 3 च दस्से दे न।]
⁶ [² [27]. झारखंड	ओह राज्यक्षेत्र जेहड़े बिहार मुढ-गठन अधिनियम, 2000 दी धारा 3 च दस्से दे न।]
⁷ [² [28]. तेलंगाना	ओह राज्यक्षेत्र जेहड़े आंध्र प्रदेश मुढ-गठन अधिनियम 2014 दी धारा 3 च दस्से दे न।]

2. संघ राज्यक्षेत्र

नांस	विस्तार
1. दिल्ली	ओह राज्यक्षेत्र जेहड़ा इस संविधान दे रम्भ थमां ठीक पैहलें दिल्ली दे मुख् आयुक्त आहले प्रांत च शामिल हा।
8[***]	* * * * *
9[***]	* * * * *
+2. अंडेमान ते निकोबार द्वीप	ओह राज्यक्षेत्र जेहड़ा इस संविधान दे रम्भ थमां ठीक पैहलें अंडेमान ते निकोबार द्वीप दे मुख् आयुक्त आहले प्रांत च शामिल हा।
+3. ¹⁰ [लक्षद्वीप]	ओह राज्यक्षेत्र जेहड़ा राज्य मुढ-गठन अधिनियम, 1956 दी धारा 6 च दस्से दा ऐ।

- गोवा, दमण ते दीव मुढ-गठन अधिनियम, 1987 (1960 दा 18) दी धारा 5 राहें (30-5-1987 थमां) अंतरस्थापत।
- जम्मू ते कश्मीर कन्नै सरबंधत इंदराज जम्मू ते कश्मीर मुढ-गठन अधिनियम, 2019 दी धारा 6(क) राहें (31 अक्टूबर, 2019 थमां) लोप।
- मध्यप्रदेश मुढ-गठन अधिनियम, 2000 (2000 दा 28) दी धारा 5 राहें (1-11-2000 थमां) अंतरस्थापत।
- उत्तर प्रदेश मुढ-गठन अधिनियम, 2000 (2000 दा 29) दी धारा 5 राहें (9-11-2000 थमां) अंतरस्थापत।
- उत्तरांचल (नांस तब्दील) अधिनियम, 2006 (2006 दा 52) दी धारा 4 राहें (1-1-2007 थमां) "उत्तरांचल" शब्द दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
- बिहार मुढ-गठन अधिनियम, 2000 (2000 दा 30) दी धारा 5 राहें (15-11-2000 थमां) अंतरस्थापत।
- आंध्र प्रदेश मुढ-गठन अधिनियम, 2014 (2014 दा 6) दी धारा 10(ख) राहें (2 जून, 2014 थमां) अंतर स्थापत।
- हिमाचल प्रदेश रियासत अधिनियम, 1970 (1970 दा 53) दी धारा 4 राहें (25-1-1971 थमां) "हिमाचल प्रदेश" कन्नै सरबंधत इंदराज 2 दा लोप कीता गेआ।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुढ-गठन) अधिनियम, 1971 (1971 दा 81) दी धारा 9 राहें (21-1-1972 थमां) मणिपुर ते त्रिपुरा कन्नै सरबंधत इंदराजें दा लोप कीता गेआ।
- + पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुढ-गठन) अधिनियम, 1971 (1971 दा 81) दी धारा 9 राहें (21-1-1972 थमां) इंदराज 4 थमां 9 तगर गी इंदराज 2 थमां तगर दे रूपै च मुढी गिनेआ गेआ।
10. लक्कादीव, मिनिकोय ते अमीनदीवी द्वीप (नांस तब्दील) अधिनियम, 1973 (1973 दा 34) दी धारा 5 राहें (1-11-1973 थमां) "लक्कादीव, मिनिकोय, अमीनदीवी द्वीप" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।

भारत दा संविधान
(पैहली अनुसूची)

+1[4. दादरा ते नागर हवेली ते दमन ते दीव	ओह राज्यक्षेत्र जेहड़ा 11 अगस्त, 1961 थमां ठीक पैहलें स्वतंत्र दादरा ते नागर हवेली च शामिल हा ते ओह राज्य क्षेत्र जेहड़ा गोवा, दमण ते दीव मुढ़-गठन अधिनियम, 1987 दी धारा 4 च दस्सेआ गोदा ऐ।]
5. 1[***]	
+2[6. 3[पुडुचेरी]	ओह राज्यक्षेत्र जेहड़े 16 अगस्त, 1962 थमां ठीक पैहलें भारत च पांडिचेरी, कारिकल, माही ते यनम दे नांऽ कन्नै जान्ने जाने आहले फ्रांसीसी बस्तियें च शामिल हे।]
+4 [7.] चंडीगढ़	ओह राज्यक्षेत्र जेहड़े पंजाब मुढ़-गठन अधिनियम, 1966 दी धारा 4 च दस्से दे न।]
5[***]	
6[***]	
जम्मू ते कश्मीर	जम्मू ते कश्मीर मुढ़-गठन अधिनियम, 2019 दी धारा 4 च दस्सेआ गोदा क्षेत्र।
लद्दाख	जम्मू ते कश्मीर मुढ़-गठन अधिनियम 2019 दी धारा 3 च दस्सेआ गोदा क्षेत्र।
7[8*	* * * * *
7[9	* * * * *]

+ हिमाचल प्रदेश रियासत अधिनियम, 1970 (1970 दा 53मां) धारा 4(ख), (25-1-1971); पूर्वो-उत्तर खेत्तर मुढ़-गठन अधिनियम 1971 (1971 दा 81) धारा 9ख (i) (21-1-1972) राहें इंदराज मुढ़ गिनती कीते गे।

- दादरा ते नागर हवेली ते दमण ते दीव (संघ राज्यक्षेत्रें दा विलय) अधिनियम, 2019 (2019 दा 44) राहें धारा 5, इंदराज 4 ते 5 ते उस कन्नै सरबंधत इंदराजें कन्नै सरबंधत (तरीक 26 जनवरी, 2020) थमां प्रतिस्थापत, दिक्खो संख्या - क.अ. 4542 (अ), तरीक 19 दिसंबर, 2019। तरमीम थमां पैहलें इंदराज 4 ते 5 इस चाल्ली हियां।
"4. दादरा ते नागर हवेली ओह राज्यक्षेत्र जेहड़ा 11 अगस्त, 1961 थमां ठीक पैहलें स्वतंत्र दादरा ते नागर हवेली च शामिल हा।
5. दमन ते दीव ओह राज्यक्षेत्र जेहड़े गोवा, दमण ते दीव मुढ़-गठन अधिनियम, 1987 दी धारा 4 च दस्से गेदे न।
- संविधान (चौहदमी तरमीम) अधिनियम, 1962 दी धारा 3 राहें ते धारा 7 राहें (16-8-1962 थमां) अंतरस्थापत।
- पांडिचेरी (नांऽ तब्दील) अधिनियम, 2006 (2006 दा 44) दी धारा 5 राहें (1-10-2006 थमां) "पांडिचेरी" शब्द दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
- पंजाब मुढ़-गठन अधिनियम, 1966 (1966 दा 31) दी धारा 7 राहें (1-11-1966 थमां) अंतरस्थापत।
- मिजोरम रियासत अधिनियम, 1986 (1986 दा 34) दी धारा 4 राहें (20-2-1987 थमां) मिजोरम सरबंधी इंदराज 8 दा लोप कीता गेआ ते अरुणाचल प्रदेश सरबंधी इंदराज 9 गी इंदराज दे रूपैच मुढ़ी गिनेआ गेआ।
- अरुणाचल प्रदेश रियासत अधिनियम, 1986 (1986 दा 69) दी धारा 4 राहें (20-2-1987 थमां) अरुणाचल प्रदेश सरबंधी इंदराज 8 दा लोप कीता गेआ।
- जम्मू-कश्मीर मुढ़-गठन अधिनियम, 2019 (2019 दा 34) धारा 6(ग) (31-10-2019) थमां अंतरस्थापत।

(दूई अनुसूची)

[अनुच्छेद 59 (3), 65 (3), 75 (6), 97, 125, 148 (3), 158 (3), 164 (5), 186 ते 221]

भाग—क

राष्ट्रपति ते ^{1***} रियासतें दे राज्यपालें दे बार प्रावधान

1. राष्ट्रपति ते ^{1***} रियासतें दे राज्यपालें गी हर म्हीनें हेठ लिखे दे मेहनतानें दा भुगतान कीता जाह्ग, अर्थात् :-

राष्ट्रपति	10,000 रपेऽ ²
रियासतें दा राज्यपाल	5,500 रपेऽ ³

2. राष्ट्रपति ते ^{4***} रियासतें दे राज्यपालें गी नेह् भत्ते बी दित्ते जाह्ङन जेह्ङे इस संविधान दे रम्भ थमां ठीक पैह्लें क्रमषः भारत डोमिनियन दे गर्वनर जनरल गी ते उस—थाहरी प्रांतें दे गवर्नरें गी दित्ते जंदे हे ।
3. राष्ट्रपति ते ⁵[रियासतें] दे राज्यपाल अपनी—अपनी सबूरी औहदे दी औद्ध च नेह् चेचे अधिकारें दे हकदार होङन जिं दे इस संविधान दे रम्भ थमां ठीक पैह्लें क्रमषः गर्वनर जनरल ते उस—थाहरी प्रांतें दे गवर्नर हकदार हे ।
4. जिसलै उपराष्ट्रपति जां कोई होर व्यक्ति राष्ट्रपति दे कम्में दा नर्बाह् करै रदा ऐ जां उसदे रूपै च कम्म करै करदा ऐ जां कोई व्यक्ति राज्यपाल दे कम्में दा नर्बाह् करै करदा ऐ, उसलै ओह् नेह् मेहनतानें, भत्तें ते चेचे अधिकारें दा हकदार होग जिं दा, स्थिति मताबक, राष्ट्रपति जां राज्यपाल हकदार ऐ जिसदे कम्में दा ओह् नर्बाह् करदा ऐ जां, स्थिति मताबक, जिसदे रूपै च ओह् कम्म करदा ऐ ।

6 * * * * *

-
1. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें "पैहली अनुसूची दे भाग क च दस्से गेदे" शब्दें ते अखरें दा लोप कीता गेआ ।
2. राष्ट्रपति दे मेहनताने ते पेंषन (तरमीम) अधिनियम, 2008 (2008 दा 28) दी धारा 2 दे मताबक (1-1-2006 थमां) हून एह "1,50,000 रपेऽ" ऐ ।
3. राज्यपाल (मेहनताने, भत्ते ते चेचे अधिकार) तरमीम अधिनियम, 2008 (2009 दा 1) दी धारा 3 दे मताबक (1-1-2006 थमां) हून एह "1,10,000 रपेऽ" ऐ ।
4. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें "नेह् दस्से गेदे" शब्दें दा लोप कीता गेआ ।
5. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें "नेहियें रियासतें" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत ।
6. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें भाग ख दा लोप कीता गेआ ।

भारत दा संविधान

(दूई अनुसूची)

भाग—ग

लोक सभा दे अध्यक्ष ते उपाध्यक्ष दे ते राज्य सभा दे सभापति ते उपसभापति दे ते
^{1***} ²[रियासत] दी विधान सभा दे अध्यक्ष ते उपाध्यक्ष दे ते विधान परिषद् दे
 सभापति ते उपसभापति दे बारै प्रावधान

7. लोक सभा दे अध्यक्ष ते राज्य सभा दे सभापति गी नेहियां तनखाहीं ते भत्ते दित्ते जाह्उन जेह्ड़े इस संविधान दे रम्भ थमां ठीक पैहलें भारत डोमिनियन दी संविधान सभा दे अध्यक्ष गी दित्ते जंदे हे ते लोक सभा दे उपाध्यक्ष गी ते राज्य सभा दे उपसभापति गी नेहियां तनखाहीं ते भत्ते दित्ते जाह्उन जेह्ड़े इस संविधान दे रम्भ थमां ठीक पैहलें भारत डोमिनियन दी संविधान सभा दे उपाध्यक्ष गी दित्ते जंदे हे।

8. ^{3***} रियासत दी विधान सभा दे अध्यक्ष ते उपाध्यक्ष गी ते ⁴[रियासत] दी विधान परिषद् दे सभापति ते उपसभापति गी नेहियां तनखाहीं ते भत्ते दित्ते जाह्उन जेह्ड़े इस संविधान दे रम्भ थमां ठीक पैहलें क्रमषः उस—थाहरी प्रांत दी विधान सभा दे अध्यक्ष ते उपाध्यक्ष गी ते विधान परिषद् दे सभापति ते उपसभापति गी दित्ते जंदे हे ते जित्थे नेह रम्भ थमां ठीक पैहलें उस थाहरी प्रांत दी कोई विधान परिषद् नेई ही उत्थे उस रियासत दी विधान परिषद् दे सभापति ते उपसभापति गी नेहियां तनखाहीं ते भत्ते दित्ते जाह्उन जेह्ड़े उस रियासत दा राज्यपाल निष्चत करै।

भाग—घ

सर्वोच्च अदालत ते ^{5***} उच्च अदालतें दे जज्जें बारै प्रावधान

9. (1) सर्वोच्च अदालत दे जज्जें गी वास्तविक सेवा च गजारे दे समें आस्तै म्हीने प्रति हेठ लिखी दी दर कन्नै तनखाह दित्ती जाहग, अर्थात् :-

मुख्य न्यांमूर्ति	⁶ [10,000 रपेऽ]*
कोई होर जज्ज	⁷ [9,000 रपेऽ]**

-
1. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें "पैहली अनुसूची दे भाग क च दी कुसै रियासत दा" शब्दें ते अक्खरें दा लोप कीता गेआ।
 2. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें "कुसै नेही रियासत" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 3. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें "पैहली अनुसूची दे भाग क च दस्सी गेदी कुसै रियासत दा" शब्दें ते अक्खरें दा लोप कीता गेआ।
 3. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें "नेही रियासत" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 5. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 25 "पैहली अनुसूची दे भाग क च दी रियासतें च "षब्दें ते अक्खरें दा लोप कीता गेआ।
 6. संविधान (चरुंजमी तरमीम) अधिनियम, 1986 दी धारा 4 राहें (1-4-1986 थमां) "5,000 रपेऽ" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 7. संविधान (चरुंजमी तरमीम) अधिनियम, 1986 दी धारा 4 राहें (1-4-1986 थमां) "4,000 रपेऽ" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 - * उच्च अदालत ते सर्वोच्च अदालत दे जज्ज (तनखाह ते सेवा शर्ता) तरमीम अधिनियम, 2018 (2018 दा 10) दी धारा 2(क) दे मताबक (1-1-2016 थमां) हून एह 2,80,000 रपेऽ" ऐ।
 - ** उच्च अदालत ते सर्वोच्च अदालत दे जज्ज (तनखाह ते सेवा शर्ता) तरमीम अधिनियम, 2018 (2018 दा 10) दी धारा 2(ख) दे मताबक (1-1-2016 थमां) हून एह 2,50,000 रपेऽ" ऐ।

भारत दा संविधान

(दूई अनुसूची)

पर जेकर सर्वोच्च अदालती दा कोई जज्ज अपनी नियुक्ति बेल्लै भारत सरकार दी जां इस शा पिछली सरकारें चा कुसै दी जां रियासती सरकार जां उस'शा पिछली सरकारें चा कुसै बी पिछली नौकरी दे सरबंधे च (छुट हांजलता जां घाल पैषन) कोई पैषन लै करदा ऐ तां सर्वोच्च अदालती च सेवा लेई उसदी तनखाह चा '[ख'ल्ल लिखी दी रकम गी घटाई दिता जाहग, अर्थात् :-

(क) ओहदी पैषन दी रकम; ते

(ख) जेकर उसने नेही नियुक्ति'शा पैहलें, नेही पिछली सेवा दे सरबंधे'च लैती जाने आहली सेवा पैषन दे इक हिस्से दे बदले च उसदी इकमुफ्त रकम हासल कीती दी ऐ तां पैषन दे उस हिस्से दी रकम; ते

(ग) जेकर उसने नेही नियुक्ति'शा पैहलें, नेही पूर्व सेवा दे सरबंधे'च निवृत्ति-उपदान लैते दा ऐ तां उस उपदान दे बरोबर पैषन।]

(2) सर्वोच्च अदालती दा हर जज्ज, बिजन कराया दित्ते, सरकारी निवास दी बरतून दा हकदार होग।

(3) इस पैरे दे उपपैरा (2) दी कोई गल्ल उस जज्ज गी जेहड़ा इस संविधान दे शुरुआत थमां ठीक पैहलें -

(क) फेडरल अदालती दे मुख्ख न्यांमूर्ति दे रूपै च औहदे पर हा ते जेहड़ा नेही शुरुआत उप्पर अनुच्छेद 374 दे खंड (1) दे तैहत सर्वोच्च अदालती दा मुख्ख न्यांमूर्ति बनी गेदा ऐ, जां

(ख)) फेडरल अदालती दे कुसै दूए जज्ज दे रूप'च औहदे पर हा ते जेहड़ा नेही शुरुआत पर आखे गेदे खंड दे तैहत सर्वोच्च अदालत दा (मुख्ख न्यांमूर्ति कोला बक्ख) जज्ज बनी गेदा ऐ,

इस औद्ध च, जिस च ओह नेह मुख्ख न्यांमूर्ति जां दूए जज्ज दे रूपै'च उस औहदे पर ऐ, उ'दे पर लागू नेई होग ते नेहा हर कोई जज्ज, जेहड़ा इस चाल्ली सर्वोच्च अदालत दा मुख्ख न्यांमूर्ति जां दूआ जज्ज बनी जंदा ऐ, स्थिति मताबक, नेह मुख्ख न्यांमूर्ति जां दूए जज्ज दे जेहड़ा इस चाल्ली सर्वोच्च अदालती दा मुख्ख न्यांमूर्ति जां दूआ जज्ज बनी जंदा ऐ, स्थिति मताबक, नेह मुख्ख न्यांमूर्ति जां दूए जज्ज दे रूपै च असली नौकरी च गजारी दी औद्ध लेई इस पैरे दे उपपैरा (1) च दिती गेदी बधीकी चेची तनखाह दे रूप च नेही रकम हासल करने दा हकदार होग, जेहड़ा इस चाल्ली दी दस्सी गेदी तनखाह ते नेही तनखाह दे बराबर ऐ जेहड़ी ओह इस शुरुआत थमां ठीक पैहलें लै करदा हा।

(4) सर्वोच्च अदालत दा हर इक जज्ज भारत दे राज्यक्षेत्र दे अंदर अपने कर्तब्य पालन आस्तै कीती गेदी यात्तरा च होए दे खर्चापूर्ति लेई नेह भत्ते उ'आं गै प्राप्त करग ते यात्तरा सरबंधी उसगी ओह सारियां सुवधां उ'आं गै दित्तियां जाहडन जि'यां के राष्ट्रपति समें-समें पर मंजूर करै।

(5) सर्वोच्च अदालत दे जज्जें दी गैर-हाजरी छुट्टी दे (जिसदे तैहत छुट्टी भत्ते न) ते पैषन सरबंधी अधिकार उ'नें प्रावधानें तैहत शासत होडन जेहड़े इस संविधान दे शुरु थमां ठीक पैहलें फेडरल जज्जें पर लागू हे।

1. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 25 राहें "उस पैषन दी रकम घटाई दिती जाहग" दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।

(दूई अनुसूची)

10. ¹[(1) उच्च अदालत दे जज्जें गी असल सेवा च गजारे दे समें आस्तै खल्ल दिती गेदी दरें मताबक तनखाहीं दा भुगतान कीता जाहग, अर्थात् :-

मुख्य न्यांमूर्ति	² [9,000 रपेऽ]*
कोई होर जज्ज	³ [8,000 रपेऽ]**

पर जे कुसै उच्च अदालत दा कोई जज्ज अपनी नियुक्ति बेल्लै भारत सरकार दी जां उस'षा पिछली सरकारें चा कुसै दी जां रियासती सरकार दी जां उस'षा पिछली सरकारें चा कुसै दी पिछली सेवा दे सरबंधै च (छुट हांजलता जां घाल पैंषन) कोई पैंषन लै करदा ऐ तां उच्च अदालत च सेवा लेई उसदी तनखाही चा खल्ल दिती गेदी रकम घटाई दिती जाहग :-

(क) उस पैंषन दी रकम; ते

(ख) जेकर उ'न्ने नेही नियुक्ति कोला पैहलें, नेही पिछली सेवा दे सरबंधै च थहोने आहली पैंषन दे इक हिस्से दे बट्टै उसदा इकमुप्त पैसा लैते दा होऐ, तां पैंषन दे उस हिस्से दी रकम; ते

(ग) जे उसने नेही नियुक्ति थमां पैहलें, नेही पूर्व सेवा दे सरबंधै च निवृत्ति-उपदान लैते दा होऐ तां उसदे बरोबर पैंषन दी रकम।]

(2) नेहा हर इक व्यक्ति, जेहड़ा इस संविधान दे रम्भ थमां ठीक पैहलें -

(क) कुसै प्रांत दी उच्च अदालत दे मुख्य न्यांमूर्ति दे रूपे च औहदे पर हा ते नेह रम्भ पर अनुच्छेद 376 दे खंड (1) दे तैहत् उस-थाहरी रियासत दी उच्च अदालत दा जज्ज बनी गेदा ऐ, जां

(ख) कुसै प्रांत दी उच्च अदालत दे कुसै दूए जज्ज दे रूपे च औहदे पर हा तां नेह रम्भ पर दित्ते गेदे खंड दे तैहत् उस-थाहरी रियासत दी उच्च अदालत दा (मुख्य न्यांमूर्ति थमां बकख) जज्ज बनी गेदा ऐ,

जे ओह नेह रम्भ थमां ठीक पैहलें इस पैरे दे उपपैरा (1) च दिती गेदी दर शा बधीक दर पर तनखाह लै करदा हा तां स्थिति मताबक, नेह मुख्य न्यांमूर्ति जां दूए जज्ज दे रूपे च असल सेवा च गजारे गेदे समें लेई इस पैरे दे उपपैरा (1) च दस्सी गेदी तनखाह ते नेही तनखाह दे फर्क दे बराबर ऐ जेहड़ा ओह इस चाल्ली दे रम्भ कोला ठीक पैहलें लै करदा हा।

⁴[(3) नेहा कोई व्यक्ति, जेहड़ा संविधान (सतमी तरमीम) अधिनियम 1956 दे रंभ थमां ठीक पैहलें पैहली अनुसूची दे भाग ख च दस्से गेदे कुसै रियासत दी उच्च अदालत दे मुख्य न्यांमूर्ति दे औहदे पर हा ते जेहड़ा नेही शुरुआत उप्पर आखे गेदे अधिनियम राहें तरमीमषुदा आखी गेदी अनुसूची च दस्सी गेदी कुसै रियासत दी उच्च अदालत दा मुख्य

1. संविधान (सतमी तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 25 राहें उपपैरा 1 दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।

2. संविधान (चरुंजमी तरमीम) अधिनियम, 1986 दी धारा 4 राहें (1-4-1982 थमां) "4,000 रपेऽ दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।

3. संविधान (चरुंजमी तरमीम) अधिनियम, 1986 दी धारा 4 राहें (1-4-1986 थमां) "3,500 रपेऽ दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।

4. संविधान (सतमी तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 25 राहें उपपैरा (3) ते उपपैरा (4) दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।

* उच्च ते सर्वोच्च अदालत दे जज्ज (तनखाह ते सेवा शर्ता) तरमीम अधिनियम 2018 (2018 दा 10) दी धारा 2(क) मताबक (1-1-2016 थमां) हून एह "2,50,000 रपेऽ" ऐ।

** उच्च अदालत ते सर्वोच्च अदालत दे जज्ज (तनखाह ते सेवा शर्ता) तरमीम अधिनियम, 2018 (2018 दा 10) दी धारा 2(ख) मताबक (1-1-2016 थमां) हून एह "2,25,000 रपेऽ" ऐ।

भारत दा संविधान

(दूई अनुसूची)

न्यांमूर्ति बनी गेदा ऐ, जेकर ओह नेह रम्म थमां ठीक पैहलें अपनी तनखाह दे इलावा भत्ते दे रूपै च कोई रकम लै करदा हा तां, नेह मुख न्यांमूर्ति दे रूपै च असल सेवा च गजारे गेदे समें लेई इस पैरे दे उपपैरा (1) च दस्सी गेदी तनखाह दे इलावा भत्ते दे रूपै च उ'ऐ केहड़ी रकम लैने दा हकदार होग।]

11. इस हिस्से च जिसलै तगर संदर्भ शा बक्ख लोड नेई होऐ, —

(क) "मुख न्यांमूर्ति" पद दे तैहत कार्यकारी मुख न्यांमूर्ति ऐ ते "जज्ज" दे पद दे तैहत एड्हाक जज्ज ऐ;

(ख) "असल सेवा" दे तैहत —

(i) जज्ज आसेआ जज्ज दे रूपै च कर्तब पालन च जां इ'ये नेह होर कम्मं दे पालन च, जिं'दा राष्ट्रपति दे अनुरोध पर, नभाने दा भार अपने पर लेदा ऐ गजारे दा समां ऐ;

(ii) उस समें गी छोड़ियै जिस'च जज्ज छुट्टी लेइयै गैर-हाजर ऐ, लम्मी छुट्टी ऐ; ते

(iii) उच्च अदालत शा सर्वोच्च अदालत गी जां इक उच्च अदालत थमां दूई उच्च अदालत च तबादले पर जाने पर औहदा-ग्रेहण-समां ऐ।

भाग—ड

भारत दे नियंत्रक-महालेखापारखी बारै प्रावधान

12. (1) भारत दे नियंत्रक-महालेखापारखी गी *चार जहार रपेऽ हर म्हीने दी दर कन्नै तनखाह दित्ती जाहग।

(2) नेहा कोई शख्स जेहड़ा इस संविधान दे रम्म थमां ठीक पैहलें भारत दे महालेखापारखी दे रूपै च औहदे पर हा ते नेह रम्म उप्पर अनुच्छेद 377 दे तैहत भारत दा नियंत्रक-महालेखापारखी बनी गेदा ऐ, इस पैरा दे उपपैरा (1) च दस्सी गेदी तनखाह दे छुट चेची तनखाह दे रूपै च नेही रकम प्राप्त करने दा हकदार होग जेहड़ी इस चाल्ली दस्सी गेदी तनखाह ते इस तनखाह दे फर्क दे बरोबर ऐ, जेहड़ी इस रम्म थमां ठीक पैहलें भारत दे महालेखापारखी दे रूपै च लै करदा हा।

(3) भारत दे नियंत्रक-महालेखापारखी दी गैर-हाजरी छुट्टी ते पैषन ते दुइयें सेवा-शर्ते दे सरबंधे'च अधिकार उ'नें प्रावधानें शा, स्थिति मताबक शासत होडन जां होंदे रौहडन जेहड़े इस संविधान दी शुरुआत थमां ठीक पैहलें भारत दे महालेखापारखी गी लागू हे ते उ'नें प्रावधानें च गवर्नर जनरल दे प्रति सभनें हिदायतें दा एह अर्थ लाया जाहग जे ओह राष्ट्रपति आसेआ दित्तियां गेदियां हिदायतां न।

* नियंत्रक-महालेखापारखी (कर्तब, अख्तेआर ते सेवा शर्ता) अधिनियम, 1971 (1971 दा 56) दी धारा 3 राहें भारत दे नियंत्रक महालेखापारखी गी सर्वोच्च अदालत दे जज्जें बरोबर तनखाह दित्ती जाहग। उच्च अदालत ते सर्वोच्च अदालत जज्ज (तनखाह ते सेवा शर्ता) तरमीम अधिनियम 2018 (2018 दा 10) दी धारा 6 राहें (1-1-2016 थमां) सर्वोच्च अदालत दे जज्जें दी तनखाह 2,50,000 रपेऽ ऐ।

भारत दा संविधान

त्री अनुसूची

[अनुच्छेद 75(4), 99, 124(6), 148(2), 164(3), 188 ते 219]*

संघंद जां प्रतिज्ञा दे फार्म

1

संघ दे मंत्री आस्तै औहदे दी संघंद दा फार्म :-

ईष्वर दी संघंद चुक्कनां

"में फलाना, -----जे में कनूनै राहें स्थापत भारत दे संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा सच्ची निष्ठा कन्नै प्रतिज्ञा करनां

रक्खड, '[में भारत दी प्रभुता ते अनत्रुटता गी बनाई रक्खड,] में संघ दे मंत्री दे रूपै च अपने कर्तबबें दा श्रद्धापूर्ण ते शुद्ध अंतःकरण कन्नै पालन करड ते में भैऽ जां पक्खपात, हिरख जां खार बिजन, सभनें चाल्लीं दे लोकें प्रति संविधान ते कनून मताबक न्यांऽ करड।"

2

संघ दे मंत्री आस्तै राजदारी दी संघंद दा फार्म -

ईष्वर दी संघंद चुक्कनां

"में, फलाना, ----- जो जेहड़ा विषे संघ दे मंत्री दे रूपै च मेरे विचार लेई आहनेआ जाहग जां सच्ची निष्ठा कन्नै प्रतिज्ञा करनां

मिगी पता होग उसगी कुसै व्यक्ति जां व्यक्तियें गी, तदूं छुट जदूं के नेह मंत्री दे रूपै च अपने कर्तबबें गी ठीक चाल्ली नभाने आस्तै नेहा करने दी लोड़ होग, में परतक्ख जां अपरतक्ख रूप च नेई बंदेरड जां सुनाड।"

²[3

क

संसद लेई चनांऽ आस्तै मेदवार आसेआ लैती जाने आहली संघंद जां कीती जाने आहली प्रतिज्ञा दा फार्म -

"में, फलाना, जेहड़ा राज्य सभा (जां लोक सभा) च थाहर भरने आस्तै मेदवार दे रूपै च नामजद कीता गेआं ईष्वर दी संघंद चुक्कनां

----- जे में कनूनै राहें स्थापत भारत दे संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रक्खड ते में भारत दी सच्ची निष्ठा कन्नै प्रतिज्ञा करनां प्रभुता ते अनत्रुटता गी बनाई रक्खड।"

* अनुच्छेद 84(क) अनुच्छेद 173(क) बी दिक्खो।
1. संविधान (सोहलमीं तरमीम) अधिनियम, 1963 दी धारा 5 राहें अंतरस्थापत।
2. संविधान (सोहलमीं तरमीम) अधिनियम, 1963 दी धारा 5 राहें प्ररूप 3 दे थाहर प्रतिस्थापत।

भारत दा संविधान
(त्री अनुसूची)

ख

संसद दे सदस्य आसेआ लैती जाने आहली सघंद जां कीती जाने आहली प्रतिज्ञा दा फार्म :-

“में, फलाना, जेहड़ा राज्य सभा (जां लोक सभा) दा सदस्य चनोए दा (जां नामजद) होए दा आं ईष्वर दी सघंद चुक्कनां
 ----- जे में कनूनै राहें स्थापत भारत दे संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रक्खड, में भारत दी सच्ची निष्ठा कन्नै प्रतिज्ञा करनां
 प्रभुता ते अनत्रुटता गी बनाई रक्खड ते जिस औहदे गी में सम्हालने आहला आं उसदे कर्तबें गी श्रद्धापूर्वक नभाड।”

4

सर्वोच्च अदालत दे जज्जें ते भारत दे नियंत्रक-महालेखापारखी आसेआ चुक्की जाने आहली सघंद जां कीती जाने आहली प्रतिज्ञा दा फार्म :-

“में, फलाना, जेहड़ा भारत दी सर्वोच्च अदालत दा मुख न्यांऽमूर्ति (जां जज्ज) (जां भारत दा नियंत्रक-ईष्वर दी सघंद चुक्कनां
 महालेखापारखी) नियुक्त होए दा आं ----- जे में कनूनै राहें स्थापत भारत दे संविधान प्रति सच्ची सच्ची निष्ठा कन्नै प्रतिज्ञा करनां
 श्रद्धा ते निष्ठा रक्खड, ¹[में भारत दी प्रभुता ते अनत्रुटता गी बनाई रक्खड,] ते में पूरी चाल्ली ते श्रद्धापूर्वक अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान ते स्यानप कन्नै अपने औहदे दे कर्तबें दा भैऽ जां पक्खपात, हिरख जां खार बिजन पालन करड ते संविधान ते कनून दी मरजाद बनाई रक्खड। ”

5

कुसै रियासत दे मंत्री लेई औहदे दी सघंद दा फार्म :-

ईष्वर दी सघंद चुक्कनां
 “में, फलाना, ----- जे में कनूनै राहें स्थापत भारत दे संविधान लेई सच्ची श्रद्धा ते सच्ची निष्ठा कन्नै प्रतिज्ञा करनां
 निष्ठा रक्खड, ¹[में भारत दी प्रभुता ते अनत्रुटता गी बनाई रक्खड,]। में.....रियासत दे मंत्री दे रूपै च अपने कर्तबें दा श्रद्धापूर्ण ते शुद्ध अंतःकरण कन्नै नर्बाह करड ते में भैऽ जां पक्खपात, हिरख जां खार बिजन सभनें चाल्लीं दे लोकें प्रति संविधान ते कनून मताबक न्यांऽ करड।”

6

कुसै रियासत दे मंत्री लेई राजदारी दी सघंद दा फार्म :-

ईष्वर दी सघंद चुक्कनां
 “में, फलाना, ----- जे जेहड़ा विषे ----- रियासत दे मंत्री दे रूपै च मेरे विचार सच्ची निष्ठा कन्नै प्रतिज्ञा करनां
 आस्तै आहनेआ जाहग जां मिगी पता होग उसी कुसै व्यक्ति जां व्यक्तियें गी, तदू छुट्ट, जदू के नेह मंत्री दे रूपै च अपने कर्तबें दा ठीक चाल्ली नर्बाह लेई नेहा करना जरूरी होग, में परतक्ख जां अपरतक्ख रूपै च नेई बंदेरड जां सुनाड।”

1. संविधान (सोहलमीं तरमीम) अधिनियम, 1963 दी धारा 5 राहें अंतरस्थापत।

क

कुसै रियासत दे विधान—मंडल लेई चनांऽ आरतै मेदवार आसेआ चुक्की जाने आहली सघंद जां कीती जाने आहली प्रतिज्ञा दा फार्म :-

“में, फलाना, ————— जेहड़ा विधान सभा (जां विधान परिषद्) च थाहर भरने लेई मेदवार दे रूपे च ईष्वर दी सघंद चुक्कनां
नामजद होए दा आं ————— जे में कनूनै राहें स्थापत भारत दे संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा सच्ची निष्ठा कन्नै प्रतिज्ञा करनां
रक्खड ते भारत दी प्रभुता ते अनत्रुटता गी बनाई रक्खड।”

ख

कुसै रियासत दे विधान—मंडल दे सदस्य आसेआ चुक्की जाने आहली सघंद जां कीती जाने आहली प्रतिज्ञा दा फार्म :-

“में, फलाना, ————— जेहड़ा विधान सभा (जां विधान परिषद्) दा सदस्य चनोए दा (जां नामजद) होए दा आं, ईष्वर दी सघंद चुक्कनां
————— जे में कनूनै राहें स्थापत भारत दे संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रक्खड, में भारत दी प्रभुता सच्ची निष्ठा कन्नै प्रतिज्ञा करनां
ते अखंडता गी अनत्रुट्ट बनाई रक्खड ते जिस औहदे गी में सम्हालने आहला आं उसदे कर्त्तबें गी श्रद्धापूर्वक नभाड।”]

8

उच्च अदालत दे जज्जें आसेआ चुक्की जाने आहली सघंद जां कीती जाने आहली प्रतिज्ञा दा फार्म :-

“में, फलाना, जेहड़ाउच्च अदालत दा मुख न्यांमूर्ति (जां जज्ज)
ईष्वर दी सघंद चुक्कनां
नियुक्त होए दा आं ————— जे में कनूनै राहें स्थापत भारत दे संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा सच्ची निष्ठा कन्नै प्रतिज्ञा करनां
ते निष्ठा रक्खड।²[में भारत दी प्रभुता ते अनत्रुटता गी बनाई रक्खड,] ते में हर चाल्ली कन्नै ते श्रद्धापूर्वक ते अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान ते स्यानप कन्नै अपने औहदे दे कर्त्तबें दा भैऽ जां पक्खपात, हिरख जां खार दे बिजन नर्बाह करड ते संविधान ते कनून दी मर्यादा बनाई रक्खड।”

-
1. संविधान (सोहलमीं तरमीम) अधिनियम, 1963 दी धारा 5 राहें प्ररूप 7 दे थाहर प्रतिस्थापत।
 2. संविधान (सोहलमीं तरमीम) अधिनियम, 1963 दी धारा 5 राहें अंतरस्थापत।

¹[चौथी अनुसूची

[अनुच्छेद 4(1) ते अनुच्छेद 80(2)]

राज्य सभा च सीटें दी बंड

हेठ लिखी दी सारणी दे पैहले स्तंभ च दिती गेदी हर रियासत जां संघ राज्यक्षेत्र गी उन्नियां गै सीटां दितियां जाह्ङन जिन्नियां ओह्दे दूर स्तंभ च, स्थिति मताबक, उस रियासत जां संघ राज्यक्षेत्र दे सामनै दस्सी दियां होङन।

सारणी

1.	आंध्र प्रदेश	² [11]
³ [2.	तेलंगाना	7
*3.	असम	7
*4.	बिहार	⁴ [16]
⁵ [*5.	झारखंड	6]
⁶ [*6.	गोवा	1]
⁷ [*7.	गुजरात	11]
⁸ [*8.	हरियाणा	5]
*9.	केरल	9
*10.	मध्य प्रदेश	⁹ [11]
¹⁰ [*11.	छत्तीसगढ़	5]
¹¹ [*12.	तमिलनाडु]	¹¹ [18]
¹³ [*13.	महाराष्ट्र	19]
¹⁴ [*14.	कर्नाटक	12
*15.	[ओडिषा]	10
*16.	पंजाब	¹⁷ [7]

1. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 3 राहें चौथी अनुसूची दे थाहर पर प्रतिस्थापत।
2. आंध्र प्रदेश मुद्द-गठन अधिनियम, 2014 (2014 दा 6) दी धारा 12 (ग) राहें (2 जून, 2014 थमा) अंतर स्थापत।
3. आंध्र प्रदेश मुद्द-गठन अधिनियम, 2014 (2014 दा 6) दी धारा 12 (ख) राहें (2 जून, 2014 थमा) इंदराज 2 थमां 30 गी तरतीबन 3 थमां 31 दे रूपे च मुद्द गिती कीता गेआ।
4. बिहार मुद्द-गठन अधिनियम, 2000 (2000 दा 30) दी धारा 7 राहें (15-11-2000 थमां) "22" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
5. बिहार मुद्द-गठन अधिनियम, 2000 (2000 दा 30) दी धारा 7 राहें (15-11-2000 थमां) "22" दे थाहरै पर अंतरस्थापत।
6. गोवा, दमण ते दीव मुद्द-गठन अधिनियम, 1987 (1987 दा 18) दी धारा 6 राहें (30-5-1987 थमां) अंतरस्थापत।
7. बिहार मुद्द-गठन अधिनियम, 2000 (2000 दा 30) दी धारा 7 राहें (15-11-2000 थमां) प्रविष्टी 4 थमां 29 गी तरतीबन इंदराज 5 शा 30 दे रूपे च मुद्दी गिनेआ गेआ।
8. मुंबई मुद्द-गठन अधिनियम, 1960 (1966 दा 11) दी धारा 6 राहें (1-5-1960 थमां) प्रविष्टी "4"("6" दे रूपे च मुद्दी-गिनेआ दे थाहर प्रतिस्थापत।
9. पंजाब मुद्द-गठन अधिनियम, 1966 (1966 दा 31) दी धारा 9 राहें (1-11-1966 थमां) अंतरस्थापत।
10. मध्य प्रदेश अधिनियम, 2000 (2000 दा 28) दी धारा 7 राहें (1-11-2000 थमां) "16" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
11. मध्य प्रदेश अधिनियम, 2000 (2000 दा 28) दी धारा 7 राहें (1-11-2000 थमां) अंतरस्थापत।
12. मद्रास रियासत (नांऽ तब्दील) अधिनियम, 1968 (1968 दा 53) दी धारा 5 राहें (14-1-1969 थमां) "8. मद्रास" ("11" दे रूपे च मुद्दी गिनेआ) गेआ दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
13. आंध्र प्रदेश ते मद्रास (हद्द तब्दीली) अधिनियम, 1959 (1959 दा 56) दी धारा 8 राहें (1-4-1960 थमां) "17" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
14. मुंबई मुद्द-गठन अधिनियम, 1960 (1966 दा 11) दी धारा 6 राहें (1-5-1960 थमां) अंतरस्थापत।
15. मैसूर रियासत (नांऽ तब्दील) अधिनियम, 1973 (1973 दा 31) दी धारा 5 राहें (1-11-1973 थमां) "10. मैसूर" ("13" दे रूपे च मुद्दी गिनेआ) दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
16. उड़ीसा (नांऽ तब्दील) अधिनियम 2011 (2011 दा 15) दी धारा 7 राहें (1 नवंबर, 2011 थमां) "उड़ीसा दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
17. पंजाब मुद्द-गठन अधिनियम, 1966 (1966 दा 31) दी धारा 9 राहें (1-11-1966 थमां) "11" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।

भारत दा संविधान

(चौथी अनुसूची)

*17.	राजस्थान	10
*18.	उत्तर प्रदेश	¹ [31]
³ [19.	² [उत्तराखंड	3]
*20	पश्चिमी बंगाल	16
⁴ [****]		
⁵ *21.	नागालैंड	1]
⁶ *22.	हिमाचल प्रदेश	3]
⁷ [*23.	मणिपुर	1
*24.	त्रिपुरा	1
*25.	मेघालय	1
⁸ [*26.	सिक्किम	1]
*27.	मिज़ोरम	1]
*28.	अरुणाचल प्रदेश	1]
*29.	दिल्ली	3
⁹ [*30.	¹⁰ पुडुचेरी	1
¹¹ [*31.	जम्मू-कश्मीर	4

कुल जोड़ ¹²[233]

-
1. उत्तर प्रदेश मुद्द-गठन अधिनियम, 2000 (2000 दा 29) दी धारा 7 राहें (9-11-2000 थमां) "34" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 2. उत्तर प्रदेश मुद्द-गठन अधिनियम, 2000 (2000 दा 29) दी धारा 7 राहें (9-11-2000 थमां) अंतरथापत।
 3. उत्तरांचल (नांS तब्दील) अधिनियम, 2006 (2006 दा 52) दी धारा 5 राहें (1-1-2007 थमां) "उत्तरांचल" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 4. जम्मू-कश्मीर कन्ने सरबंधत
इंदराज जम्मू-कश्मीर मुद्द-गठन अधिनियम, 2019 (2019 दा 34) दी धारा 8 (क) राहें (31 अक्टूबर, 2019) थमां लोप कीता गेआ।
 5. नागालैंड रियासत अधिनियम, 1962 (1962 दा 27) दी धारा 6 राहें (1-12-1963 थमां) अंतरस्थापत।
 - * इंदराज संख्या 22 थमां 31 गी इंदराज 21 थमां 30 दे रूपै च जम्मू ते कश्मीर मुद्दगठन अधिनियम, 2019 (2019 दा 34) दी धारा 8 (ख) राहें (31 अक्टूबर, 2019 थमां) मुद्द गिती कीता गेआ।
 6. हिमाचल प्रदेश रियासत अधिनियम, 1970 (1970 दा 53) दी धारा 5 राहें (25-1-1971 थमां) अंतरस्थापत।
 7. पूर्व-उत्तर क्षेत्र मुद्द-गठन, अधिनियम, 1975 (1971 दा 81) धारा 10(क) राहें
 8. संविधान (छित्तिमी तरमीम) अधिनियम, 1975 दी धारा 4 राहें (26-4-1975 थमां) अंतरस्थापत।
 9. संविधान (चौहदमी तरमीम) अधिनियम, 1962, धारा 6(क) (28-12-1962) राहें अंतरस्थापत।
 10. पांडिचेरी (नांS तब्दील) अधिनियम, 2006 (2006 दा 44) दी धारा 6 राहें (1-10-2006 थमां) "पांडिचेरी" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 11. जम्मू ते कश्मीर मुद्द-गठन अधिनियम, 2019 (2019 दा 34) दी धारा 8 (ग) राहें (31 अक्टूबर, 2019 थमां) अंतर स्थापत।
 12. गोवा, दमण दीव मुद्द-गठन अधिनियम, 1987 (1987 दा 18) दी धारा 6 राहें (30-5-1987 थमां) "232" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।

पञ्जमी अनुसूची

[अनुच्छेद 244 (1)]

अनुसूचित क्षेत्रों ते अनुसूचित जनजातियें दे प्रशासन ते नियंत्रण बारे प्रावधान

भाग क

सधारण

1. **व्याख्या** – इस अनुसूची च संदर्भ थमां बकख जां जे लोड़ नेई होऐ, “रियासत” पद दे तैहत्^{1***} ²[असम ³[“मेघालय, त्रिपुरा ते मिजोरम]] रियासत] नेई ऐ।

2. **अनुसूचित क्षेत्रों च कुसै रियासत द कार्यपालिका अख्तेआर:** इस अनुसूची दे प्रावधानें तैहत्, कुसै रियासत दी कार्यपालिका अख्तेआरें दा विस्तार ओह्दे अनुसूचित क्षेत्रों पर ऐ।

3. **अनुसूचित क्षेत्रों द प्रशासन दे सरबंधै च राष्ट्रपति गी राज्यपाल** ^{5***} आसेआ रपोट – नेही हर इक रियासत दा राज्यपाल ^{5***}, जिस च अनुसूचित क्षेत्र न, हर ब'रे जां जदूं बी राष्ट्रपति इस चाल्ली दी लोड़ बुज्जै, उस रियासत दे अनुसूचित क्षेत्रों दे प्रशासन दे सरबंधै च राष्ट्रपति गी रपोट देह्ग ते संघ दे कार्यपालिका अख्तेआरें दा विस्तार, रियासत दे आखे गेदे क्षेत्रों दे प्रशासन दे बारे हिदायत देने तक होग।

भाग ख

अनुसूचित क्षेत्रों ते अनुसूचित जनजातियें दा प्रशासन ते नियंत्रण

4. **जनजाति सलाहकार परिषद्** – (1) नेही हर इक रियासत च, जेह्दे च जनजाति क्षेत्र न ते जेकर राष्ट्रपति नेही हिदायत देऐ तां, कुसै नेही रियासत च बी, जिस च अनुसूचित जनजातियां न पर अनुसूचित क्षेत्र नेई हैं, इक जनजाति सलाहकार परिषद् बनाई जाह्ग जेह्डी बीहें थमां अनबधीक सदस्यें कन्नै मिलियै बनग जिं'दे च यथासक्त पचहत्तर फीसदी दे लागै-दुआगै रियासती विधान सभा च अनुसूचित जनजातियें दे नुमायंदे होडन।

पर जेकर उस रियासत दी विधान सभा च अनुसूचित जनजातियें दे नुमायंदें दी गिंतरी जनजाति, सलाहकार परिषद् नेह् नुमायंदें कन्नै भरी जाने आहली सीटें दी गिंतरी थमां घट्ट ऐ तां बाकी सीटां उ'नें जनजातियें दे होर दूए सदस्यें कन्नै भरियां जाह्डन।

(2) जनजाति सलाहकार परिषद् दा एह् कर्तबब होग जे ओह् उस रियासत दियें अनुसूचित जनजातियें दी भलाई-बेह्तरी ते तरक्की कन्नै सरबंधत नेह् विषें पर सलाह देऐ जेह्डे उसगी राज्यपाल ^{6***} आसेआ दस्से जाहन।

-
1. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें “पैहली अनुसूची दे भाग क जां भाग ख च दस्से गेदे रियासत मतलब ऐ पर” शब्दें ते अकखरें दा लोप कीता गेदा ऐ।
 2. पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुढ-गठन) अधिनियम, 1971 (1971 दा 81) दी धारा 71 राहें (21-1-1972 थमां) असम रियासत दे थाहरै पर स्थापत।
 3. संविधान (नुं'जमीं तरमीम) अधिनियम, 1984 दी धारा 3 राहें (1-4-1985 थमां) “और मेघालय” दे थाहर पर प्रतिस्थापत।
 4. मिजोरम रियासत अधिनियम, 1986 (1986 दा 34) दी धारा 39 राहें (20-2-1987 थमां) “मेघालय ते त्रिपुरा” दे थाहर पर प्रतिस्थापत।
 5. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें जां राजप्रमुख” शब्दें दा लोप कीता गेदा ऐ।
 6. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें स्थिति मताबक, राज्यपाल जां राज प्रमुख” शब्दें दे थाहर पर उप्पर आखे गेदे रूपै च रक्खेआ गेदा।

भारत दा संविधान
(पजमीं अनुसूची)

(3) राज्यपाल ^{1***} –

(क) परिषद् दे सदस्ये दी गिंतरी गी, उं'दी नियुक्ति गी ते परिषद् दे अध्यक्ष ते ओहदे अफसरें ते सेवकें दी नियुक्ति दे तरीकाकार गी;

(ख) ओहदे इजलासें गी चलाने ते आमतौरें पर ओहदी प्रक्रिया गी, ते

(ग) दूए सारे घटनात्मी मामलें गी,

स्थिति मताबक, दस्सने-दसाने जां विनियमन आस्तै नियम बनाई सकग।

5. अनुसूचित क्षेत्रे पर लागू कनून — (1) इस संविधान च बावजूद एहदे राज्यपाल ^{2***} लोक अधिसूचना राहें हिदायत देई सकग जे संसद दा जां उस रियासत दे विधान-मंडल दा कोई चेचा अधिनियम उस रियासत दे अनुसूचित क्षेत्र जां उसदे कुसै हिस्से पर लागू नेई होग जां उस रियासत दे अनुसूचित क्षेत्र जां ओहदे कुसै हिस्से पर नेह अपवादें ते सुधारें तैहत् लागू होग जेहड़ा ओह अधिसूचना च दस्सै ते इस उपपैरे दे तैहत् दिती गेदी कोई हिदायत इस चाल्ली दिती जाई सकग जे उसदा पिच्छूं थमां प्रभाव होऐ।

(2) राज्यपाल² कुसै रियासत च कुसै नेह क्षेत्र दी ऐमनी ते शैल हाकमी लेई विनियम बनाई सकग जेहड़ा उस बेल्लै दा अनुसूचित क्षेत्र ऐ।

खास करी पैहलकी शक्ति दी विस्तारता उप्पर उल्ट प्रभाव पाए बगैर नेह विनियम —

(क) नेह क्षेत्र दे अनुसूचित जनजातियें दे सदस्यें आसेआ जां उं'दे च जमीन दी मुंतकिली पर मनाही जां रोक लाई सकग।

(ख) नेह क्षेत्र दे जनजातियें दे सदस्यें गी जिमीं-बंड दा विनियमन करी सकडन।

(ग) नेह व्यक्तियें आसेआ, जेहड़े नेह क्षेत्र दियें अनुसूचित जनजातियें दे सदस्यें गी धन दोहार दिंदे न, शहुकार दे रूपै च कारोबार करने दा विनियमन करी सकडन।

3. नेह कुसै विनियम गी बनाने च जेहड़ा इस पैरे दे उपपै'रा (2) च दस्सेआ गेदा ऐ, राज्यपाल ^{1***} संसद दे जां उस रियासत दे विधान-मंडल दे अधिनियम दा जां कुसै मजूदा कननू दा, जेहड़ा सुआल-हेठ क्षेत्र च उस बेल्लै लागू ऐ, रद्द जां तरमीम करी सकग।

4. इस पैरे तैहत् बनाए गेदे सब्भे विनियम तुरंत राष्ट्रपति अगें पेष कीते जाहडन ते जदूं तगर ओह उं'दे पर मंजूरी नेई दिंदा तदूं तगर उं'दा कोई असर नेई होग।

5. इस पैरे दे तैहत् कोई विनियम तदूं तगर नेई बनाया जाहग जदूं तगर विनियम बनाने आहले राज्यपाल ^{1***} ने जनजाति सलाहकार परिषद् आहली रियासत दी हालत उप्पर नेही परिषद् कन्नै सलाह-सूत्तर नेई करी लेदा ऐ।

भाग ग

अनुसूचित क्षेत्र

6. अनुसूचित क्षेत्र — (1) इस संविधान च "अनुसूचित क्षेत्र" पद दा मतलब ओह क्षेत्र न जि'नेंगी राष्ट्रपति हुकमै³ राहें अनुसूचित क्षेत्र घोषत करै।

1. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें "जां राजप्रमुख" शब्दें दा लोप कीता गेदा ऐ।

2. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें "स्थिति मताबक राज्यपाल जां राज प्रमुख" शब्दें दे थाहरै पर उप्पर आखे गेदे रूपै च रक्खेआ गेदा।

3. अनुसूचित क्षेत्र (भाग क रियासत) अदेष 1950 (सं.अ.9), अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख रियासत) अदेष 1950 (सं.आ. 26) अनुसूचित क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश) अदेष 1975 (सं.आ. 102) ते अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्यप्रदेश ते उड़ीसा रियासत) अदेष, 1977 (सं.अ. 109) दिक्खो।

भारत दा संविधान

(पञ्मी अनुसूची)

(2) राष्ट्रपति, कुसै बी बेल्लै हुकमै राहें —

(क) हिदायत देई सकग जे कोई सबूरा अनुसूचित क्षेत्र जां कोई दरसेआ गेदा हिस्सा अनुसूचित क्षेत्र जां नेह क्षेत्र दा हिस्सा नेई रौहग;

²[(कक) कुसै रियासत दे अनुसूचित क्षेत्र गी उस रियासत दे राज्यपाल कन्नै सलाह-सूत्र परैत बधाई सकग,]

(ख) कुसै अनुसूचित क्षेत्र च, छड़े हद्दें च सुधार करियै गै तब्दीली करी सकग,

(ग) कुसै रियासतै दी हद्दें दी कुसै तब्दीली पर, जां संघ च कुसै नमीं रियासतै दे दाखले पर जां नमीं रियासतै दी स्थापना पर नेह कुसै क्षेत्र गी, जेहड़ा पैहलें कुसै रियासत च शामिल नेई ऐ, अनुसूचित क्षेत्र जां उसदा हिस्सा घोषत करी सकग,

²[(घ) कुसै रियासत जां रियासतें दे सरबंधें च इस पैरे दे तैहत दिते गेदे हुकम जां हुकमें गी त्रोड़ी सकग ते सरबंधत रियासत दे राज्यपाल कन्नै सलाह-सूत्र करियै ओह क्षेत्र, जेहड़े अनुसूचित क्षेत्र होउन परतियै निष्चत करने आस्तै नमें हुकम देई सकग,]

ते नेह कुसै हुकमै च नेह घटनात्मी ते नतीजात्मी प्रावधान होई सकउन जेहड़े राष्ट्रपति गी जरूरी ते मनासब बझोन, जि'यां उप्पर आखेआ गेदा ऐ उसदे छुट इस पैरे दे उपपै'रा (1) दे तैहत कीते गेदे हुकमै च कुसै परैतरी हिदायत राहें बदलेआ नेई जाहग।

भाग घ

अनुसूची दी तरमीम

(7) अनुसूची दी तरमीम – (1) संसद बेल्लै-बेल्लै सिर कनूनै राहें इस अनुसूची दे प्रावधानें चा कुसै दा, बादधा, तब्दीली जां रद्द दे रूपै च तरमीम करी सकग ते जिस'लै अनुसूची दी इस चाल्ली तरमीम कीती जंदी ऐ तां इस संविधान दी इस अनुसूची प्रति कुसै हिदायत दा एह मतलब लैता जाहग जे ओह इस चाल्ली संषोधत नेही अनुसूची आस्तै हिदायत ऐ।

(2) इस चाल्ली दा कोई कनून, जेहड़ा इस पैरे दे उपपै'रा(1) च दरज ऐ, इस संविधान दे अनुच्छेद 368 दे मकसदें लेई इस संविधान दी तरमीम नेई समझी जाहग।

1. मद्रास अनुसूचित क्षेत्र (समाप्ति) अदेश 1950 (सं.अ. 30) ते आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र (समाप्ति) अदेश 1955 (सं.अ. 50) दिक्खो।

2. संविधान पजमीं अनुसूची (तरमीम) अधिनियम, 1976 (1976 दा 101) दी धारा 2 राहें अंतरस्थापत।

छेमीं अनुसूची

[अनुच्छेद 244(2) ते अनुच्छेद 275 (1)]

¹[असम, मेघालय, त्रिपुरा ते मिज़ोरम रियासतें] दे जनजाति क्षेत्रें दे प्रशासन बारै प्रावधान

²1. खुदमुख्तेआर जि'ले ते खुदमुख्तेआर इलाके – (1) इस पैरे दे प्रावधानें तैहत् इस अनुसूची दे पै'रा 20 कन्नै नत्थी सारणी दे ³[भाग 1, भाग 2 ते भाग 2 क] हर इक मद ते भाग 3] दे जनजाति क्षेत्रें दा इक खुदमुख्तेआर जि'ला होग।

(2) जेकर कुसै खुदमुख्तेआर जि'ले च बकख-बकख अनुसूचित जनजातियां न तां राज्यपाल, लोक अधिसूचना राहें, नेह् क्षेत्र जां क्षेत्रें गी, जि'दे च ओह बस्से दे न, खुदमुख्तेआर इलाकें च बंडी सकग।

(3) राज्यपाल, लोक अधिसूचना राहें, –

(क) आखी गेदी सारणी दे ³[कुसै हिस्से] च कुसै क्षेत्रे गी शामिल करी सकग;

(ख) आखी गेदी सारणी दे ³[कुसै हिस्से] चा कुसै क्षेत्र गी बाहर कड्डी सकग;

(ग) नमां खुदमुख्तेआर जि'ला बनाई सकग;

(घ) कुसै खुदमुख्तेआर जि'ले दा रकबा बधाई सकग;

(ङ) कुसै खुदमुख्तेआर जि'ले दा रकबा घटाई सकग;

(च) द'ऊं जां बद्ध खुदमुख्तेआर जि'लें जां उं'दे हिस्सें गी मलाई सकग जिस कन्नै इक खुदमुख्तेआर जि'ला बनी सकै;

⁵[(चच) कुसै खुदमुख्तेआर जि'ले दे नांS च तब्दीली करी सकग;]

(छ) कुसै खुदमुख्तेआर जि'ले दियां हद्दां निष्चत करी सकग:

पर राज्यपाल इस उपपैरे दे खंड (ग) खंड (घ) खंड (ङ) ते खंड (च) दे तैहत् कोई हुकम इस अनुसूची दे पै'रा 14 दे उपपै'रा 1 दे तैहत् नियुक्त आयोग दी रपोट पर विचार करने परैत्त गै जारी करग, नेई तां नेई:

⁶[पर एह् होर जे राज्यपाल आसेआ इस पैरे दे तैहत् कीते गेदे नेह् घटनात्मी ते नतीजात्मी प्रावधान (जिसदे तैहत् पै'रा 20 दा ते आखी गेदी सारणी दे कुसै हिस्से दी कुसै मद दी कोई तरमीम ऐ) शामिल होई सकडन जेह्ड़े राज्यपाल गी इस हुकमै दे प्रावधानें गी असरदार करने लेई जरूरी सेही होन।]

-
1. मिजोरम रियासत अधिनियम, 1986 (1984 दा 34) दी धारा 39 राहें (20-2-1987 थमां) किष शब्दें दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 2. संविधान छेमी अनुसूची (तरमीम) अधिनियम, 2003 (2003 दा 44) दी धारा 2 राहें असम च लागू होने लेई पै'रा 1 च उपपै'रा (2) दे परैत्त हेट लिखे दे "परंतुक" अंतरस्थापत करिये संघोधित कीता गेदा अर्थात्:-
"पर इस उपपैरे दी कोई गल्ल, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जि'ले पर लागू नेई होग।"
 3. पूर्वोत्तर क्षेत्र मुद्द-गठन अधिनियम, 1971 (1971 दा 81) दी धारा 71 (झ) ते अठमी अनुसूची राहें (21-1-1972 थमां) भाग 4 दे थाहरै पर प्रतिस्थापित।
 4. संविधान (नुं'जमी तरमीम) अधिनियम, 1984 दी धारा 4 राहें (1-4-1985 थमां) "भाग 1 ते भाग 2" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 5. असम मुद्द-गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 दा 55) दी धारा 74 ते चौथी अनुसूची राहें (2-4-1970 थमां) अंतरस्थापत।
 6. पूर्वोत्तर क्षेत्र मुद्द-गठन अधिनियम, 1971 (1971 दा 81) दी धारा 71 (झ) ते अठमी अनुसूची राहें (21-1-1972 थमां) अंतरस्थापत।

भारत दा संविधान

(छेमी अनुसूची)

12. जि'ला परिशदें ते इलाकाई परिशदें दा गठन – ²[(1) हर इक खुदमुखेआर जि'ले आस्तै इक जि'ला परिषद् होग जेहड़ी त्रीहेंषा अनबधीक सदस्यें कन्नै मिलियै बनग जेहदे च च'ऊं शा अनबधीक व्यक्ति राज्यपाल आसेआ नामजद कीते जाहडन ते बाकी बालग वोट अधिकार दे अधार पर चुने जाहडन।]

(2) इस अनुसूची दे पै'रा 1 दे उपपै'रा (2) दे तैहत् खुदमुखेआर इलाके दे रूप च बनाए गेदे हर क्षेत्र आस्तै बक्ख इलाकाई परिषद् होग।

(3) हर इक जि'ला परिषद् ते हर इक इलाकाई परिषद् तरतीबन "(जि'ले दा नांS) दी जि'ला परिषद्" ते "(इलाके दा नांS) दी इलाकाई परिषद्" नांS दा निगमित निकाय होग, ओहदा शाष्वत उत्तराधिकार होग ते उसदी समान्य मोहर होग ते आखे गेदे नांS कन्नै ओह मकद्दमा लेई औग ते उस पर मुकद्दमा आहनेआ जाहग।

(4) इस अनुसूची दे प्रावधानें तैहत्, खुदमुखेआर जि'लें दा प्रषासन नेह जि'ले दी जि'ला परिषद् च उत्थै तगर निहित होग जित्थै तगर ओह इस अनुसूची दे तैहत् नेह जि'ले दे अंदर कुसै क्षेत्री परिषद् च निहित नेई हैन ते खुदमुखेआर इलाके दा प्रषासन नेह इलाके दी इलाकाई परिषद् च निहित होग।

(5) इलाकाई परिषद् आहले खुदमुखेआर जि'ले च इलाकाई परिषद् प्राधिकारी दे अधीन क्षेत्री सरबंधें च जि'ला परिषद् गी, इस अनुसूची राहें नेह क्षेत्रें दे सरबंधें च दित्ते गेदे अखेआरें दे छुट छड़े नेह अखेआर होडन जेहड़े उस इलाकाई परिषद् आसेआ दित्ते जाहडन।

(6) राज्यपाल, सरबंधत खुदमुखेआर जि'लें जां इलाकें अंदर मजूद अनुसूचित परिषदें जां दूए प्रतिनिधि जनजाति संगठनं कन्नै सलाह-सूतर करियै जि'ला परिषदें ते इलाकाई परिषदें दे पैहलके गठन लेई नियम बनाहग ते नेह नियम च हेठ लिखे दे आस्तै प्रावधान कीते जाहडन, अर्थात् :-

(क) जि'ला परिषदें ते क्षेत्री परिषदें दी संरचना ते उ'दे च सीटें दी बंड;

(ख) उ'ने परिषदें लेई चनांS दे मकसद आस्तै इलाकाई चनांS-क्षेत्रें दी हदबंदी;

(ग) नेह चनाएं च मतदान लेई जरूरी योग्यतां ते उ'दे लेई निर्वाचक-नामावलियें दी त्यारी;

1. संविधान छेमी अनुसूची (तरमीम) अधिनियम, 2003 (2003 दा 44) दी धारा 2 राहें असम च लागू होने लेई पै'रा 2 च उपपै'रा (1) दे परैत हेठ दित्ते

दे परंतुक अंतरथापत कीता गेआ अर्थात् :-

"पर एह जे बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद् छतालियें थमां अनबधीक सदस्यें कन्नै मिलियै बनग जि'दे चा चाहलियें सदस्यें गी बालग वोट अधिकार राहें चुनेआ जाहग, जि'दे च त्रीह अनुसूचित जनजातियें लेई, पंज गैर- अनुसूचित समुदायें लेई, पंज सभने समुदायें लेई मखसूस होडन ते बाकी छे राज्यपाल राहें नामजद कीते जाहडन जि'दे अधिकार ते चेचे अधिकार, जि'दे तैहत् वोट देने दा हक्क बी है, उ'ऐ होडन जेहड़े दूए सदस्यें दे होडन, बोडोलैंड इलाकाई क्षेत्र जि'लें दे उ'नें समुदायें चा जि'दी नुमायंदगी नेई है, घट्ट शा घट्ट द'ऊं महिला होडन।"

संविधान छेमी अनुसूची (तरमीम) 1995 (1995 दा 42) दी धारा 2 राहें असम च लागू होने लेई पै'रा 2 च उपपै'रा 3 दे बाद ख'ल्ल दित्ते दे परंतुक अंतरस्थापत कीता गेआ अर्थात् :-

"पर उत्तरी कछार फ्हाड़ी जि'ले लेई गठत जि'ला परिषद् उत्तरी कठार खुदमुखेआर फ्हाड़ी परिषद् खोआहग ते कार्बी आलांग जि'ले लेई गठत कीती गेदी परिषद् कार्बी आलांग खुदमुखेआर परिषद् खोआहग।"

संविधान छेमी अनुसूची (तरमीम) अधिनियम, 2003 (2003 दा 44) दी धारा 2 राहें असम च लागू होने ते पै'रा 2 दे उपपै'रा (3) दे परैत परंतुक दे धाहरै पर अंतर स्थापत कीता गेदा। अर्थात् :-

"पर एह ते जे बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जि'ले लेई गठत जि'ला परिषद् बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद् खोआहग।"

2. असम मुढ-गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 दा 55) दी धारा 74 ते चौथी अनुसूची राहें (2-4-1970 थमां) उपपै'रा (1) दे धाहरै पर प्रतिस्थापत।

(छेमी अनुसूची)

(घ) नेह चनाएं च नेहियें परिषदें दे सदस्य चनोने आस्तै योग्यतां;

(ङ) ¹[इलाकाई परिषदें] दे सदस्यें दे औहदे दी औद्ध;

(च) नेहियें परिषदें लेई चनांS जां नामजदगी कन्नै सरबंधत जां जुडें दे दूए विषे;

(छ) जि'ला परिषदें ते इलाकाई परिषदें दी प्रक्रिया ते उं'दा कम्म संचालन ²[(जेहदे तैहत् कोई खाल्ली सीट होंदे होई बी कम्म करने दा अख्तेआर ऐ)];

(ज) जि'ला ते इलाकाई परिषदें दे अधिकारियें ते मलाजमें दी नियुक्ति।

²[(6क) जि'ला परिषद् दे चनोए दे सदस्य जेकर जि'ला परिषद् पै'रा 16 दे तैहत् पैहलें गै भंग नेई करी दिती जंदी ऐ तां, परिषद् लेई सधारण चनांS दे परैत्त परिषद् दे पैहले इजलास लेई निष्पत्त तरीक थमां पंज साल दी औद्ध तगर औहदा धारण करडन ते नामजद सदस्य राज्यपाल दी रजामंदी तगर औहदा धारण करडन।

पर पंज ब'रें दी दस्सी गेदी औद्ध गी, जिसलै अमरजैसी लागू ऐ तां जां नेह हलात मजूद न जि'दे करी राज्यपाल दी राS मुजब चनांS कराना मुष्कल ऐ तां, राज्यपाल नेही औद्ध बधाई सकग जेहड़ी इक बारी च इक ब'रे थमां बद्ध नेई होग ते जिस बेल्लै अमरजैसी दी उद्घोषना लागू ऐ तां उद्घोषना दे लागू नेई रौहने परैत्त कुसै बी हालत च उसदा विस्तार छें म्हीनें थमां बद्ध नेई होग :

पर एह होर जे चान-चक्की खाल्ली सीट भरने लेई चनोए दा सदस्य, उस सदस्य दी, जिसदा ओह थाहर लैंदा ऐ, बकाया पेदी औद्ध लेई औहदे गी धारण करग।]

(7) जि'ला परिषद् जां इलाकाई परिषद अपने पैहले गठन दे परैत्त [राज्यपाल दी ताइद कन्नै] इस पै'रे दे उपपै'रा (6) च दस्से गेदे विषे लेई नियम बनाई सकग ते ²[उ'ऐ नेही ताइद कन्नै] –

(क) अधीन स्थानी परिषदें जां बोर्डे दे बनाए जाने ते उं'दी प्रक्रिया ते उसदे कम्म चलाने दा, ते –

(ख) स्थिति मताबक, जि'ले जां क्षेत्र दे प्रशासन सरबंधी कम्म करने कन्नै सरबंधत अमूमन सभनें विषे दा,

विनियमन करने आहले नियम बी, बनाई सकग :

पर जदूं तगर जि'ला परिषद् जां इलाकाई परिषद आसेआ इस उपपै'रे दे तैहत् नियम नेई बनाए जंदे न तदूं तगर राज्यपाल ओहदे आसेआ इस पै'रे दे उपपै'रा (6) दे तैहत् बनाए गेदे नियम हर इक नेही परिषद् लेई चनाएं, ओहदे अफसरें ते मलाजमें ते उसदी प्रक्रिया ते उसदे कम्म चलाने दे सरबंधे च असरदार होडन।

³ * * * * *

1. असम मुद्द-गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 दा 55) दी धारा 74 ते चौथी अनुसूची राहें (2-4-1970 थमां) "नेही परिषदें" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
2. असम मुद्द-गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 दा 55) दी धारा 74 ते चौथी अनुसूची राहें (2-4-1970 थमां) अंतरस्थापत।
3. असम मुद्द-गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 दा 55) दी धारा 74 ते चौथी अनुसूची राहें (2-4-1970 थमां) दूए परंतुक दा लोप कीता गेआ।

भारत दा संविधान
(छेमी अनुसूची)

13. कनून बनाने दे जि'ला परिशदें ते इलाकाई परिशदें दे अख्तेआर – (1) खुदमुख्तेआर इलाके दी इलाकाई परिषद् गी नेह इलाके दे अंदर दे सारे क्षेत्रें दे सरबंधें च ते खुदमुख्तेआर जि'ले दी जि'ला परिषद् गी नेह क्षेत्रें गी छोड़ियै जेहड़े उस जि'ले दे

1. संविधान छेमी अनुसूची (तरमीम) अधिनियम, 2003 (2003 दा 44) दी धारा 2 राहें पै'रा 3 असम रियासत गी लागू करने च ख'ल्ल दिता गेदा रूप तरमीम कीता गेआ जिस करी उपपै'रा (3) ख'ल्ल दित्ते रूपै च प्रतिस्थापत होई सकै, अर्थात्

"(3) पै'रा 3क दे उपपै'रा (2) जां पै'रा (2) जां पै'रा 3ख दे उपपै'रा (2) च जि'यां जां पही उपबंधित ऐ, उसदे छुट इस पै'रे जां पै'रा 3क दे उपपै'रा (1) जां पै'रा 3ख दे उपपै'रा (1) दे तैहत बनाए गेदे सारे कनून राज्यपाल दे सामने पेष कीते जाहडन ते जदू तगर ओह उं'दी मंजूरी नेई देई दिंदा तदू तगर असरी नेई होडन।"

संविधान छेमी अनुसूची (तरमीम) अधिनियम 1995 (1995 दा 42) दी धारा 2 राहें असम राज्य गी लागू होने लेई पै'रा 3 दे परैत ख'ल्ल दित्ते गेदे दे थारै पर अंतरस्थापत कीता गेआ, अर्थात्:-

***3क. उत्तरी कछार फ्हाड़ी खुदमुख्तेआर परिषद् ते कार्बी आलांग खुदमुख्तेआर परिषद् दे कनून बनाने दे बाद्द अख्तेआर –(1) पै'रा 3 दे प्रावधानें पर उल्ट असर पाए बिजन उत्तरी कछार फ्हाड़ी खुदमुख्तेआर परिषद् ते कार्बी आलांग खुदमुख्तेआर परिषद् गी, सरबंधत जि'लें दे अंदर हेठ लिखे गेदे दे बाबत कनून बनाने दा अख्तेआर होग, अर्थात् :-**

(क) सतमी अनुसूची दी सूची 1 दे इंदराज 7 ते इंदराज 52 दे प्रावधानें दे तैहत रौहदे होई, उद्योग;

(ख) संचार मतलब सडकां, पुल, फेरी ते दूर संचार दे जरिये जेहड़े सतमी अनुसूची दी चंदी 1 च नेई दस्से गेदे न, नगरपालिका, ट्राम, खरोलियां अंतर्देषी जलरस्तें दे सरबंधें च सतमी अनुसूची दी सूची 1 ते सूची 3 दे प्रावधाने तैहत अंतर्देषी जलरस्ते ते उं'दे पर आओ-जाई, मकैनकी गड्डियें या बक्ख गड्डियें;

(ग) पशुधन दा संरक्षण सुधार ते जीव-जंतुयें दे रोगें दा नस्तारा, पशुयें दी पुआ-कारी, सखलाई ते पेपे, फाटक;

(घ) मुंढली ते माध्यमी तलीम;

(ङ) करसानी जिसदे तैहत करसानी तलीम ते खोजां नाषक जीबेंशा बचाऽ ते सलतैरके रोगें गी दूर करना ऐ;

(च) मछली उद्योग;

(छ) सतमी अनुसूची दी चंदी 1 दे इंदराज 56 दे प्रावधाने दे तैहत पानी मतलब पानी दी सप्लाई, सिंचाई ते नैहरां, पानी गी कडढना, ब'न्न ब'न्नने, पानी दा भंडारन, ते जल-पवित्त;

(ज) समाजी सुरक्षा ते समाजी बीमा; रुजगार ते बेकारी;

(झ) ग्राएं, मुंजी दे खेतरें, बजारें, शैहरें वगैरा दी हिफाजत लेई हाड-रोकू स्कीमें (जेहडियां तकनीकी किस्में दियां नेई हों);

(ञ) नटषालां, नाटक खेलना-दस्सना; सतमी अनुसूची दी सूची 1 दे इंदराज 60 दे प्रावधानें तैहत सिनमां, खेढां, तफरीह ते मौज-मस्ती;

(ट) अवामी सेहत-सफाई, शफाखाने ते डिस्पेंसरी;

(ठ) निक्कियां सिंचाइयां;

(ड) खाने-पीने दियें चीजें, डंगरें दा गताबा-भाड़ा, कच्ची कपाह ते कच्ची सनू दा बन्ज-बपार ते उं'दी पुजत, सप्लाई ते बंड;

(ढ) रियासत आसेआ नियंत्रित जां सरकारी धन कन्नै चलने आहले पुस्तकालयें, अजायब घरें ते होरनें संस्थाएं, संसद आसेआ बनाए गेदे कनूनें राहें जां उसदे तैहत घोषत कीते गेदे प्राचीन ते राष्ट्री महत्व दे इतिहासक स्मारकें ते अभिलेखें थमां बक्ख प्राचीन इतिहासक स्मारकें ते अभिलेखें ते

(ण) धरती दे होर संक्रामन।

(2) पै'रा 3 दे तैहत जां इस पै'रे दे तैहत उत्तरी कछार फ्हाड़ी खुदमुख्तेआर परिषद् ते कार्बी आलांग खुदमुख्तेआर परिषद् आसेआ बनाए गेदे सब्बै कनून जित्थें तक उं'दा सरबंध सतमी अनुसूची दी सूची 3 च दस्से गेदे विषें कन्नै ऐ राज्यपाल कोल तुरंत पेष कीते जाहडन, जेहड़ा उं'नेंगी राष्ट्रपति दे विचार लेई मखसूस रक्खग।

(3) जिसलै कोई कनून राष्ट्रपति दे विचार लेई मखसूस रक्खी दिता जंदा ऐ तां राष्ट्रपति घोषना करग जे ओह आखे गेदे कनून उप्पर इजाजत दिंदा ऐ जां इजाजत रोकी लैदा ऐ।

भारत दा संविधान
(छेमी अनुसूची)

पर राष्ट्रपति राज्यपाल गी एह हिदायत देई सकग जे ओह कनून गी, स्थिति मताबक उत्तरी कछार प्हाड़ी खुदमुखेआर परिषद् जां कार्बी आलांग परिषद् दे नेह सनेह कन्ने एह अनुरोध करदे होई परताई देऐ जे आखेआ गेदा परिषद् कनून जां उसदे कु'नें दस्से गेदे सरिस्तें पर परती विचार करै ते चेचे तौरै पर किष नेहियें तरमीमें दी पेप दी लोडे पर विचार करै जि'दी उ'न्ने अपने सनेह च सफारष कीती दी ऐ ते जिसलै कनून इस चाल्ली परताई दिता जंदा ऐ तां नेहा सनेहा मिलने दी तरीख थमां छं म्हीनें दी औद्ध दे अंदर परिषद् नेह कनून पर उसदे मताबक विचार करग ते जेकर कनून आखी गेदी परिषद् आसेआ तरमीम समेत जां उसदे बगैर परती पास करी दिती जंदा ऐ तां उसगी राष्ट्रपति अगै उसदे विचार लेई परती पेप कीता जाहग।"

संविधान छेमी अनुसूची (तरमीम) अधिनियम, 2003 (2003 दा 44) दी धारा 2 राहें असम च लागू होने लेई पैरा 3क दे परैत हेठ दित्ते गेदे दे थाहरै पर अंतरस्थापत कीता गेआ अर्थात् :-

"3ख. बोडोलैंड इलाकाई परिषद् दे कनून बनाने दे बाद्द अखेआर -(1) पैरा 3 दे प्रावधानें पर उल्ट असर पाए बिजन बोडोलैंड इलाकाई परिषद् गी अपने इलाकें च हेठ दित्ते गेदे दे सरबंधे च कनून बनाने दे अखेआर होडन, अर्थात् :-

(i) करसानी शिक्षा जिसदे तैहत् करसानी शिक्षा ते शोध, नासक जीव थमां राखी ते बूहटें दे रोगे दी कारी ऐ; (ii) माल-बच्छा पालन ते माले दी दुआ-कारी अर्थात् माले दी सांभ-समहाल, रक्षा ते सुधार ते जीव-जंतुयें दे रोगें दा नस्तारा माल-लाजकारी, सखलाई ते पेपा ते फाटक; (iii) सैहकारिता; (iv) सांस्कृतिक कम्म-काज; (v) शिक्षा मतलब प्राइमरी शिक्षा, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा जिस च रुजगार शिक्षा, प्रौढ शिक्षा, कालज शिक्षा (सधारण) बी ऐ; (vi) मच्छी पालन; (vii) ग्रांस, धनालियें, बजारें ते शैहरें दी हिफाजत लेई हाड नियंत्रण (जेहड़ा तकनीकी किस्मां दा नेई होऐ); (viii) खुराक ते सिवल सप्लाई; (ix) जाड़ (रखें गी छोड़ियें); (x) खड्डी ते कपड़े; (xi) सेहत ते परिवार कल्याण; (xii) सतमी अनुसूची दी सूची 1 दी 84 दे प्रावधानें तैहत् मादक लिकर, पहीम ते एहदे थमां निकलने आहले पदार्थ; (xiii) सिंचाई; (xiv) श्रम ते रुजगार; (xv) जिमीं ते मालगुजारी; (xvi) लाइब्रेरी सेवां (रियासती सरकार राहें धन पालित ते नियंत्रण); (xvii) लाटरी (सतमी अनुसूची दी सूची 1 दी प्रविष्टि 40 दे प्रावधाने दे तैहत् नटपालां, नाटक करने ते सिनमा (सतमी अनुसूची दी सूची) दे इंदराज 60 दे प्रावधानें तैहत्); (xviii) बजार ते मेले; (xix) नगर निगम, सुधार ट्रस्ट, जि'ला बोर्ड ते होर स्थानी प्राधिकारी; (xx) रियासत आसेआ नियंत्रित जां धन पोषत अजैबघर ते प्राचीन विज्ञान संस्थान, संसद आसेआ बनाए गेदे कुसै कनून राहें जां ओहदे राष्ट्री म्हत्तव दे घोषत कीते गेदे प्राचीन ते इतिहासक स्मारकें ते उकेरमें लेखें थमां बक्ख प्राचीन ते इतिहासक स्मारक ते उकेरमें लेख; (xxi) पंचैत ते ग्रांस विकास; (xxii) योजनां ते विकास; (xxiii) छपाई ते लेखन समगरी; (xxiv) लोक स्वास्थ्य इन्जीनियरी; (xxv) लोक नर्माण मैहकमा; (xxvi) प्रचार ते लोक संपर्क; (xxvii) जनम-मृत्यु दा पंजीकरण; (xxviii) मदाद ते मुड-बास्सा; (xxix) रेषम दी पैदावार; (xxx) सतमी अनुसूची दी सूची 1 दे इंदराज 7 ते 52 दे प्रावधानें तैहत् निक्के घरेलू ते ग्राई उद्योग-धंधे; (xxxi) समाज कल्याण; (xxxii) जमीनी परत दा बचास; (xxxiii) खेढां ते युवा कल्याण; (xxxiv) सांख्यकी; (xxxv) सैल-सफा; (xxxvi) आओ-जाई (सड़कां), पुल, फेरी ते दूर संचार साधन जेहड़े सतमी अनुसूची दी सूची 1 च नेई दस्से गेदे न, नगरपालिका ट्राम, खरोली, अंतर्देषी जलरस्तें दे सरबंधे च सतमी अनुसूची दी सूची 1 ते सूची 3 दे प्रावधानें तैहत् अंतर्देषी जल रस्तें ते उ'दे पर आओ-जाई, मषीनी गडिडयें दे छुट दुइयां गडिडयां; (xxxvii) रियासती सरकार आसेआ नियंत्रित ते धन पोषत जनजाति शोध संस्थान; (xxxviii) शैहरी विकास नगर ते ग्रांस योजना; (xxxix) सतमी अनुसूची दी सूची 1 दे इंदराज 50 दे प्रावधानें तैहत् नाप तोल; ते (xl) मदानी जनजातियें ते पिछड़े वर्ग दी भलाई-बेहत्तरी:

पर नेहियें तरमीमें दी कोई गल्ल -

(क) इस अधिनियम दे मुंढली तरीक पर कुसै नागरिक दे, उसदी जमीन दे सरबंधे च मजूद अधिकारें ते खास अधिकारें गी खतम जां सुधार नेई करग; ते

(ख) कुसै नागरिक गी बरासत, अलाटमैट, बंदोबस्त दे रूपे च जां तबादले दे कुसै होर तरीके कन्ने जिमीं अर्जत करने

दी इजाजत नेई देहग जेकर नेहा नागीरक बोडोलैंड इलाकाई क्षेत्र जि'ले दे अंदर जिमीं दे नेह अर्जन आस्ते जां पही पात्र ऐ।

(2) पैरा 3 दे तैहत् जां इस पैरा दे तैहत् बनाए गेदे सारे कनून जित्थे तगर उ'दा सरबंध सतमी अनुसूची दी सूची 3 च दस्से गेदे विषें कन्ने ऐ, राज्यपाल अगै तुरंत पेप कीते जाहडन जेहड़ा उ'नेंगी राष्ट्रपति दे विचार लेई मखसूस रक्खग।

(3) जिसलै कोई कनून राष्ट्रपति दे विचार लेई रक्खी लैता जंदा ऐ, तां राष्ट्रपति घोषना करग जे उस आखे गेदे कनून पर इजाजत दिंदा जां इजाजत रोकी लैदा ऐ:

पर राष्ट्रपति राज्यपाल गी एह सनेहा देई सकग जे ओह कनून गी बोडोलैंड इलाकाई परिषद् गी नेह सनेह कन्ने एह बिनती करदे होई परताई देऐ जे आखेआ गेदा परिषद कनून जां उसदे कु'नें दस्से गेदे प्रावधानें पर परती विचार करै ते चेचगियां, कु'नें नेहियें तरमीमें गी पेप करने दी जरूरत पर विचार करै जिसदी उसने अपने सनेह च सफारष कीती दी ऐ ते जिसलै कनून इस चाल्ली परताई दिता जंदा ऐ तां आखी गेदी परिषद्, नेह सनेह दी आखी गेदी तरीक थमां छं म्हीनें दी औद्ध दे अंदर नेह कनून पर उसदे मताबक विचार करग ते जेकर कनून आखी गेदी परिषद् आसेआ तरमीम सनें जां उसदे बिजन परती पास करी दिता जंदा ऐ तां उसगी राष्ट्रपति अगै उसदे विचार लेई मुडी पेप कीता जाहग।

भारत दा संविधान
(छेमी अनुसूची)

अंदर दी इलाकाई परिषदें दे, जेकर कोई होन तां प्राधिकार दे तैहत् न, उस जिले दे दूए अंदरूनी सारे क्षेत्रें दे सरबंघे च खल्ल दित्ते गेदे विषे लेई कनून बनाने दा अख्तेआर होग, अर्थात् :-

(क) कुसै रक्ख दी जिमीं थमां बक्ख कुसै होर जिमीं दी करसानी जां चराई दे मकसदें आस्तै जां निवास दे जां करसानी थमां बक्ख होरनें मकसदें आस्तै जां कुसै होर नेह् मकसद आस्तै जेह्दे च कुसै ग्रांS जां नग्गर दे बसनीकें दे हितें दे बाद्धे-विकास दी संभावना ऐ, बंड, अलाटमैट, जां बरतून थमां बाहर रक्खेआ जाना:

पर नेह् कनूनें दी कोई गल्ल ¹[सरबंधत रियासत दी सरकार गी] जरूरी अर्जन प्राधिकृत करने आहली उस बेल्लै दे लागू कननू दे मताबक जिमीं दा, भामें ओह बरतून च होऐ जां नेई, लोकें दे मकसदें लेई जरूरी कब्जे कोला रोकग नेई;

(ख) कुसै नेह् जाड दा सरिस्ता जेह्ड़ा रक्ख नेई ऐ;

(ग) राही-बाही दे मकसद लेई कुसै नैहर जां कूहल दी बरतून;

(घ) झूम दे तरीकाकार जां करसानी दे दूए तरीकें दा विनियमन;

(ङ) ग्रांS जां नग्गर समितियें जां परिषदें दी स्थापना ते उं'दे अख्तेआर;

(च) ग्रांS जां नग्गर प्रषासन कनूनें सरबंधत कोई दूए मामले जिं'दे तैहत् ग्रांS जां नग्गर पलीस ते लोक स्वास्थ ते सफाई ऐ;

(छ) प्रमुख जां मुखियें दी नियुक्ति जां उत्तराधिकार;

(ज) जायदाद दी बरासत;

²[(झ) ब्याह ते तलाक;]

(ञ) समाजी रूढ़ियां।

(2) इस पैरे च रक्ख दा मतलब नेहा क्षेत्र ऐ जेह्ड़ा असम बन-कनून 1891 तैहत् जां प्रजगत क्षेत्र च उस बेल्लै लागू कुसै दूए कनून दे तैहत् रक्ख ऐ।

(3) इस पैरे दे तैहत् बनाए गेदे सारे कनून राज्यपाल अगमें तुरंत पेष कीते जाह्उन ते जदूं तगर ओह उं'दे पर मंजूरी नेई देई दिंदा ऐ, तदूं तगर असरकारी नेई होउन।

³4. खुदमुख्तेआर जिलें ते खुदमुख्तेआर क्षेत्रें च न्यांS प्रशासन - (1) खुदमुख्तेआर इलाके दी इलाकाई परिषद् नेह् इलाके दे अंदरूनी इलाके दे सरबंघे च ते खुदमुख्तेआर जिले दी जिला परिषद् नेह् क्षेत्रें शा बक्ख जेह्ड़े उस जिले दे अंदरूनी इलाकाई परिषदें दे, जेकर कोई होन, प्राधिकार दे तैहत् न, उस जिले दे अंदर दे होरनें क्षेत्रें दे सरबंघे च, नेह् झमेलें ते मामलें दे विचार लेई जेह्ड़े नेह् पक्खकारें च न, जिं'दे चा सब्भै पक्खकार नेह् क्षेत्रें दे अंदरूनी जनजातियें दे न ते जेह्ड़े नेह् झमेलें ते मामलें थमां बक्खरे न जिं'नेगी इस अनुसूची दे पैरा 5 दे

-
1. पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुढ-गठन) अधिनियम, 1971 (1971 दा 81) दी धारा 71 (झ) ते अठमीं अनुसूची राहें (21-1-1972 थमां) किष शब्दें दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 2. असम मुढ-गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 दा 55) दी धारा 74 ते चौथी अनुसूची राहें (2-4-1970 थमां)खंड (झ) दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 3. संविधान छेमीं अनुसूची (तरमीम) अधिनियम, 2003 (2003 दा 44) दी धारा 2 राहें पैरा 4 असम रियासत गी लागू करने पर हेठ लिखे दे रूपे च तरमीम कीता गेआ जिसदे लेई उपपैरा (5) दे बाद हेठ लिखे अंतरस्थापत कीता जाई सकै, अर्थात् :-
“(6) इस पैरे दी कोई गल्ल, इस अनुसूची दे पैरा (2) दे उपपैरा (3) दे परंतुक दे अधीन गठत बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद् गी लागू नेई होग।”।

उपपै'रा (1) दे प्रावधान लागू होंदे न, उस रियासत दी कुसै अदालती दा अपवर्जन करियै ग्रांS-परिषदें जां अदालतें दा गठन करी सकग ते मनासब आदमियें गी नेही ग्रांS परिषद दे सदस्य जां नेहियें अदालतें दे पीठासीन अधिकारी नियुक्त करी सकग ते नेह अधिकारी बी नियुक्त करी सकग जेहड़े इस अनुसूची दे पै'रा 3 दे तैहत बनाए गेदे कनूनै दे प्रषासन लेई जरूरी होन।

(2) इस संविधान च बावजूद एहदे, खुदमुखेआर इलाके दी इलाकाई परिषद जां उस इलाकाई परिषद आसेआ एहदे आस्तै गठत कोई अदालत जां जेकर कुसै खुदमुखेआर जि'ले दे अंदर दे कुसै क्षेत्र आस्तै कोई इलाकाई परिषद नेई है तां, नेह जि'ले दी जि'ला परिषद आसेआ इस लेई गठत कोई अदालत नेह सारें झमेलें ते मामलें दे सरबंधे च जेहड़े, स्थिति मताबक, नेह इलाके जां क्षेत्र अंदर इस पैरे दे उपपै'रा (1) दे तैहत गठत कुसै ग्रांS परिषद जां अदालत आसेआ बचारजोग न ते जेहड़े उ'नें झमेलें जां मामलें थमां बक्ख न जि'नेंगी इस अनुसूची दे पै'रा 5 दे उपपै'रा (1) दे प्रावधान लागू होंदे न अपीली अदालत दे अखेआरें दी बरतून करग ते उच्च अदालत ते सर्वोच्च अदालत शा बक्ख कुसै दूई अदालत गी नेह झमेलें जां मामलें च हकदारी नेई होग।

(3)^{1***} उच्च अदालतें गी उ'नें झमेलें ते मामलें च जि'नेंगी इस पैरे दे उपपै'रा (2) दे प्रावधान लागू होंदे न, नेही हकदारी होग ते ओह उसदी बरतून करग जेहड़ी राज्यपाल बेल्लै-बेल्लै सिर हुकमै राहें दस्सग।

(4) स्थिति मताबक, इलाकाई परिषद जां जि'ला परिषद राज्यपाल दी पुज्ज मंजूरी थमां हेठ लिखे दे विनियमन आस्तै नियम बनाई सकग, अर्थात् :-

(क) ग्रांS परिषदें ते अदालतें दा गठन ते इस पैरे दे तैहत उ'दे आसेआ बरतूनजोग अखेआर;

(ख) इस पैरे दे उपपै'रा (1) दे तैहत झमेलें ते मामलें दी सुनवाई च ग्रांS परिषदें ते अदालतें आसेआ अनुसरण कीते जाने आहली प्रक्रिया;

(ग) इस पैरे दे उपपै'रा (2) दे तैहत अपीलें ते दुइयें कारवाइयें च इलाकाई परिषद जां जि'ला परिषद जां नेही परिषद आसेआ गठत कुसै अदालती आसेआ अनुसरण कीती जाने आहली प्रक्रिया;

(घ) नेहियें परिषदें ते अदालतें दे फैसलें ते हुकमें गी लागू करना;

(ङ) इस पैरे दे उपपै'रा (1) ते उपपै'रा (2) दे प्रावधानें गी लागू करने लेई दूए घटनात्मी विषे।

²[(5) उस तरीक गी ते थमां जेहड़ी राष्ट्रपति ³[सरबंधत रियासती सरकार कन्नै सलाह-सूत्तर करने परैत] अधिसूचना राहें, इस नमित्त निश्चित करै, एह पै'रा नेह खुदमुखेआर जि'ले जां खुदमुखेआर इलाके दे सरबंधे च जेहड़ा उस अधिसूचना च दस्सेआ जा इस चाल्ली असरी होग मन्नो -

(i) उपपै'रा (1) च, "जेहड़े नेह पक्खकारें दे बिच्च न जि'दे चा सारे पक्खकार नेह इलाकें दे अंदर दे अनुसूचित जनजातियें दे न ते जेहड़े उ'नें झमेलें ते मामलें थमां बक्ख न जि'दी इस अनुसूची दे पै'रा 5 दे उपपै'रा (1) च प्रावधान लागू होंदे न", शब्दें दे थाहरा पर, "जेहड़े इस अनुसूची दे पै'रा 5 दे उपपै'रा (1) च दस्से गेदे प्रकृति दे नेह झमेले ते मामले नेई हैन जि'नेंगी राज्यपाल इस लेई दस्सन", शब्द रक्खी दित्ते गेदे होन;

1. पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुढ-गठन) अधिनियम, 1971 (1971 दा 81) दी धारा 71 (झ) ते अठमी अनुसूची राहें (21-1-1972 थमां) "असम दे" शब्दें दा लोप कीता गेदा ऐ।
2. असम मुढ-गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 दा 55) दी धारा 74 ते चौथी अनुसूची राहें (2-4-1970 थमां) अंतरस्थापत।
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुढ-गठन) अधिनियम, 1971 (1971 दा 81) दी धारा 71 (झ) ते अठमी अनुसूची राहें (21-1-1972 थमां) किष शब्दें दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।

(ii) उपपैरा (2) ते उपपैरा (3) दा लोप करी दित्ता गोदा होऐ;

(iii) उपपैरा 4 च –

(क) “स्थिति मताबक, इलाकाई परिषद् जां जि’ला परिषद् राज्यपाल दी पुज्ज मंजूरी कन्नै हेठ दित्ते गोदे विनियमन आस्तै नियम बनाई सकग, अर्थात् :—” शब्दें दे थाहरै पर, “राज्यपाल हेठ लिखे दे विनियमन लेई नियम बनाई सकग, अर्थात् :—” शब्द रक्खी दित्ते गोदे होन; ते

(ख) खंड (क) दे थाहरै पर हेठ लखोए दा खंड रक्खी दित्ता गोदा होऐ, अर्थात् :—

“(क) ग्रांउ परिषदें ते अदालतें दा गठन, इस पैरे दे तैहत् उं दे राहें बरतूनजोग अख्तेआरें ते ओह अदालतां जित्थै ग्रांउ परिषदें ते अदालतें दे फ़ैसलें कन्नै अपीलां होई सकडन;”;

(ग) खंड (ग) दे थाहरै पर हेठ लिखे दा खंड रक्खी दित्ता गोदा होऐ, अर्थात् :—

“(ग) इलाकाई परिषद् जां जि’ला परिषद् जां नेही परिषद् आसेआ गठत कुसै अदालत अगं उप पैरा (5) दे तैहत् राष्ट्रपति आसेआ निष्पत्त तरीक थमां ठीक पैहलें अपीलें ते होर कारवाइयें दी तब्दीली” ते

(घ) खंड (ङ) च “उपपैरा (1) ते उपपैरा (2)” शब्दें, ब्रैक्टें ते हिंसें दे थाहरै पर “उपपैरा (1)” शब्द, ब्रैक्ट ते हिंसें रक्खी दित्ते गोदे होन।]

5. किश झमेलें, मामलें, अपराधें दे विचारन आस्तै इलाकाई परिषदें ते जि’ला परिषदें गी किश अदालतें ते अधिकारियें गी सिवल प्रक्रिया संहिता 1908 ते दंड प्रक्रिया संहिता, 1898¹ दे तैहत् अख्तेआरें दा दित्ता जाना

— (1) राज्यपाल कुसै खुदमुख्तेआर जि’ले जां खुदमुख्तेआर इलाके च कुसै नेह लागू कन्नै, जेहड़ा नेहा कन्नू ऐ जिसगी राज्यपाल इस लेई चेचियां हिदायतां देऐ, पैदा होए दे झमेलें जां मामलें दी सनोआई लेई जां भारती दंड संहिता दे तैहत् जां नेह जि’लें च जां इलाकें च उस बेल्लै लागू कुसै दूए होर नेह कन्नू दे तैहत् मौत शा, जीवन भर देस नकाले शा जां पंजें बरें शा बद्ध औदध लेई जेहल थमां दंडजोग अपराधें दी सुनवाई लेई नेह जि’ले जां इलाके पर अधिकारता रक्खने आहली जि’ला परिषद् जां इलाकाई परिषद् गी, जां नेही परिषद् आसेआ गठत अदालतें गी जां राज्यपाल आसेआ इस लेई नियुक्त कुसै अफसर गी, स्थिति मताबक, सिवल प्रक्रिया संहिता 1908 जां दंड प्रक्रिया संहिता 1898¹ दे तैहत् नेह अख्तेआर देई सकग जेहड़े ओह ठीक समझै ते उसलै आखी गोदी परिषद्, अदालत जां अधिकारी इस चाल्ली दित्ते गोदे अख्तेआरें दा प्रयोग करदे होई झमेलें, मामलें जां अपराधें पर विचार करग।

(2) राज्यपाल इस पैरे दे उपपैरा (1) दे तैहत् कुसै जि’ला परिषद्, इलाकाई परिषद्, अदालत जां अधिकारी गी दित्ते गोदे अख्तेआरें चा कुसै अख्तेआर गी परताई सकग।

(3) इस पैरे च आखे गोदे रूपे कन्नै उपबधित छुट्ट, सिवल प्रक्रिया संहिता 1908 ते दंड प्रक्रिया संहिता 1898¹ कुसै खुदमुख्तेआर जि’ले च जां कुसै खुदमुख्तेआर इलाके च, जिसगी इस पैरे दे प्रावधान लागू होंदे न, कुं नें झमेलें, मामलें जां अपराधें दी सनोआई लेई लागू नेई होग।

²[(4) राष्ट्रपति आसेआ कुसै खुदमुख्तेआर जि’ले जां खुदमुख्तेआर इलाके दे सरबधे च पैरा 4 दे उपपैरा (5) दे तैहत् निष्पत्त तरीक गी ते कषा उस जि’ले जां इलाके गी लागू होने च इस पैरे दी कुसै गल्लै दे बारे च एह नेई समझेआ जाहग जे ओह कुसै जि’ला परिषद् जां इलाकाई परिषद् गी जां जि’ला परिषद् आसेआ गठत अदालतें गी इस पैरे दे उपपैरा (1) च दरसे गोदे अख्तेआरें चा कोई अख्तेआर देने लेई राज्यपाल गी अधिकार दिंदी ऐ।]

³[6. प्राइमरी स्कूल वगैरा खोहलने दे जि’ला परिषद् दे अख्तेआर – (1) खुदमुख्तेआर जि’ले दी जि’ला परिषद् जि’ले च प्राइमरी स्कूलें, शफाखानें, बजारें, ⁴[फाटकें]] फेरी, मछली क्षेत्रें, सड़कें, सड़क आओ—जाई, जल—रस्ते बनाने दे प्रबंध करी सकग ते राज्यपाल दी पुज्ज मंजूरी कन्नै, उं दे विनियमन ते नियंत्रण लेई विनियम बनाई सकग ते खासकरी, ओह भाषा ते ढंग दरसी सकग, जिस कन्नै जि’ले दे प्राइमरी स्कूलें च मुंडली शिक्षा दित्ती जाहग।

1. हून दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 दा 2) दिक्खो।

2. असम गुढ-गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 दा 55) दी धारा 74 ते चौथी अनुसूची राहें (2-4-1970 थमां) अंतरस्थापत।

3. असम गुढ-गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 दा 55) दी धारा 4 राहें (2-4-1970 थमां) पैरा 6 दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।

4. रद्द ते तरमीम अधिनियम, 1974 (1974 दा 56) दी धारा 74 राहें ‘फाटक’ दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।

(2) राज्यपाल, जि'ला परिषद् दी सैहमती कन्नै उस परिषद् गी जां उसदे अधिकारियें गी करसानी, पशुपालन, समुदायक परियोजनां, सैहकारी सोसाइटियां, समाजी भलाई-बेह्तरी, ग्रांS-योजनां जां कुसै नेह दूर विषे दे सरबंधे च जिस पर ¹*** रियासती कार्यपालिका अख्तेआर दा विस्तार ऐ, कम्म-काज बिना शर्त जां सषर्त सौंपी सकग।]

7. जि'ला ते इलाकाई कोश – (1) हर इक खुदमुख्तेआर जि'ले लेई इक जि'ला कोष ते हर इक खुदमुख्तेआर इलाके लेई इक इलाकाई कोष गठत कीता जाहग जिस च तरतीबन उस जि'ले दी जि'ला परिषद् आसेआ ते उस इलाके दी इलाकाई परिषद् आसेआ इस संविधान दे प्रावधानें अनुसार, स्थिति मताबक, उस जि'ले जां इलाके दे प्रवासन आसेआ थ्होए दा सारा धन कठेरेआ जाहग।

²[(2) राज्यपाल, स्थिति मताबक, जि'ला कोष जां इलाकाई कोषें दे बंदोबस्त लेई ते उपपर आखे गेदे कोषें च धन ज'मा करने ते उस चा धन कडढने, उस धन दी सांभ-समहाल ते पैहलें आखे गेदे विषें कन्नै सरबंधत जां जुड़े दे घटनात्मी कुसै होर विषे दे सरबंधे च अनुसरण कीती जाने आहली प्रक्रिया लेई नियम बनाई सकग।

(3) स्थिति मताबक, जि'ला परिषद् जां इलाकाई परिषद् दे लेखे नेह प्ररूप च रक्खे जाहडन, जेहड़े भारत दे नियंत्रक-महालेखापारखी राष्ट्रपति दी मंजूरी कन्नै, नर्धारत करै।

(4) नियंत्रक-महालेखापारखी जि'ला परिषदें ते इलाकाई परिषदें दे लेखे दी परख-पडताल नेह ढंगै कन्नै करोआहग, जि'यां ओह ठीक समझै ते नियंत्रक-महालेखापारखी दे नेह लेखे कन्नै सरबंधत रपोट राज्यपाल गी भेजी जाहग जेहड़ा उसगी परिषद् अगगें रक्खोआहग।]

8. जिमीं-लगान दा नर्धारण ते ग्राहने ते टैक्स लाने दे अख्तेआर – (1) खुदमुख्तेआर इलाके अंदर दी सभनें जिमियें दे सरबंधे च नेह इलाके दी इलाकाई परिषद् गी ते जेकर जि'ले च कोई इलाकाई परिषदां हैन तां उं'दे प्राधिकार तैहत् औने आहले क्षेत्रें दी जिमियें गी छोड़ियै जि'ले दे अंदर दी सभनें जिमियें दे सरबंधे च खुदमुख्तेआर जि'ले दी जि'ला परिषद् दी नेहियें जिमियें कन्नै सरबंधत उं'नें नियमें दे मताबक लगान दा नर्धारण ते ग्राहने दे अख्तेआर जिं'दा ³[अमूमन रियासत च जिमीं-टैक्स दे मकसद लेई जिमीं दे नर्धारण च रियासत दी सरकार आसेआ उस बेल्लै अनुसरण कीता जंदा ऐ]।

(2) खुदमुख्तेआर इलाके दे अंदरूनी क्षेत्रें दे सरबंधे च नेह इलाके दी इलाकाई परिषद् गी ते जेकर जि'ले च कोई इलाकाई परिषदां हैन तां उं'दे प्राधिकार तैहत् औने आहले क्षेत्रें गी छोड़ियै जि'ले दे अंदर दे सभनें क्षेत्रें दे सरबंधे च खुदमुख्तेआर जि'ले दी जि'ला परिषद् गी जिमीं ते इमारतें दे टैक्स दे दा ते नेह क्षेत्रें दे बसनीकें पर राह-टैक्स लाने ते ग्राहने दा अख्तेआर होग,

(3) खुदमुख्तेआर जि'ले दी जि'ला परिषद् गी नेह जि'ले दे अंदर हेठ लिखे दे सारे या कुं'नें टैक्स दे लाने ते ग्राहने दा अख्तेआर होग, अर्थात्: –

(क) पेधें, बपार, रोजी ते रुजगार पर टैक्स ;

(ख) पशुयें, गडिडयें ते किष्टियें पर टैक्स ;

(ग) कुसै बजार च बिक्री लेई माल दे दाखले पर टैक्स ते फेरी कन्नै लेते जाने आहले मसाफरें ते माल्लै पर राह टैक्स ते

(घ) स्कूलें, शफाखानें ते सड़कें गी स्हेई हालत च बनाई रक्खने आस्तै टैक्स।

1. पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुढ-गठन) अधिनियम, 1971 (1971 दा 81) दी धारा 71 (झ) ते अठमी अनुसूची राहें (21-1-1972 थमां) "स्थिति मताबक, असम जां मेघालय" शब्दें दा लोप कीता गेदा ऐ।

2. असम मुढ-गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 दा 55) दी धारा 74 ते चौथी अनुसूची राहें (2-4-1970 थमां) उपपै'रा (2) दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।

3. पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुढ-गठन) अधिनियम, 1971 (1971 दा 81) दी धारा 71 (झ) ते अठमी अनुसूची राहें (21-1-1972 थमां) किष शब्दें दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।

(4) इस पैरे दे उपपै'रा (2) ते उपपै'रा (3) च दस्से गेदे टैक्सें चा कुसै टैक्स दे लाने ते ग्राहने दा सरिस्ता करने लेई, स्थिति मताबक, इलाकाई परिषद् जां जि'ला परिषद् विनियम बनाई सकग ते ¹[नेहा हर इक विनियम राज्यपाल अगं तुरंत पेश कीता जाहग ते जदूं तगर ओह उस पर अनुमति नेई दिंदा तदूं तगर उसदा कोई असर नेई होग]।

²9. धातें दे पुज्ज दिक्खने जां खननें दे मकसद आस्तै लाइसैंस जां पट्टे – (1) कुसै खुदमुख्तेआर जि'ले दे अंदर दे कुसै इलाके दे सरबंधे च ³[रियासती सरकार] आसेआ धातां पैहलें खोज करने जां खनने दे मकसद आस्तै दिते गेदे लाइसैंसें जां पट्टें दा हर ब'रे प्राप्त होने आहली मलकीयत दा नेहा हिस्सा, जि'ला परिषद् गी दित्ता जाहग जेहड़ा उस ³[रियासती सरकार] ते नेह जि'ले दी जि'ला परिषद् बिच करार होरे।

(2) जेकर जि'ला परिषद् गी दित्ती जाने आहली नेही मलकीयत दे हिस्से बारे कोई झमेला पैदा होंदा ऐ तां ओह राज्यपाल गी मुकरली लेई दस्सेआ जाहग ते राज्यपाल आसेआ अपनी स्थानप मताबक नर्धारत रकम इस पैरे दे उपपै'रा (1) दे तैहत परिषद् गी दित्ती जाने आहली रकम मन्नी जाहग ते राज्यपाल दा फ़ैसला खीरी होग।

⁴10. जनजातियें थमां बक्ख व्यक्तियं दी शाहबुहारी ते बपार दे नियंत्रण आस्तै कायदे बनाने दा जि'ला परिषद् दा अख्तेआर – (1) खुदमुख्तेआर जि'ले दी जि'ला परिषद् उस जि'ले च रौहने आहलियें जनजातियें थमां बक्ख व्यक्तियें दी उस जि'ले दे अंदर शाहबुहारी जां बपार दे विनियमन ते नियंत्रण आस्तै विनियम बनाई सकग।

(2) खासतौर पर ते पछेत्तरे अख्तेआर दी व्यापकता पर उल्ट असर पाए बगैर, नेह विनियम –

(क) दस्सी सकडन जे उस आस्तै दिते गेदे लाइसैंस धारक दे इलावा होर कोई शाहबुहारी दा कारोबार नेई करग;

(ख) शहूकार आसेआ भरे जाने आहले जां बसूल कीते जाने आहले ब्याज दी दर दस्सी सकडन;

-
1. असम मुद्द-गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 दा 55) दी धारा 74 ते चौथी अनुसूची राहें (2-4-1970 थमां) अंतरस्थापत।
 2. संविधान छेमीं अनुसूची (तरमीम) अधिनियम, 1988 (1988 दा 67) दी धारा 2 राहें पै'रा 9 त्रिपुरा ते मिजोरम रियासतें गी लागू करने च हेठ लिखे दे रूप कन्ने संघोधित जिस शा उपपै'रा (2) दे परैत हेठ लिखत उपपै'रा अंतरस्थापत कीता जाई सकै, अर्थात् :-
 “(3) राज्यपाल अदेश राहें एह हिदायत देई सकग जे इस पैरे दे तैहत जि'ला परिषद् गी दिते जाने आहला मालकी दा हिस्सा उस परिषद् गी, स्थिति मताबक, उपपै'रा (1) दे तैहत कुसै करार जां उपपै'रा (2) दे तैहत कुसै मुकरली दी तरीक थमां इक ब'रे दी औद्ध दे अंदर कीती जाहग।”
 3. पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुद्द-गठन) अधिनियम, 1971 (1971 दा 81) दी धारा 71 (झ) ते अठमीं अनुसूची राहें (21-1-1972 थमां) “असम सरकार” दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 4. संविधान छेमीं अनुसूची (तरमीम) अधिनियम, 1988 (1988 दा 67) दी धारा 2 राहें पै'रा 10 त्रिपुरा ते मिजोरम रियासतें गी लागू करने च ख'ल्ल दिते रूपे मताबक तरमीम कीता गेआ –
 (क) शीर्षक चा “जनजातियें शा बक्ख व्यक्तियें दी” शब्दें दा लोप कीता जाहग;
 (ख) उपपै'रा (1) चा “जनजातियें शा बक्ख” शब्दें दा लोप कीता जाहग;
 (ग) उपपै'रा (2) चा खंड (घ) दे थाहरै पर हेठ लिखे दा खंड रक्खेआ जाहग; अर्थात्:-
 “(घ) नर्धारत करी सकडन जे कोई आदमी केहड़े जि'ले दा बसनीक ऐ जि'ला परिषद् राहें इस नमित्त दिते गेदे लाइसैंस दे तैहत कोई थोक जां परचून बपार करग नेई तां नेई।”।
 संविधान छेमीं अनुसूची अधिनियम, 2003 (2003 दा 44) दी धारा 2 राहें पै'रा 10 असम रियासत गी लागू करने च हेठ लिखित रूप कन्ने संघोधत जिस कन्ने उपपै'रा (3) दे परैत हेठ लिखे दा अंतरस्थापत कीता जाई सकै, अर्थात् :-
 “(4) इस पैरे दी कोई गल्ल इस अनुसूची दे पै'रा 2 दे उपपै'रा (3) दे परंतुक दे तैहत गठत बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद् गी लागू नेई होग।

भारत दा संविधान
(छेमीं अनुसूची)

(ग) शहकारें आसेआ खाते रक्खे जाने दा ते जि'ला परिषदें आसेआ इस आस्तै नियुक्त अधिकारियें आसेआ नेह लेखे दे जायजे दा प्रावधान करी सकडन;

(घ) दस्सी सकडन जे कोई व्यक्ति, जेहड़ा जि'ले च रौहने आहले अनुसूचित जनजातियें दा सदस्य नेई ऐ, जि'ला परिषद् आसेआ इस लेई दित्ते गेदे लाइसैंस दे तैहत्त गै कुसै चीज दा थोक जां परचून कारोबार करग, नेई तां नेई;

पर इस पैरे दे तैहत्त नेह विनियम तदूं तगर नेई बनाए जाई सकडन जदूं तगर ओह जि'ला परिषद् दी कुल सदस्यें दी गिंतरी दे घट्टो-घट्ट त्रै-चौथाई बहुमत कन्नै पास नेई करी दित्ते जंदे न:

पर बावजूद एहदे नेह कु'नें विनियमं दे तैहत्त कुसै नेह शहकार जां बपारी गी जेहड़ा नेह विनियमं दे बनाए जाने दे पैहलें शा उस जि'ले दे अंदर कारोबार करदा रेहदा होऐ, लाइसैंस जारी करने थमां इंकार करना सक्षम नेई होग।

(3) इस पैरे दे तैहत्त बनाए गेदे सब्भे विनियम राज्यपाल अगें तुरंत पेष कीते जाहडन ते जदूं तक ओह उं'दे पर मंजूरी नेई देई दिंदा तदूं तगर उं'दा कोई असर नेई होग।

11. अनुसूची तैहत्त बनाए गेदे कनूनें, नियमं ते विनियमं दा प्रकाशन – जि'ला परिषद् जां इलाकाई परिषद् आसेआ इस अनुसूची तैहत्त बनाए गेदे सब्भे कनून, नियम, विनियम रियासत दी गजट च तुरंत प्रकाषत कीते जाहडन ते नेह प्रकाषन कनूनें दी हैसियत रखडन।

12. [असम रियासत च खुदमुख्तेआर जि'ले ते खुदमुख्तेआर इलाके गी संसद ते असम रियासत दे विधान-मंडल दे अधिनियमं दा लागू होना] – (1) इस संविधान च कुसै गल्ल दे होंदे होई बी,-

(क) ³[असम रियासत दे विधान-मंडल] दा कोई अधिनियम जेहड़ा नेह विषे चा कुसै विषे दे सरबंधे च ऐ जि'नेगी इस अनुसूची दे पैरा 3 च नेह विषे दे रूप च दस्सेआ गेदा ऐ, जि'दे सरबंधे च जि'ला परिषद् जां इलाकाई परिषद् कनून बनाई सकग ते ³[असम रियासत दे विधान-मंडल] दा कोई अधिनियम, जेहड़ा कुसै अन-अर्कित अल्कोहली ल्हान दी बरतून गी रोक जां अडंगा लांदा ऐ, ⁴[उस रियासत च] कुसै खुदमुख्तेआर जि'ले जां खुदमुख्तेआर इलाके पर तदूं तगर लागू नेई होग जदूं तगर दौनें सूरतें चा हर इक च नेह जि'ले दी जि'ला परिषद् जां नेही रियासत उप्पर हकदारी रक्खने आहली जि'ला परिषद्, लोक अधिसूचना राहें, इस चाल्ली हिदायतां नेई देई दिंदी ऐ ते जि'ला परिषद् कुसै अधिनियम दे सरबंधे च नेही हिदायत दिंदे बेल्लै एह हिदायत देई सकग जे ओह अधिनियम नेह जि'ले जां इलाके जां उसदे कुसै हिस्से पर लागू होने च नेह अपवादें जां सुधारें दे तैहत्त रौहदे होई असरदार होग जेहड़ा ओह ठीक समझदी ऐ;

(ख) राज्यपाल, लोक अधिसूचना राहें, हिदायत देई सकग जे संसद दा जां ³[असम रियासत दे विधान-मंडल] दा कोई अधिनियम, जिसगी इस उपपैरे दे खंड (क) दे प्रावधान लागू नेई होंदे न ⁴[उस रियासत च] कुसै खुदमुख्तेआर जि'ले जां खुदमुख्तेआर इलाके जां उसदे कुसै हिस्से गी नेह अपवादें जां सुधारें तैहत्त लागू होग जेहड़ा ओह अधिसूचना च दस्से।

(2) इस पैरे दे उपपैरा (1) दे तैहत्त दिती गेदी कोई हिदायत इस चाल्ली दिती जाई सकग जे उसदा पछेत्तरा असर होऐ।

1. संविधान छेमी अनुसूची (तरमीम) अधिनियम, 2003 (2003 दा 44) दी धारा 2 राहें पैरा 12 असम रियासत गी लागू करने च हेठ लिखत रूपे च तरमीम कीता गेदा, अर्थात् :-

पैरा 12 दे उपपैरा (1) दे खंड (क) च, "इस अनुसूची दे पैरा 3 जां पैरा 3क च नेह विषे दे रूपे च दस्सेआ गेदा ऐ" शब्दें, हिसे ते अक्खर दे थाहरै पर "इस अनुसूची दे पैरा 3 जां पैरा 3क जां पैरा 3ख च नेह विषे दे रूपे च दस्सेआ गेदा ऐ" शब्द, हिसे ते अक्खर रक्खे जाहडन;।

2. पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुढ-गठन) अधिनियम, 1971 (1971 दा 81) दी धारा 71 (झ) ते अठमी अनुसूची राहें (21-1-1972 थमां) शीर्षक दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।

3. पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुढ-गठन) अधिनियम, 1971 (1971 दा 81) दी धारा 71 (झ) ते अठमी अनुसूची राहें (21-1-1972 थमां) "रियासत दा विधान मंडल" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।

4. पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुढ-गठन) अधिनियम, 1971 (1971 दा 81) दी धारा 71 (झ) ते अठमी अनुसूची राहें (21-1-1972 थमां) अंतरस्थापत।

1[12क. मेघालय रियासत च खुदमुख्तेआर जि'ले ते खुदमुख्तेआर इलाके गी संसद दे ते मेघालय रियासत दे विधान-मंडल दे अधिनियम दे लागू होना - इस संविधान च कुसै गल्लै दे होंदे होई बी -

(क) जेकर इस अनुसूची दे पै'रा 3 दे उपपै'रा (1) च दस्से गेदे विषे चा कुसै विषे दे सरबंधे च मेघालय रियासत च कुसै जि'ला परिषद जां इलाकाई परिषद आसेआ बनाए गेदे कुसै कनून दा कोई प्रावधान जां जेकर इस अनुसूची दे पै'रा 8 जां पै'रा 10 दे तैहत उस रियासत च कुसै जि'ला परिषद जां इलाकाई परिषद आसेआ बनाए गेदे कुसै विनियम दा कोई प्रावधान, मेघालय रियासत दे विधान-मंडल आसेआ उस विषे दे सरबंधे च बनाए गेदे कुसै कनून दे, कुसै सरिस्ते दे खलाफ ऐ तां, स्थिति मताबक, उस जि'ला परिषद जां इलाकाई परिषद आसेआ बनाया गेदा कनून जां अधिनियम, भाएं ओह मेघालय रियासत दे विधान-मंडल आसेआ बनाए गेदे कनून थमां पैहलें बनाया गेदा होऐ, जां उसदे परैत्त, उस खलाफत दी मात्तरा तक सिफर होग ते मेघालय रियासत दे विधान-मंडल आसेआ बनाया गेदा कनून जारी रौहग;

(ख) राष्ट्रपति, संसद दे कुसै अधिनियम दे सरबंधे च, अधिसूचना राहें हिदायत देई सकग जे ओह मेघालय रियासत च कुसै खुदमुख्तेआर जि'ले जां खुदमुख्तेआर इलाके पर लागू नेई होग जां नेह जि'ले जां इलाके जां उसदे हिस्से गी नेह अपवाद जां सुधारें दे तैहत लागू होग, जेहड़ा ओह अधिसूचना च दस्से ते नेही कोई हिदायत इस चाल्ली देई सकग जे ओह पछेत्तरी असरदार होऐ।]

2[12कक. त्रिपुरा रियासत च खुदमुख्तेआर जि'ले ते खुदमुख्तेआर इलाके गी संसद दे ते त्रिपुरा रियासत दे विधान-मंडल दे अधिनियम दे लागू होना - इस संविधान च कुसै गल्लै दे होंदे होई बी, -

(क) त्रिपुरा रियासत दे विधान-मंडल दा कोई अधिनियम, जेहड़ा नेह विषे चा कुसै विषे दे सरबंधे च ऐ जि'नें'गी इस अनुसूची दे पै'रा 3 च नेह विषे दे रूपे च दस्सेआ गेदा ऐ जि'दे सरबंधे च जि'ला परिषद जां इलाकाई परिषद कनून बनाई सकग, ते त्रिपुरा रियासत दे विधान-मंडल दा कोई अधिनियम जेहड़ा कुसै अनअर्कित अल्कोहली लहान दी बरतून दी नखेदी करदा ऐ जां अडंगा लांदा ऐ, उस रियासत दे खुदमुख्तेआर जि'ले जां खुदमुख्तेआर इलाके पर तदू तगर लागू नेई होग जदू तगर, दौनें सूरतें चा हर इक च, उस जि'ले दी जि'ला परिषद जां नेह इलाके पर हकदारी रक्खने आहली जि'ला परिषद लोक अधिसूचना राहें, इस चाल्ली दी हिदायत नेई देई दिंदी ऐ ते जि'ला परिषद कुसै अधिनियम दे सरबंधे च नेहा हुकम दिंदे बेल्लै एह हिदायत देई सकग जे ओह अधिनियम उस जि'ले जां इलाके जां उसदे कुसै हिस्से गी लागू होने च नेह अपवाद जां सुधारें दे तैहत रौहदे होई असरदार होग जिसगी ओह ठीक समझदी ऐ;

(ख) राज्यपाल, लोक अधिसूचना राहें, हिदायत देई सकग जे त्रिपुरा रियासत दे विधान-मंडल दा कोई अधिनियम, जिसगी इस उपपै'रे दे खंड(क) दे प्रावधान लागू नेई होंदे न, उस रियासत दे खुदमुख्तेआर जि'ले जां खुदमुख्तेआर इलाके गी लागू नेई होग जां नेह जि'ले जां इलाके जां ओहदे कुसै हिस्से गी नेह अपवादें जां सुधारें तैहत लागू होग जेहड़े ओह इस अधिसूचना च दस्से;

(ग) राष्ट्रपति, संसद दे कुसै अधिनियम दे सरबंधे च, अधिसूचना राहें हिदायत देई सकग जे ओह त्रिपुरा रियासत च कुसै खुदमुख्तेआर जि'ले जां खुदमुख्तेआर इलाके पर लागू नेई होग जां नेह जि'ले जां इलाके जां उसदे कुसै हिस्से उप्पर नेह अपवादें जां सुधारें दे तैहत लागू होग जेहड़ा ओह अधिसूचना च दस्से ते नेही कोई हिदायत इस चाल्ली दिती जाई सकग जे उसदा पछेत्तरा असर होऐ।

1. पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुढ-गठन) अधिनियम, 1971 (1971 दा 81) दी धारा 71 (झ) ते अठमी अनुसूची राहें (21-1-1972 थमां) पै'रा 12क दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
2. संविधान छेमी अनुसूची (तरमीम) अधिनियम, 1988 (1988 दा 67) दी धारा 2 राहें पै'रा 12क ते 12ख दे थाहरै पर प्रतिस्थापत। पै'रा 12कक संविधान (नुं'जमी तरमीम) अधिनियम, 1984 दी धारा 4 राहें (1-4-1985 थमां) अंतरस्थापत कीता गेआ हा।

भारत दा संविधान
(छेमी अनुसूची)

(12ख) मिजोरम रियासत च खुदमुख्तेआर जि'ले ते खुदमुख्तेआर इलाके पर संसद दे ते मिजोरम रियासत दे विधान-मंडल दे अधिनियम दे लागू होना – इस संविधान च कुसै गल्लै दे होंदे होई बी, –

(क) मिजोरम रियासत दे विधान-मंडल दा कोई अधिनियम जेहड़ा नेह विषे चा कुसै विषे दे सरबंधे च ऐ जि'नेगी इस अनुसूची दे पै'रा 3 दे नेह विषे दे रूपै च दस्सेआ गेदा ऐ जि'दे सरबंधे च जि'ला परिषद् जां इलाकाई परिषद् कनून बनाई सकग, ते मिजोरम रियासत दे विधान-मंडल दा कोई अधिनियम, जेहड़ा अनअर्कित अल्कोहली ल्हान दी बरतून दी नखेदी करदा जां अडंगा लांदा ऐ, उस रियासत च कुसै खुदमुख्तेआर जि'ले जां खुदमुख्तेआर इलाके पर तदू तगर लागू नेई होग, जदू तगर, दौनें सूरतें चा हर इक च, उस जि'ले दी जि'ला परिषद् जां नेह इलाके पर हकदारी रक्खने आहली जि'ला परिषद्, लोक अधिसूचना राहें, इस चाल्ली दियां हिदायतां नेई दिंदी ऐ ते जि'ला परिषद् कुसै अधिनियम दे सरबंधे च नेही हिदायत दिंदे बेल्लै एह हिदायत देई सकग जे ओह अधिनियम उस जि'ले जां इलाके जां उसदे कुसै हिस्से पर लागू होने च नेह अपवादें जां सुधारें दे तैह्त् असरदार होग जेहड़ा ओह ठीक समझदी ऐ;

(ख) राज्यपाल, लोक अधिसूचना राहें, हिदायत देई सकग जे मिजोरम रियासत दे विधान-मंडल दा कोई अधिनियम, जिसगी इस उपपै'रे दे खंड (क) दे प्रावधान लागू नेई होंदे न, उस रियासत च कुसै खुदमुख्तेआर जि'ले जां खुदमुख्तेआर इलाके पर लागू नेई होग जां नेह जि'ले जां इलाके जां उसदे कुसै हिस्से गी नेह अपवादें जां सुधारें दे तैह्त् लागू होग जेहड़ा ओह उस अधिसूचना च दस्सै;

(ग) राष्ट्रपति, संसद दे कुसै अधिनियम दे सरबंधे च, अधिसूचना राहें हिदायत देई सकग जे ओह मिजोरम रियासत च कुसै खुदमुख्तेआर जि'ले जां खुदमुख्तेआर इलाके गी लागू नेई होग जां नेह जि'ले जां इलाके जां उसदे कुसै हिस्से पर नेह अपवादें जां सुधारें तैह्त् लागू होग जेहड़ा इस अधिसूचना च दस्सै ते नेही कोई हिदायत इस चाल्ली दिती जाई सकग जे उसदा पछेत्तरा असर होऐ।]

13. खुदमुख्तेआर जि'ले कन्नै सरबंधत अंदाजन पावतियां ते खर्चे दा सलाना माल्ली ब्यौरे च बक्खर रूपै च दस्सेआ जाना – कुसै खुदमुख्तेआर जि'ले कन्नै सरबंधत अंदाजन पावतियां ते खर्च, जेहड़ा ¹*** रियासत दे कठेरमे कोष च ज'मा होनियां न जां उस चा कीते जाने न, पैहलें जि'ला परिषद् दे अगमें विचार-बटांदरे लेई रक्खे जाहडन ते पही नेह विचार बटांदरे परेंत्त अनुच्छेद 202 दे तैह्त् रियासत दे विधान-मंडल अगमें रक्खे जाने आहले सलाना माल्ली ब्यौरे च बक्खर रूपै च दस्से जाहडन।

²14. खुदमुख्तेआर जि'ले ते खुदमुख्तेआर इलाके द प्रशासन दी पडताल करने ते उस पर रपोट देने लेई आयोग दी नियुक्ति – (1) राज्यपाल, रियासत च खुदमुख्तेआर जि'ले ते खुदमुख्तेआर इलाके दे प्रशासन दे सरबंधे च अपने आसेआ दस्से गेदे कुसै विषे दी जिसदे तैह्त् इस अनुसूची दे पै'रा 1 दे उपपै'रा (3) दे खंड (ग), (घ), (ङ) ते खंड (च) च दस्से गेदे विषे न, पडताल करने ते उस पर रपोट देने लेई कुसै बेल्लै बी आयोग नियुक्त करी सकग, जां रियासत च खुदमुख्तेआर जि'ले ते खुदमुख्तेआर इलाके दी आमतौरै पर प्रशासन दी ते खासतौरै पर –

(क) नेह जि'ले ते इलाके च शिक्षा ते इलाज दियां सुविधा दी ते संचार बंदोबस्त दी,

1. पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुद्द-गठन) अधिनियम, 1971 (1971 दा 81) दी धारा 71 (झ) ते अठमी अनुसूची राहें (21-1-1972 थमां) "असम" शब्द दा लोप कीता गेआ।
2. संविधान छेमी अनुसूची (तरमीम) अधिनियम, 1995 (1995 दा 42) दी धारा 2 राहें पै'रा 14 "असम" रियासत च लागू होने लेई हेठ दिन्ते गेदे रूप च तरमीम कीता गेआ, अर्थात् :-
पै'रा 14 दे उपपै'रा (2) च, "राज्यपाल दी उस कन्नै सरबंधत सफारषे दे कन्नै" शब्दें दा लोप कीता जाहग।

भारत दा संविधान
(छेमी अनुसूची)

(ख) नेह जि'लें जां इलाकें दे सरबंधै च कुसै नमें जां खास विधान दी जरूरत दी, ते

(ग) जि'ला परिषदें ते इलाकाई परिषदें आसेआ बनाए गोदे कनूनें, नियमें ते विनियमें दे प्रशासन दी,

बेल्लै-बल्लै सिर पड़ताल करने ते ओहदे पर रपोट देने आस्तै आयोग नियुक्त करी सकग ते नेह आयोग आसेआ अनुसरण करने आहली प्रक्रिया गी परिभाषत करी सकग।

(2) सरबंधत मंत्री, हर इक नेह आयोग दी रपोट गी, राज्यपाल गी उस कनूनें सरबंधत सफारषें कनूनें, उस पर ¹[रियासती सरकार] आसेआ कीते जाने आस्तै प्रस्तावित कारवाई दे सरबंधै च स्पष्टीकारक चेता-पत्र सनें, रियासत दे विधान-मंडल अगें रक्खग।

(3) राज्यपाल रियासती सरकार दे कम्में दी अपने मंत्रियें च बंड करदे बेल्लै अपने मंत्रियें चा इक मंत्री गी रियासत दे खुदमुखेआर जि'लें ते इलाकें दी भलाई-बेहतरी दा खासतौर पर जिम्मेवार बनाई सकग।

²15. जि'ला परिषदं ते इलाकाई परिषदें दे कम्में ते प्रस्ताव गी बे-असरी जां मोत्तल कीता जाना -

(1) जेकर राज्यपाल गी कुसै बेल्लै एह संतुष्टी होई जंदी ऐ जे जि'ला परिषदं जां इलाकाई परिषदं दे कुसै कम्म जां प्रस्ताव कनूनें भारत दी सुरक्षा खतरे च पौने दा अंदेषा ऐ ³[जां लोक व्यवस्था पर उल्टा प्रभाव पौना मुमकन ऐ] तां ओह नेह कम्म जां प्रस्ताव गी बे-असर जां मोत्तल करी सकग ते नेही कारवाई (जिसदे तैहत परिषदं दी मोत्तली ते परिषदं च शामिल जां उसदे आसेआ बरतूनजोग सभनें जां कु'नें अख्तेआरें गी अपने हत्थै च लैना ऐ) करी सकग जेहड़ा ओह इस कम्मै दे कीते जाने जां उसदे जारी रक्खे जाने दा जां नेह प्रस्ताव गी असरदार कीते जाने दा निवारण करने लेई जरूरी समझै।

(2) राज्यपाल आसेआ इस पै'रे दे उपपै'रा (1) दे तैहत कीता गोदा हुकम, उसदे लेई जेहड़ी वजह ऐ उ'दे समेत, रियासत दे विधान-मंडल अगें तौले शा तौले रक्खेआ जाहग ते जेकर ओह हुकम, रियासत दे विधान-मंडल आसेआ रद्द नेई करी दित्ता जंदा ऐ तां उस तरीक थमां , जिसगी ओह कीता गोआ हा, बाहरें म्हीनें दी औद्ध तक बनेआ रौहग:

पर जेकर ते जिन्नें बारी, नेह हुकम गी जारी रक्खने दी ताइद करने आहला प्रस्ताव रियासत दे विधान-मंडल आसेआ पास करी दित्ता जंदा ऐ तां ते उन्नें बारी ओह हुकम, जेकर राज्यपाल रद्द नेई करी दिंदा ऐ तां, उस तरीक थमां, जिसगी ओह इस पै'रे दे तैहत कुसै दूई चाल्ली चालू नेई रौहदा, अगले बाहरें म्हीनें दी औद्ध तगर बनेआ रौहग।

-
1. पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुद्द-गठन) अधिनियम, 1971 (1971 दा 81) दी धारा 71 (झ) ते अठमीं अनुसूची राहें (21-1-1972 थमां) "असाम सरकार" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 2. संविधान छेमीं अनुसूची (तरमीम) अधिनियम, 1988 (1988 दा 67) दी धारा 2 राहें पै'रा 15 त्रिपुरा ते मिजोरम रियासतें पर लागू करने च हेठ लिखे दे रूपै च संषोधित :-
'(क) मुडले भाग च "रियासत दे विधान मंडल राहें" शब्दें दे थाहरै पर "राज्यपाल आस्सेआ" शब्द रक्खे जाहडन;
(ख) परंतुक दा लोप कीता जाहग।'।
 3. आसाम मुद्द-गठन (मेघालय) अधिनियम 1969 (1969 दा 55) दी धारा 74 ते चौथी अनुसूची राहें (2-4-1970 थमां) अंतरस्थापत।

¹16. जि'ला परिषद् जां इलाकाई परिषद् दा भंग – ²[(1)] राज्यपाल इस अनुसूची दे पै'रा 14 दे तैह्त नियुक्त आयोग दी सफारष उप्पर, लोक अधिसूचना राहें, कुसै जि'ला परिषद् जां इलाकाई परिषद् गी भंग करी सकग, ते

(क) हिदायत देई सकग जे परिषद् दे मुढ-गठन लेई नमां आम चनांS तुरंत कराया जा; जां

(ख) रियासत दे विधान-मंडल दी पुज्ज मंजूरी कन्नै नेही परिषद् दे प्राधिकार दे तैह्त औने आहले इलाके दा प्रषासन बाहरें म्हीनें'शा बधीकी नेई होने आहली औद्ध लेई अपने हत्थे च लेई सकग जां नेह इलाके दा प्रषासन, नेह आयोग गी आखे गेदे पै'रे दे तैह्त नियुक्त कीता गेदा ऐ जां नेह होर कुसै अदारे गी जिसगी ओह मनासब समझदा ऐ, आखी गेदी औद्ध आस्तै देई सकग:

पर जिसले इस पै'रे दे खंड (क) दे तैह्त कोई हुकम दित्ता गेदा ऐ तां राज्यपाल प्रजगत इलाके दे प्रषासन दे सरबंधे च, नमां आम चनांS होने पर परिषद् दे मुढ-गठन दे मुलतवी रौहने तगर इस पै'रे दे खंड (ख) च दस्सी गेदी कारवाई करी सकग:

पर होर जे, उस्सै चाल्ली जि'ला परिषद् जां इलाकाई परिषद् गी रियासत दे विधान-मंडल दे अगें अपने विचार रक्खने दा मौका दित्ते बिजन उस पै'रे दे खंड (ख) दे तैह्त कोई कारवाई नेई कीती जाहग।

³[(2)] जेकर राज्यपाल गी कुसै बेल्लै एह संतुष्टी होई जंदी ऐ जे नेह हलात पैदा होई गेदे न जिस'च खुदमुख्तेआर जि'ले जां खुदमुख्तेआर इलाके दा प्रषासन उस अनुसूची दे प्रावधानें मताबक नेई चलाया जाई सकदा तां ओह, उस्सै चाल्ली जि'ला परिषद् जां इलाकाई परिषद् च शामिल जां उसदे आसेआ बरतूनजोग सबै जां कोई कम्म जां अख्तेआर लोक-सूचना राहें, छें म्हीनें'शा बधीक नेई होने आहली औद्ध आस्तै अपने हत्थे च लेई सकग ते एह घोषना करी सकग जे नेह कम्म जां अख्तेआर आखी गेदी औद्ध दे दरान नेह व्यक्ति जां प्राधिकारी आसेआ बरतूनजोग होडन जिसगी ओह इस नमित्त दस्सै:

पर राज्यपाल मुंडले हुकमै दा चलन, बादधू हुकम जां हुकमें राहें इक बारी च छें म्हीनें थमां बधीकी नेई होने आहली औद्ध लेई बधाई सकग।

(3) इस पै'रे दे उपपै'रा (2) दे तैह्त कीता गेदा हर हुकम, ओहदे आस्तै जेहडे कारण न उं'दे सनें, रियासत दे विधान-मंडल अगें रक्खेआ जाहग ते ओह हुकम उस तरीक थमां जिसगी रियासती विधान-मंडल उस हुकम दे कीते जाने दे परैत पैहली बारी बाँहदा ऐ, त्रीहें दिनें दे मुक्कने पर जारी नेई रौहग जेकर उस औद्ध दे मुक्कने'शा पैहलें रियासती विधान-मंडल आसेआ उसी मंजूर नेई करी दित्ता जंदा ऐ।]

1. संविधान छेमी अनुसूची (तरमीम) अधिनियम, 1988 (1988 दा 67) दी धारा 2 राहें पै'रा 16 त्रिपुरा ते मिजोरम रियासतें गी लागू करने च हेठ लिखे दे रूपे च संषोधित कीता गेआ ऐ :-

'(क) उपपै'रा (1) दे खंड (ख) च औने आहले, "रियासत दे विधान-मंडल दी पुज्ज मंजूरी कन्नै" शब्दें ते दूए परंतुक दा लोप कीता जाहग;

(ख) उपपै'रा 3 दे थारै पर हेठ लिखे दा उपपै'रा रक्खेआ जाहग। अर्थात् :-

"(3) इस पै'रे दे उपपै'रा (1) जां उपपै'रा (2) दे तैह्त कीता गेदा हर अदेष, उसदे आस्तै जेहडे कारण न उं'दे कन्नै, रियासत दे विधान मंडल अगें रक्खेआ जाहग।"

2. असम मुढ-गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 दा 55) दी धारा 74 ते चौथी अनुसूची राहें (2-4-1970 थमां) पै'रा 16 गी उपपै'रा (1) दे रूपे च मुढी गिनेआ गेआ।

3. असम मुढ-गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 दा 55) दी धारा 74 ते चौथी अनुसूची राहें (2-4-1970 थमां) अंतरस्थापत।

¹17. खुदमुख्तेआर जि'ले च चनांS-क्षेत्रे दे बनाने च नेह जि'ले चा क्षेत्रे गी बाहर कड्डना - राज्यपाल ²[असम जां मेघालय ³[जां त्रिपुरा ⁴[जां मिजोरम दी विधान सभा] दे चनांS दे मकसद आस्तै, हुकमै राहें, एह घोषना करी सकग जे, ⁵[स्थिति मताबक, असम जां मेघालय ³[जां त्रिपुरा ⁴[जां मिजोरम]] रियासत च] कुसै खुदमुख्तेआर जि'ले दे अंदर दा कोई इलाका नेह कुसै जि'ले लेई विधान सभा च मखसूस सीट जां सीटें गी भरने लेई कुसै चनांS-क्षेत्र दा हिस्सा नेई होग, पर विधान सभा च इस चाल्ली मखसूस नेई कीती गेदी नेही सीट जां सीटें गी भरने लेई हुकम च दस्से गेदे चनांS-क्षेत्र दा हिस्सा होग।

*
6

*

*

*

*

⁷19. संक्रमणकाली प्रावधान - (1) राज्यपाल इस संविधान दे रम्भ दे परैत तुरंत इस अनुसूची दे तैह्त रियासत च हर इक खुदमुख्तेआर जि'ले लेई जि'ला परिषद् दे गठन दी कारवाई करग ते जदू तगर कुसै खुदमुख्तेआर जि'ले लेई जि'ला परिषद् गठन नेई कीती जंदी ऐ तदू तगर नेह जि'ले दा प्रशासन राज्यपाल कोल होग ते नेह जि'ले दे अंदर लगदे इलाके दे प्रशासन गी इस अनुसूची दे पैहलकें सरिस्तें दे थाहरै पर हेठ लिखे दे प्रावधान लागू होउन, अर्थात् :-

(क) संसद दा जां विधान-मंडल दा कोई अधिनियम नेह इलाके पर तदू तगर लागू नेई होग, जदू तगर राज्यपाल लोक अधिसूचना राहें इस चाल्ली दी हिदायत नेई देई दिंदा ऐ ते राज्यपाल कुसै अधिनियम दे सरबंधे च नेही हिदायत दिंदे बेल्लै एह हिदायत देई सकग जे ओह अधिनियम नेह इलाके जां उसदे कुसै दस्से गेदे हिस्से पर लागू होने च नेह अपवादें जां सुधारें दे तैह्त असरी होग जेहड़ा ओह ठीक समझदा ऐ;

(ख) राज्यपाल नेह कुसै इलाके दी शांति ते चंगे शासन लेई नियम बनाई सकग ते इस चाल्ली बनाए गेदे नियम संसद जां उस रियासत दे विधान-मंडल दे कुसै अधिनियम दा जां कुसै मजूदा कनून दा, जेहड़े उस इलाके च उस बेल्लै लागू न, हटाई सकउन जां तरमीम करी सकउन।

(2) राज्यपाल आसेआ इस पैरे दे उपपैरा (1) दे खंड (क) दे तैह्त दिती गेदी कोई हिदायत इस चाल्ली दिती जाई सकग जे उसदा पछेतरा असर होऐ।

(3) इस पैरे दे उपपैरा (1) दे खंड (ख) दे तैह्त बनाए गेदे सब्भे विनियम राष्ट्रपति दे अगें तुरंत पेष कीते जाहउन ते जदू तगर ओह इजाजत नेई देऐ तदू तगर उंदा कोई असर नेई होग।

1. संविधान छेमी अनुसूची (तरमीम) अधिनियम, 2003 (2003 दा 44) दी धारा 2 राहें पैरा 17 असम रियासत गी लागू करने लेई हेठ लिखे दा अंतरस्थापत कीता गेआ, अर्थात् :-

"पर इस पैरे दी कोई गल्ल बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जि'ले गी लागू नेई होग।"

2. पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुद्द-गठन) अधिनियम, 1971 (1971 दा 81) दी धारा 71 (झ) ते अठमी अनुसूची राहें (21-1-1972 थमा) "असम दी विधान सभा" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।

3. संविधान (नुंजमी तरमीम) अधिनियम, 1984 दी धारा 4 राहें (1-4-1985 थमा) अंतरस्थापत।

4. मिजोरम रियासत अधिनियम, 1986 (1986 दा 34) दी धारा 39 राहें (20-2-1987 थमा) अंतरस्थापत।

5. पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुद्द-गठन) अधिनियम, 1971 (1971 दा 81) दी धारा 71 (झ) ते अठमी अनुसूची राहें (21-1-1972 थमा) अंतरस्थापत।

6. पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुद्द-गठन) अधिनियम, 1971 (1971 दा 81) दी धारा 71 (झ) ते अठमी अनुसूची राहें (21-1-1972 थमा) पैरा 18 दा लोप कीता गेआ।

7. संविधान छेमी अनुसूची (तरमीम) अधिनियम, 2003 (2003 दा 44) दी धारा 2 राहें पैरा 19 असम रियासत गी लागू करने च हेठ लिखे दे रूपै कन्ने संघोधत जिस कन्ने उपपैरा 3 दे परैत हेठ लिखे दे रूपै कन्ने अंतरस्थापत कीता गेआ अर्थात् :-

(4) इस अधिनियम दे रम्भ दे परैत तुरंत असम च बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जि'ले दे लेई इक अंतरिम कार्यपालक परिषद्, राज्यपाल आसेआ बोडो तैहरीक दे नेताएं चा जिं दे तैह्त समझोते चेता-पत्तर दे दसखतकर्ता बी हैन, बनाई जाहग ते उस च उस इलाके दे गैर जनजाती समुदायें गी बी पर्याप्त नुमायंदगी दिती जाहग।

पर अंतरिम परिषद् छें म्हीनें दी औद्ध आस्तै होग जिस दरान परिषद् दा चनांS कराने दी कोष कीती जाहग।

स्पष्टीकरण - इस उपपैरे दे मकसदें लेई "समझोते दा चेता-पत्तर" पद दा मतलब भारत सरकार, असम सरकार ते बोडो लिब्रेषन टाइगर्स दे बषक्हार 10 फरवरी, 2003 गी होए दा दसखती चेता-पत्तर ऐ।

भारत दा संविधान

(छेमी अनुसूची)

¹[20. जनजाति क्षेत्र – (1) खल्ल दित्ती गेदी सारणी दे भाग 1, भाग 2 ²[भाग 2क] ते भाग 3 च दस्से गेदे क्षेत्र तरतीबन असम रियासत, मेघालय रियासत ²[त्रिपुरा रियासत] ते मिजोरम ³[रियासत] दे जनजाति क्षेत्र होडन।

(2) ⁴[हेठ दित्ती गेदी सारणी दे भाग 1, भाग 2 जां भाग 3 च] कुसै जि'ले प्रति हिदायत दा एह अर्थ लाया जाह्ग जे ओह पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुढ-गठन) अधिनियम, 1971 दी धारा 2 दे खंड (ख) दे तैहत निष्वत कीते गेदे दिनें थमां ठीक पैहलें मजूद उस नांS दे खुदमुखेआर जि'ले च शामिल राज्यक्षेत्रें लेई हिदायतां न :

पर इस अनुसूची दे पै'रा 3 दे उपपै'रा (1) दे खंड (ड) ते खंड (च), पै'रा 4, पै'रा 5, पै'रा 6, पै'रा 8 दे उपपै'रा (2), उपपै'रा (3) दे खंड (क) खंड (ख) ते खंड (घ) ते उपपै'रा (4) ते पै'रा 10 दे उपपै'रा (2) दे खंड (घ) दे मकसदें लेई, षिलांग नगरपालिका च शामिल इलाके दे कुसै हिस्से दे बारे च एह नेई समझेआ जाह्ग जे ओह ⁵[खासी फ्हाड़ी जि'ले] दे अंदर ऐ।

²[(3) हेठ दित्ती गेदी सारणी दे भाग 2क च "त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र जि'ला" दे प्रति हिदायत दा एह अर्थ लाया जाह्ग जे ओह त्रिपुरा जनजाति इलाका खुदमुखेआर जि'ला परिषद् अधिनियम 1979 दी पैहली अनुसूची च दस्से गेदे जनजाति इलाकें च शामिल राज्यक्षेत्र दे प्रति हिदायत ऐ।]

सारणी

भाग 1

1. उत्तरी कछार फ्हाड़ी जि'ला।
2. ⁶[कार्बी आंगलांग जि'ला।]
- ⁷[3. बोडोलैंड इलाकाई क्षेत्र जि'ला।]

भाग 2

- ⁵[1. खासी फ्हाड़ी जि'ला।
2. जयंतिया फ्हाड़ी जि'ला।]
3. गारो फ्हाड़ी जि'ला।

-
1. पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुढ-गठन) अधिनियम, 1971 (1971 दा 81) दी धारा 71 (झ) ते अठमीं अनुसूची राहें (21-1-1972 थमां) पै'रा 20 ते 20क दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 2. संविधान (नुं'जमीं तरमीम) अधिनियम, 1984 दी धारा 4 राहें (1-4-1985 थमां) अंतरस्थापत।
 3. मिजोरम रियासत अधिनियम, 1986 (1986 दा 34) दी धारा 39 राहें (20-2-1987 थमां) "संघ राज्यक्षेत्र" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 4. संविधान (नुं'जमीं तरमीम) अधिनियम, 1984 दी धारा 4 राहें (1-4-1985 थमां) "हेठ दित्ती गेदी सारणी च" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 5. मेघालय सरकार दी अधिसूचना संख्या डी.सी.ए. 31/72/11, तरीक 14 जून, 1973, मेघालय दी गजट, भाग vक तरीक 23-6-1973 सफा 200 राहें प्रतिस्थापत।
 6. असम सरकार आसेआ तरीक 14-10-1976 दी अधिसूचना सं. टी.ए.डी/आर/115/74/47 राहें "मिकीर फ्हाड़ी जि'ला" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 7. संविधान छेमीं अनुसूची (तरमीम) अधिनियम, 2003 (2003 दा 44) दी धारा 2 राहें अंतरस्थापत।

भारत दा संविधान
(छेमीं अनुसूची)

1[भाग 2क

त्रिपुरा जनजति क्षेत्र जि'ला]

भाग 3

2 * * * *

3[1. चकमा जि'ला।

4[2. मारा जि'ला।

3. लई जि'ला।]]

5[20क. मिजो जि'ला परिषद् दा भंग होना – (1) इस अनुसूची च बावजूद एह्दे बी, दस्सी गेदी तरीक थमां ठीक पैहलें मजूद मिजो जि'ले दी जि'ला परिषद् (जिसगी इस च एह्दे परेंत मिजो जि'ला आखेआ गेदा ऐ) भंग होई जाह्ग ते मजूद नेई रौह्ग।

(2) मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र दा प्रशासक, इक जां बाद्ध हुकमें राहें, हेठ लिखे दे सभनें जां किष विषे लेई प्रावधान करी सकग, अर्थात् :-

(क) मिजो जि'ला परिषद् दी जायदादें, हकें ते जिम्मेवारियें दा (जि'दे तैह्त् ओह्दे आसेआ कीते गेदे कुसै ठेके दे तैह्त् हक्क ते जिम्मेवारियां न) सबूरा जां हिस्से दे रूप च संघ गी जां होर कुसै प्राधिकारी गी तबादला;

(ख) कु'नें नेहियें कनूनी कारवाइयें च जि'दे च मिजो जि'ला परिषद् इक पक्खकार ऐ, मिजो जि'ला परिषद् दे थाहरै पर संघ दा जां कुसै होर प्राधिकारी दा पक्खकार दे रूपै च रक्खेआ जाना जां संघ दा जां कुसै दूए प्राधिकारी दा पक्खकार दे रूपै च जोड़ेआ जाना;

(ग) मिजो जि'ला परिषद् दे कु'नें मलाजमें दा संघ गी जां कुसै होर प्राधिकारी गी जां ओह्दे आसेआ तब्दीली जां मुढ-भर्थी नेही तब्दीली जां मुढ-भर्थी दे परेंत उ'नें मलाजमें पर लागू होने आह्ले बंधन ते सेवा-शर्ता;

(घ) मिजो जि'ला परिषद् आसेआ बनाई गेदी ते उसदे त्रुटने थमां ठीक पैहलें लागू कु'नें कनूनें दा नेह अनुकूलनें ते सुधारें दे, भाएं ओह् रद्द रूपै च होन जां तरमीम दे रूपै च, तैह्त् रौह्दे होई, जेह्दे प्रशासक आसेआ एह्दे नमित्त कीते जाह्न तदूं तगर बने दे रौह्ना जदूं तगर कुसै समर्थ विधान-मंडल आसेआ जां होर समर्थ प्राधिकारी आसेआ नेह कनूनें च तब्दीली, रद्द जां तरमीम नेई कीती जंदी ऐ;

(ङ) घटनात्मी, नतीजक ते पूरक विषे जेह्दे प्रशासक जरूरी समझै।

स्पष्टीकरण – इस पै'रे च ते इस अनुसूची दे पै'रा 20ख च "नर्धारत तरीक "दा मतलब ओह तरीक ऐ जिसगी मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र दी विधान सभा दा, संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 दे प्रावधानें दे तैह्त् ते उं'दे मताबक ठीक रूपै च गठन होंदा ऐ।

1. संविधान (नुंजमीं तरमीम) अधिनियम, 1984 दी धारा 4 राहें (1-4-1985 थमां) अंतरस्थापत।
2. संघ राज्यक्षेत्र शासन (तरमीम) अधिनियम, 1971 (1971 दा 83) दी धारा 13 राहें (29-4-1972 थमां) "मिजो जि'ला" शब्दें दा लोप कीता गेआ।
3. मिजोरम दा गजट 1972 तरीक 5 मेई 1972 जिल्त 1 भाग II सफा 17 च प्रकाषत मिजोरम जि'ला परिषद् (प्रकीर्ण प्रावधान) अदेश 1972 राहें (29-4-1972 थमां) अंतरस्थापत।
4. संविधान छेमीं अनुसूची (तरमीम) अधिनियम, 1988 (1988 दा 67) दी धारा 2 राहें तरतीव नं. 2 ते 3 ते उं'दे कन्ने सरबंधत इंदराजें दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
5. संघ राज्यक्षेत्र शासन (तरमीम) अधिनियम, 1971 (1971 दा 83) दी धारा 13 राहें (29-4-1972 थमां) पै'रा 20क दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।

भारत दा संविधान

(छेमीं अनुसूची)

120ख. मिज़ोरम संघ राज्यक्षेत्र च खुदमुखेआर इलाकं दा खुदमुखेआर जि'ले होना ते ओहदे नतीजक ते संक्रमणकाली प्रावधान – (1) इस अनुसूची च कुसै गल्लै दे होंदे होई बी, –

(क) मिज़ोरम संघ राज्यक्षेत्र च दिती गेदी तरीक थमां ठीक पैहलें मजूद हर इक खुदमुखेआर इलाका उस तरीक गी ते उस थमां उस संघ राज्यक्षेत्र दा खुदमुखेआर जि'ला (जिसगी इस च इसदे परैत, उस थाहरा नमां जि'ला आखेआ गेदा ऐ) होई जाहग ते ओहदा प्रषासक, इक जां बाद्दू हुकमें राहें, हिदायत देई सकग जे इस अनुसूची दे पै'रा 20 च (जिसदे तैह्त उस पै'रे कन्नै नत्थी सारणी दा भाग 3 ऐ) नेहियां नतीजक तरमीमां कीतियां जाहडन जेहडियां इस खंड दे प्रावधानें गी असरी करने लेई जरूरी न ते फही आखे गेदे पै'रे ते आखे गेदे भाग 3 दे बारे च एह समझेआ जाहग जे उ'दी उसदे मताबक तरमीम करी दिती गेदी ऐ;

(ख) मिज़ोरम संघ राज्यक्षेत्र च दिती गेदी तरीक थमां ठीक पैहलें मजूद खुदमुखेआर इलाके दी हर इलाकाई परिषद् (जिसगी इस च इसदे परैत मजूदा इलाकाई परिषद् आखेआ गेदा ऐ) उस तरीक गी ते थमां ते जदू तगर उस-थाहरी नमें जि'ले आस्तै परिषद् दा पूरी चाल्ली गठन नेई होंदा ऐ उसलै तगर, उस जि'ले दी जि'ला परिषद् (जिसी एहदे च एहदे परैत उस थाहरी नमीं जि'ला परिषद् आखेआ गेआ ऐ) समझी जाहग।

(2) मजूदा इलाकाई परिषद् दा हर चनोए दा जां नामजद कीता गेदा सदस्य उस-थाहरी नमीं जि'ला परिषद् लेई, स्थिति मताबक, चनोए दा जां नामजद समझेआ जाहग ते तदू तगर ओह ओहदा सम्हालग जदू तगर इस अनुसूची दे तैह्त उस-थाहरा नमें जि'ले आस्तै जि'ला परिषद् दा पूरी चाल्ली गठन नेई होंदा।

(3) जिसलै तगर उस-थाहरी नमीं जि'ला परिषद् आसेआ इस अनुसूची दे पै'रा 2 दे उपपै'रा (7) ते पै'रा 4 दे उपपै'रा (4) दे तैह्त नियम नेई बनाए जंदे न तदू तगर मजूदा इलाकाई परिषद् आसेआ आखे गेदे प्रावधानें तैह्त बनाए गेदे नियम जेहडे दिती गेदी तरीक थमां ठीक पैहलें चलन च न उस-थाहरी नमीं जि'ला परिषद् दे सरबंधे च एह नेह अनुकूलनं ते सुधारें दे तैह्त रौहदे होई असरी होडन जेहडे मिज़ोरम संघ राज्यक्षेत्र दे प्रषासक आसेआ उ'दे च कीते जाहन।

1. संविधान छेमीं अनुसूची (तरमीम) अधिनियम, 1995 (1995 दा 42) दी धारा 2 राहें असम च लागू होने लेई पै'रा 20ख दे परैत हेठ लिखे दा पै'रा अंतरस्थापत कीता गेआ, अर्थात् :-

***20खक. राज्यपाल आसेआ अपन कम्मं दे नर्बाह च स्यानपो अखेआर दी बरतून –** राज्यपाल इस अनुसूची दे पै'रा 1 दे उपपै'रा 2 ते उपपै'रा (3) पै'रा 2 उपपै'रा (1) ते उपपै'रा (6) उपपै'रा (6क) दे पैहले परंतुक गी छोड़िये ते उपपै'रा (7) पै'रा 3 दे उपपै'रा (3) पै'रा 4 दे उपपै'रा (4) पै'रा 5 ते पै'रा 6 दे उपपै'रा (1) पै'रा 7 दे उपपै'रा (2) पै'रा 8 दे उपपै'रा (4), पै'रा 9 दे उपपै'रा (3) पै'रा 14 दे उपपै'रा (1) पै'रा 15 दे उपपै'रा (1) पै'रा 16 दे उपपै'रा (1) ते उपपै'रा (1) ते उपपै'रा (2) ते तैह्त अपने कम्मं दे नर्बाह च मंत्रि परिषद्, उ'आं गै, उत्तरी कछार फाड़ी खुदमुखेआर परिषद् जां कार्बी आंगलांग खुदमुखेआर परिषद् कन्नै सलाह-सूत्र करने परैत नेही कारवाई करग, जेहड़ी ओह अपनी स्यानप मुजब जरूरी मनदा ऐ।"

संविधान छेमीं अनुसूची (तरमीम) अधिनियम, 1988 (1988 दा 67) दी धारा 2 राहें त्रिपुरा ते मिज़ोरम रियासतें गी लागू करने च पै'रा 20ख दे बाद हेठ लिखे दा पै'रा अंतरस्थापत कीता गेआ, अर्थात् :-

***20खख. राज्यपाल आसेआ अपन कम्मं दे नर्बाह च स्यानपो अखेआरें दी बरतून –** राज्यपाल इस अनुसूची दे पै'रा 1 दे उपपै'रा (2) ते उपपै'रा (3) पै'रा 2 ते उपपै'रा (1) ते उपपै'रा (7) पै'रा 3 दा उपपै'रा (3) पै'रा 4 दा उपपै'रा (4) पै'रा 5, पै'रा 6 दा उपपै'रा (1) पै'रा 7 दा उपपै'रा (2), पै'रा 9 दा उपपै'रा 3 पै'रा 14 दा उपपै'रा (1) ते पै'रा 16 दा उपपै'रा (1) ते उपपै'रा (2) दे तैह्त अपने कम्मं दे नर्बाह च मंत्रि-परिषद् कन्नै ते जेकर ओह जरूरी समझें तां सरबंधत जि'ला परिषद् जां इलाकाई परिषद् कन्नै सलाह-सूत्र करने दे परैत, नेही कारवाई करग, जेहड़ी ओह अपनी स्यानप मताबक जरूरी समझें।

भारत दा संविधान

(छेमीं अनुसूची)

(4) मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र दा प्रशासक, इक जां बाद्दू हुकमें राहें हेठ लिखे दे सब्भै जां किष विषे आस्तै प्रावधान करी सकग, अर्थात् :-

(क) मजूदा इलाकाई परिषद् दिये जायदादे, अधिकारें ते जिम्मेवारियें दा (जि'दे तैह्त् ओह्दे आसेआ कीते गेदे कुसै करार दे तैह्त् अधिकार ते जिम्मेवारियां न) सबूरा जां किष हिस्से दे तौरै पर उस-थाहरी नमी जि'ला परिषद् गी तबादला;

(ख) किष नेहियें कनूनी कारवाइयें च, जि'दे च मजूदा इलाकाई परिषद् इक पक्खकार ऐ, मजूदा इलाकाई परिषद् दे थाहरै पर उस-थाहरी नमी जि'ला परिषद् दे पक्खकार दे रूपै च रक्खेआ जाना;

(ग) मजूदा इलाकाई परिषद् दे कु'नें मलाजमें दा उस-थाहरी नमी जि'ला परिषद् गी जां उसदे राहें तब्दीली जां मुढ-भर्थी; नेही तब्दीली जां मुढ-भर्थी दे परैत्त उ'नें मलाजमें पर लागू होने आहलियां सेवा-षर्ता;

(घ) मजूदा इलाकाई परिषद् आसेआ बनाए गेदे ते दित्ती दी तरीक शा पैह्लें चलन च किष कनूनें दा नेह अनुकूलनें ते सुधारें दे भाएं ओह् रद्द करने दी सूरत च होन जां तरमीम दे रूपै च अधीन रौह्दे होई जेह्ड़े प्रशासक आसेआ इसदे लेई कीते जाहन तदू तगर चलन च रौह्डन जदू तगर समर्थ विधान-मंडल आसेआ जां होर समर्थ प्राधिकारी आसेआ, नेह कनूनें च तब्दीली, रद्द जां तरमीम नेई करी दित्ती जंदी ऐ;

(ङ) नेह घटनात्मी, नतीजक ते पूरक विषे जेह्ड़े प्रशासक जरूरी समझै।

20ग. व्याख्या – इस नमिक्त बनाए गेदे कुसै प्रावधान दे तैह्त्, इस अनुसूची दे प्रावधान मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र पर लागू होने च इस चाल्ली असरी होडन –

(1) मन्नो रियासत दे राज्यपाल ते रियासत दी सरकार दे लेई हिदायतां अनुच्छेद 239 दे तैह्त् नियुक्त संघ राज्यक्षेत्र दे प्रशासक लेई हिदायतां होन; (“रियासत दी सरकार” पद गी छोड़िये) रियासत दे प्रति हिदायत मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र लेई हिदायतां होन ते रियासती विधान-मंडल लेई हिदायत मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र दी विधान सभा दे लेई हिदायतां होन;

(2) मन्नो –

(क) पै'रा 4 दे उपपै'रा (5) च सरबंधत रियासती सरकार कन्नै सलाह-सूतर करने दे प्रावधान दा लोप करी दित्ता गेदा होऐ;

(ख) पै'रा 6 दे उपपै'रा (2) च “जिस उप्पर रियासत दी कार्यपालिका अख्तेआर दा विस्तार ऐ” शब्दें दे थाहरै पर “जिसदे सरबंधे च मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र दी विधान सभा गी कनून बनाने दा अख्तेआर ऐ” शब्द रक्खी दित्ते गेदे होन;

(ग) पै'रा 13 च “अनुच्छेद 202 दे तैह्त्” शब्दें ते हिंसें दा लोप करी दित्ता गेदा होऐ।]]

21. अनुसूची दी तरमीम – (1) संसद, बेल्लै-बेल्लै सिर कनूनै राहें, इस अनुसूची दे प्रावधानें चा कुसै च बादधा, तब्दीली जां रद्द करने दी सूरत च तरमीम करी सकग ते जिसलै अनुसूची दी इस चाल्ली तरमीम कीती जंदी ऐ तां इस संविधान च इस अनुसूची दे लेई कुसै हिदायत दा एह् अर्थ लाया जाह्ग जे ओह् इस चाल्ली संषोधित नेही अनुसूची दे प्रति हिदायत ऐ।

(2) नेहा कोई कनून जेह्ड़ा इस पै'रे दे उपपै'रा (1) च लखोए दा ऐ, इस संविधान दे अनुच्छेद 368 दे मकसदें लेई इस संविधान दी तरमीम नेई समझी जाह्ग।

(अनुच्छेद 246)

सूची 1 – संघ सूची

1. भारत दी ते उसदे हर इक हिस्से दी रक्षा, जिसदे तैहत् रक्षा लेई त्त्यारी ते नेह सारे कम्म न, जेहड़े जंग दे बेल्लै जंग दे संचालन ते उसदे मुक्कने परैत्त असरकारी ढंगै कन्नै फौज पिच्छें हटाने लेई मददगार होन।
2. नौ-सैना, सैना ते वायु-सैना; संघ दे होर हथ्यारबंद बल।
¹[2क. संघ दे कुसै हथ्यारबंद बल जां संघ दे नियंत्रण दे तैहत् कुसै होर बल दा जां उसदी कुसै टुकड़ी जां यूनिट दा कुसै रियासत दी सिवल शक्ति दी मदद च तैनाती; नेही तैनाती बेल्लै नेह बलें दे सदस्यें दे अख्तेआर, अधिकारिता, चेचे अधिकार ते जिम्मेवारियां।]
3. छौनी क्षेत्रें दी हदबंदी, नेह क्षेत्रें च मुकामी खुदमुख्तेआरी, नेह क्षेत्रें अंदर छौनी प्राधिकारियें दा गठन ते उं'दे अख्तेआर ते नेह इलाकें च अवास दी सुविधा दा विनियमन (जिसदे तैहत् कराए-भाड़े दा नियंत्रण ऐ)।
4. नौ-सैना, सैना ते वायु-सैना दा कम्म।
5. शस्त्र, अग्निषस्त्र, गोला-बरूद ते विस्फोटक।
6. परमाणु ऊर्जा ते उसदे उत्पादन लेई जरूरी खनिज संपत्ति स्रोत।
7. संसद आसेआ कन्नूँ राहें रक्षा दे मकसद आस्तै जां जंग दे संचालन आस्तै जरूरी घोषत कीते गेदे उदयोग।
8. केंदरी खुफिया ते खोज-पड़ताल ब्यूरो।
9. रक्षा, बदेष कम्म जां भारत दी सुरक्षा सरबंधी कारणें लेई निवारक नज़रबंदी; इस चाल्ली नज़रबंदी च रक्खे गेदे व्यक्ति।
10. बदेष कम्म, सारे विषे जिं'दे राहें संघ दा कुसै बदेष कन्नै सरबंध होंदा ऐ।
11. राजनयिक, कौंसली ते बपारी नुमायंदगी।
12. संयुक्त राष्ट्र संघ।
13. अंतरराष्ट्री सम्मेलनै, संस्थाएं ते होर अदारें च हिस्सा लैना ते उं'दे च कीते गेदे फ़ैसलें गी अमल च आहनना।
14. बदेषें कन्नै संधियां ते करार करना ते बदेषें कन्नै कीतियें गेदियें संधियें, करारें ते समझौतें गी अमल च आहनना।
15. जंग ते अमन।
16. बदेषी अधिकारता।
17. नागरिकता, देषीकरण ते होर देषी।
18. प्रत्यर्पण।
19. भारत च प्रवेश ते उत्थूं दा बाहर बासा ते देस नकाला, पासपोर्ट ते वीज़ा।
20. भारत थमां बाहर दे थाहरें दियां तीर्थ-यात्तरां।
21. खुल्ले समुंदर जां गासै च कीते गेदे डाके ते अपराध; जमीनी जां खुल्ले समुंदर जां गासै च राष्ट्रें दे कन्नूँ दे खलाफ कीते गेदे अपराध।

1. संविधान (बतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 57 राहें (3-1-1977 थमां) अंतरस्थापत।

(सतमीं अनुसूची)

22. रेल।
23. नेह राजमार्ग जि'नेंगी संसद आसेआ बनाए गोदे कनूनै राहें जां उसदे तैहत् राष्ट्री राजमार्ग घोषत कीता गेदा ऐ।
24. मषीन कन्नै चलने आहले समुंदरी ज्हाजें दे सरबंधै च नेह अंतर्देषी जल रस्ते पर पोतपरिवहन ते नौपरिवहन जेहडे संसद आसेआ कनूनै राहें राष्ट्री जल रस्ते घोषत कीते गोदे न; नेह जल मार्ग उप्पर रस्ते दा नियम।
25. पोतपरिवहन ते नौपरिवहन, जिसदे तैहत् ज्वारी जल च पोतपरिवहन ते नौपरिवहन ऐ; बपारी समुंदरी बेड़े लेई षिक्षा ते सखलाई दा सरिस्ता ते रियासतें ते होरनें अजैसियें आसेआ दिती जाने आहली षिक्षा ते सखलाई दा विनियमन।
26. रोषन मनार जि'दे तैहत् लोऽ ज्हाज, बीकन ते ज्हाजरानी ते हवाई ज्हाजें दी सुरक्षा लेई होर सरिस्ता ऐ।
27. नेहियां बंदरगाहीं जि'नें गी संसद आसेआ बनाए गोदे कनूनै जां मजूदा कनूनै तैहत् महापत्तन घोषत कीता जंदा ऐ, जिसदे तैहत् उं'दी हदबंदी ते उं'दे पत्तन प्राधिकारी दा गठन ते उं'दे अख्तेआर न।
28. पत्तन करंतीन जिसदे तैहत् उस कन्नै सरबंधत शफाखाने न, नाविक ते समुंदरी शफाखाने।
29. हवाई रस्ते, हवाई ज्हाज ते ज्हाज चलाना; ज्हाज क्षेत्रें दा बंदोबस्त; ज्हाजें राहें आओ-जाई ते ज्हाज क्षेत्रें दे विनियमन ते संगठन, ज्हाज सरबंधी षिक्षा ते सखलाई लेई बंदोबस्त ते रियासतें ते दुइयें अजैसियें आसेआ दिती जाने आहली षिक्षा ते सखलाई दा विनियमन।
30. रेल, समुंदर जां हवाई रस्ते राहें जां मषीन कन्नै चलने आहले समुंदरी ज्हाजें च राष्ट्री समुंदरी रस्ते राहें यात्तरियें ते माल दी ढोआई।
31. डाक-तार; टैलीफोन, बेतार, प्रसारण ते उ'ऐ नेह होर संचार साधन।
32. संघ दी जायदाद ते उस थमां राजस्व, पर कुसै¹ रियासत च स्थित जायदाद दे सरबंधै च, उत्थूं तगर दे छुट्ट, जित्थूं तगर संसद कनून राहें नेई तां प्रावधान करै, उस रियासत दे कनूनै दे तैहत् रौहदे होई।
- ² * * * * *
34. देसी रियासतें दे हाकमें दी जायदाद लेई प्रतिपालक अधिकरण।
35. संघ दा अवामी कर्जा।
36. करंसी, सिक्के बनाना, कनूनी टैंडर ते बदेषी करंसी।
37. बदेषी कर्जा।
38. भारती रिजर्व बैंक।
39. डाक-घर बचत बैंक।
40. भारत सरकार जां कुसै रियासती सरकार आसेआ चलाई गेदी लाटरी।
41. बदेषें कन्नै बपार ते तजारत; बन्ना-चुंगी ते रुआर-पार अयात-नर्यात, बन्ना ते बन्ना-चुंगी दी परिभाषा।
42. अंतर-रियासती बपार ते तजारत।
43. बपार निगमें दा जि'दे तैहत् बैंककारी, बीमा ते माल्ली निगम न पर कोपरेटिव सोसाइटियां नेई न, शमूलियत, विनियमन ते समेटना।

1. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें "पैहली अनुसूची दा भाग क जां भाग ख, च दस्से गोदे" शब्दें ते अक्खरें दा लोप कीता गेआ।

2. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 26 राहें इंदराज 33 दा लोप कीता गेआ।

(सतर्मी अनुसूची)

44. विष्वविद्यालयें गी छोड़ियै नेह निगमें दा भामें ओह बपार निगम होन जां नेई, जिं दे मकसद इक रियासत तगर सीमत नेई हैन, उं दी शमूलियत, विनियमन ते समेटन।
45. बैंककारी।।
46. अदला-बदली बिल्ल, चैक, बचन पत्तर ते उं ऐ जनेहियां होर लिखतां।
47. बीमा।
48. स्टाक-एक्सचेंज ते वायदा बजार।
49. पेटेंट, अविष्कार ते डिजाइन, कापी राइट, बपार चिन्ह ते बपारक चीजें-बस्तें दे चिन्ह।
50. तोल ते नाप दा स्तर स्थापत करना।
51. भारत थमां बाहर भेजे जाने आहले जां इक रियासत थमां दूई रियासत च ढोते जाने आहले माल दी गुणवत्ता दा स्तर तैऽ करना।
52. ओह उद्योग जिं दे सरबंधे च संसद ने कनूनै राहें घोषणा कीती दी ऐ जे उं दे पर संघ दा नियंत्रण अवामी भलाई-बेह्तरी लेई ठीक ऐ।
53. तेल क्षेत्रें जां खनिज तेल संपत्ति स्रोतें दा विनियमन ते विकास; पेट्रोलियम ते पेट्रोलियम उत्पाद; होर द्रव्य ते पदार्थ जिं दे बारे च संसद ने कनूनै राहें घोषणा कीती दी ऐ जे ओह खतरनाक रूपै च अग पकड़ने आहले न।
54. उस हद्द तगर खान्ने दा विनियमन ते खनिजें दा विकास जिस तगर संघ दे नियंत्रण दे तैह्त नेह विनियमन ते विकास गी संसद, कनूनै राहें लोकहित च ठीक घोषत करै।
55. खान्नें ते तेलक्षेत्रें च मजदूरी ते सुरक्षा दा विनियमन।
56. उस हद्द तगर अंतर-रियासती नदियें, घाटियें दा विनियमन ते विकास जिस तगर संघ दे नियंत्रण दे तैह्त नेह विनियमन ते विकास गी संसद, कनूनै राहें लोकहित च ठीक घोषत करै।।
57. राज्यक्षेत्री समुंदरी हिस्से थमां परे मच्छी पकड़ना ते मच्छी क्षेत्र।
58. संघ दी अजैसियें आसेआ लून बनाना, देना ते बंड करना, दुइयें अजैसियें आसेआ लून बनाना, लून देना, लून दी बंड दा विनियमन ते नियंत्रण।
59. फहीम दी खेती, बनाने ते बाहर भेजने लेई बिक्री।
60. प्रदर्षन आस्तै चलचित्र सिनमें गी मंजूरी।
61. संघ दे मलाजमें कन्नै सरबंधत उद्योगी झमेले।
62. इस संविधान दे शुरू च राष्ट्री पुस्तकालय, भारती म्यूज़ियम, इंपीरियल युद्ध म्यूज़ियम, विक्टोरिया स्मारक ते भारती युद्ध स्मारक नाएं कन्नै जान्नियां जाने आहलियां संस्थां ते भारत सरकार आसेआ सबूरी जां किष हिस्से कन्नै धनपोषत संस्थां ते संसद आसेआ, कनूनै राहें, राष्ट्री म्हत्तव दी घोषत इयै नेही गै कोई होर संस्था।
63. इस संविधान दे शुरू च काषी हिंदू विष्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विष्वविद्यालय ते ¹[दिल्ली विष्वविद्यालय] नाएं कन्नै जान्नियां जाने आहलियां संस्थां; ¹[अनुच्छेद 371ड दे अनुसरण च स्थापत विष्वविद्यालय;] संसद आसेआ, कनूनै राहें राष्ट्री म्हत्तव दी घोषत कोई होर संस्था।
64. भारत सरकार आसेआ सबूरी जां किष हिस्से च धनपोषत ते संसद आसेआ कनूनै राहें, राष्ट्री म्हत्तव दी घोषत विज्ञानक जां तकनीकी षिक्षा संस्थां।

1. संविधान (बत्तिमी तरमीम) अधिनियम, 1973 दी धारा 4 राहें (1-7-1974 थमां) "दिल्ली विष्वविद्यालय ते" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।

(सतमी अनुसूची)

65. संघ दियां अजैसियां ते संस्थां जेहड़ियां –
 (क) पेषेवाराना, कारोबारी जां तकनीकी सखलाई आस्तै न जिं दे तैहूत पलीस अफसरें दी सखलाई ऐ; जां
 (ख) खास पढ़ाई जां शोध दे बादधे आस्तै न; जां
 (ग) अपराधें दी पड़ताल जां पता लाने च विज्ञानक जां तकनीकी मदद लेई न।
66. उच्च शिक्षा जां शोध संस्थाएं च ते विज्ञानक ते तकनीकी संस्थाएं च मानकें दा ताल-मेल ते नर्धारण।
67. ¹[संसद आसेआ बनाए गोदे कनूनै राहें जां उसदे तैहूत] राष्ट्री म्हत्तव दे ¹[घोषत] प्राचीन ते इतिहासक स्मारक, अभिलेख ते पुरातत्वी स्थल ते अवषेप।
68. भारती सर्वेक्षण, भारती भूविज्ञानक, बनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान ते मानव शास्त्र सर्वेक्षण ते मौसम विज्ञान संगठन।
69. जनगणना।
70. संघ लोक सेवां; अखिल भारती सेवां, संघ लोक सेवा आयोग।
71. संघ दियां पैषनां अर्थात् भारत सरकार आसेआ भारत दे कठेरमें कोष चा दित्तियां जाने आहलियां पैषनां।
72. संसद आस्तै, रियासतें दे विधान-मंडलें आस्तै ते राष्ट्रपति ते उपराष्ट्रपति दे औहदें आस्तै चनांS; चनांS आयोग।
73. संसद सदस्यें दियां, राज्य सभा दे सभापति ते उपसभापति दियां ते लोक सभा दे अध्यक्ष ते उपाध्यक्ष दियां तनखाहीं ते भत्ते।
74. संसद दे हर इक सदन दे ते हर इक सदन दे सदस्यें ते समितियें दे अख्तेआर, चेचे अधिकार ते उन्मुक्तियां; संसद दी समितियें जां संसद आसेआ नियुक्त आयोगें दे सामनै सबूत देने जां दस्तावेज पेष करने लेई व्यक्तियें गी हाजर कराना।
75. राष्ट्रपति ते राज्यपालें गी मिलने आहले मेहनताने, भत्ते ते चेचे अधिकार ते गैर-हाजरी छुट्टी दे सरबंधे च अधिकार; संघ दे मंत्रियें दियां तनखाहीं ते भत्ते; नियंत्रक-महालेखापारखी दी तनखाह ते भत्ते ते गैर-हाजरी छुट्टी दे सरबंधे च अधिकार ते सेवा दियां होर शर्ता।
76. संघ दे ते रियासतें दे लेखे दी जांच-पड़ताल।
77. सर्वोच्च अदालत दा गठन, संगठन, हकदारिता ते अख्तेआर (जिं दे तैहूत उस अदालत दा अवमान ऐ) उस च लैती जाने आहली फीस, सर्वोच्च अदालत च बकालत करने दे हकदार व्यक्ति।
78. उच्च अदालतें दे अधिकारियें ते सेवकें दे बारे च प्रावधानें गी छोड़िये उच्च अदालतें दा गठन ते संगठन ²[जिसदे तैहूत लम्मी छुट्टी ऐ]; उच्च अदालतें अगें बकालत करने दे हकदार व्यक्ति।
- ³[79. कुसै उच्च अदालत दी हकदारिता दा कुसै संघ राज्यक्षेत्र दा विस्तारन जां घटाना।]
80. कुसै रियासत दे पलीस बल दे सदस्यें दे अख्तेआर ते हकदारी दा उस रियासत शा बाहर कुसै क्षेत्र पर विस्तारन, पर इस चाल्ली नेई जे इक रियासत दी पलीस उस रियासत शा बाहर कुसै क्षेत्र च उस रियासत दी सरकार दी बिजन सैहमती जिस च नेहा क्षेत्र मजूद ऐ, अख्तेआरें ते अधिकारें दी बरतून करने च समर्थ होई सकै; कुसै रियासत दे पलीस बल दे सदस्यें दे अख्तेआरें ते हकदारिता दा उस रियासत दे बाहर रेल क्षेत्रें पर विस्तारन

1. संविधान (सतमी तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 27 राहें "संसद आसेआ कनूनै राहें घोशत" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 2. संविधान (पंदरमी तरमीम) अधिनियम, 1963 दी धारा 12 राहें (पछेत्तरे प्रभाव कनूनै) अंतरस्थापत।
 3. संविधान (सतमी तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 29 ते अनुसूची राहें इंदराज 79 दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।

(सतर्मी अनुसूची)

81. अंतर-रियासती विस्थापन; अंतर-रियासती करतीन।
82. करसानी औदन थमां बक्ख औदन पर टैक्स।
83. बन्ना-चुंगी जिसदे तैह्त नर्यात शुल्क ऐ।
- ⁴[84. भारत च बनी दी जां पैदा होई दिये चीजे पर उत्पाद शुल्क जिसदे तैह्त –
- (क) पेट्रोलियम क्रूड।
- (ख) हाई स्पीड डीज़ल
- (ग) मोटर स्प्रीट (आमतौरा उप्पर जेहदा नांऽ पेट्रोल ऐ)
- (घ) कुदरती गैस
- (ङ) ज्हाजे च बरतोने आह्ल ईधन
- (च) तमाकू ते तामकू उत्पाद शामिल न।
85. निगम टैक्स।
86. व्यष्टिये जां कंपनिये दियां जायदादां, जिं'दे च करसानी जिमीं नेई ऐ, पूंजी मुल्ल पर टैक्स; कंपनिये दी पूंजी पर टैक्स।
87. करसानी जिमीं थमां बक्ख जायदाद दे सरबंधे च संपदा शुल्क।
88. करसानी जिमीं थमां बक्ख जायदाद दे बरासत दे सरबंधे च शुल्क।
89. रेल, समुंदर जां हवाई रस्ते राहे लेते जाने आहले माल जां मसाफरे पर बन्ना-टैक्स, रेल भाड़े ते माल भाड़े पर टैक्स।
90. स्टाक एक्सचेंजे ते वायदा बजारें दे लैन-देन पर श्टाम शुल्क कोला बक्ख टैक्स।
91. अदला-बदली बिल्ले, चैके, वचन-पत्तरे, ढोआई-पत्तरे, दोहार-पत्तरे, बीमा पालसिये, शेरें दिये मुंतकिलिये, डबैचरे, परोक्षिये ते आगतिये दे सरबंधे च श्टाम शुल्क दी दर।
- * [***]
- ¹[92क. अखबारें शा बक्ख माल दी खरीद जां फरोख्त उप्पर उस सूरत च टैक्स जिस च नेही खरीद-फरोख्त अंतर-रियासती बपार जां तजारत दे दरान होंदी ऐ।]
- ²[92ख. माल भेजने उप्पर (भाएं भेजने आहले व्यक्ति गी जां कुसै होर आदमी गी भेजेआ गेदा ऐ) उस सूरत च टैक्स, जिस च भेजना अंतर-रियासती बपार जां तजारत दे दरान होंदा ऐ।]
- * [***]
93. इस सूची दे विषे चा कुसै विषे कन्नै सरबंधत कन्नूने दे खलाफ जुर्म।
94. इस सूची दे विषे चा कुसै विषे दे मकसदे लेई पडताल, सर्वेक्षण ते आंकड़े।
95. सर्वोच्च अदालतै कषा बक्ख सभने अदालतें दी इस सूची दे विषे चा कुसै विषे दे सरबंधे च हकदारी ते अख्तेआर; नाव-अधिकरण सरबंधी अधिकारता।
96. इस सूची दे विषे चा कुसै विषे सरबंधी फीस, पर इसदे तैह्त कुसै अदालती च लैती जाने आहली फीस नेई ऐ।
97. कोई होर विषे जेहड़ा सूची 2 जां सूची 3 च गिंतरी च नेई ऐ ते जिसदे तैह्त कोई नेहा टैक्स ऐ जेहड़ा उ'ने सूचिये चा कुसै सूची च लखोए दा नेई ऐ।

सूची 2 – राज्य सूची

1. लोक व्यवस्था (पर इसदे तैह्त सिवल शक्ति दी मदद लेई ³[नो-सैना, सैना जां वायु-सैना जां संघ दे कुसै होर हथ्यारबंद बल दा जां संघ दे नियंत्रण दे तैह्त कुसै होर बल दा जां उसदी कुसै टुकड़ी जां यूनिट दा इस्तेमाल] नेई ऐ)।

1. संविधान (छेमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 2 राहें अंतरस्थापत।
2. संविधान (छतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1982 दी धारा 5 राहें (2-2-1983 थमां) अंतरस्थापत।
- * इंदराज 92 ते 92 (ग) गी संविधान (101मीं तरमीम) अधिनियम 2016 राहें लोप कीता गेआ।
3. संविधान (बतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 57 राहें (3-1-1977 थमां) किष शब्दें दे थाहरे पर प्रतिस्थापत।
4. संविधान (इक सौ इक तरमीम) अधिनियम, 2016 दी धारा 17(क)(i) (16-9-2016) राहें प्रतिस्थापत।

भारत दा संविधान

(सतमीं अनुसूची)

¹[2. सूची, 1 दे इंदराज 2क दे प्रावधानें दे तैहत् पलीस (जिसदे तैहत् रेल ते ग्रांड पलीस ऐ)¹]

3. ²*** उच्च अदालत दे अधिकारी ते सेवक; भाड़ा ते राजस्व अदालतें दी प्रक्रिया; सर्वोच्च अदालत थमां बक्ख सभनें अदालतें च लैती जाने आहली फीस।

4. कैदखाने, सुधार-घर, बौस्टल संस्थां ते उरसै चाल्ली दियां होर संस्थां ते उं'दे च नजरबंद व्यक्ति; कैदखानें ते होरनें संस्थाएं दी बरतून लेई होरनें रियासतें कन्नै सरिस्ते।

5. स्थानी शासन, अर्थात् नगर निगमें, सुधार-ट्रस्टें, जि'ला-बोर्डें, खनन-बस्ती प्राधिकारियें ते मुकामी खुदमुखेआर षासन, जां ग्रांड प्रषासन दे मकसदें लेई नेह होर मुकामी प्राधिकारियें दा गठन ते अख्तेआर।

6. अवामी सेहत ते सफाई; हस्पताल ते दुआखाने।

7. भारत थमां बाहर दे थाहरें दियें तीर्थ यात्तराएं थमां बक्ख तीर्थ यात्तरां।

8. नषीली ल्हान, अर्थात् नषीली ल्हान दा उत्पादन, बनाना, कब्जा, ढोआई, खरीद ते फरोख्त।

9. हांजल ते रोजगार लेई अयोग्य लोकें दी मदाद।

10. शव दब्बने ते कब्रिस्तान; 'षव-दाह ते शमषानघाट।

³ * * * * *

12. रियासत आसेआ नियंत्रत जां धनपोषत लाइब्रेरियां, अजैबघर, जां उ'ऐ नेहियां होर संस्थां; ⁴[संसद आसेआ बनाए गेदे कन्नूने राहें जां उसदे तैहत्] राष्ट्री म्हत्तव दे ⁴[घोषत कीते गेदे] प्राचीन ते इतिहासक स्मारकें ते अभिलेखें थमां बक्ख प्राचीन ते इतिहासक स्मारक ते अभिलेख।

13. संचार अर्थात् सड़कां, पुल, फेरी ते होर संचार साधन जेहड़े सूची 1 च नेई दस्से गेदे न; नगरपालिक ट्राम; खरोलियां; अंतर्देषी जलरस्ते दे सरबंधे च सूची 1 ते सूची 3 दे प्रावधान तैहत्, अंतर्देषी जलरस्ते ते उं'दे पर आओ-जाई; मषीनी यानें थमां बक्ख यान।

14. करसानी जेहदे तैहत् करसानी षिक्षा ते शोध, नाषक जीवें थमां बचाऽ ते रुक्ख रोगें दी पुआकारी।

15. पषुधन दा बचाऽ, सम्हाल ते सुधार ते जीव-जंतुयें दे रोगें दा पुआ; पषु चिकित्सा सखलाई ते कारोबार।

16. फाटक ते पषु अतिचार पर रोक।

17. सूची 1 दे इंदराज 56 दे प्रावधानें तैहत् पानी मतलब पानी दी सप्लाई, सिंचाई ते नैहरां, पानी दी नकासी ते ब'न्न, पानी दा भंडारन ते जलषक्ति।

18. जिमीं मतलब जिमीं च जां उस पर कब्जा, पट्टा, जिसदे तैहत् बझी ते बुसाले दा सरबंध ऐ ते सट्टें दी ग्राही, करसानी जिमीं दी मुंतकिली ते होर अदला-बदली; जिमीं विकास ते करसानी दोहार; उपनिवेशन।

⁵ * * * * *

21. मच्छी-पालन।

22. सूची 1 दे इंदराज 34 दे प्रावधानें दे तैहत् प्रतिपाल्य-अधिकरन; कर्जे हेठ दबोई दी ते कुर्क कीती गेदी जायदाद।

23. संघ दे नियंत्रण तैहत् विनियमन ते विकास दे सरबंधे च सूची 1 दे प्रावधानें तैहत् खान्नें दा विनियमन ते खनिज विकास।

-
1. संविधान (बतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 57 राहें (3-1-1977 थमां) इंदराज 2 दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 2. संविधान (बतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 57 राहें (3-1-1977 थमां) किष शब्दें दा लोप कीता गेआ।
 3. संविधान (बतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 57 राहें (3-1-1977 थमां) इंदराज 11 दा लोप कीता गेआ।
 4. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 27 राहें "संसद् आसेआ कन्नूने राहें घोषत" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 5. संविधान (बतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 57 राहें (3-1-1977 थमां) इंदराज 19 ते इंदराज 20 दा लोप कीता गेआ।

(सतमी अनुसूची)

24. सूची 1 दी ¹[इंदराज 7 ते इंदराज 52] दे प्रावधानें तैहत्, उद्योग।
25. गैस ते गैस-कम्म।
26. सूची 3 दी इंदराज 33 दे प्रावधानें तैहत् रियासत दे अंदर बपार ते तजारत।
27. सूची 3 दी इंदराज 33 दे प्रावधानें तैहत् माल दा उत्पादन, सप्लाई ते बंड।
28. बजार ते मेले।
- ²* * * * *
30. शाह-बुहारी ते शहुकार; करसानी कर्जे कोला मुक्ति।
31. सराई ते सरांऽपाल।
32. नेह निगमें दा, जेहड़े सूची 1 च दस्से गेदे निगमें शा बख न ते विष्वविद्यालयें दा निगमन, विनियमन ते निगमें दा समेटन, अनिगमित बपारक, साहित्यक, विज्ञानक, धार्मक ते होर सोसाइटियां ते संस्था; सैहकारी सोसाइटियां।
33. थेटर ते नाटकें दा प्रदर्शन; सूची 1 दी इंदराज 60 दे प्रावधानें तैहत्, सिनमा; खेडां, मनपरचाई ते मौजमस्ती।
34. सट्टा ते जुआ।
35. रियासत च शामिल जां ओहदे कब्जे च कम्म, जिमीं ते इमारतां।
- ³* * * * *
37. संसद आसेआ बनाए गेदे कुसै कनून दे प्रावधानें तैहत्, रियासती विधान-मंडल लेई चनांऽ।
38. रियासत दे विधान-मंडल दे सदस्यें दे, विधान सभा दे अध्यक्ष ते उपाध्यक्ष दे ते, जेकर विधान परिषद् ऐ तां, ओहदे सभापति ते उपसभापति दी तनखाह ते भत्ते।
39. विधान सभा दी ते उसदे सदस्यें ते समितियों दी ते, जेकर विधान परिषद् ऐ तां, विधान परिषद् दी ते ओहदे सदस्यें ते समितियों दे अख्तेआर, चेचे अधिकार ते उन्मुक्तियां; रियासत ते विधान-मंडल दियें समितियों अगमें सबूत देने जां दस्तावेज पेष करने लेई व्यक्ति गी हाजर कराना।
40. रियासत दे मंत्रियें दी तनखाह ते भत्ते।
41. रियासत दियां लोक सेवां; रियासती लोक सेवा आयोग।
42. रियासत दियां पैषनां, अर्थात् रियासत आसेआ जां रियासत दे कठेरमें कोष चा दित्तियां जाने आहलियां पैषनां।
43. रियासत दा लोक रिण।
44. गुप्त कोष।
45. जिमीं मालिया जिसदे तैहत् मालिया नर्धारत ते ग्राही, जिमीं रिकार्ड रक्खना, राजस्व दे मकसदें आस्तै ते अधिकारें दे रिकार्ड आस्तै सर्वे ते राजस्व दी बदली ऐ।
46. करसानी औंदन उप्पर टैक्स।
47. करसानी जिमीं दे उत्तराधिकार दे सरबंधै च शुल्क।
48. करसानी जिमीं दे सरबंधै च संपदा-शुल्क।

-
1. संविधान (सतमी तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 28 राहें "इंदराज 52" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
2. संविधान (बतालिमी तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 57 राहें (3-1-1977 थमां) इंदराज 29 दा लोप कीता गेआ।
3. संविधान (सतमी तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 26 राहें इंदराज 36 दा लोप कीता गेआ।

भारत दा संविधान

(सतमी अनुसूची)

49. जिमीं ते इमारतें पर टैक्स।
50. संसद आसेआ, कनूनै राहें, खनिज विकास दे सरबंधे च लाई दी रोकें दे तैहत्, खनिज सरबंधी अधिकारें पर टैक्स।
51. रियासत च बने दे जां पैदा कीते गेदे हेठ लिखे दे माल्लै पर उत्पाद शुल्क ते भारत च कुतै होर बने दे जां पैदा कीत गेदे उ'ए जनेह माल्लै पर उरसै दर जां घट्टो-घट्ट दरै पर प्रति शुल्क —
(क) मनुक्खी बरतून लेई ल्हान;
(ख) फहीम, भङ्ग ते होर नषीलियां दुआइयां ते नषीले पदार्थ, पर इसदे तैहत् नेहियां दुआइयां ते प्रसाधन बस्तां नेई हैन जिंदे च अल्कोहल जां इस इंदराज दे उपपैरा (ख) दा कोई पदार्थ शामिल ऐ।
- ³[***]
53. बिजली दी बरतून जां बिक्री पर टैक्स।
- ¹[54. सूची 1 दी इंदराज 92क दे प्रावधानें तैहत्, अखबारें शा बक्ख माल दी खरीद ते बिक्री उप्पर टैक्स।]
- ³[***]
56. सड़कें जां अंतर्देशी जलरस्तें राहें लेते जाने आहले माल ते मसाफरें पर टैक्स।
57. सूची 3 दी इंदराज 35 दे प्रावधानें तैहत्, सड़कें पर बरतूनजोग गड्डियें पर टैक्स, भाएं ओह मषीनकी होन जां नेई, जिंदे तैहत् ट्रामकारां न।
58. जीव-जंतुयें ते किष्टियें पर टैक्स।
59. टोल-टैक्स।
60. पेपें, बपारें, रोजी-रुट्टी दे साधनें पर ते रुजगारें पर टैक्स।
61. प्रति व्यक्ति टैक्स।
- 4[62. ऐषोअराम ते मनोरंजन दियें चीजें उप्पर टैक्स ते पंचैते, नगरपालिका जां क्षेत्री कौंसल जां जि'ला कौंसल आसेआ लाया ते ग्राहेआ जाह्ग।]
63. श्टाम फीस दी दरें दे सरबंधे च सूची 1 दे प्रावधानें च दस्से गेदे दस्तावेजे थमां बक्ख दस्तावेजे दे सरबंधे च श्टाम फीस दी दर।
64. इस सूची दे विषे चा कुसै विषे कन्नै सरबंधत कनूनें दे खलाफ अपराध।
65. सर्वोच्च अदालत शा बक्ख सारी अदालतें दी इस सूची दे विषे चा कुसै विषे दे सरबंधे च अधिकारता ते अख्खोआर।
66. इस सूची दे विषे चा कुसै विषे दे सरबंधे च फीस, पर इसदे तैहत् कुसै अदालतै च लैती जाने आहली फीस नेई ऐ।

सूची 3 – समवर्ती सूची

1. दंड सरबंधी कनून जिसदे तैहत् नेह सारे विषे न जेहड़े इस संविधान दी शुरूआत उप्पर भारती दंड संहिता दे तैहत् औंदे न, पर इसदे तैहत् सूची 1 जां सूची 2 च दस्से गेदे विषे चा कुसै विषे कन्नै सरबंधत कनूनें दे खलाफ अपराध ते सिवल शक्ति दी मदाद लेई नौ-सैना, सैना जां वायु-सैना जां संघ दे कुसै होर हथियारबंद बल दा इस्तेमाल नेई ऐ।

-
1. संविधान (छेमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 2 राहें इंदराज 54 दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।
 2. संविधान (बतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 57 राहें (3-1-1977 थमां) अंतरस्थापत।
 3. इंदराजें गी संविधान (इक सौ इक तरमीम) अधिनियम राहें लोप कीता गेआ।
 4. संविधान (इक सौ इक तरमीम) अधिनियम 2016, धारा 17ख (iv) (16-9-2016) राहें प्रतिस्थापत।

भारत दा संविधान

(सतमीं अनुसूची)

2. दंड प्रक्रिया जिसदे तैहत् नेह सारे विषे न जेहड़े इस संविधान दी शुरुआत उप्पर दंड प्रक्रिया संहिता दे तैहत् न।
 3. कुसै रियासत दी सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाई रक्खने जां समुदायें लेई जरूरी सप्लाई ते सेवाएं गी बनाई रक्खने सरबंधी कारणें करी निवारक नज़रबंदी, इस चाल्ली नज़रबंदी च रक्खे गेदे व्यक्ति।
 4. कैदियें, आरोपियें ते इस सूची दे इंदराज 3 च दस्से गेदे कारणें करी निवारक नज़रबंदी च रक्खे गेदे व्यक्तियें गी इक रियासत थमां दूई रियासत गी हटाया जाना।
 5. ब्याह ते तलाक; बच्चे ते नबालग; पालकर लैना; बसीहयत; बे-बसीहयतता ते उत्तराधिकार; सांझा परोआर ते बक्ख होना; ओह सारे विषे जिंदे सरबंधे च न्यांकारी कारवाइयें च पक्खकार इस संविधान दी शुरुआत थमां ठीक पैहलें अपने निजी कनून दे तैहत् हे।
 6. करसानी जिमीं थमां बक्ख जायदाद दी मुंतकिली; समझोता-पत्तरें ते दस्तावेजें दा पंजीकरण।
 7. ठेके जिंदे तैहत् भाईवाली, अजैसी, ढोआई दे ठेके ते खास चाल्ली दे ठेके न पर करसानी जिमीं सरबंधी ठेके नेई न।
 8. कारवाई जोग दोष।
 9. दिवाला ते दिवालियापन।
 10. ट्रस्ट ते ट्रस्टी।
 11. महाप्रशासक ते सरकारी ट्रस्टी।
- ¹[11क. न्यांस प्रशासन; सर्वोच्च ते उच्च अदालतें शा बक्ख सभनें अदालतें दा गठन ते संगठन।]
12. सबूत ते सघंद; कनूनें, लोक कम्मं ते रिकार्डें ते न्यायिक कारवाइयें गी मानता।
 13. सिवल प्रक्रिया जिसदे तैहत् नेह सारे विषे न जेहड़े इस संविधान दी शुरुआत उप्पर सिवल प्रक्रिया संहिता दे तैहत् औंदे न, हदबंदी ते मध्यस्थता।
 14. अदालत दी अवमानना, पर एहदे तैहत् सर्वोच्च अदालत दी अवमानना नेई ऐ।
 15. फरैत, खानाबदोष ते घुमंतु कबीले।
 16. पागलपन ते मंदबुद्धि, जिसदे तैहत् पागलें ते मंदबुद्धियें गी अपनाने जां उंदे लाज दे थाहर न।
 17. पषुयें प्रति क्रूरता पर रोक।
- ¹[17क. जंगल
- 17ख. जंगली जीव जंतुयें ते पक्खरुएं दी हिफाजत।]
 18. खाद्य पदार्थ ते होरनें चीजे च मिलावट।
 19. फहीम दे सरबंधे च सूची 1 दी इंदराज 59 दे प्रावधानें तैहत् नपीलियां दुआइयां ते जैहर।
 20. आर्थक ते समाजक योजना।
- ¹[20क. जनसंख्या नियंत्रण ते परोआर नियोजन।]
21. तजारती ते उद्योगी मनापलियां, गुट ते ट्रस्ट।
 22. बपार संघ; उद्योगी ते श्रम झगड़े।
 23. समाजक सुरक्षा, समाजक बीमा; रुजगार ते बेरुजगारी।

1. संविधान (बतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 57 राहें (3-1-1977 थमां) अंतरस्थापत।

24. मजूरें दी भलाई-बेह्तरी जिसदे तैह्त कम्म दियां दषां, भविक्ख निधि, कम्मै पर रक्खने आहले दी जिम्मेवारी, मजूर-मुआवजा, हांजलता, बढेपा पैषन ते प्रसूति सुवधां न।
- ¹[25. सूची 1 दे इंदराज 63, 64, 65 ते 66 दे प्रावधानें तैह्त, षिक्षा जिसदे तैह्त तकनीकी षिक्षा, मैडिकल षिक्षा ते विष्वविद्यालय न, मजूरें दी पेपेवाराना ते तकनीकी सखलाई।
26. कनूनी, मैडिकल ते होर पेपे।
27. भारत ते पाकिस्तान डोमिनियन दे स्थापत होने करी अपने मूल-निवास थमां बे-बसनीक लोकें दी मदाद ते मुढ़-बहली।
28. दान ते दान उप्पर चलने आहलियां संस्थां, दान उप्पर चलने आहले ते धार्मक विन्यास ते धार्मक संस्थां।
29. मनुक्खें, जीव-जंतुयें जां बूहटें पर असर पाने आहले, बवाई ते छूह्त रोगें ते नासकारी जीवें दे इक रियासत थमां दूई रियासत च फैलने दा निवारन।
31. संसद आसेआ बनाए गेदे कनून जां मजूदा कनूनै राहें जां उसदे तैह्त महापत्तन घोषत बंदरगाहें थमां बक्ख बंदरगाह।
32. राष्ट्री जल रस्तें दे सरबंधे च सूची 1 दे प्रावधानें तैह्त अंतर्देषी जल रस्तें पर मषीनी जहाजें दे सरबंधे च पोतपरिवहन ते नौपरिवहन ते नेह जल रस्तें पर राह नियम ते अंतर्देषी जल रस्तें राहें माल ते मसाफरें दी ढोआई।
- ²[33.क) जिथै संसद आसेआ कनूनै राहें कुसै उद्योग दा संघ आसेआ नियंत्रण लोकहित च स्हेई घोषत कीता जंदा ऐ उथै उस उद्योग दे उत्पादें दा ते उससै चाल्ली बाहरै थमां औने आहले माल दा नेह उत्पादें दे रूपै च,
- (ख) खाद्य पदार्थ जिं दे तैह्त खाने आहले तेलके बीऽ ते तेल न,
- (ग) पषुयें दे चारे दा जिसदे तैह्त खल ते होर ठोस चारे न,
- (घ) कच्ची कपाऊ दा, भाएं ओह लोढी दी होऐ जां नेई ते बाडुएं दा, ते
- (ङ) कच्ची सनू दा,
- बपार ते तजारत ते उं दे उत्पाद, सप्लाई ते बंड।
- ³[33.क तोल ते नाप जेहदे तैह्त मानकें दा तैऽ कीता जाना नेई ऐ।]
34. मुल्ल नियंत्रण।
35. मकैनकी जहाज जेहदे तैह्त ओह नियम न जिं दे मताबक नेह जहाजें पर टैक्स ग्राहेआ जाना ऐ।
36. कारखाने।
37. बुआलर।
38. बिजली।
39. अखबारां, कताबां ते छापे-खाने।

1. संविधान (बतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 57 राहें (3-1-1977 थमां) इंदराज 25 दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।

2. संविधान (त्री तरमीम) अधिनियम, 1954 दी धारा 2 राहें इंदराज 33 दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।

3. संविधान (बतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 57 राहें (3-1-1977 थमां) अंतरस्थापत।

40. ¹[संसद आसेआ बनाए गेदे कनूनै राहें जां ओहदे तैहत्] राष्ट्री म्हत्तव दे ¹[घोषत] पुरातत्वी थाहरें ते अवषेणें शा बक्खरे पुरातत्वी थाहर ते अवषेण।
41. नेही जायदाद दी (जेहदे तैहत् करसानी जिमीं ऐ) हिफाजत, बंदोबस्त ते खर्च जेहड़ा कनूनै राहें बेदखल जायदाद घोषत कीती जा।
- ²[42. जायदाद दा अर्जन ते कब्जा।
43. कुसै रियासत च, उस रियासत शा बाहर ग्राहे गेदे टैक्स सरबंधी दावें ते लोक मंगें दी बसूली जिंदे तैहत् जमीनी लगान दा बकाया ते नेह् बकाए दे रूपै च बसूल कीतियां जाने आहलियां रकमां न।
44. अदालती श्टामें राहें ग्राहे गेदे शुल्कें जां फीसें जां फीसें शा बक्ख श्टाम-पुल्क पर एहदे तैहत् श्टाम शुल्क दियां दरां नेई हैन।
45. सूची 2 जां सूची 3 च दस्से गेदे विषे चा कुसै विषे दे मकसदें लेई पड़ताल ते आंकड़े।
46. सर्वोच्च अदालत शा बक्ख सभनें अदालतें दी इस सूची दे विषे चा कुसै विषे दे सरबंधे च अधिकारता ते अख्तेआर।
47. इस सूची दे विषे चा कुसै विषे दे सरबंधे च फीस, पर इसदे तैहत् कुसै अदालत च लैती जाने आहली फीस नेई ऐ।

1. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 27 राहें "संसद आसेआ कनूनै राहें घोषत" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।

2. संविधान (सतमीं तरमीम) अधिनियम, 1956 दी धारा 26 राहें इंदराज 42 दी थाहरै पर प्रतिस्थापत।

अठमीं अनुसूची

[अनुच्छेद 344 (1) ते अनुच्छेद 351]

भाशां

1. असमिया ।
2. बंगला ।
- ¹[बोडो ।
- ¹[डोगरी ।]
- ²[5.]गुजराती ।
- ³[6.]हिंदी ।
- ³[7.]कन्नड़ ।
- ³[8.]कश्मीरी ।
- ⁴[³9.] कोंकणी ।]
- ¹[10. मैथिली ।]
- ⁵[11] मलयालम ।
- ⁴[⁶12] मणिपुरी ।]
- ⁶[13.] मराठी ।
- ⁴[⁶14] नेपाली ।
- ⁶[15.] उड़िया ।
- ⁶[16.] पंजाबी ।
- ⁶[17.] संस्कृत ।
- ¹[18. संथाली ।]
- ⁷[⁸19] सिंधी ।]
- ⁹[20.] तमिल ।
- ⁹[21.] तेलुगु ।
- ⁹[22.] उर्दू ।

-
1. संविधान (बाह्नमीं तरमीम) अधिनियम, 2003 दी धारा 2 राहें अंतरस्थापत ।
 2. संविधान (बाह्नमीं तरमीम) अधिनियम, 2003 दी धारा 2 राहें इंदराज 3 गी 5 दे रूपै च मुढी गिनेआ गोआ ।
 3. संविधान (बाह्नमीं तरमीम) अधिनियम, 2003 दी धारा 2 राहें इंदराज 4 थमां 7 गी इंदराज 6 थमां 9 दे रूपै च मुढी गिनेआ गोआ ।
 4. संविधान (क्वत्तरमीं तरमीम) अधिनियम, 1992 दी धारा 2 राहें अंतरस्थापत ।
 5. संविधान (बाह्नमीं तरमीम) अधिनियम, 2003 दी धारा 2 राहें इंदराज 8 गी इंदराज 11 दे रूपै च मुढी गिनेआ गोआ ।
 6. संविधान (बाह्नमीं तरमीम) अधिनियम, 2003 दी धारा 2 राहें इंदराज 9 थमां इंदराज 14 गी इंदराज 12 थमां इंदराज 17 दे रूपै च मुढी गिनेआ गोआ ।
 7. संविधान (इक्किमीं तरमीम) अधिनियम, 1967 दी धारा 2 राहें जोड़ेआ गोआ ।
 8. संविधान (बाह्नमीं तरमीम) अधिनियम, 2003 दी धारा 2 राहें इंदराज 15 गी इंदराज 19 दे रूपै च मुढी गिनेआ गोआ ।
 9. संविधान (बाह्नमीं तरमीम) अधिनियम, 2003 दी धारा 2 राहें इंदराज 16 थमां इंदराज 18 गी इंदराज 20 थमां इंदराज 22 दे रूपै च मुढी गिनेआ गोआ ।

¹[नौमीं अनुसूची

[अनुच्छेद 31ख]

- 1 बिहार जिमी सुधार अधिनियम, 1950 (1950 दा बिहार अधिनियम 30)।
- 2 मुंबई बुसालगिरी ते करसानी जिमी अधिनियम, 1948 (1948 दा मुंबई अधिनियम 67)।
- 3 मुंबई मालकी बुसालगिरी खातमा अधिनियम 1949, (1949 दा मुंबई अधिनियम 61)।
- 4 मुंबई ताल्लुकदारी बुसालगिरी खातमा अधिनियम, 1949 (1949 दा अधिनियम 62)।
- 5 पंच मैहल मेहबासी बुसालगिरी खातमा अधिनियम, 1949 (1949 दा मुंबई अधिनियम 63)।
- 6 मुंबई खोती खातमा अधिनियम, 1950 (1950 दा मुंबई अधिनियम 60)।
- 7 मुंबई परगना ते कुलकर्णी वतन खातमा अधिनियम, 1950 (1950 दा मुंबई अधिनियम 60)।
- 8 मध्य प्रदेश जायदादी अधिकार (संपदा, मैहल, होर जोड़मी जिमी) खातमा अधिनियम, 1950 (मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 1 सन् 1951)।
- 9 मद्रास जायदाद (खातमा ते रैय्यतबाड़ी च तब्दीली) अधिनियम 1948 (1948 दा मद्रास अधिनियम 26)।
- 10 मद्रास संपदा (खातमा ते रैय्यतबाड़ी च तब्दीली सनें तरमीम) अधिनियम, 1950 (1950 दा मद्रास अधिनियम 1)।
- 11 1950 ई. दा उत्तर प्रदेश जिमीदारी खातमा ते जिमी व्यवस्था अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1951)
- 12 हैदराबाद (जगीर खातमा) विनियम, 1358फ (1358 फसली दी सं0 69)।
- 13 हैदराबाद जगीर (तब्दीली) विनियम 1359फ (1359 फसली दी सं0 25)।
- ²[14.बिहार विस्थापत लोकें दा मुढ-बासा (जिमी अर्जन) अधिनियम, 1950 (1950 दा बिहार अधिनियम 38)।
15. संयुक्त प्रांत दे शरणार्थियें गी बसाने लेई जिमी अर्जन अधिनियम 1948 इ. (संयुक्त प्रांती अधिनियम संख्या 26, 1948)।
16. विस्थापित लोकें दा मुढ-बासा (जिमी अर्जन) अधिनियम, 1948 (1948 दा अधिनियम, 60)।
17. बीमा (तरमीम) अधिनियम 1950 (1950 दा अधिनियम 47) दी धारा 42 राहें जि'यां अंतरस्थापत बीमा अधिनियम, 1938 (1938 दा अधिनियम 4) दी धारा 52क थमां धारा 52छ।
18. रेल कंपनी (अमरजैसी प्रावधान) अधिनियम, 1951 (1951 दा अधिनियम 51)।
19. उद्योग (विकास ते विनियमन) तरमीम अधिनियम, 1953 (1953 दा अधिनियम 26) दी धारा 13 राहें जि'यां अंतर-स्थापत उद्योग (विकास ते विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 दा अधिनियम 63) दा ध्याऽ 3क।
20. 1951 दे पच्चिमी बंगाल अधिनियम 29 राहें जि'यां संपोधित पच्चिमी बंगाल जिमी बकास ते योजना अधिनियम, 1948 (1948 दा पच्चिमी बंगाल अधिनियम, 21)।

1. संविधान (पैहली तरमीम) अधिनियम, 1951 दी धारा 14 राहें जोड़ेआ गेआ।
2. संविधान (चौथी तरमीम) अधिनियम, 1955 दी धारा 5 राहें जोड़ेआ गेआ।

- ¹[21. आंध्र प्रदेश बद्धो-बद्ध करसानी जायदाद सरबन्धी हदबन्दी अधिनियम, 1961 (1961 दा आंध्र प्रदेश अधिनियम 10)।
22. आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) बुसालगिरि ते करसानी जिमीं (कनूनी मानताकरण) अधिनियम 1961 (1961 दा आंध्र प्रदेश अधिनियम, 21)।
23. आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) इजारा ते कौली जिमीं अनियमित पट्टा रद्दकरण ते रियायती नर्धारण खातमा अधिनियम, 1961 (1961 दा आंध्र प्रदेश अधिनियम, 36)।
24. असम रियासत लोक प्रकृति दी धार्मिक जां दानषील संस्था जिमीं अर्जन अधिनियम, 1959 (1961 दा असम अधिनियम 9)।
25. बिहार जिमीं सुधार (तरमीम) अधिनियम, 1953 (1954 दा बिहार अधिनियम 20)।
26. बिहार जिमीं सुधार (हदबन्दी नर्धारण ते बाद्धू जिमीं अर्जन) अधिनियम, 1961 (1962 दा बिहार अधिनियम, सं० 12) जिसदे तैहत् इस अधिनियम दी धारा 28 नेई ऐ।
27. मुंबई ताल्लुकदारी बुसालगिरि खातमा (तरमीम) 1954 (1955 दा मुंबई अधिनियम, 1)।
28. मुंबई ताल्लुकादारी बुसालगिरि खातमा (तरमीम) 1957 (1958 दा मुंबई अधिनियम, 18)।
29. मुंबई इनाम (कच्छ क्षेत्र) खातमा अधिनियम, 1958 (1958 दा मुंबई अधिनियम, 98)।
30. मुंबई बुसालगिरी ते करसानी जिमीं (गुजरात तरमीम) अधिनियम, 1960 (1960 दा गुजरात अधिनियम, 16)।
31. गुजरात करसानी जिमीं बद्धो-बद्ध हदबन्दी अधिनियम 1960 (1961 दा गुजरात अधिनियम, 6)।
32. सगबारा ते मेहवासी संपदा (जायदादी अधिकार खातमा वगैरा) विनियम, 1962 (1962 दा गुजरात विनियम 1)।
33. गुजरात होर जीवित संक्रामन खातमा अधिनियम, 1963 (1963 दा गुजरात अधिनियम, 33) उत्थूं तगर छोड़ियै जित्थूं तगर एह अधिनियम एहदी धारा 2 दे खंड (3) दे उपखंड (घ) च दस्से गेदे होर संक्रामण दे सरबन्धे च ऐ।
34. महाराष्ट्र करसानी जिमीं (जायदाद सरबन्धी हदबन्दी) अधिनियम, 1961 (1961 दा महाराष्ट्र अधिनियम, 27)।
35. हैदराबाद बुसालगिरी ते करसानी जिमीं (मुद्द-बाकायदगी, कनूनी मानताकरण ते बाद्धू तरमीम अधिनियम, 1961 (1961 दा महाराष्ट्र अधिनियम, 45)।
36. हैदराबाद बुसालगिरी ते करसानी जिमीं अधिनियम, 1950 (1950 दा हैदराबाद अधिनियम 21)।
37. जन्मीकरम देनदारी (खातमा) अधिनियम, 1960 (1961 दा केरल अधिनियम, 3)।
38. केरल जिमीं टैक्स अधिनियम, 1961 (1961 दा केरल अधिनियम, 13)।
39. केरल जिमीं सुधार अधिनियम, 1963 (1964 दा केरल अधिनियम, 1)।
40. मध्य प्रदेश जिमीं लगान संहिता, 1959 (मध्य प्रदेश अधिनियम 20 सन् 1959)।
41. मध्य प्रदेश करसानी जायदाद सरबन्धी हदबन्दी अधिनियम 1960 (मध्य प्रदेश अधिनियम, क्रमांक 20 सन् 1960)।

1. संविधान (सत्ताहरमीं तरमीम) अधिनियम, 1964 दी धारा 3 राहें (20-6-1964 थमां) जोड़ेआ गेआ।

भारत दा संविधान

(नौमीं अनुसूची)

42. मद्रास काफ्तकारी बुसाला संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 दा मद्रास अधिनियम 25)।

43. मद्रास काष्ठाकारी बुसाला (मनासब लगान देनदारी) अधिनियम, 1956 (1956 दा मद्रास अधिनियम 24)।
44. मद्रास कुडीइरुपु काब्ज (बेदखली शा संरक्षण) अधिनियम 1961 (1961 दा मद्रास अधिनियम 38)।
45. मद्रास लोक ट्रस्ट (करसानी जिमीं प्रषासन, विनियमन) अधिनियम, 1961 (1961 दा मद्रास अधिनियम 57)।
46. मद्रास जिमीं सुधार (बद्धो-बद्ध जिमीं हद्द मुकरली) अधिनियम, 1961 (1961 दा मद्रास अधिनियम 58)।
47. मैसूर बुसालगिरि अधिनियम, 1952 (1952 दा मैसूर अधिनियम 13)।
48. कोडगू बुसाला अधिनियम 1957 (1957 दा मैसूर अधिनियम, 14)।
49. मैसूर ग्रांड-कार्यालय खातमा अधिनियम, 1961 (1961 दा मैसूर अधिनियम, 14)।
50. हैदराबाद बुसालगिरी ते करसानी जिमीं (कनूनीकरण) अधिनियम 1961 (1961 दा मैसूर अधिनियम 36)।
51. मैसूर जिमीं सुधार अधिनियम, 1961 (1962 दा मैसूर अधिनियम 10)।
52. उडीसा जिमीं सुधार अधिनियम, 1960 (1960 दा उडीसा अधिनियम, 16)।
53. उडीसा विलीन राज्यक्षेत्र (ग्रांड कार्यालय खातमा) अधिनियम, 1963 (1963 दा उडीसा अधिनियम, 10)।
54. पंजाब बुसाला सुरक्षा अधिनियम, 1953 (1953 दा पंजाब अधिनियम, 10)।
55. राजस्थान बुसालगिरी अधिनियम, 1955 (1955 दा राजस्थान अधिनियम, 3)।
56. राजस्थान जिमींदारी ते बिस्वेदारी खातमा अधिनियम, 1959 (1959 दा राजस्थान अधिनियम 8)।
57. कुमायूं ते उत्तराखंड जिमींदारी खातमा ते जमीनी बंदोबस्त अधिनियम, 1960 (उत्तर प्रदेश अधिनियम, 17, 1960)।
58. उत्तर प्रदेश बद्धो-बद्ध जिमीं मालकी आरोपन अधिनियम, 1960 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 1, 1961)।
59. पच्छिमी बंगाल संपदा अर्जन अधिनियम, 1953 (1954 दा पच्छिमी बंगाल अधिनियम 1)।
60. पच्छिमी बंगाल जिमीं सुधार अधिनियम, 1955 (1956 दा पच्छिमी बंगाल अधिनियम, 10)।
61. दिल्ली जिमीं सुधार अधिनियम, 1954 (1954 दा दिल्ली अधिनियम 8)।
62. दिल्ली जिमीं मालकी (बद्धो-बद्ध हद्द) अधिनियम, 1960 (1960 दा केंदरी अधिनियम, 24)।
63. मणिपुर जिमीं लगान ते जिमीं सुधार अधिनियम, 1960 (1960 दा केंदरी अधिनियम, 33)।
64. त्रिपुरा जिमीं लगान ते जिमीं सुधार अधिनियम, 1960 (1960 दा केंदरी अधिनियम, 43)।
- ¹[65. केरल जिमीं सुधार (तरमीम) अधिनियम, 1969 (1969 दा केरल अधिनियम, 35)।
66. केरल जिमीं सुधार (तरमीम) अधिनियम, 1971 (1971 दा केरल अधिनियम, 25)।
- ²[67. आंध्र प्रदेश जिमीं सुधार (बद्धो-बद्ध करसानी मालकी हद्द) अधिनियम, 1973 (1993 दा आंध्र प्रदेश अधिनियम, 1)।

1. संविधान (नत्तिमीं तरमीम) अधिनियम, 1972 दी धारा 2 राहें (9-6-1972 थमां) अंतरस्थापत।
 2. संविधान (चौत्तिमीं तरमीम) अधिनियम, 1974 दी धारा 2 राहें (7-9-1974 थमां) अंतरस्थापत।

68. बिहार जिमीं सुधार (बद्धो-बद्ध हद्द नर्धारण ते बाद्धू जिमीं अर्जन) (तरमीम) अधिनियम, 1972 (1972 दा बिहार अधिनियम, 1)।
69. बिहार जिमीं सुधार (बद्धो-बद्ध हद्द नर्धारण ते बाद्धू जिमीं अर्जन) (तरमीम) अधिनियम, 1973 (1973 दा बिहार अधिनियम, 9)।
70. बिहार जिमीं सुधार (तरमीम) अधिनियम, 1972 (1972 दा बिहार अधिनियम, सं. 5)।
71. गुजरात बद्धो-बद्ध करसानी जिमीं हद्द (तरमीम) अधिनियम, 1972 (1974 दा गुजरात अधिनियम, 2)।
72. हरियाणा बुद्धदी जिमीं हद्द अधिनियम, 1972 (1972 दा हरियाणा अधिनियम, 26)।
73. हिमाचल प्रदेश मालकी जिमीं हद्दबंदी अधिनियम, 1972 (1973 दा हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 19)।
74. केरल जिमीं सुधार (तरमीम) अधिनियम, 1972 (1972 दा केरल अधिनियम, 17)।
75. मध्य प्रदेश करसानी मालकी जिमीं हद्दबंदी (तरमीम) अधिनियम, 1972 (मध्य प्रदेश अधिनियम, क्रमांक 12, सन् 1974)।
76. मध्य प्रदेश करसानी मालकी जिमीं हद्दबंदी (तरमीम) अधिनियम, 1972 (मध्य प्रदेश अधिनियम, क्रमांक 13, सन् 1974)।
77. मैसूर जिमीं सुधार (तरमीम) अधिनियम, 1973 (1974 दा कर्नाटक अधिनियम 1)।
78. पंजाब जिमीं सुधार अधिनियम, 1972 (1973 दा पंजाब अधिनियम 10)।
79. राजस्थान मालकी जिमीं हद्दबंदी अधिनियम, 1973 (1973 दा राजस्थान अधिनियम 11)।
80. गुडलूर जन्म जायदाद (खातमा ते रैय्यतबाड़ी च बदली) अधिनियम 1969 (1969 दा तमिलनाडु अधिनियम 24)।
81. पश्चिमी बंगाल जिमीं सुधार (तरमीम) अधिनियम, 1972 (1972 दा पश्चिमी बंगाल अधिनियम, 12)।
82. पश्चिमी बंगाल जायदाद अर्जन (तरमीम) अधिनियम, 1964 (1964 दा पश्चिमी बंगाल अधिनियम 22)।
83. पश्चिमी बंगाल जायदाद अर्जन (दूई तरमीम) अधिनियम, 1973 (1973 दा पश्चिमी बंगाल अधिनियम 33)।
84. मुंबई बुसालगिरी ते करसानी जिमीं (गुजरात तरमीम) अधिनियम, 1972 (1973 दा गुजरात अधिनियम 5)।
85. उड़ीसा जिमीं सुधार (तरमीम) अधिनियम 1974 (1974 दा उड़ीसा अधिनियम 9)।
86. त्रिपुरा जिमीं मालिया ते जिमीं सुधार (दूई तरमीम) अधिनियम, 1974 (1974 दा त्रिपुरा अधिनियम 7)।]
- 1²[* * * * *]
88. उद्योग (विकास ते विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 दा केंदरी अधिनियम, 65)।
89. अचल जायदाद, अधिग्रहण ते अर्जन अधिनियम, 1952 (1952 दा केंदरी अधिनियम 30)।

1. संविधान (उंतालिमी तरमीम) अधिनियम, 1975 दी धारा 5 राहें (10-8-1975 थमां) अंतरस्थापत।

2. संविधान (चरतालिमी तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 44 राहें (20-6-1979 थमां) इंदराज 87 दा लोप कीता गेआ।

(नौमीं अनुसूची)

90. खान्नां ते खनज (विनियमन ते विकास) अधिनियम, 1957 (1957 दा केंदरी अधिनियम 67)।
91. मनापली ते रकौटी बपारक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 दा केंदरी अधिनियम, 54)।
- 1 * * * * *
93. कोककारी कोला खान (अमरजैसी प्रावधान) अधिनियम, 1971 (1971 दा केंदरी अधिनियम, 64)।
94. कोककारी कोला खान (राष्ट्रीकरण) अधिनियम, 1972 (1972 दा केंदरी अधिनियम, 36)।
95. सधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीकरण) अधिनियम, 1972 (1972 दा केंदरी अधिनियम, 57)।
96. इंडियन कापर कार्पोरेशन (उपक्रम दा अर्जन) अधिनियम 1972 (1972 दा केंदरी अधिनियम, 58)।
97. मांदा कप्पड़ा उपक्रम (प्रबंध सम्हालना) अधिनियम, 1972 (1972 दा केंदरी अधिनियम, 72)।
98. कोला खान्नां (प्रबंध सम्हालना) अधिनियम 1973 (1973 दी केंदरी अधिनियम 15)।
99. कोला खान्नां (राष्ट्रीकरण) अधिनियम, 1973 (1973 दा केंदरी अधिनियम, 26)।
100. बदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 दा केंदरी अधिनियम, 46)।
101. एलकाक एषडाऊन कंपनी लिमिटेड (उपक्रमें दा अर्जन) अधिनियम, 1973 (1973 दा केंदरी अधिनियम, 56)।
102. कोला खान्नां (संरक्षण ते विकास) अधिनियम 1974 (1974 दा केंदरी अधिनियम, 28)।
103. बाद्ध उपलब्धियां (जरूरी ज'मा पूंजी) अधिनियम, 1974 (1974 दा केंदरी अधिनियम, 37)।
104. बदेशी मुद्रा संरक्षण ते तस्करी रोक अधिनियम, 1974 (1974 दा केंदरी अधिनियम, 52)।
105. मांदा कप्पड़ा उपक्रम (राष्ट्रीकरण) अधिनियम, 1974 (1974 दा केंदरी अधिनियम, 57)।
106. महाराष्ट्र करसानी जिमीं (मालकी जिमीं हदबंदी) (तरमीम) अधिनियम, 1964 (1965 दा महाराष्ट्र अधिनियम, 16)।
107. महाराष्ट्र करसानी जिमीं (मालकी जिमीं हदबंदी) (तरमीम) अधिनियम, 1965 (1965 दा महाराष्ट्र अधिनियम, 32)।
108. महाराष्ट्र करसानी जिमीं (मालकी जिमीं हदबंदी) (तरमीम) अधिनियम, 1968 (1965 दा महाराष्ट्र अधिनियम, 33)।
109. महाराष्ट्र करसानी जिमीं (मालकी जिमीं हदबंदी) (दूई तरमीम) अधिनियम, 1968 (1965 दा महाराष्ट्र अधिनियम, 33)।
110. महाराष्ट्र करसानी जिमीं (मालकी जिमीं हदबंदी) (तरमीम) अधिनियम, 1969 (1969 दा महाराष्ट्र अधिनियम, 37)।

1. संविधान (चरतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 44 राहें (20-6-1979 थमां) इंदराज 92 दा लोप कीता गेआ।

भारत दा संविधान

(नौमीं अनुसूची)

111. महाराष्ट्र करसानी जिमीं (मालकी जिमीं हदबंदी) (दूई तरमीम) अधिनियम, 1969 (1969 दा महाराष्ट्र अधिनियम, 38)।
112. महाराष्ट्र करसानी जिमीं (मालकी जिमीं हदबंदी) (तरमीम) अधिनियम, 1970 (1970 दा महाराष्ट्र अधिनियम, 27)।

113. महाराष्ट्र करसानी जिमीं (मालकी जिमीं हदबंदी) (तरमीम) अधिनियम, 1972 (1972 दा महाराष्ट्र अधिनियम, 13)।
114. महाराष्ट्र करसानी जिमीं (मालकी जिमीं हदबंदी) (तरमीम) अधिनियम, 1973 (1973 दा महाराष्ट्र अधिनियम, 50)।
115. उड़ीसा जिमीं सुधार (तरमीम) अधिनियम, 1965 (1965 दा उड़ीसा अधिनियम, 13)।
116. उड़ीसा जिमीं सुधार (तरमीम) अधिनियम, 1966 (1967 दा उड़ीसा अधिनियम, 8)।
117. उड़ीसा जिमीं सुधार (तरमीम) अधिनियम, 1967 (1967 दा उड़ीसा अधिनियम, 13)।
118. उड़ीसा जिमीं सुधार (तरमीम) अधिनियम, 1969 (1969 दा उड़ीसा अधिनियम, 13)।
119. उड़ीसा जिमीं सुधार (तरमीम) अधिनियम, 1970 (1970 दा उड़ीसा अधिनियम, 18)।
120. उत्तर प्रदेश मालकी जिमीं हदबंदी आरोपन (तरमीम) अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम, 18, 1973)।
121. उत्तर प्रदेश मालकी जिमीं हदबंदी आरोपन (तरमीम) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2, 1975)।
122. त्रिपुरा जिमीं मालिया ते जिमीं सुधार (त्री तरमीम) अधिनियम, 1975 (1975 दा त्रिपुरा अधिनियम, 3)।
123. दादरा ते नागर हवेली जिमीं सुधार विनियमन, 1971 (1971 दा 3)।
124. दादरा ते नागर हवेली जिमीं सुधार (तरमीम) विनियम 1973 (1973 दा 5)।]
- ¹[125. मोटर गड्डी अधिनियम, 1939 (1939 दा केंदरी अधिनियम 4) दी धारा 66क ते ध्याऽ 4क²।
126. जरूरी चीजां-बस्तां अधिनियम, 1955 (1955 दा केंदरी अधिनियम 10)।
127. तस्कर ते बदेषी मुद्रा छलसाधक (जायदाद जब्ती) अधिनियम, 1976 (1976 दा केंदरी अधिनियम 13)
128. बंधुआ मजूर प्रणाली (खातमा) अधिनियम, 1976 (1976 दा केंदरी अधिनियम 19)
129. बदेषी मुद्रा संरक्षण ते तस्करी रोक (तरमीम) अधिनियम, 1976 (1976 दा केंदरी अधिनियम 20)
- ³ * * * * *
131. लेवी चीनी समान मुल्ल निधि अधिनियम, 1976 (1976 दा केंदरी अधिनियम, 31)।
132. नगर जिमीं (मालकी जिमीं हदबंदी ते विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 दा केंदरी अधिनियम, 33)।
133. संघ लेखा मैहकमीकरण (कर्मचारी बदलाऽ) अधिनियम, 1976 (1976 दा केंदरी अधिनियम, 59)।
134. असम मालकी जिमीं हदबंदी ते नर्धारण अधिनियम, 1956 (1957 दा असम अधिनियम, 59)।

-
1. संविधान (चाहलिमीं तरमीम) अधिनियम, 1976 दी धारा 3 राहें (27-5-1976 थमां) इंदराज 125 थमां 188 तगर अंतरस्थापत।
2. इसलै मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 दा 59) ते सुसंगत प्रावधान दिक्खो।
3. संविधान (चरतालिमीं तरमीम) अधिनियम, 1978 दी धारा 44 राहें (20-6-1979 थमां) इंदराज 130 दा लोप कीता गेआ।

भारत दा संविधान

(नौमीं अनुसूची)

135. मुंबई बुसालगिरी ते करसानी जिमीं (विदर्भ क्षेत्र) अधिनियम, 1958 (1958 दा मुंबई अधिनियम, 99)।
136. गुजरात प्राइवेट वन (अर्जन) अधिनियम, 1972 (1973 दा गुजरात अधिनियम, 14)।
137. हरियाणा मालकी जिमीं हदबंदी (तरमीम) अधिनियम, 1976 (1976 दा हरियाणा अधिनियम 17)।
138. हिमाचल प्रदेश बुसालगिरी ते जिमीं सुधार अधिनियम, 1972 (1974 दा हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 8)।

139. हिमाचल प्रदेश ग्राई शामलाट जिमीं शामिल ते बरतून अधिनियम, 1974 (1974 दा हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 18)।
140. कर्नाटक जिमीं सुधार (दूई तरमीम ते प्रकीर्ण प्रावधान) अधिनियम, 1974 (1974 दा कर्नाटक अधिनियम, 31)।
141. कर्नाटक जिमीं सुधार (दूई तरमीम) अधिनियम, 1976 (1976 दा कर्नाटक अधिनियम, 27)।
142. केरल बेदखली रोक अधिनियम, 1966 (1966 दा केरल अधिनियम, 12)।
143. तिरुप्पुवारम देनदारी (खातमा) अधिनियम 1969 (1969 दा केरल अधिनियम, 19)।
144. श्री पादम् जिमीं विमुक्ति अधिनियम, 1969 (1969 दा केरल अधिनियम, 20)।
145. श्रीपण्डारवका जिमीं (निधान ते विमुक्ति) अधिनियम, 1971 (1971 दा केरल अधिनियम, 20)।
146. केरल प्राईवेट वन (निधान ते सौपना) अधिनियम, 1971 (1971 दा केरल अधिनियम, 26)।
147. केरल करसानी काम्मा अधिनियम, 1974 (1974 दा केरल अधिनियम, 18)।
148. केरल काजू कारखानां (अर्जन) अधिनियम, 1974 (1974 दा केरल अधिनियम, 29)।
149. केरल चिट्टी अधिनियम, 1975 (1975 दा केरल अधिनियम, 23)।
150. केरल अनुसूचित जनजाति (जिमीं बटाई पर पाबंदी ते होर बक्ख जिमियें दी मुढ-बहाली) अधिनियम, 1975 (1975 दा केरल अधिनियम, 31)।
151. केरल जिमीं सुधार (तरमीम) अधिनियम, 1976 (1976 दा केरल अधिनियम, 15)।
152. काणम् बुसालगिरी खातमा अधिनियम, 1976 (1976 दा केरल अधिनियम, 16)।
153. मध्य प्रदेश करसानी मालकी जिमीं हदबंदी (तरमीम) अधिनियम, 1974 (मध्य प्रदेश अधिनियम, क्रमांक 20, सन् 1974)।
154. मध्य प्रदेश करसानी मालकी जिमीं हदबंदी (तरमीम) अधिनियम, 1975 (मध्य प्रदेश अधिनियम, क्रमांक 2, सन् 1976)।
155. पश्चिमी खानदेश मेहवासी जायदाद (बरास्ती अधिकार खातमा बगैरा) विनियम, 1961 (1962 दी महाराष्ट्र विनियम 1)।
156. महाराष्ट्र अनुसूचित जनजातियें गी जिमीं मुढ-बहाली अधिनियम, 1974 (1975 दा महाराष्ट्र अधिनियम, 14)।
157. महाराष्ट्र करसानी जिमीं (मालकी जिमीं हदबंदी घटाना) ते (तरमीम) अधिनियम, 1972 (1975 दा महाराष्ट्र अधिनियम, 21)।
158. महाराष्ट्र प्राईवेट वन (अर्जन) अधिनियम, 1975 (1975 दा महाराष्ट्र अधिनियम, 29)।
159. महाराष्ट्र करसानी जिमीं (मालकी जिमीं हदबंदी घटाना) ते (तरमीम) तरमीम अधिनियम, 1975 (1975 दा महाराष्ट्र अधिनियम, 47)।
160. महाराष्ट्र करसानी जिमीं (मालकी जिमीं हदबंदी) (तरमीम) अधिनियम, 1975 (1976 दा महाराष्ट्र अधिनियम, 2)।

भारत दा संविधान

(नौमीं अनुसूची)

161. उड़ीसा जायदाद खातमा अधिनियम, 1951 (1952 दा उड़ीसा अधिनियम, 1)।
162. राजस्थान उपनिवेश अधिनियम, 1954 (1954 दा राजस्थान अधिनियम, 27)।
163. राजस्थान जिमीं सुधार ते बड़ी जायदाद दा अर्जन अधिनियम 1963 (1964 दा राजस्थान अधिनियम, सं० 11)।

164. राजस्थान करसानी मालकी जिमीं हदबंदी आरोपन (तरमीम) अधिनियम 1976 (1976 दा राजस्थान अधिनियम, सं० 8)।
165. राजस्थान बुसालगिरी (तरमीम) अधिनियम, 1976 (1976 दा राजस्थान अधिनियम, सं. 12)।
166. तमिलनाडु जिमीं सुधार (बद्धो-बद्ध जिमीं दी हद्द घटाना) अधिनियम, 1970 (1970 दा तमिलनाडु अधिनियम, 17)।
167. तमिलनाडु जिमीं सुधार (बद्धो-बद्ध जिमीं दी हद्द नर्धारण) तरमीम अधिनियम, 1971 (1971 दा तमिलनाडु अधिनियम, 41)।
168. तमिलनाडु जिमीं सुधार (बद्धो-बद्ध जिमीं दी हद्द नर्धारण) तरमीम अधिनियम, 1972 (1972 दा तमिलनाडु अधिनियम, 10)।
169. तमिलनाडु जिमीं सुधार (बद्धो-बद्ध जिमीं दी हद्द नर्धारण) दूर्ई तरमीम अधिनियम, 1972 (1972 दा तमिलनाडु अधिनियम, 20)।
170. तमिलनाडु जिमीं सुधार (बद्धो-बद्ध जिमीं दी हद्द नर्धारण) त्री तरमीम अधिनियम, 1972 (1972 दा तमिलनाडु अधिनियम, 37)।
171. तमिलनाडु जिमीं सुधार (बद्धो-बद्ध जिमीं दी हद्द नर्धारण) चौथी तरमीम अधिनियम, 1972 (1972 दा तमिलनाडु अधिनियम, 39)।
172. तमिलनाडु जिमीं सुधार (बद्धो-बद्ध जिमीं दी हद्द नर्धारण) छेमीं तरमीम अधिनियम, 1972 (1974 दा तमिलनाडु अधिनियम, 7)।
173. तमिलनाडु जिमीं सुधार (बद्धो-बद्ध जिमीं दी हद्द नर्धारण) पजमीं तरमीम अधिनियम, 1972 (1974 दा तमिलनाडु अधिनियम, 10)।
174. तमिलनाडु जिमीं सुधार (बद्धो-बद्ध जिमीं दी हद्द नर्धारण) तरमीम अधिनियम, 1974 (1974 दा तमिलनाडु अधिनियम, 15)।
175. तमिलनाडु जिमीं सुधार (बद्धो-बद्ध जिमीं दी हद्द नर्धारण) त्री तरमीम अधिनियम, 1974 (1974 दा तमिलनाडु अधिनियम, 30)।
176. तमिलनाडु जिमीं सुधार (बद्धो-बद्ध जिमीं दी हद्द नर्धारण) दूर्ई तरमीम अधिनियम, 1974 (1974 दा तमिलनाडु अधिनियम, 32)।
177. तमिलनाडु जिमीं सुधार (बद्धो-बद्ध जिमीं दी हद्द नर्धारण) तरमीम अधिनियम, 1975 (1975 दा तमिलनाडु अधिनियम, 11)।
178. तमिलनाडु जिमीं सुधार (बद्धो-बद्ध जिमीं दी हद्द नर्धारण) दूर्ई तरमीम अधिनियम, 1975 (1975 दा तमिलनाडु अधिनियम, 21)।
179. उत्तर प्रदेश जिमीं-कनून (तरमीम) अधिनियम 1971 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1971) ते उत्तर प्रदेश जिमीं-कनून (तरमीम) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश दा अधिनियम संख्या 34, 1974) राहें 1950 ई. दा उत्तर प्रदेश जिमींदारी खातमा ते जिमीं-बंदोबस्त अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1951) च कीतियां गेदियां तरमीमां।
180. उत्तर प्रदेश बद्धो-बद्ध जोत हद्द आरोपन (तरमीम) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976)।

भारत दा संविधान

(नौमीं अनुसूची)

181. पच्चिमी बंगाल जिमीं सुधार (दूर्ई तरमीम) अधिनियम, 1972 (1972 दा पच्चिमी बंगाल अधिनियम, 28)।
182. पच्चिमी बंगाल होर बक्ख जिमीं मुद्द-ब्हाली अधिनियम, 1973 (1973 दा पच्चिमी बंगाल अधिनियम, 23)।
183. पच्चिमी बंगाल जिमीं सुधार (तरमीम) अधिनियम, 1974 (1974 दा पच्चिमी बंगाल अधिनियम, 33)।

184. पश्चिमी बंगाल जिमीं सुधार (तरमीम) अधिनियम, 1975 (1975 दा पश्चिमी बंगाल अधिनियम, 23)।
185. पश्चिमी बंगाल जिमीं सुधार (तरमीम) अधिनियम, 1976 (1976 दा पश्चिमी बंगाल अधिनियम, 12)।
186. दिल्ली मालकी जिमीं जोत (हदबंदी) तरमीम अधिनियम, 1976 (1976 दा केंदरी अधिनियम, 15)।
187. गोवा, दमण ते दीव मुंडकार (बेदखली थमां संरक्षण) अधिनियम 1975 (1976 दा गोवा, दमण ते दीव अधिनियम, 1)।
188. पांडिचेरी जिमीं सुधार (बद्धो-बद्ध जिमीं हदबंदी नर्धारण) अधिनियम, 1973 (1974 दा पांडिचेरी अधिनियम, 9)।
- ¹[189. असम (आरजी तौर पर बंदोबस्ती क्षेत्र) बुसालगिरी अधिनियम 1971 (1971 दा असम अधिनियम, 23)।
190. असम (आरजी तौर पर बंदोबस्ती क्षेत्र) बुसालगिरी (तरमीम) अधिनियम 1974 (1974 दा असम अधिनियम, 18)।
191. बिहार जिमीं सुधार (बद्धो-बद्ध जिमीं हदबंदी नर्धारण ते बादधू जिमीं अर्जन) (तरमीम) (तरमीमी) अधिनियम, 1974 (1975 दा बिहार अधिनियम, 13)।
192. बिहार जिमीं सुधार (जिमीं हदबंदी नर्धारण ते बादधू जिमीं अर्जन) (तरमीम) अधिनियम, 1976 (1976 दा बिहार अधिनियम, 22)।
193. बिहार जिमीं सुधार (जिमीं हदबंदी नर्धारण ते बादधू जिमीं अर्जन) (तरमीम) अधिनियम, 1978 (1978 दा बिहार अधिनियम, 7)।
194. जिमीं अर्जन (बिहार तरमीम) अधिनियम, 1979 (1980 दा बिहार अधिनियम, 2)।
195. हरियाणा (मालकी जिमीं हदबंदी) (तरमीम) अधिनियम, 1977 (1977 दा हरियाणा अधिनियम, 14)।
196. तमिलनाडु जिमीं सुधार (बद्धो-बद्ध जिमीं हदबंदी नर्धारण) तरमीम अधिनियम, 1978 (1978 दा तमिलनाडु अधिनियम, 25)।
197. तमिलनाडु जिमीं सुधार (बद्धो-बद्ध जिमीं हदबंदी नर्धारण) तरमीम अधिनियम, 1979 (1979 दा तमिलनाडु अधिनियम, 11)।
198. उत्तर प्रदेश जिमींदारी खातमा कनून (तरमीम) अधिनियम 1978 (1978 दा उत्तर प्रदेश अधिनियम, 15)।
199. पश्चिमी बंगाल दूर्ई बक्ख जिमीं दी मुढ-ब्हाली (तरमीम) अधिनियम, 1978 (1978 दा पश्चिमी बंगाल अधिनियम, 24)।

1. संविधान (संतालिमी तरमीम) अधिनियम, 1984 दी धारा 2 राहें (26-8-1984 थमां) इंदराज 189 थमां इंदराज 202 तगर अंतरस्थापित।

भारत दा संविधान
(नौमीं अनुसूची)

200. पश्चिमी बंगाल दूर्ई बक्ख जिमीं मुढ-ब्हाली (तरमीम) अधिनियम, 1980 (1980 दा पश्चिमी बंगाल अधिनियम, 56)।
201. गोवा, दमण ते दीव करसानी बुसालगिरी अधिनियम 1964 (1964 दा गोवा, दमण ते दीव अधिनियम, 7)।]

202. गोवा, दमण ते दीव करसानी बुसालगिरी (पजमीं तरमीम) अधिनियम 1976 (1976 दा गोवा, दमण ते दीव अधिनियम, 17)।]
- ¹[203. आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र जिमीं तबादला विनियम, 1959 (1959 दा आंध्र प्रदेश विनियम।)।
204. आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र कनून (बस्तारन ते तरमीम) विनियम, 1963 (1963 दा आंध्र प्रदेश विनियम 2)।
205. आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र जिमीं तबादला (तरमीम) विनियम, 1970 (1970 दा आंध्र प्रदेश विनियम 1)।
206. आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र जिमीं तबादला (तरमीम) विनियम, 1971 (1971 दी आंध्र प्रदेश विनियम 1)।
207. आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र जिमीं तबादला (तरमीम) विनियम, 1978 (1978 दा आंध्र प्रदेश विनियम 1)।
208. बिहार काफ्तकारी अधिनियम, 1885 (1885 दा बिहार अधिनियम, 8)।
209. छोटा नागपुर काफ्तकारी अधिनियम, 1908 (1908 दा बंगाल अधिनियम 6) (ध्याऽ 8 – धारा, 46, धारा 47, धारा 48, धारा 48क, धारा 49, ध्याऽ – 10 धारा 71, धारा 71क ते धारा 71ख ते ध्याऽ 18 – धारा 240, धारा 241, धारा 242)।
210. संथाल परगना काफ्तकारी (पूरक प्रावधान) अधिनियम, 1949 (1949 दा बिहार अधिनियम, 14) धारा 53 गी छोड़ियै।
211. बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 (1969 दा बिहार विनियम, 1)।
212. बिहार जिमीं सुधार (हदबंदी नर्धारण ते बाद्धू जिमीं अर्जन) (तरमीम) अधिनियम, 1982 (1982 दा बिहार अधिनियम 55)।
213. गुजरात देवस्थान इनाम खातमा अधिनियम, 1969 (1969 दा गुजरात अधिनियम, 16)
214. गुजरात बुसालगिरी कनून (तरमीम) अधिनियम, 1976 (1976 दा गुजरात अधिनियम 37)।
215. गुजरात करसानी जिमीं हदबंदी (तरमीम) अधिनियम, 1976 (1976 दा राष्ट्रपति अधिनियम 43)।
216. गुजरात देवस्थान इनाम खातमा (तरमीम) अधिनियम, 1977 (1977 दा गुजरात अधिनियम, 27)
217. गुजरात बुसालगिरी कनून (तरमीम) अधिनियम, 1977 (1977 दा गुजरात अधिनियम 30)।
218. मुम्बई जिमीं लगान (गुजरात दूर्ई तरमीम) अधिनियम, 1980 (1980 दा गुजरात अधिनियम, 37)।
219. मुम्बई जिमीं लगान संहिता ते बुसालगिरी खातमा कनून (गुजरात तरमीम) अधिनियम, 1982 (1982 दा गुजरात अधिनियम, 8)।
220. हिमाचल प्रदेश जिमीं तबादला (विनियमन) अधिनियम, 1968 (1969 दा हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 15)।

1. संविधान (छ्याठमीं तरमीम) अधिनियम, 1990 दी धारा 2 राहें (7-6-1990 थमां) इंदराज 203 थमां इंदराज 257 तगर अंतरस्थापत।

भारत दा संविधान

(नौमीं अनुसूची)

221. हिमाचल प्रदेश जिमीं तबादला (विनियमन) (तरमीम) अधिनियम, 1986 (1986 दा हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 16)।
222. कर्नाटक अनुसूचित जाति ते अनुसूचित जनजाति (किष जमीनें दे तबादले पर रोक) अधिनियम 1978 (1979 दा कर्नाटक अधिनियम, 2)।

223. केरल जिमीं सुधार (तरमीम) अधिनियम, 1978 (1978 दा केरल अधिनियम, 13)।
224. केरल जिमीं सुधार (तरमीम) अधिनियम, 1981 (1981 दा केरल अधिनियम, 19)।
225. मध्य प्रदेश जिमीं लगान संहिता (त्री तरमीम) अधिनियम 1976 (1976 दा मध्य प्रदेश अधिनियम, 61)।
226. मध्य प्रदेश जिमीं लगान संहिता (तरमीम) अधिनियम 1980 (1980 दा मध्य प्रदेश अधिनियम, 15)।
227. मध्य प्रदेश अकृषिक जोत उच्चतम सीमा अधिनियम 1981 (1981 दा मध्य प्रदेश अधिनियम, 11)।
228. मध्य प्रदेश करसानी मालकी जिमीं हदबंदी (दूर्ई तरमीम) अधिनियम 1976 (1984 दा मध्य प्रदेश अधिनियम, 1)।
229. मध्य प्रदेश करसानी मालकी जिमीं हदबंदी (तरमीम) अधिनियम 1984 (1984 दा मध्य प्रदेश अधिनियम, 14)।
230. मध्य प्रदेश करसानी मालकी जिमीं हदबंदी (तरमीम) अधिनियम 1989 (1989 दा मध्य प्रदेश अधिनियम, 8)।
231. महाराष्ट्र जिमीं लगान संहिता 1966 (1966 दा महाराष्ट्र अधिनियम, 41) धारा 36, धारा 36क ते धारा 36ख।
232. महाराष्ट्र जिमीं लगान संहिता ते महाराष्ट्र अनुसूचित जनजाति जिमीं मुढ-ब्हाली (दूर्ई तरमीम) अधिनियम, 1976 (1977 दा महाराष्ट्र अधिनियम 30।)
233. महाराष्ट्र किष जिमीं च खान्नें ते खनजें दे मजूदा संपत्ति हक्कें दा खातमा अधिनियम, 1985 (1985 दा महाराष्ट्र अधिनियम 16।)
234. उड़ीसा अनुसूचित क्षेत्र (अनुसूचित जनजातियें राहें) अचल संपत्ति तबादला विनियम 1956, (1956 दा उड़ीसा विनियम 2)।
235. उड़ीसा जिमीं सुधार (दूर्ई तरमीम) अधिनियम, 1975 (1976 दा उड़ीसा अधिनियम 29)
236. उड़ीसा जिमीं सुधार (तरमीम) अधिनियम, 1976 (1976 दा उड़ीसा अधिनियम 30)
237. उड़ीसा जिमीं सुधार (दूर्ई तरमीम) अधिनियम, 1976 (1976 दा उड़ीसा अधिनियम 44)
238. राजस्थान उपनिवेशन (तरमीम) अधिनियम, 1984 (1984 दा राजस्थान अधिनियम, 12)।
239. राजस्थान बुसालगिरी (तरमीम) अधिनियम, 1984 (1984 दा राजस्थान अधिनियम, 13)।
240. राजस्थान बुसालगिरी (तरमीम) अधिनियम, 1987 (1987 दा राजस्थान अधिनियम, 21)।
241. तमिलनाडु जिमीं सुधार (मालकी जिमीं हदबंदी नर्धारण) दूर्ई तरमीम अधिनियम, 1979 (1980 दा तमिलनाडु अधिनियम, 8)।
242. तमिलनाडु जिमीं सुधार (मालकी जिमीं हदबंदी नर्धारण) तरमीम अधिनियम, 1980 (1980 दा तमिलनाडु अधिनियम, 21)।
243. तमिलनाडु जिमीं सुधार (मालकी जिमीं हदबंदी नर्धारण) तरमीम अधिनियम, 1981 (1981 दा तमिलनाडु अधिनियम, 59)।
244. तमिलनाडु जिमीं सुधार (मालकी जिमीं हदबंदी नर्धारण) दूर्ई तरमीम अधिनियम, 1983 (1984 दा तमिलनाडु अधिनियम, 2)।

भारत दा संविधान

(नौमीं अनुसूची)

245. उत्तर प्रदेश जिमीं कनून (तरमीम) अधिनियम, 1982 (1982 दा उत्तर प्रदेश अधिनियम, 20)।
246. पच्चिमी बंगाल जिमीं सुधार (तरमीम) अधिनियम, 1965 (1965 दा पच्चिमी बंगाल अधिनियम, 18)।
247. पच्चिमी बंगाल जिमीं सुधार (तरमीम) अधिनियम, 1966 (1966 दा पच्चिमी बंगाल अधिनियम, 11)।
248. पच्चिमी बंगाल जिमीं सुधार (दूर्ई तरमीम) अधिनियम, 1969 (1969 दा पच्चिमी बंगाल अधिनियम, 23)।

249. पश्चिमी बंगाल जायदाद अर्जन (तरमीम) अधिनियम, 1977 (1977 दा पश्चिमी बंगाल अधिनियम, 36)।
250. पश्चिमी बंगाल मालकी जिमीं लगान अधिनियम, 1979 (1979 दा पश्चिमी बंगाल अधिनियम, 44)।
251. पश्चिमी बंगाल जिमीं सुधार (तरमीम) अधिनियम, 1980 (1980 दा पश्चिमी बंगाल अधिनियम, 41)।
252. पश्चिमी बंगाल मालकी जिमीं लगान (तरतीम) अधिनियम, 1981 (1981 दा पश्चिमी बंगाल अधिनियम, 33)।
253. कलकत्ता टेका बुसालगिरी (अर्जन ते विनियमन) अधिनियम, 1981 (1981 दा पश्चिमी बंगाल अधिनियम, 37)।
254. पश्चिमी बंगाल मालकी जिमीं लगान (तरमीम) अधिनियम, 1982 (1982 दा पश्चिमी बंगाल अधिनियम, 23)।
255. कलकत्ता टेका बुसालगिरी (अर्जन ते विनियमन) अधिनियम 1984 (1984 दा पश्चिमी बंगाल अधिनियम, 41)।
256. माहे जिमीं सुधार अधिनियम, 1968 (1968 दा पांडिचेरी अधिनियम, 1)।
257. माहे जिमीं सुधार (तरमीम) अधिनियम, 1980 (1981 दा पांडिचेरी अधिनियम, 1)।
- ¹[257क. तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति ते अनुसूचित जनजाति (रियासत दे अधीन शिक्षा संस्थाएं च थाहरें ते सेवाएं च नियुक्तियें जां औहदें दा आरक्षण) अधिनियम 1993 (1994 दा तमिलनाडु अधिनियम 45)]।
- ²[258. बिहार बषेप हक-हकूक हासल व्यक्ति रिहायषी जिमीं बुसालगिरी अधिनियम, 1947 (1948 दा बिहार अधिनियम, 4)।
259. बिहार चकबंदी ते खंडकरण रोक अधिनियम, 1956 (1956 दा बिहार अधिनियम 22)।
260. बिहार चकबंदी ते खंडकरण रोक अधिनियम, 1970 (1970 दा बिहार अधिनियम 7)।
261. बिहार बषेप अधिकार प्राप्त व्यक्ति रिहायषी जिमीं बुसालगिरी (तरमीम) अधिनियम, 1970 (1970 दा बिहार अधिनियम 9)।
262. बिहार चकबंदी ते खंडकरण रोक (तरमीम) अधिनियम, 1973 (1975 दा बिहार अधिनियम 27)।
263. बिहार चकबंदी ते खंडकरण रोक (तरमीम) अधिनियम, 1981 (1982 दा बिहार अधिनियम 35)।

-
1. संविधान (छेहत्तरमीं तरमीम) अधिनियम, 1994 दी धारा 2 राहें (31-8-1994 थमां) अंतरस्थापत।
2. संविधान (दहत्तरमीं तरमीम) अधिनियम, 1995 दी धारा 2 राहें (30-8-1995 थमां) इंदराज 258 थमां इंदराज 284 तगर अंतरस्थापत।

भारत दा संविधान

(नौमीं अनुसूची)

264. बिहार जिमीं सुधार (जिमीं हदबंदी नर्धारण ते बादधू जिमीं अर्जन) (तरमीम) अधिनियम, 1987 (1987 दा बिहार अधिनियम, 21)।
265. बिहार बषेप अधिकार प्राप्त व्यक्ति रिहायषी जिमीं बुसालगिरी (तरमीम) अधिनियम, 1989 (1989 दा बिहार अधिनियम, 11)।

266. बिहार जिमीं सुधार (तरमीम) अधिनियम, 1989 (1990 दा बिहार अधिनियम, 11)।
267. कर्नाटक अनुसूचित जाति ते अनुसूचित जनजाति (किष जमीनें दे तबादले पर रोक) (तरमीम) अधिनियम, 1984 (1984 दा कर्नाटक अधिनियम, 3)।
268. केरल जिमीं सुधार (तरमीम) अधिनियम, 1989 (1989 दा केरल अधिनियम, 16)।
269. केरल जिमीं सुधार (दूई तरमीम) अधिनियम, 1989 (1990 दा केरल अधिनियम, 2)।
270. उड़ीसा जिमीं सुधार (तरमीम) अधिनियम, 1989 (1990 दा उड़ीसा अधिनियम, 9)।
271. राजस्थान बुसालगिरी (तरमीम) अधिनियम 1979 (1979 दा राजस्थान अधिनियम, 16)।
272. राजस्थान उपनिवेशन (तरमीम) अधिनियम 1987 (1987 दा राजस्थान अधिनियम, 2)।
273. राजस्थान उपनिवेशन (तरमीम) अधिनियम 1989 (1989 दा राजस्थान अधिनियम, 12)।
274. तमिलनाडु जिमीं सुधार (जिमीं हदबंदी नर्धारण) तरमीम अधिनियम, 1983 (1984 दा तमिलनाडु अधिनियम, 3)।
275. तमिलनाडु जिमीं सुधार (जिमीं हदबंदी नर्धारण) तरमीम अधिनियम, 1986 (1986 दा तमिलनाडु अधिनियम, 57)।
276. तमिलनाडु जिमीं सुधार (जिमीं हदबंदी नर्धारण) दूई तरमीम अधिनियम, 1987 (1988 दा तमिलनाडु अधिनियम, 4)।
277. तमिलनाडु जिमीं सुधार (जिमीं हदबंदी नर्धारण) (तरमीम) अधिनियम, 1989 (1989 दा तमिलनाडु अधिनियम, 30)।
278. पच्चिमी बंगाल जिमीं सुधार (तरमीम) अधिनियम, 1981 (1981 दा पच्चिमी बंगाल अधिनियम, 50)
279. पच्चिमी बंगाल जिमीं सुधार (तरमीम) अधिनियम, 1986 (1986 दा पच्चिमी बंगाल अधिनियम, 5)
280. पच्चिमी बंगाल जिमीं सुधार (दूई तरमीम) अधिनियम, 1986 (1986 दा पच्चिमी बंगाल अधिनियम, 19)
281. पच्चिमी बंगाल जिमीं सुधार (त्री तरमीम) अधिनियम, 1986 (1981 दा पच्चिमी बंगाल अधिनियम, 35)
282. पच्चिमी बंगाल जिमीं सुधार (तरमीम) अधिनियम, 1989 (1989 दा पच्चिमी बंगाल अधिनियम, 23)
283. पच्चिमी बंगाल जिमीं सुधार (तरमीम) अधिनियम, 1990 (1990 दा पच्चिमी बंगाल अधिनियम, 24)
284. पच्चिमी बंगाल जिमीं सुधार अधिकरण अधिनियम, 1991 (1991 दा पच्चिमी बंगाल अधिनियम, 12)]

स्पष्टीकरण – राजस्थान बुसालगिरी अधिनियम 1955 (1955 दा राजस्थान अधिनियम 3) दे तैहत् अनुच्छेद 31क दे खंड (1) दे दूए परंतुक दे उलंघन च कीता गेदा अर्जन उस उलंघन दी मातरा तगर सिफर होग।]

¹[दसमीं अनुसूची

[अनुच्छेद 102 (2) ते अनुच्छेद 191 (2)]

दल बदली दे आधार पर अयोग्यता बारै प्रावधान

1. व्याख्या – इस अनुसूची च, जदू तगर जे संदर्भ च इस चाल्ली लोड नेई होऐ, –

(क) "सदन" दा मतलब, संसद दा कोई सदन जां कुसै रियासत दी, स्थिति मताबक, विधान सभा जां, विधान-मंडल दा कोई सदन ऐ;

(ख) सदन दे कुसै नेह सदस्य दे सरबंघै च जेहड़ा, स्थिति मताबक, पै'रा 2^{2***} जां पै'रा 4 दे प्रावधानें मताबक कुसै राजनीतक दल दा सदस्य ऐ, "विधान-दल" दा मतलब, उस सदन दे नेह सारें सदस्यें दा समूह ऐ जेहड़ा आखे गेदे प्रावधानें मताबक उस बेल्लै उस राजनीतक दल दे सदस्य न;

(ग) सदन दे कुसै सदस्य दे सरबंघै च, "मूल राजनीतक दल" दा मतलब नेहा राजनीतक दल ऐ जिसदा ओह पैरा 2 दे उपपै'रा (1) दे मकसद लेई सदस्य ऐ;

(घ) "पै'रा" दा मतलब इस अनुसूची दा पै'रा ऐ।

2. दल बदली दी बुनयाद पर अयोग्यता – (1)³[पै'रा 4 ते पै'रा 5] दे प्रावधानें दे तैहत, सदन दा कोई सदस्य, जेहड़ा कुसै राजनीतक दल दा सदस्य ऐ, सदन दा सदस्य होने लेई उस सूरत च अयोग्य होग जिस च –

(क) उ'न्ने नेह राजनीतक दल दी अपनी सदस्यता अपनी मर्जी कन्नै छोड़ी दिती दी ऐ; जां

(ख) ओह नेह राजनीतक दल आसेआ जिसदा ओह सदस्य ऐ जां उसदे आसेआ इस लेई अधिकार प्राप्त कुसै व्यक्ति जां प्राधिकारी आसेआ कुसै हिदायत दे खलाफ, नेह राजनीतक दल, व्यक्ति जां प्राधिकारी गी पुज्ज इजाजत बगैर, नेह सदन च मतदान करदा ऐ जां मतदान करने शा मुक्करदा ऐ ते नेह मतदान जां मतदान शा मुक्करने गी नेह राजनीतक दल, व्यक्ति जां प्राधिकारी ने नेह मतदान जां मतदान करने शा मुक्करने दी तरीक शा प'दरें दिने दे अंदर माफ नेई कीते दा ऐ।

स्पष्टीकरण – इस उपपै'रे दे मकसदें आस्तै, –

(क) सदन दे कुसै चनोए दे सदस्य बारै एह समझेआ जाहग जे ओह नेह राजनीतक दल दा, जेकर कोई होऐ, सदस्य ऐ, जि'न्ने उसगी नेह सदस्य दे रूप च चनांS लेई मेदवार दे रूपै च खड़ेरे दा हा;

(ख) सदन दे कुसै नामजद सदस्य दे बारे च, –

(i) उस सूरत च, जिस च ओह नेह सदस्य दे रूपै च अपनी नामजदगी दी तरीक गी कुसै राजनीतक दल दा सदस्य ऐ, एह समझेआ जाहग जे ओह नेह राजनीतक दल दा सदस्य ऐ;

(ii) कुसै होर सूरत च, एह समझेआ जाहग जे ओह उस राजनीतक दल दा सदस्य ऐ, जिसदा, स्थिति मताबक, अनुच्छेद 99 जां अनुच्छेद 188 दी लोड़ें दा पालन करने परैत अपना थाहर लैने दी तरीक थमां छें म्हीनें दे मुक्कने थमां पुज्ज ओह, स्थिति मताबक, सदस्य बनदा ऐ जां पैहली बारी बनदा ऐ।

(2) सदन दा कोई चनोए दा सदस्य, जेहड़ा कुसै राजनीतक दल आसेआ खेड़ेरे दे मेदवार शा बक्ख रूपै च सदस्य चुनेआ गेदा ऐ, सदस्य होने लेई अयोग्य होग, जेकर ओह नेह चनांS दे बाद कुसै राजनीतक दल च शामिल होई जंदा ऐ।

1. संविधान (बुंजमीं तरमीम) अधिनियम, 1985 दी धारा 6 राहें (1-3-1985 थमां) जोड़ेआ गेआ।
 2. संविधान (काहनमीं तरमीम) अधिनियम, 2003 दी धारा 5 राहें किष शब्दें ते हिंसें दा लोप कीता गेआ।
 3. संविधान (काहनमीं तरमीम) अधिनियम, 2003 दी धारा 5 राहें "पै'रा 3, पै'रा 4 ते पै'रा 5" दे थाहरै पर प्रतिस्थापत।

भारत दा संविधान

(दसमीं अनुसूची)

(3) सदन दा कोई नामजद सदस्य, सदन दा सदस्य होने लेई अयोग्य होग जेकर ओह, स्थिति मताबक, अनुच्छेद 99 जां अनुच्छेद 188 दी लोड़ें दा अनुपालन करने दे परैत अपना थाहर लैने दी तरीक शा छें म्हीनें दे मुक्कने परैत कुसै राजनीतक दल च शामिल होई जंदा ऐ।

(4) इस पैरे दे पछेत्तरे प्रावधानें च कुसै गल्ला दे होंदे होई बी कुसै नेह व्यक्ति दे बारे च जेहड़ा संविधान (बुंजमी तरमीम) अधिनियम 1985 दे रम्भ च सदन दा सदस्य ऐ (भाएं ओह चनोए दा सदस्य होऐ जां नामजद) –

(i) उस सूरत च जिस च ओह नेही शुरुआत थमां ठीक पैहलें कुसै राजनीतक दल दा सदस्य हा उत्थै, इस पैरे दे उपपैरा (1) दे मकसदें लेई एह समझेआ जाहग जे ओह नेह राजनीतक दल आसेआ खडेरे गेदे मेदबारे दे रूपै च नेह सदन दा सदस्य चनोए दा ऐ;

(ii) कुसै होर सूरत च, स्थिति मताबक, इस पैरे दे उपपैरा (2) दे मकसदें लेई, एह समझेआ जाहग जे ओह सदन दा नेहा चनोए दा सदस्य ऐ जेहड़ा कुसै राजनीतक दल आसेआ खडेरे दे मेदबार थमां बक्ख रूपै च सदस्य चनोए दा ऐ जां, इस पैरे दे उपपैरा (3) दे मकसदें लेई, एह समझेआ जाहग जे ओह सदन दा नामजद सदस्य ऐ।

* * * * *

(4) दल बदली दे अधार पर अयोग्यता दा विलय दी सूरत च लागू नेई होना – (1) सदन दा कोई सदस्य पैरा 2 दे उपपैरा (1) दे तैहत अयोग्य नेई होग जेकर उसदे मूल राजनीतक दल दा कुसै होर राजनीतक दल कन्नै विलय होई जंदा ऐ ते ओह एह दावा करदा ऐ जे ओह ते उसदे मूल राजनीतक दल दे होर सदस्य –

(क) स्थिति मताबक, नेह कुसै होर राजनीतक दल दे जां नेह विलय कन्नै बने दे नमें राजनीतक दल दे सदस्य बनी गेदे न; जां

(ख) उंनै विलय मंजूर नेई कीता दा ऐ ते इक बक्ख समूह दे रूपै च कम्म करने दा निर्णा लैते दा ऐ, ते नेह विलय दे मौकै, उससै स्थिति मताबक, नेह होर राजनीतक दल जां नमें राजनीतक दल जां समूह दे बारे च एह समझेआ जाहग जे ओह पैरा 2 दे उपपैरा (1) दे मकसदें लेई, नेहा राजनीतक दल ऐ जिसदा ओह सदस्य ऐ ते ओह इस पैरे दे मकसदें लेई उसदा मूल राजनीतक दल ऐ।

(2) इस पैरे दे उपपैरा (1) दे मकसदें लेई, सदन दे कुसै सदस्य दे मूल राजनीतक दल दा विलय होए दा उसलै समझेआ जाहग जिसलै सरबंधत विधान दल दे घट्टो-घट्ट दो-तिहाई सदस्य नेह विलय लेई सैहमत होई गेदे न।

(5) छूट – इस अनुसूची च कुसै गल्ला दे बावजूद बी, कोई आदमी, जेहड़ा लोक सभा दे अध्यक्ष जां उपाध्यक्ष जां राज्य सभा दे उपसभापति जां कुसै रियासत दी विधान परिषद् दे सभापति जां उपसभापति जां कुसै रियासत दी विधान सभा दे अध्यक्ष जां उपाध्यक्ष दे औहदे पर चनोए दा ऐ, इस अनुसूची दे तैहत अयोग्य नेई होग, –

(क) जेकर ओह, नेह औहदे पर अपने चनांस दे कारण नेह राजनीतक दल दी जिसदा ओह नेह चनांस थमां ठीक पैहलें सदस्य हा अपनी सदस्यता अपनी मर्जी कन्नै छोड़ी दिंदा ऐ ते उसदे परैत जदू तगर ओह औहदे पर कायम रौहदा ऐ तदू तगर, उस राजनीतक दल च परती शामिल नेई होंदा जां कुसै होर राजनीतक दल दा सदस्य नेई बनदा ऐ; जां

(ख) जेकर ओह, नेह पद पर अपने चनोने करी, नेह राजनीतक दल दा जिसदा ओह नेह चनांस शा ठीक पैहलें सदस्य हा, अपनी सदस्यता छोड़ी दिंदा ऐ ते नेह औहदे पर नेई रौहने दे परैत नेह राजनीतक दल च परती शामिल होई जंदा ऐ।

1. संविधान (काहनमी तरमीम) अधिनियम, 2003 दी धारा 5 राहें पैरा 3 दा लोप कीता गेआ।

भारत दा संविधान

(दसमी अनुसूची)

6. दल बदली दे अधार पर अयोग्यता दे बारे च सुआलें दा फैसला – (1) जेकर एह सुआल उठदा ऐ जे सदन दा कोई सदस्य इस अनुसूची दे तैहत अयोग्यता कन्नै ग्रस्त ऐ जां नेई तां ओह सुआल नेह सदन दे, स्थिति मताबक, सभापति जां अध्यक्ष दे निर्णे लेई रक्खेआ जाहग ते उसदा निर्णा खीरी होग।

पर जित्थै एह सुआल उठदा ऐ जे सदन दा सभापति जां अध्यक्ष अयोग्यता कन्नै ग्रस्त होई गोदा ऐ जां नेई तां उत्थै ओह सुआल सदन दे नेह सदस्य दे निर्णे लेई पेश कीता जाहग जिसगी ओह सदन इस लेई चुनै ते उसदा निर्णा खीरी होग।

(2) इस अनुसूची दे तैहत सदन दे कुसै सदस्य दी अयोग्यता दे बारे च कुसै सुआलै दे सरबंधे च इस पैरे दे उप पैरा (1) दे तैहत सभनें कारवाइयें दे बारे च एह समझेआ जाहग जे ओह, स्थिति मताबक, अनुच्छेद 122 दे अर्थ च संसद दियां कारवाइयां न जां 212 दे अर्थ च रियासती विधान-मंडल दियां कारवाइयां न।

17. अदालतें दी अधिकारता पर रोक – इस संविधान च बावजूद एहदे, कुसै अदालत गी इस अनुसूची दे तैहत सदन दे कुसै सदस्य दी अयोग्यता कन्नै सरबंधत कुसै विषे दे बारे च कोई अधिकारता नेई होग।

8. नियम – (1) इस पैरे दे उपपैरा (2) दे प्रावधानें दे तैहत, सदन दा सभापति जां अध्यक्ष, इस अनुसूची दे प्रावधानें गी अमल च आहनने लेई नियम बनाई सकग ते खासकरी ते पछेत्तरे अख्तेआरें दी व्यापकता उप्पर उल्ट प्रभाव पाए बगैर, नेह नियमें च हेठ लिखे दे प्रावधान कीते जाई सकडन, अर्थात् –

(क) सदन दे बक्ख-बक्ख सदस्य जिनें राजनीतक दलें दे सदस्य न, उं दे बारे च रजिस्टर जां होर रिकार्ड रक्खना;

(ख) नेही रपोट जेहड़ी सदन दे कुसै सदस्य दे सरबंधे च विधान दल दा नेता, उस सदस्य दे मतल्लक पैरा 2 दे उपपैरा (1) दे खंड (ख) च दस्सी गेदी प्रकृति दे माफी दे सरबंधे च देहग, ओह समां जिसदे अंदर ते ओह प्राधिकारी जिसगी एह रपोट दिती जाहग;

(ग) नेहियां रपोटां जिनें कोई राजनीतक दल सदन दे कुसै सदस्य गी नेह राजनीतक दल च दाखल करने दे सरबंधे च देहग ते सदन दा नेहा अफसर जिसगी एह रपोटां दितियां जाहडन; ते

(घ) पैरा 6 दे उपपैरा (1) च दस्से गेदे कुसै सुआल दा फैसला करने दी प्रक्रिया जिसदे तैहत नेही पडताल दी प्रक्रिया ऐ, जेहड़ी नेह सुआल दा फैसला करने दे मकसद लेई कीती जा।

(2) सदन दे सभापति जां अध्यक्ष आसेआ इस पैरे दे उपपैरा (1) दे तैहत बनाए गेदे नियम, बनाए जाने परेंत, तुरंत, सदन अगें कुल त्रीहें दिनें दी औद्ध लेई रक्खे जाहडन। एह औद्ध इक सत्र जां द'ऊं जां बद्ध अगले सत्रें च पूरी होई सकग। एह नियम आखी गेदी त्रीहें दिनें दी औद्ध तगर असरी होडन जदूं तगर जे उंदा सदन आसेआ तब्दीली सनें जां उसदे बगैर पैहलें गै ताइद जां ताइद थमां इंकार नेई होई जंदा ऐ। जेकर उंनें नियमें दी इस चाल्ली ताइद करी दिती जंदी ऐ तां ओह स्थिति मताबक, नेह रूप च जिस चाल्ली रक्खे गे हे जां बदले दे रूपै च गै असरी होडन। जेकर नियम इस चाल्ली ना-मंजूर करी दिते जंदे न तां ओह गैर असरी होई जाहडन।

(3) सदन दा सभापति जां अध्यक्ष, स्थिति मताबक, अनुच्छेद 105 जां अनुच्छेद 194 दे प्रावधानें पर ते कुसै नेह होर अख्तेआर पर जेहडे इस संविधान दे तैहत उसी हासल न, उल्ट प्रभाव पाए बिजन, एह हिदायत देई सकग जे इस पैरे दे तैहत बनाए गेदे नियमें दे कुसै व्यक्ति आसेआ जानी-बुज्जी कीते गेदे उलंघन दे बारे उस्सै ढंगे कन्नै कारवाई कीती जा जिस ढंगे कन्नै सदन दे चेचे अधिकारें दे भंग दे बारे च कीती जंदी ऐ।]

1. पैरा 7 गी किहोतो होलोहन बनाम जेचिल्हू ते दुए (1992) 1 एस.सी.सी. 309 च बहुमत दी राऽ मताबक अनुच्छेद 368 दे खंड (2) दे परंतुक दे मताबक अनुसमर्थन दी कमी कारण गैर कनूनी घोषत कीता गेआ।

1[जांहरमीं अनुसूची

(अनुच्छेद 243छ)

1. करसानी, जिसदे तैहत करसानी-विस्तार ऐ।

2. जिमीं विकास, जिमीं सुधार अमल च आहनना, चकबंदी ते जिमीं दी सांभ-सम्हाल।

3. लौहकी सिंचाई, पानी दा सरिस्ता ते पानी बंड क्षेत्र दा विकास ।
4. पशुपालन, डेरी उद्योग ते कुक्कड़-पालन ।
5. मच्छी उद्योग ।
6. समाजक वानकी ते फार्म वानकी ।
7. निक्के जंगल लाने ।
8. निक्के उद्योग, जिंदे तैहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बी ऐ ।
9. खादी, ग्राम उद्योग ते कुटीर उद्योग ।
10. ग्रांड च घर कोठे बनाना ।
11. पीने आह्ला पानी ।
12. बालन ते चारा ।
13. सडकां, पुलियां, पुल, फेरी, जलरस्ते ते होर संचार साधन ।
14. ग्राई बिजलीकरण, जिसदे तैहत बिजली दी बंड ऐ ।
15. गैर-रिवायती ऊर्जा स्रोत ।
16. गरीबी खातमा कार्यक्रम ।
17. शिक्षा, जिसदे तैहत प्राइमरी ते सकेंडरी स्कूल बी हैन ।
18. तकनीकी सखलाई ते पेपेवरी शिक्षा ।
19. प्रौढ ते अनौपचारिक शिक्षा ।
20. लाइब्रेरियां ।
21. सांस्कृतिक गतिविधियां ।
22. बजार ते मेले ।
23. सेहत ते सफाई, जेहदे तैहत हस्पताल, प्राइमरी हैल्थ सेंटर ते डिस्पेंसरियां बी हैन ।
24. परिवार कल्याण ।
25. महिला ते बाल विकास ।
26. समाज कल्याण, जिसदे तैहत विकलांगें ते मानसिक रूप कन्नै कमजोर लोकें दा कल्याण बी ऐ ।
27. कमजोर वर्गें दा ते खास करी, अनुसूचित जातियां ते अनुसूचित जनजातियां दा कल्याण ।
28. सार्वजनिक बंड प्रणाली ।
29. समुदायक जायदादें दी सांभ-समहाल ।

1. संविधान (त्रेहतरमीं तरमीम) अधिनियम, 1992 दी धारा 4 राहें (24-4-1993 थमां) जोड़ेआ गेआ ।

1[बाहरमीं अनुसूची

(अनुच्छेद 243ब)

1. शैहरी योजना जेहदे तैहत नगर योजना बी ऐ ।

2. जिमीं बरतून दा विनियमन ते इमारतें दा नर्माण।
3. आर्थक ते समाजक विकास योजना।
4. सडकां ते पुल।
5. घरेलू उद्योगी ते तजारत सरबंधी मकसदें आस्तै पानी दी सप्लाई।
6. लोक स्वास्थ्य, साफ-सफाई ते कूडा-करकट प्रबंध।
7. अगग स्थालने आहलियां सेवां।
8. शैहरी वानकी, चपासम दा संरक्षण ते वातावरण सरबंधी पैहलुयें दा बादधा।
9. समाज दे कमजोर वर्गें दे, जिं'दे तैहत दिव्यांग ते मंद बुद्धि व्यक्ति बी न, हितें दी रक्षा।
10. गंदी बस्तियें दा सुधार ते उं'दे स्तर गी उबड़ा चुक्कना।
11. शैहरी गरीबी दा खातमा।
12. शैहरी सुख-सुविधां ते सुख-साधन जि'यां पार्क, बाग, खेढने आस्तै मदानें दा सरिस्ता।
13. सांस्कृतक, शिक्षा ते सुंदरता सरबंधी पैहलुयें च बादधा।
14. दफनाना ते कब्रिस्तान : शवदाह ते शमधान ते बिजली आहले शवदाहगृह।
15. कांजी हाउस; पशुयें प्रति क्रूरता पर रोक।
16. जनम-मरण आंकडे, जेहदे तैहत जनम ते मृत्यु पंजीकरण बी ऐ।
17. सार्वजनक सुख सुविधां, जिं'दे तैहत सडकें पर रोषनी, पार्किंग थाहर, बस स्टाप ते जन सुविधा बी न।
18. कतलखाने ते चमड़ा साफ करने आहले कारखानें दा विनियमन।]

1. संविधान (चरहत्तरमीं तरमीम) अधिनियम, 1992 दी धारा 4 राहें (1-6-1993 थमां) जोड़ेआ गेआ।

संखेप अक्खरें दी सूची

पैहली.....पैहली अनुसूची।

दूई	दूई अनुसूची दे भाग	दे पै'रा.....	दा उपपै'रा.....	
त्री			त्री अनुसूची	
चौथी			चौथी अनुसूची	
पजमीं.....	पजमीं अनुसूची दे भाग	दे पै'रा.....	दा उपपै'रा.....	
छेमीं.....			छेमीं अनुसूची	
सतमीं.....	सतमीं अनुसूची दी सूची.....	दा इंदराज संख्यांक		
अठमीं			अठमीं अनुसूची	
नौमीं			नौमीं अनुसूची	
दसमीं			दसमीं अनुसूची	

अनुक्रमणिका

अंक, संघ दे शासकी मकसदें/प्रयोजनं आस्तै.....	अनुच्छेद/अनुसूची.....	343(1)
अंडेमान ते निकोबार द्वीप राज्यक्षेत्र.....	पैहली	
अंतरण, कनून दे बराबर प्रज्जे कन्नै सरबंधत मामलें दा		139क
अंतरराष्ट्री करार —		
संधियें वगैरा च कार्यान्वयन.....	सतमीं, 1—14	
अंतरराष्ट्री कदरें गी असरी करने आस्तै विधान		253
अंतरराष्ट्री सम्मेलन वगैरा —		
अंतरराष्ट्री सम्मेलनं च हिस्सा लैना ते उं'दे च कीते गेदे फैसलें गी अमल च आहनना.....	सतमीं, 1—13	
अंतरराष्ट्री शांति सुरक्खेआ वगैरा —		
गी बढावा — दिक्खो निदेशक तत्त्व		
अंतरराज्य —		
परिषद्.....		263
नदी जल झमेले.....		262
बपार जां तजारत		286
अग्ग फगडने आहले द्रव ते पदार्थ	सतमीं, 1, 53	

भारत दा संविधान

(अनुक्रमणिका)

अधिकार – पृच्छा रिट कड्ढने आस्तै उच्च अदालती दे अख्तेआर32, 226

अधिकारता, अदालतें दी –

देसी रियासतें कन्नै संधियें, करारें वगैरा थमां पैदा होए दे झमेलें च अदालतें दी अधिकारता दी मनाही363

चनांऽ सरबंधी मामलें च अदालतें दी अधिकारता दी मनाही329

संसद दे अधिकारी ते सदस्य अदालतें दी अधिकारिता दे अधीन नेई होडन122(2)

रियासती विधान–मंडल दे अधिकारी ते सदस्य अदालत दी अधिकारता दे अधीन नेई होडन212(2)

अधिनियम –

किष अधिनियमं ते विनियमं दी कनूनी मानता31ख, नौमीं

अध्यक्ष – दिक्खो लोक सभा।

अध्यादेश

संघ राज्यक्षेत्रें दे विधान–मंडल दे बसांऽ–काल च अध्यादेश पेष करने दा प्रशासक दा अख्तेआर239ख

रियासती विधान–मंडल दे बसांऽ–काल च अध्यादेश पेष करने दा राज्यपाल दा अख्तेआर213

संसद दे बसांऽ–काल च अध्यादेश पेष करने दा राष्ट्रपति दा अख्तेआर123

अनुच्छेद, परिभाशा366(3)

अनुदानें आस्तै मतदान –

लेखानुदान ते प्रत्यानुदान वगैरा पर –

लोक सभा आसेआ116

रियासती विधान सभा आसेआ206

अनुपूरक मंग –

दे सरबंधे च प्रक्रिया –

संसद च115

रियासती विधान मंडल च.....205

अनुसूचित ते जनजाति क्षेत्रभाग 10

अनुसूचित क्षेत्र ते अनुसूचित जनजातियां –

भारत दा संविधान

(अनुक्रमणिका)

अनुसूचित क्षेत्रों ते जनजाति क्षेत्रों दा प्रशासन	244, पञ्जमी
राज्यपाल आसेआ राष्ट्रपति गी सलाना रपोट	पञ्जमी, 3
अनुसूचित क्षेत्रों दे प्रशासन ते अनुसूचित जनजातियें दी भलाई-बेहतरी दे बारे च आयोग दी रपोट	339
अनुसूचित क्षेत्र दी परिभाषा	पञ्जमी, 6
अनुसूचित क्षेत्रों दे बारै च राज्य दे कार्यपालिका अख्तेआर दा विस्तार	पञ्जमी, 2
अनुसूचित क्षेत्रों गी लागू कनून	पञ्जमी, 2
अनुसूचित क्षेत्रों आस्तै जनजाति सलाहकार परिषद् दी स्थापना, वगैरा	पञ्जमी, 4
असम, मेघालय ते मिज़ोरम जनजाति क्षेत्र	छेमी, 20
जनजाति क्षेत्रों दा प्रशासन	244(2), छेमी
संसद ते असम रियासती विधान-मंडल अधिनियमों दा खुदमुख्तेआर जि'लें ते प्रदेशें गी लागू होना	छेमी, 12
असम, मेघालय ते मिज़ोरम च खुदमुख्तेआर जि'ले ते खुदमुख्तेआर प्रदेश.....	छेमी, 1
खुदमुख्तेआर जि'लें दे प्रदेशें दे प्रशासन दे बारे च आयोग दी रपोट	छेमी, 14
अनुमानत प्राप्तियां ते खर्चें दे सलाना माल्ली ब्यौरे च बकख रूपै च दस्सेआ जाना	छेमी, 13

अनुसूचित जातियां ते अनुसूचित जनजातियां –

नौकरियें ते औहदें आस्तै अनुसूचित जातियें ते अनुसूचित जनजातियें दे दा'वे	335
अनुसूचित जनजातियें दी भलाई-बेहतरी दे बारे च आयोग आसेआ रपोट	339
परिभाषा	366(24) ते (25)
अनुसूचित जातियें ते अनुसूचित जनजातियें दी तरक्की आस्तै चेचे प्रावधान करने थमां नेई रोकना.....	15
राष्ट्री अनुसूचित जाति आयोग.....	338
राष्ट्री अनुसूचित जनजाति आयोग.....	338क
अधिसूचना	341(1) ते 342(1)
राष्ट्रपति आसेआ निर्देश	341-342
अनुसूचित जातियें ते अनुसूचित जनजातियें दी शिक्षा ते अर्थ सरबन्धी हिलें दा बाद्धा	46

भारत दा संविधान

(अनुक्रमणिका)

अनुसूचित जातियें ते अनुसूचित जनजातियें आस्तै सीटें दा आरक्षण –

लोक सभा च	330
रियासती विधान-मंडल च	332
सीटें दा आरक्षण ते खास नुमायंदगी दा सहत्तरें बरें परैत नेई रोहना	334
अनुसूचित जातियें ते जनजातियें दी भलाई-बेह्तरी आस्तै किष रियासतें च बषेप मंत्री	164(1),परंतुक
अनुसूचित जातियें ते जनजातियें आस्तै राष्ट्रपति आसेआ बषेप अधिकारी नियुक्त कीता जाना.....	338
अनुसूची-परिभाषा	366(23)

अपमिश्रण –

खाद्य पदार्थें बगैरा दा	सतमीं, 3, 18
-------------------------------	--------------

अयोग्यता –

सदस्यें दियें अयोग्यताएं कन्ने सरबंधत प्रश्न पर फैसला	103 ते 192
---	------------

अर्जन –

संपदा आदि दे अर्जन आस्तै प्रावधान करने आहलें कनूनें दी व्यावृत्ति	31क
संपत्ति दा जरूरी अर्जन	सतमीं, 3, 42
कुसै घट्ट गिंतरी आहले वर्ग आसेआ स्थापत ते प्रषासत कुसै षिक्षा संस्था दा कुसै सम्पत्ति	
दे अर्जन आस्तै रकम	31(1क)

अरुणाचल प्रदेश –

दे आस्तै राज्यसभा च सीटें दी बंड	चौथी
रियासत दे सरबंधे च बषेप प्रावधान	371क
राज्यक्षेत्र.....	पैहली

अल्पसंख्यक वर्गों दा संरक्षण, वगैरा, – दिक्खो मूल अधिकार

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बी दिक्खो।

अवयस्क –

ज्याने ते अवयस्क	सतमीं, 3, 5
------------------------	-------------

**भारत दा संविधान
(अनुक्रमणिका)**

असम –

आस्तै राज्य सभा च सीटें दी बंड	चौथी
च इक खुदमुख्तेआर रियासत बनाया जाना	244क
रियासत दे सरबंधे च बषेध प्रावधान.....	371ख
रियासत	पैहली

असम, मेघालय ते मिज़ोरम दे राज्यपाल दे अख्तेआर –

संक्रमणकाली औद्ध दरान क्षेत्रें दा प्रषासन करना	छेमी, 19
नेह क्षेत्रें गी, जेह्दे च अनुसूचित जातियां बस्सी दियां न, बदलाव वगैरा करना	छेमी, 1(2) ते (3)
खुदमुख्तेआर क्षेत्रें दे प्रषासन पर रपोट आस्तै आयोग नियुक्त करना	छेमी, 14
इलाकाई ते जि'ला परिषदें आसेआ बनाए गोदे नियमें गी मंजूर करना	छेमी, 4(4)
जि'ला ते इलाकाई कोषें दा प्रबंध करने आस्तै नियम बनाना	छेमी, 7(2)
झमेले दी सूरत च मलकीयत दा हिस्सा नर्धारत करना	छेमी, 9(2)
संसद ते असम राज्य दे विधान-मंडल दे अधिनियमें दा उस रियासत दे कुसै खुदमुख्तेआर क्षेत्र पर लागू नेई करना	छेमी, 12(1)(ख)
सिवल प्रक्रिया संहिता ते दंड प्रक्रिया संहिता दे अधीन जि'ला ते इलाकाई परिषद् गी दित्ते गोदे अख्तेआरें दा उपांतरत करना जां बापस लैना	छेमी, 5(2)
कुसै जि'ला जां इलाकाई परिषद् गी भंग करने दा अदेष देना	छेमी, 16
खुदमुख्तेआर जि'लें चा क्षेत्रें गी कड्ढने दा अदेष देना	छेमी, 17
खुदमुख्तेआर जि'ले गी असरी करने आह्ले मामलें च उच्च अदालत दी अधिकारता	छेमी, 4(3)
जि'ला जां इलाकाई परिषद् दे कम्में जां प्रस्तावें गी स्थगत करना	छेमी, 15
अस्पताल ते दोआखाना.....	सतमी, 2,6
नाविक ते समुंदरी हस्पताल.....	सतमी, 1,28
अस्थाई, संक्रमणकाली ते बशेश प्रावधान (भाग 21) –	
नियंत्रक ते महालेखापारखी दे बारे च	377
उच्च अदालत दे जज्जें दे बारे च	376
फेडरल अदालत दे जज्जें दे बारे च	374

भारत दा संविधान

(अनुक्रमणिका)

मजूदा कनूनें दा अनुकूलन.....	372, (2), 372क
मजूदा कनूनें दा बने दा रौहना	372(1)
संक्षिप्त कनूनी कारवाइयां –	
फेडरल अदालत च	374(2)
सपरिषद् हिज्ज मजेस्टी दे सामनै	374(3)
भाग ख रियासतें दे प्रिवी कौंसलें दे सामनै	374(4)
राज्य सूची दे किष विषे दे सरबंधे च कनून बनाने दा संसद दा अख्तेआर	369
राष्ट्रपति दे अख्तेआर –	
निवारक नज़रबंदी च रक्खे गोदे व्यक्तियें दे सरबंधे च अदेष करने दी औखें गी दूर करने दे	392
लोक सेवा आयोग	378
अरुणाचल प्रदेश रियासत.....	371ज
असम रियासत.....	371ख
आंध्र प्रदेश रियासत	371घ
गुजरात रियासत.....	371
गोवा रियासत.....	371झ
जम्मू-कश्मीर रियासत.....	370
नागालैंड रियासत	371क
महाराष्ट्र रियासत.....	371
मणिपुर रियासत.....	371ग
मिज़ोरम रियासत	371छ
सिक्किम रियासत.....	371च

अदालत–

अतिरिक्त अदालतें दी स्थापना	247
अदालतें दा कम्म करदे रौहना	375
अदालतें दी अधिकारता दे अख्तेआर अनुसूची 1 च दित्ते गोदे विषे दे बारे च	सतमीं, 1, 95

भारत दा संविधान

(अनुक्रमणिका)

उच्च अदालत ते सर्वोच्च अदालत थमां बक्ख अदालतें दा गठन ते संगठन	सतमीं, 2, 3
सर्वोच्च अदालत थमां बक्ख अदालतें दी अधिकारता ते अख्तेआर —	
समवर्ती सूची च दित्ते गेदे विषे दे बारे च	सतमीं, 3, 46
राज्य सूची च दित्ते गेदे विषे दे बारे च	सतमीं, 2, 65
अदालत दा अवमान—	
उच्च अदालत थमां बक्ख अदालतें दा अवमान	सतमीं, 3, 14
आंध्र प्रदेश —	
दे आस्तै राज्यसभा च सीटें दी बंड	चौथी
च केंदरी विष्वविद्यालय दी स्थापना	371ड
दी विधानसभा आस्तै बषेप प्रावधान.....	378क
रियासत दे सरबंधे च बषेप प्रावधान	371घ
आनुपातिक प्रतिनिधित्व —	
इक्कला बदलजोग वोट राहें राज्य विधान—परिषद् दे सदस्यें दा चनांS	171(4)
राष्ट्रपति दा चनांS	55(3)
राज्यसभा च राज्य दे नुमायंदे दा चनांS	80(4)
उपराष्ट्रपति दा चनांS	66(1)
आमदनी पर टैक्स — परिभाषा	366(29)
आयुध, अग्न्यायुध, गोलाबरूद ते विस्फोटक.....	सतमीं, 1, 5
आसूचना ते अन्वेशन —	
केंदरी ब्यूरो.....	सतमीं, 1, 8
इलाकाई परिशद् —	
इलाकाई परिषदें दा गठन	छेमीं, 2
इलाकाई परिषदें दा भंग होना	छेमीं, 16
इलाकाई जि'ला ते इलाकाई कोषें दा प्रबंध	छेमीं, 7

इलाकाई परिषदें दे अख्तेआर –

ग्रांS परिषद् जां अदालत गठत करना	छेमी, 4
टैक्स लाना ते राजस्व कठेरना	छेमी, 8
कनून बनाना.....	छेमी, 3
इलाकाई परिषदें गी सिवल प्रक्रिया संहिता ते दंड प्रक्रिया संहिता दे तैहूत अख्तेआर दित्ते जाना	छेमी, 5
इलाकाई परिषदें आसेआ बनाए गेदे कनूनें, वगैरा दा प्रकाषन	छेमी, 11
संक्रमणकाली प्रावधान	छेमी, 19

उच्च अदालत, रियासतें च –

उच्च अदालतें दे प्रशासनक खर्च रियासत दे कठेरमें कोष पर भार होना.....	229(3)
उच्च अदालतें गी सर्वोच्च अदालत कन्ने सरबंधत किष प्रावधानें दा लागू होना	218

मुख्य न्यांमूर्ति –

कार्यकारी मुख्य न्यांमूर्ति दी नियुक्ति	223
मुख्य न्यांमूर्ति दी नियुक्ति – हेठ दिक्खो मुख्य न्यांमूर्ति ते होर जज्ज।	

मुख्य न्यांमूर्ति दे अख्तेआर –

कार्यकारी जज्जें दी नियुक्ति करने दी	224(2)
अपर जज्जें दी नियुक्ति करने दी	224(1)
उच्च अदालत दे अधिकारियें ते सेवकें दी नियुक्ति करने दी	229(1)
उच्च अदालतें दियें बैठकें च सेवानिवृत्त जज्जें दी नियुक्ति करने दी	224क
होर जज्जें दी नियुक्ति दे सरबंधे च मुख्य न्यांमूर्ति कन्ने मषवरा कीता जाना.....	217(1)
मुख्य न्यांमूर्ति ते होर जज्जें दी –	
सेवानिवृत्ति दी उमर	217(1), 224(3)
नियुक्ति ते औहदे दियां शर्ता	217, 224, 224क

दा आचरण चर्चा दा विषे नेई होना –

संसद च	121
रियासती विधान–मंडल च	211

भारत दा संविधान**(अनुक्रमणिका)**

दी आयु दा नर्धारण	217(3)
आसेआ सघंद जां प्रतिज्ञा	219
दे औहदे छोड़ने परैत कनूनी-व्यवसाय पर रोक	220
दे रूप च नियुक्ति आस्तै योग्यतां	217(2)
गी औहदे थमां हटाया जाना	217(1), परंतुक (ख)
दे सरबंधै च प्रक्रिया	218
आसेआ औहदा छोड़ना	217(1), परंतुक (क)
दियां तनखाहीं वगैरा	221, दूर्ई, घ, 10
दा इक उच्च अदालत थमां दूर्ई उच्च अदालत च तबादला	222
दे औहदे दा खाल्ली होना	271(1), परंतुक (ग)
उच्च अदालतें दा गठन ते संगठन	216, सतमीं, 1, 78
रिकार्ड अदालत	215
उच्च अदालत दी परिभाषा	366(14)
दो जां मतियें रियासतें आस्तै इक गै उच्च अदालत दी स्थापना	231
संघ राज्यक्षेत्रें आस्तै	241
उच्च अदालतें दी अधिकारता	225
उच्च अदालतें दी अधिकारता दा संघ राज्यक्षेत्रें पर विस्तार जां ओहदा अपवर्जन	230, सतमीं, 1, 79
उच्च अदालतें दे अधिकारियें दी नियुक्ति वगैरा	229
उच्च अदालतें दी भाषा – दिक्खो भाशा।	
उच्च अदालतें दे अख्तेआर –	
किष रिट्टां जारी करने दी	226
अवमान आस्तै दंड देने दी	215
सभनें अदालतें दे अधीक्षण दी	227
अपर जां कार्यकारी जज्जें दी सेवानिवृत्ति	224(3)
उच्च अदालतें दे अधीन अदालतें पर नियंत्रण शामिल होग	235

भारत दा संविधान

(अनुक्रमणिका)

उच्च अदालतें गी किष मामलें दा तबादला	228
अंतरकाली औद्ध दे बारे च प्रावधान.....	376
उड़ीसा –	
आस्तै राज्य सभा च सीटें दी बंड	चौथी
राज्य	पैहली
उत्तर प्रदेश –	
आस्तै राज्य सभा च सीटें दी बंड	चौथी
आस्तै विधान परिषद्	168
राज्य	पैहली
उत्तराधिकार –	
संपत्ति, आस्तियें, अधिकारें, जिम्मेवारियें ते बाध्यताएं दा	294–295
उत्पाद–शुल्क –	
वित्त दे तैहत दिक्खो ।	
उत्प्रेषण रिट्ट कडढने दा उच्च अदालत दा अख्तेआर	226
उद्योग –	
संसद आसेआ रक्षा दे मकसद आस्तै जां युद्ध दे संचालन आस्तै जरूरी घोषत कीते गे	सतमीं, 1, 7
होर	सतमीं, 2, 24
संघ दे नियंत्रण दे अधीन	सतमीं, 1, 52
दे प्रबंध च कम्मकारें दा हिस्सा लैना	43क
उद्योगक ते श्रम झमेले	सतमीं, 3, 22
उद्योगक झमेले, संघ दे कर्मचारियें कन्नै सरबंधत	सतमीं, 1, 61
उद्योगक मनापली, गुट ते न्यास.....	सतमीं, 3, 21
उपखंड, परिभाषा	366(27)
उपनिवेशन	सतमीं, 2, 18
उपाधियां –	

उपाधियें दा अंत	18
भारत दे नागरिक कुसै बदेपी राज्य कोला कोई उपाधि स्वीकार नेई करडन	18(2)
राज्य सेवक राष्ट्रपति दी मंजूरी बगैर कुसै बदेपी राज्य कोला कोई भेंट वगैरा स्वीकार नेई करडन	18(3) ते (4)
राज्य, सैना जां विद्या सरबंधी सम्मान दे छुट्ट होर कोई उपाधि प्रदान नेई करग	18(1)
उस-थाहरी –	
प्रांत, देसी राज्य, राज्य, वगैरा दी परिभाषा	366 (7)
ऐंग्लो इंडियन समुदाय –	पैहली
परिभाषा	366(2)
दे फायदे आस्तै शैक्षिक अनुदान	337
किष नौकरियें च नियुक्ति दे बारे च बषेप प्रावधान	336
लोकसभा च नामजदगी दे बारे च बषेप प्रावधान	331
दा राज्य विधान सभा च नुमायंदगी दे बारे च बषेप प्रावधान.....	333
दी बषेप नुमायंदगी दा पंजाहें बरें परैत नेई रौहने सरबंधी बषेप प्रावधान	334
अमरजैसी –	
वित्ती अमरजैसी दी सूरतै च रियासतें दा निदेष	360(3)
अमरजैसी दी सूरत च उद्घोषना	360(1)
वित्ती अमरजैसी दा रद्द करना वगैरा	360(2)
अमरजैसी दे दरान बोल्लने दी अजादी, दे अधिकार दे प्रावधानें दा स्थगन	358
अमरजैसी दे दरान मूल अधिकारें दे चलन दा स्थगन	359
मूल अधिकारें दे तैहत बी दिक्खो।	
अमरजैसी दी उद्घोषना	352
अमरजैसी दी परिभाषा	366(18)
अमरजैसी दी औद्ध	352(4) ते (5)
अमरजैसी दा प्रभाव.....	353
अमरजैसी दी उद्घोषना दा संसद दे हर इक सदन दे सामनै रक्खेआ जाना	352(4)

भारत दा संविधान

(अनुक्रमणिका)

अमरजैसी गी हटाना	352 (2) ते (7)
अमरजैसी प्रावधान –	
अमरजैसी कुसै रियासत च संविधानक तंत्र दे नकाम होई जाने दी सूरत च	356
अमरजैसी प्रावधान दे समे दी औद्ध	356(4)
अमरजैसी प्रावधाने दा पंजाब रियासत गी लागू होना	359(क)
अमरजैसी प्रावधाने गी संसद दे हर इक सदन दे सामने रखेआ जाना	356(3)
अमरजैसी दी उद्घोषना दे दरान विधायी अख्तेआरे दा इस्तेमाल	357
अमरजैसी उद्घोषना दा हटाना, ओहदे च परिवर्तन वगैरा	356(2)
अमरजैसी दरान राजस्वें दी बंड सरबंधी प्रावधाने दा लागू होना	354
अमरजैसी दी उद्घोषना – परिभाषा	366(18)
कताबां	सतमीं, 3, 39
कनून –	
मजूदा –	
कनूनें दा बनेआ रौहना.....	372(1)
कनूनें दी परिभाषा.....	366(10)
भाग 3 दे प्रावधाने कनूनें असंगत होने पर कनूनें दा सिफर होना	13(1)
मजूदा कनूनें ते राज्य दे एकाधिकार दा प्रावधान करने आहले कनूनें दी व्यावृत्ति.....	305
बोल्लने दी अज़ादी वगैरा दे अधिकार पर रोक लाना	19(2) थमां (6) तगर
मूल अधिकार बी दिक्खो।	
कनूनी कारवाइयां – संघ ते रियासतें आसेआ जां उं दे बरुद्ध.....	300
कनूनें दे बरुद्ध अपराध –	
सूची 1 दे विषे कनूनें सरबंधत	सतमीं, 1, 93
सूची 2 दे विषे कनूनें सरबंधत	सतमीं, 2, 64
कनूनें गी मानता	सतमीं, 3, 12
कनूनीकरण, संपदाएं दे अर्जन च किष अधिनियम ते विनियम	31ख ते नौमीं

भारत दा संविधान

(अनुक्रमणिका)

कम्मकार –

उद्योग दे प्रबंध च कम्मकारें दा हिस्सा लैना43(क)

कम्मकारें आस्तै नर्बाह मंजूरी – दिक्खो निदेशक तत्व ।

कर्त्तब्व –

मूल51(क)

वित्त दे तैहत् बी दिक्खो ।

कर्नाटक –

आस्तै राज्य सभा च सीटें दी बंड चौथी

आस्तै विधान परिषद्168

राज्य पहली

करंतीन –

अंतर रियासती सतमी, 1, 81

पत्तन सतमी, 1, 28

करंसी, सिक्का नर्माण ते वैध निविदा सतमी, 1, 36

कराधान परिभाषा356(28)

कारखाने सतमी, 3, 36

कार्यपालिका अख्तेआर-संघ/राज्य298

कार्यपालिका अख्तेआर दा विस्तार53, 154, 298

कारोबार करने दा अख्तेआर53, 154, 298

संपत्ति अर्जित करने दा अख्तेआर53, 154, 298

बपार करने दा अख्तेआर298

कीमत नियंत्रण..... सतमी, 3, 34

कुटीर उद्योगें गी राज्य आसेआ प्रोत्साहन43

कृपाण – दिक्खो मूल अधिकार ।

भारत दा संविधान

(अनुक्रमणिका)

कृषि	सतमीं, 2, 14
कृषि आमदन, परिभाषा	366, 1
कृषि-रिणता, मुक्ति	सतमीं, 2, 30
कृषि ते पशुपालन, संगठन.....	48
केरल –	
आस्तै राज्य सभा च सीटें दी बंड	चौथी
राज्य	पैहली
कौंसली नुमायंदगी	सतमीं, 1, 11
खंड, परिभाषा	366(5)
खान ते खनिज –	
दा विनियम ते विकास –	
संघ दे नियंत्रण तैह्त	सतमीं, 1, 54
होर मामलें च	सतमीं, 2, 23
श्रम बी दिक्खो ।	
खीरी अदेश	132(3)
खुल्ले समुंदर जां गासै च डाके जां अपराध; कनूने खलाफ अपराध	सतमां 1, 21
खेदां	सतमीं, 2, 33
ग्रांड सभा	243(क)
गुजरात –	
आस्तै राज्य सभा च सीटें दी बंड	चौथी
विकास बोर्डें दी स्थापना आस्तै राज्यपाल दी बषेप जिम्मेवारी.....	371(2)
राज्य	पैहली
	सतमीं, 2, 25
गैस ते गैस दा कारखाना –	
सधारण खंड अधिनियम दे प्रावधानें दा संविधान दे स्पष्टीकरण च लागू होना	367

भारत दा संविधान

(अनुक्रमणिका)

ग्रांS पंचैतें दा राज्य आसेआ गठन	40
गोला बरूद दिक्खो आयुध।	
गौ-हत्या, रियासत आसेआ रोक लाई जानी	48
गोवा-	
आस्तै राज्य सभा च सीटें दी बंड	चौथी
राज्य दे सरबंधे च बषेण प्रावधान	371झ
राज्यक्षेत्र	पैहली
चंडीगढ़ राज्यक्षेत्र	पैहली
चनांS आयोग	324, सतमीं, 1, 72
आयुक्त -	
मुख चनांS आयुक्त ते होर चनांS आयुक्तें दी नियुक्ति	324(2) ते (3)
आयुक्तें दियें, सेवा वगैरा दियां शर्ता	324(5)
इलाकाई आयुक्त	324(4)
आयुक्तें गी औहदे थमां हटाया जाना	324(5), परंतुक
रियासती विधान-मंडल दे कुसै सदस्य दी अयोग्यता कन्नै सरबंधत प्रज्जें पर राज्यपाल दा	
चनांS आयोग आसेआ राS लैना	192(2)
संसद दे कुसै सदस्य दी अयोग्यता कन्नै सरबंधत प्रज्जें पर राष्ट्रपति दा	
चनांS आयोग आसेआ राS लैना	103(2)
चनांS आयोग दा कर्मचारी अमला	324(6)
चनाएं दे अधीक्षण, निदेषन ते नियंत्रण दा चनांS आयोग च शामिल होना	324(1)
संसद ते रियासती विधान-मंडलें आस्तै चनाएं दे सरबंधे च कनून बनाने दा	
संसद दा अख्तेआर	327, सतमीं, 1, 72
रियासती विधान-मंडल आस्तै चनाएं दे सरबंधे च कनून बनाने दा रियासती विधान-मंडल	
दा अख्तेआर	328, सतमीं, 2, 37
चनांS सरबंधी मामलें च अदालतें आसेआ दखल देने पर रोक	329

भारत दा संविधान

(अनुक्रमणिका)

इक सधारण चनांS –नामावली दा होना	325
हर इक जनगणना परैत इलाकाई चनांS–क्षेत्रे च परती समायोजन	82
मताधिकार, व्यस्क	326
चलचित्र फिल्म	
प्रदर्शन आस्तै चलचित्र फिल्में गी मंजूरी	सतमीं, 1, 60
चान–चक्की कोश – दिक्खो वित्त ।	
छौनी	सतमीं, 1, 3
छूहूत–छात दा अंत	17
जंगल	48क, सतमीं, 3, 17क
जंगली जीव जंतुये ते पक्षिये दी सांभ–सम्हाल	सतमीं, 3, 17ख
जंगली जीवे दी रक्षा	48क
जनगणना	सतमीं, 1, 69
जनजातियां, यायावरी ते प्रवासी	सतमीं, 3, 15
जनसंख्या, नियंत्रण ते परिवार नियोजन	सतमीं, 3, 20क
जनम ते मृत्यु	सतमीं, 3, 30
जम्मू–कश्मीर –	
दे आस्तै राज्य सभा च सीटें दी बंड	चौथी
राज्य	पैहली
दे सरबंधे च आरजी प्रावधान	370
जरूरी प्रदाय ते सेवां –	
बनाई रक्खने आस्तै निवारक नज़रबंदी	सतमीं, 3, 3
जल –	
अंतर रियासती नदिये जां नदी घाटिये च जल सरबंधी झमेले.....	262
जल प्रदाय, सिंचाई वगैरा.....	सतमीं, 2, 17

जलमार्ग –

संसद आसेआ घोषत राष्ट्री जलमार्ग	सतमीं, 1, 24
अंतरदेशी.....	सतमीं, 2, 13

जांच, सर्वेक्षण ते आंकडे—

सूची 1 दे विषे कन्ने सरबंधत	सतमीं, 1, 94
सूची 2 ते 3 दे विषे कन्ने सरबंधत	सतमीं, 3, 45

जिमीं, भू-घृति वगैरा पर अधिकार

सतमीं, 2, 18

जिमीं लगान, ओहदा नर्धारण ते कठेरन, जिमीं-रिकार्ड वगैरा रक्खना

सतमीं, 2, 45

जि'ला जज्ज –

जि'ला जज्जे दी नियुक्ति	233
न्यायिक सेवा च जि'ला जज्जे थमां बक्ख व्यक्तिये दी भर्ती	234
किष जि'ला जज्जे दी नियुक्ति, वगैरा दा कनूनीकरण	233क

जि'ला परिषद् –

जि'ला परिषद् दा गठन	छेमीं, 2
जि'ला परिषद् दा भंग	छेमीं, 16
जि'ला परिषद् आसेआ जि'ला ते इलाकाई कोषे दा प्रबंध	छेमीं, 7

जि'ला परिषद् दे अख्तेआर –

ग्रांड परिषद् जां अदालत गठत करना	छेमीं, 4
प्राइमरी स्कूल, वगैरा स्थापत करना	छेमीं, 6
टैक्स लाना ते राजस्व कठेरना	छेमीं, 8
कनून बनाना	छेमीं, 3
जनजातिये थमां बक्ख व्यक्तिये दी शाहबुहारी ते बपार दे नियंत्रण आस्तै विनियम बनाना	छेमीं, 10
जि'ला परिषदे गी सिविल प्रक्रिया संहिता ते दंड प्रक्रिया संहिता दे तैह्त अख्तेआर दित्ते जाने.....	छेमीं, 5
जि'ला परिषदे आसेआ बनाए गेदे कनूनें, वगैरा दा प्रकाषन	छेमीं, 11
स्वामिस्वे दा हिस्सा	छेमीं, 9(1)

भारत दा संविधान

(अनुक्रमणिका)

जि'ला बोर्ड.....	सतमीं, 2, 5
जेहलखाना.....	सतमीं, 3, 34
ट्रिब्यूनल –	
प्रशासनिक	323क
होर मामलें आस्तै	323ख
डाक-तार	सतमीं, 1, 31
डाक-तार ते टैलीफोन	सतमीं, 1, 31
डाकघर, बचत बैंक	सतमीं, 1, 39
तमिलनाडु –	
आस्तै राज्य सभा च सीटें दी बंड	चौथी
राज्य	पैहली
तलाक	सतमीं, 3, 5
तीर्थ यात्रां –	
भारत थमां बाहर दे थाहरें दी	सतमीं, 1, 20
होरनें थाहरें दी	सतमीं, 2, 7
तेल –	
तेलक्षेत्रें ते खनिज तेल संपदा दा विनियमन ते विकास	सतमीं, 1, 53
खान्नें ते तेलक्षेत्रें च श्रम ते सुरक्षा दा विनियमन.....	सतमीं, 1, 55
तोल ते माप –	
दे मानक निष्पत्त करना	सतमीं, 1, 50
त्रिपुरा –	
आस्तै राज्य सभा च सीटें दी बंड	चौथी
राज्य	पैहली
दंड प्रक्रिया.....	सतमीं, 3, 2
जुआ दिक्खो दा।	

भारत दा संविधान

(अनुक्रमणिका)

दंड विधि	सतमीं, 3, 1
दमण ते दीव संघ राज्यक्षेत्र	पैहली
दाऽ ते जूआ.....	सतमीं, 2, 34
दादरा ते नागर हवेली राज्यक्षेत्र.....	पैहली
दिल्ली –	
आस्तै राज्यसभा च सीटें दी बंड	चौथी
राज्यक्षेत्र	पैहली
दिवालियापन – दिक्खो शोधन असमर्थता ।	
देवस्वम् कोश –	
सलाना दित्ती जाने आहली	290क
केरल रियासत च	290क
तमिलनाडु रियासत च	290क
देसी रियासत, परिभाषा	366(15)
दोश, अनुयोज्य	सतमीं, 3, 8
दोहार, परिभाषां.....	366(4)
वित्त बी दिक्खो ।	
दोहरा परिसंकट	20(2)
धन–बिल्ल – दिक्खो बिल्ल ।	
धार्मक विन्यास	सतमीं, 3, 28
नगर निगम – निगम दे तैहत दिक्खो ।	
नगरपालिकां –	
नगरपालिकाएं दे लेखे दी संपरीक्षा	243य
नगरपालिकाएं दा गठन	243थ
वार्ड कमेटियां, वगैरा दा गठन ते संरचना.....	243घ
नगर पालिकाएं दी संरचना	243द

भारत दा संविधान

(अनुक्रमणिका)

परिभाषां	2543त
नगरपालिकाएं दी सदस्यता आस्तै योग्यतां.....	243फ
नगरपालिकाएं दी औद्ध	243प
नगरपालिकाएं आस्तै चनांS	243यक
नगरपालिकाएं दे अख्तेआर, प्राधिकार ते जिम्मेवारियां	243ब
नगरपालिकाएं आसेआ टैक्स लाने दा अख्तेआर ते उं'दे कोष	243भ
सीटें दा आरक्षण	243न
नगरपालिक द्राम	सतमीं, 2, 13
नदी ते नदी घाटी –	
अंतर रियासती नदियां ते नदी घाटियें दा विनियम ते विकास	सतमीं, 1, 56
नशील द्रव्य	सतमीं, 3, 19
नशीले पेय, वगैरा – दिक्खो मद्यनिशेध ।	
नागरिकता –	
संविधान दे रम्भ पर	5
दा संसद आसेआ विनियमित कीता जाना	11
नागरिकता दा अधिकार –	
नागरिकता दे अधिकारें दा बनेआ रौहना	10
पाकिस्तान थमां विस्थापन करने आहले	6
पाकिस्तान गी विस्थापन करने आहले व्यक्तियें दे नागरिकता दे अधिकार	7
भारत थमां बाहर रौहने आहले भारती मूल दे व्यक्तियें दे नागरिकता दे अधिकार	8
नागालैंड –	
आस्तै राज्यसभा च सीटें दी बंड	चौथी
राज्य दे सरबधे च बषेप प्रावधान	371क
राज्य.....	पैहली

नाट्यशैली ते नाट्य प्रदर्शन	सतमीं, 2, 33
नाव अधिकरण सरबंधी अधिकारता	सतमीं, 1, 95
निखात निधि	सतमीं, 2, 44
निगम –	
बपार निगम, जिं'दे तैहत बैंककारी, बीमा ते वित्ती निगम बी न.....	सतमीं, 1, 43
निगमें दा, भाएं ओह बपारी निगम होन जां नेई, ते जिं'दे उद्देय्य इक रियासत	
तगर गै सीमत नेई न.....	सतमीं, 1, 44
उप्पर आखे गेदे थमां बक्ख विष्वविद्यालयें दा निगमन, विनियमन ते परिसमापन	सतमीं, 2, 32
नगर निगम	सतमीं, 2, 5
निगम-टैक्स, परिभाषा.....	366(6)
वित्त बी दिक्खो।	
प्रिवी पर्स दी समाप्ति	363क
नियंत्रक-महालेखापारखी.....	सतमीं, 1, 75
दे प्रषासनक खर्चे, भारत दे कठेरमें कोष पर भार होडन.....	148(6)
दी नियुक्ति.....	148, 1
आसेआ लेखापरीक्षा रपोट	151
दी सेवा दियां शर्ता	148(5)
दे कर्त्तब ते अख्तेआर	149
दा भावी नियुक्ति आस्तै योग्य नेई होना	148(4)
आसेआ औहधे दी सघंद	148(2)
आसेआ लेखें गी प्रस्तुत करने दे ढंग सरबंधी निदेश दे अख्तेआर	150
गी औहदे थमां हटाया जाना	148(1)
दी तनखाह वगेरा	148(3), दूई, उ
दी संक्रमणकाली औद्ध दे बारे च बषेप प्रावधान	377

भारत दा संविधान

(अनुक्रमणिका)

नियोजन ते बेकारी –सतमीं, 3, 23

निर्बधन –

युक्तियुक्त निर्बधन दा अधिरोपण19

निवारक नज़रबंदी –

सलाहकार बोर्ड –

दा गठन ते ओहदियां रपोटां.....22(4)(क)

आसेआ अपनाई जाने आहली प्रक्रिया22(7)(ग)

कुसै रियासत दे सुरक्षा सरबन्धी कारणें कन्नै निवारक नज़रबंदीसतमीं, 3, 3

भारत दे सुरक्खेआ सरबन्धी कारण करी निवारक नज़रबंदीसतमीं, 1, 9

निरोध अवधि –

दा त्र'ऊं म्हीनें थमां बद्ध नेई होना22(4)

दा किष सूरतें च त्र'ऊं म्हीनें थमां बद्ध होना22(4)(क) ते (ख)

निरोध दी बद्धो-बद्ध हद्द दा सदन आसेआ विहित कीता जाना22(7)(क) ते (ख)

निवारक निरोध दे तैहत निरुद्ध व्यक्ति गी नेह तत्थें गी संसूचित

नेई कीता जाना जेहड़े लोकहित दे बरुद्ध न22(6)

निरोध दे अधारें दी संसूचना22(5)

नुमायंदगी – दिक्खो आनुपातिक प्रतिनिधित्व।

नैहरांसतमीं, 2, 17

न्यांS –

प्रशासनसतमीं, 3, 11क

बरोबर न्यांS ते मुख्त कनूनी मदाद39(क)

समाजक, आर्थक ते राजनीतक न्यांS हासल करनाप्रस्तावना, 38, सतमीं, 3, 11क

न्यांS प्रशासन –

जि'ला जज्ज

दी नियुक्ति233(1)

दी परिभाषा236(ख)

भारत दा संविधान

(अनुक्रमणिका)

दे रूपै च नियुक्त होने आस्तै योग्यता.....	233(2)
जेहड़े भारत दा नागरिक नेई न, उं दी जि'ला जज्ज दे रूपै च नियुक्त होने आस्तै योग्यता	233(2)
किष जि'ला जज्जें वगैरा दी नियुक्ति दा कनूनीकरण	233(क)
उच्च अदालत – दिक्खो उच्च अदालत ।	
सर्वोच्च अदालत – दिक्खो सर्वोच्च अदालत ।	
न्यायिक कारवाइयें गी मानता	सतमीं, 3, 12
न्यायिक सेवा –	
कुसै रियासत च न्यायिक सेवा च नियुक्ति	234
परिभाषा	236(ख)
न्यायपालिका दा कार्यपालिका थमां बक्खकरण – दिक्खो निदेशक तत्व	
न्यास ते न्यासी –	सतमीं, 3, 10
शासकीय न्यासी	सतमीं, 3, 11
पंचैतां –	
संघ राज्यक्षेत्रें गी लागू होना	243ठ
पंचैतें दे लेखे दी संपरीक्षा	233ञ
चनांऽ सरबंधी मामलें च अदालतें दे दखल दी मनाही पर रोक	243ण
पंचैतें दी संरचना.....	243ग
पंचैते दा गठन	243ख
माल्ली स्थिति दी परती नज़रसानी आस्तै वित्त आयोग दा गठन	243झ ते 280(3) (खख)
मजूदा कनूनें दा बनेआ रौहना	243ढ
पंचैतें दियां परिभाषां	243
सदस्यता आस्तै अयोग्यतां	243च
पंचैतें दी औद्ध	243ङ
पंचैतें आस्तै चनांऽ	243ट
ग्रांऽ सभा	243क

भारत दा संविधान

(अनुक्रमणिका)

लेखे दा रखेआ जाना ते उं'दी संपरीक्षा करना	243अ
भाग दा किष क्षेत्रें गी लागू नेई होना	243ड
अख्तेआर, प्राधिकार ते जिम्मेवारियां	243छ
पंचैतें आसेआ टैक्स लाने दे अख्तेआर ते उं'दे कोष.....	243ज
सीटें दा आरक्षण	243घ
पंजाब –	
आस्तै राज्य सभा च सीटें दी बंड	चौथी
राज्य	पैहली
पश्चिमी बंगाल –	
आस्तै राज्य सभा च सीटें दी बंड	चौथी
राज्य	पैहली
पत्तन –	
नेह् पत्तन जि'नेंगी संसद आसेआ महापत्तन घोषत कीता गोदा ऐ	सतमीं, 1, 27
होर पत्तन	सतमीं, 3, 31
परमाणु ऊर्जा	सतमीं, 1, 6
परमादेश रिट्ट कड्ढने आस्तै उच्च अदालत दे अख्तेआर	266(1)
परिभाशा –	
किष औह्दे दी	366
भारत दे कठेरमें कोष दी	266(1)
रियासत दे कठेरमें कोष दी	266(1)
“भारत दे चान–चक्की कोष” दी	267(1)
“रियासत दे चान–चक्की कोष” दी	267(2)
“देसी रियासत” दी.....	363(2)(क)
“धन बिल्ल” दी –	
रियासती विधान–मंडल च	199

संसद च	110
"षुद्ध आगम" दी	279(1)
"षासक" दी	363(2)(ख)
"अनुसूचित क्षेत्र" दी	पञ्चमी, ग, 6(1)
भाग 3 दे मकसदें आस्तै "राज्य" दी	12
भाग 4 दे मकसदें आस्तै "राज्य" दी	36
परिवार नियोजन –	
जनसंख्या नियंत्रण ते.....	सतमी, 3, 20क
परिसीमा	सतमी, 3, 13
पशु –	
पशुयें प्रति क्रूरता पर रोक	सतमी, 3, 17
जंगली जीव-जंतुयें ते पक्षियें दी रक्षा	सतमी, 3, 17ख
पशु चकित्सा, प्रषिक्षण ते व्यवसाय, पशुधन दी रक्षा वगैरा	सतमी, 2, 15
पांथशालां ते पांथशालापाल	सतमी, 2, 31
पागलपन ते मानसिक हीनता –	
पागल ते मानसिक द्रिष्टी कन्नै हीन व्यक्ति	सतमी, 3, 16
पासपोर्ट	सतमी, 1, 19
पिछड़े वर्ग –	
दी सूरत च खोज आस्तै आयोग.....	340
दी उन्नति आस्तै बषेष प्रावधान.....	15(4)
दी नियुक्ति, वगैरा च आरक्षण	16(4)
पुडुचेरी –	
आस्तै राज्यसभा च सीटें दी बंड	चौथी
आस्तै स्थानी विधान-मंडल जां मंत्रि-परिषद् दा जां दौनें दा सिरजन.....	239क

राज्यक्षेत्र	पैहली
पुरातत्वी थाहर ते अवशेश –	
राष्ट्री म्हत्तव दे	सतमीं, 3, 40
पुल ते फेरी	सतमीं, 2, 13
पुलीस	सतमीं, 2, 2
पुलीस बल–	
दे अख्तेआरें ते अधिकारता दा राज्य थमां बाहरले क्षेत्रें ते रेल क्षेत्र पर विस्तार.....	सतमीं, 1, 80
पूरुत कम्म.....	सतमीं, 3, 28
पेटेंट, अविशकार ते डिजाइन.....	सतमीं, 1, 49
पेट्रोलियम ते पेट्रोलियम उत्पाद	सतमीं, 1, 53
पैंशन –	
परिभाषा	366(17)
रियासतें आसेआ दित्ता जाना	सतमीं, 2, 42
संघ आसेआ दित्ता जाना	सतमीं, 1, 71
पोतपरिवहन ते नौपरिवहन –	
समुंदरी	सतमीं, 1, 25
अंतरदेषी जलमार्ग.....	सतमीं, 3, 32
राष्ट्री जलमार्ग	सतमी, 1, 24
प्रकाश स्तंभ	सतमीं, 1, 26
प्रतिपाल्य अधिकरण –	
शासकें दी संपदा आस्तै	सतमीं, 1, 34
होर संपदाएं आस्तै	सतमीं, 2, 65
प्रतिभूति, परिभाषा.....	366(26)
प्रतिलिप्यधिकार	सतमीं, 1, 49
प्रत्यर्पण	सतमीं, 1, 18

भारत दा संविधान

(अनुक्रमणिका)

प्रत्याभूति, परिभाषा	366(13)
प्रधानमंत्री –	
दी नियुक्ति.....	75(1)
राष्ट्रपति गी जानकारी देने दे सरबंघे च प्रधानमंत्री दा कर्तबब	78
दा मंत्रि परिषद् दा प्रधान होना	74(1)
दी तनखाह ते भत्ते	75(6), सतमीं, 1, 75
प्रवासी–	
पाकिस्तान गी ते ओहदे कन्नै – दिक्खो नागरिकता ।	
प्रशासक –	
संघ राज्यक्षेत्रें आस्तै प्रशासक दी नियुक्ति	239(1)
संघ राज्यक्षेत्रें दे प्रशासक दा अध्यादेश पेप करने दा अख्तेआर.....	239(ख)
प्रशासनक सरबंघ –	
संघ ते रियासतें बषकहार	256, 262
प्रसारण –	सतमीं, 1, 31
प्राइमरी शिक्षा ते मात्तरी भाशा	350क
प्राचीन ते इतिहासक स्मारक ते अभिलेख	सतमीं, 1, 67
फाटक, पशु अपराध पर रोक	सतमीं, 2, 16
फीस –	
अदालती च लैती जाने आहली फीस दे छुट्ट, समवर्ती सूची च दित्ते गेदे विषें	
दे बारे च फीस	सतमीं, 3, 47
अदालती च लैतियें जाने आहलियें फीसं गी छोड़िये, राज्यसूची च दित्ते गेदे विषें	
दे बारे च फीस.....	1, 66
अदालती च लैतियें जाने आहलियें फीसं गी छोड़िये, संघ सूची च दित्ते गेदे विषें	
दे बारे च फीस	सतमीं, 1, 96
सर्वोच्च अदालत गी छोड़िये होरनें अदालतें च लैती जाने आहली फीस	सतमीं, 2, 3

भारत दा संविधान

(अनुक्रमणिका)

सर्वोच्च अदालत च लैती जाने आहली फीस	सतमीं, 1, 77
फेडरल अदालत –	
परिभाषा	366(11)
दे जज्जे दे बारे च प्रावधान	374(1)
फेडरल अदालतें दे सामनै बकाया पेदे मकद्दमें, वगैरा दे बारे च प्रावधान	374(2)
फहीम –	
दी खेती, ओहदा बषेण नर्माण ते नर्यात आस्तै फरोख्त	सतमीं, 1, 59
बंदियें –	
दा निवारक नज़रबंदी दे तैहत इक रियासत थमां दूर्ई रियासत गी हटाय़ा जाना	सतमीं, 3, 4
बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट्ट कड्डने दा उच्च अदालत दा अख्तेआर	226
बजार ते मेले.....	सतमीं, 2, 28
बन्ज एकाधिकार	
गुट ते न्यास	सतमीं, 3, 21
बन्ज सरबंधी समुंदरी बेडे आस्तै शिक्षा ते प्रशिक्षण	सतमीं, 2, 25
बपार ते बन्ज –	
अंतर रियासती	सतमीं, 1, 42
संघ आसेआ नियंत्रित उद्योगें दे उत्पादें कन्नै सरबंधत	सतमीं, 3, 33
विधायी अख्तेआरें पर निर्बंधन	303
बदेषें कन्नै	सतमीं, 1, 41
राज्य दे अंदर	सतमीं, 2, 26
बन्ज दिक्खो बपार, बन्ज, वगैरा।	
बपार, बन्ज ते समागम –	
दी स्वतंत्रता	301–303
वगैरा करने दे अख्तेआर.....	298
पर निर्बंधन अधिरोपित करने दी रियासती विधान मंडल दा अख्तेआर	304

भारत दा संविधान

(अनुक्रमणिका)

संसद दा अख्तेआर	302
बपार चि'न्न ते पण्य वस्तु चि'न्न	सतमीं, 1, 49
बपार संघ	सतमीं, 3, 22
बपारक नुमायंदगी	सतमीं, 1, 11
बपारक निगम – दिक्खो निगम।	
बशेश अधिकार –	
संसद ते ओह्दे सदस्यें दा	105
बाध्यतां –	
संघ ते रियासतें दियें बाध्यताएं, संविधान दे अधीन उ'दे सरबंधै च प्रावधान	294, 295
बायलर	सतमीं, 3, 37
बालक –	
बालकें दा नियोजन – दिक्खो मूल अधिकार।	
बालकें आस्तै रियासत आसेआ मुख्त ते जरूरी षिक्षा	45
बालग मताधिकार – दिक्खो चनांS।	
बिल्ल –	
रियासतें दे हितें कन्नै जुड़े दे टैक्सें पर असर पाने आहले बिल्लें पर राष्ट्रपति दी पुज्ज सफारष.....	274
बिहार –	
आस्तै राज्य सभा च सीटें दी बंड	चौथी
आस्तै विधान-परिषद्	168
राज्य	पैहली
बीकन	सतमीं, 1, 26
बीमा	सतमीं, 1, 47
बीमा निगम – निगम दे तैह्त दिक्खो।	
बेकारी दी सूरत च रियासत आसेआ मदाद	41
बेतार	सतमीं, 1, 31

भारत दा संविधान

(अनुक्रमणिका)

बैंककारी.....	सतमीं, 1, 45
बैंककारी निगम	सतमीं, 1, 43
बोस्टल संस्थां	सतमीं, 2, 4
ब्याह	सतमीं, 3, 5
भाईचारा बधाना	प्रस्तावना
भाग, परिभाषा	366(16)
भारत –	
च प्रवेश ते उस चा प्रवास ते निष्कासन.....	सतमीं, 1, 19
रियासतें दा संघ.....	1(1)
च नमियें रियासतें दा प्रवेश.....	2
दा नांS भारत अर्थात् इंडिया	1(1)
दियां भाषां	अठमीं
दी सुरक्खेआ	सतमीं, 1, 9
दा राज्यक्षेत्र	1(3)
भारत – दिक्खो इंडिया।	
भारत दा राज्यक्षेत्र	1(3)
भारत दा संविधान –	
भारत दे संविधान दा हिंदी भाषा च प्राधिकृत पाठ	394(क)
भारत दे संविधान च तरमीम, तरमीम करने दे संसद दे अख्तेआर ते ओह्दी प्रक्रिया.....	368
भारत दे संविधान दा रम्भ	394
भारत दे संविधान दी व्याख्या आस्तै सधारण खंड अधिनियम दे प्रावधानें दा लागू होना	367
लौहका नांS.....	393
भारत दे नागरिक – अपनी मर्जी कन्ने बदेपी राज्य दी नागरिकता अर्जित करने आहले व्यक्तियें दा	
भारत दे नागरिक नेई होना	9

भारत दा संविधान

(अनुक्रमणिका)

भारत रक्षा –

दे मकसद आस्तै जरूरी उद्योग	सतमीं, 1, 7
भारत दे सुरक्षा सरबंधी कारणें थमां निवारक नजरबंदी	सतमीं, 1, 9

भारत दे उपराष्ट्रपति –63

दे औहदे दियां शर्तां	66 (2) ते (4)
दा चनांS.....	66, सतमीं, 1
दा राज्य सभा च पदेन सभापति होना	64
दे चनांS कन्नै सरबंधत विषे	71
आसेआ सघंद जां प्रतिज्ञा	69
दे रूप च चनांS आस्तै योग्यतां.....	66(3)
गी औहदे थमां हटाया जाना	67, परंतुक(क)
आसेआ पद त्याग.....	67, परंतुक(क)
दियां तनखाहीं वगैरा	दूई, ग
दे औहदे दी औदध	67
दे राष्ट्रपति दे औहदे दे खाल्ली होने दी सूरत च राष्ट्रपति दे रूप च कम्म वगैरा करना	65
दे औहदे दा खाल्ली होना	68

भारत दियां भाशांअठमीं**भारत शासन अधिनियम –**

दा खातमा.....	395
दे प्रावधानें दे संक्रमण दे सरबंधै च राष्ट्रपति दा प्रावधान करने दा अख्तेआर	392

भारत स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 दा खातमा395**भारती रिजर्व बैंकसतमीं, 1, 38****भारती सर्वे.....सतमीं, 1, 68****भाशा –**

कन्नै सरबंधत कनून अधिनियमत करने आस्तै बषेप प्रावधान	349
मात्तरी भाषा च षिक्षा दियां सुविधां	350क

भारत दा संविधान**(अनुक्रमणिका)**

हिंदी भाषा दे विकास आस्तै संघ दा कर्तबब	351
भाषाई घट्ट गिंतरी आह्ले वर्गे आस्तै बषेप अधिकारी.....	350ख
बिल्लें वगैरा दे प्राधिकृत पाठ दी भाषा	348(1)(ख) ते 348(3)
हिंदी भाषा च प्राधिकृत पाठ	394क
राजभाषा—	
दे सरबंधे च अयोग ते संसद दी कमेटी	344
अंग्रेजी दा राजभाषा दे रूपै च 15एं बरें तगर जारी रौहना.....	343(2)
संघ ते कुसै रियासत दे बषक्हार जां इक रियासत ते दूर्इ रियासतै च चिट्ठी—पत्तरी दी भाषा.....	346
कुसै रियासत दी राजभाषा.....	345
संघ दी राजभाषा हिंदी होग.....	343
सर्वोच्च अदालत ते उच्च अदालत दी भाषा.....	348
कुसै रियासत दी जनसंख्या दे कुसै हिस्से आसेआ बोल्ली जाने आहली भाषा दे	
सरबंधे दे बारे च बषेप प्रावधान.....	347
संसद च बरती जाने आहली भाषा.....	120
षिकायतें गी दूर करने आस्तै दरखास्त च बरतोने आहली भाषा.....	350
रियासती विधान—मंडल च बरतोने आहली भाषा.....	210
भाषाई घट्ट गिंतरी आह्ले —	
वर्गे आस्तै बषेप अधिकारी	350ख
भूतलक्षी प्रभाव —	20 (1)
मंत्रि—परिशद —	
रियासतें आस्तै —	
दे आसेआ राज्यपाल गी सलाह। ओहदी जांच कुसै अदालत आसेआ	
नेई कीती जाहग	163(3)
मुख—मंत्री — दिक्खो मुखमंत्री	
दी सांझी जिम्मेवारी	164(2)

भारत दा संविधान

(अनुक्रमणिका)

दे कम्म	163(1)
मंत्री दी नियुक्ति	164(1)
मंत्रियें आसेआ औहदे ते राजदारी दी सघंद.....	164(3)
दौनें सदनें चा कुसै बी सदन दी कारवाइयें च हिस्सा लैने दा मंत्रियें दा अधिकार	177
मंत्रियें दियां तनखाहीं, वगैरा.....	164(5), सतमीं, 2, 40
मंत्रि-परिषद् आसेआ राष्ट्रपति गी सलाह –	
ओहदी जांच कुसै अदालत आसेआ नेई कीती जाह्ग	74(2)
मंत्रि-परिषद् दी सांझी जिम्मेवारी	75(3)
मंत्रि-परिषद् दे कम्म	74
मंत्री दी नियुक्ति	75(1)
मंत्रियें आसेआ औहदे ते राजदारी दी सघंद	75(4)
औहदे आस्तै योग्यतां	75(5)
दौनें सदनें चा कुसै बी सदन दी कारवाइयें च हिस्सा लैने दा मंत्रियें दा अधिकार.....	88
मंत्रियें दियां तनखाहीं, वगैरा	75(6), सतमीं, 1, 75
प्रधानमंत्री – दिक्खो प्रधानमंत्री ।	

मछली पकड़ना ते भीन क्षेत्र –

राज्यक्षेत्री सागरखंड थमां परें	सतमीं, 1, 57
---------------------------------------	--------------

मणिपुर –

आस्तै राज्यसभा च सीटें दी बंड	चौथी
रियासत दे सरबंघै च बषेष प्रावधान	371ग
राज्य	पैहली

मत –

आनुपातिक प्रतिनिधित्व समेत इक्कला बदलजोग वोट – दिक्खो **आनुपातिक प्रतिनिधित्व ।**

भारत दा संविधान

(अनुक्रमणिका)

मध्यप्रदेश –

राज्य सभा आस्तै सीटें दी बंड	चौथी
दी विधान परिषद्	168
राज्य	पैहली

मनोरंजन ते मौजमस्ती सतमी, 2, 33

महाद्वीपी मग्नतट –

राज्यक्षेत्री सागर-खंड जां महाद्वीपी मग्नतट जिमीं च स्थित चीजें दा संघ च शामिल होना	297
---	-----

महाधिवक्ता

दी नियुक्ति	165(1)
दे कर्तब	165(2)
दी नियुक्ति आस्तै योग्यतां	165(1)
दा मेहनताना, वगैरा	165(3)
दा रियासती विधान-मंडल दी कारवाइयें च हिस्सा लैने दा अधिकार	177
दे औहदे दी औद्ध	165(3)

महान्यांवादी –

दी नियुक्ति	76(1)
दे कर्तब	76(2)
दा सभनें अदालतें च सुनवाई करने दा अधिकार.....	76(3)
दा संसद दियें कारवाइयें च हिस्सा लैने दा अधिकार	83
दी तनखाह ते भत्ते, वगैरा	76(4)

महापत्तन –

परिभाषा	364(2)(क)
गी कनून लागू करने बारे बषेध प्रावधान	364(1)

महाप्रशासक सतमी, 3, 11

भारत दा संविधान**(अनुक्रमणिका)**

महाभियोग, राष्ट्रपति दे बरुद्ध – दिक्खो राष्ट्रपति ।

महाराष्ट्र –

दे आस्तै राज्य सभा च सीटें दी बंड	चौथी
दी विधान परिषद्	168
राज्य	पैहली

महालेखापारखी –दिक्खो – नियंत्रक–महालेखापारखी ।

माध्यस्थम्	सतमी, 3, 13
मानता – लोक कम्मं , अभिलेखें दी ते न्यायिक कारवाइयां.....	सतमी, 3, 12

माल –

दा ढोना –

वायुमार्ग, रेल जां समुंदर राहें ते राष्ट्री जलमार्गें राहें.....	सतमी, 1, 30
अंतरदेशी जलमार्गें राहें	सतमी, 3, 12

माल दे ढोने पर टैक्स – वित्त दे तैह्त दिक्खो ।

माल दी परिभाषा	366(12)
माल दा उत्पादन, सप्लाई ते वितरण	सतमी, 2, 27
भारत थमां बाहर भेजे जाने जां अंतरराज्यी परिवहन कीते जाने आहले	
माल दी क्वालिटी दे मानक	सतमी, 1, 51
माल दे स्थानी क्षेत्र च दाखल होने पर टैक्स –वित्त दे तैह्त दिक्खो ।	

मिजोरम –

आस्तै राज्य सभा च सीटें दी बंड	चौथी
रियासत दे सरबंघै च बषेप प्रावधान	371छ
राज्यक्षेत्र.....	पैहली
च जनजाति क्षेत्र	छेमी

मीन क्षेत्र.....	सतमी, 2, 21
------------------	-------------

भारत दा संविधान

(अनुक्रमणिका)

मुख्य मंत्री –

दी नियुक्ति	164	
मंत्रि-परिषद् दा प्रधान	163	
दा राज्यपाल गी जानकारी देने वगैरा दा कर्तब्व	167	
मुद्रणालय	सतमीं, 3, 39	
मूल अधिकार	भाग-3	
संस्कृति ते शिक्षा सरबंधी अधिकार –		
घट्ट गिंतरी आहले वर्गे दे हितें दा संरक्षण	29	
शिक्षा संस्थाएं दी स्थापना ते प्रषासन करने दा घट्ट गिंतरी आहले वर्ग दा अधिकार	30	
सिक्खें आसेआ कृपाण धारण करना ते लेइयै चलना	25	
मूल अधिकारें कन्नै असंगत जां उ'नेंगी घट्ट करने आहले कनूनें दा राज्य आसेआ नेई बनाया जाना	13(2)	
सिफर होना	13(1)	
मूल अधिकारें गी असरी करने आस्तै विधान	35	
मूल अधिकारें दा सषस्त्र बलें पर लागू होने च, उपांतरण करने दा संसद दा अख्तेआर	33	
गिरफ्तारी ते निवारक थमां संरक्षण	22	
हेट लिखे दे सरबंधे च संरक्षण –		
(i) अपराधें आस्तै दोषसिद्धि :		
(ii) इक गै अपराध आस्तै इक बारी कोला बद्ध विचारण; ते		
(iii) आपू अपने बरुद्ध गवाही देने दे रूपै च हाजर होना.....		20
प्राण ते शरीरक स्वतंत्रता दा संरक्षण	21	
सैना कनून लागू होने दरान मूल अधिकारें पर निर्बंधन	34	
शोषन दे बरुद अधिकार –		
सार्वजनक मकसदें आस्तै जरुरी सेवां नाफिज़ करने दा राज्य दा अख्तेआर	23(2)	
कारखानें वगैरा च ज्यानें कोला कम्म कराने पर रोक	24	
मनुक्खें दी तस्करी ते जबरी उ'दे कोला कम्म कराने पर रोक.....	23(1)	

नागरिकों का अधिकार –

शांतिपूर्वक सम्मेलन का	19(1)(ख) ते (3)
संस्थां बनाने का	19(1)(ग) ते (4)
बोल्लने दी अजादी का	19(1)(क) ते (2)
भारत च हर जगह औने-जाने का	19(1)(घ) ते (5)
कोई व्यवसाय करने का	19(1)(घ) ते (5)
भारत च कुतै बी रौहने ते बस्सी जाने का	19(1)(ङ) ते (5)
संविधानक उपचारें का अधिकार.....	32, 35
अधिकारें गी प्रवर्तित कराने आस्तै उपचार, उचित कारवाई राहें	
सर्वोच्च अदालत च	32
अमरजंसी दरान अधिकारें का निलंबन	359
अमरजंसी दे तैहत बी दिक्खो।	

बरोबरी का अधिकार –

उपाधियें का अंत	18
उपाधियें दे तैहत बी दिक्खो।	
छूहत-छात का अंत	17
कनून सामनै बरोबरी	14
लोक नियोजन दे बारे च मौकें दी समानता.....	16
पिछड़े वर्गें, अनुसूचित जातियें ते अनुसूचित जनजातियें आस्तै बषेप	
प्रावधान करने दे राज्य दे अख्तेआर	15(4)
महिलाएं ते ज्यानें आस्तै बषेप प्रवाधान करने का राज्य का अख्तेआर	15(3)
धर्म, मूलवंष, जाति, लिंग जां जनम-थाहर दे अधार पर फर्को-फर्की करने पर रोक	15(1)
सार्वजनिक थाहरें तगर पुज्जनें ते उ'नेंगी इस्तेमाल करने का नागरिक का अधिकार	15(2)

धर्म दी स्वतंत्रता का अधिकार –

किष शिक्षा संस्थाएं च धार्मिक शिक्षा च धार्मिक उपासना च हाजर होने दे बारे च स्वतंत्रता	28
--	----

(अनुक्रमणिका)

कुसे खास धर्म दे बादधे आस्तै टैक्स दे देने बारै स्वतंत्रता	27
अंतःकरण दी ते धर्म गी बेरोक-टोक मन्नने, आचरण ते प्रचार करने दी स्वतंत्रता	25
धार्मिक कर्मों दे प्रबंध दी स्वतंत्रता	26
भाग 3 दे मकसदें आस्तै राज्य दी परिभाषा	12
मूल कर्तब्व	भाग 4(क)
मेघालय –	
आस्तै राज्य सभा च सीटें दी बंड	चौथी
राज्य	पैहली
च जनजति क्षेत्र	छेमीं
मेला दिक्खो बजार ते मेले ।	
मोसम विज्ञान संगठन	सतमीं, 1, 68
यान, यंत्र नोदित	सतमीं, 3, 35
यात्तरियें ते माल दी ढोआई –	
वायुमार्ग, रेल जां समुंदरै राहें	सतमीं, 1, 30
अंतरदेषी जलमार्गें राहें	सतमीं, 3, 32
युद्ध ते शांति	सतमीं, 1, 1, 7 ते 15
योजना, आर्थक ते समाजक	सतमीं, 3, 20
रजिस्ट्रीकरण, डील/सनद ते दस्तावेजें दा	सतमीं, 3, 6
रद्द	395
राजगामित्व संपत्ति होने कन्नै पैदा होना	296
राजनयिक नुमायंदगी	सतमीं, 1, 2
राजप्रमुख	361
राजभाशा	343
दे सरबंधे च आयोग ते संसद दी कमेटी	344
दो जां मतियें रियासतें आस्तै संयुक्त लोक सेवा आयोग	315(2)

(अनुक्रमणिका)

राज्य लोक सेवा आयोग.....	315(1), सतमीं, 2, 41
लोक सेवा आयोगें दी संक्रमणकाली औद्ध दे बारे च प्रावधान	378
संघ	315(1), सतमीं, 1, 70
राजमार्ग, जि'नें गी संसद आसेआ राष्ट्री राजमार्ग घोषत कीता गेदा ऐ	सतमीं, 1, 23
राजस्थान –	
आस्तै राज्य सभा च सीटें दी बंड	चौथी
राज्य	पैहली
राजस्व, संघ संपत्ति कोला	सतमीं, 1, 32
राज्य दे कम्मं गी सौंपना –	
संघ गी	258
राज्य दी नीति दे निदेशक तत्व	भाग 4
राही-बाही ते पषुपालन, राज्य आसेआ संगठत कीता जाना	48
राज्य दी नीति दे निदेशक तत्वें दा लागू होना	37
बेकारी, बढेपा वगैरा दी हालत च मदाद दा प्रावधान राज्य आसेआ कीता जाना	41
सभनें नागरिकें आस्तै इक बरोबर सिवल संहिता राज्य आसेआ जकीनी बनाया जाना	44
कुटीर उद्योग राज्य आसेआ बढावा	43
गौ-वध वगैरा राज्य आसेआ रोकेआ जाना	48
ज्यानें आस्तै मुख्त ते जरूरी षिक्षा दा प्रावधान राज्य आसेआ कीता जाना	45
बरोबर न्यांS ते मुख्त कनूनी स्हायता	39क
अंतरराष्ट्री शांति ते सुरक्षा वगैरा दा बाद्धा राज्य आसेआ कीता जाना	51
न्यांपालिका गी कार्यपालिका थमां बक्ख करने आस्तै राज्य आसेआ कदम चुक्केआ जाना	50
कम्म दियां न्यांS-संगत ते मानवोचित दषां राज्य आसेआ जकीनी कीता जाना	42
पोषाकार स्तर ते जीवन स्तर उच्चा करना, राज्य आसेआ अपना पैहला कर्तब्व मन्नना.....	47
कम्मकारें आस्तै नर्बाह मजदूरी, वगैरा, राज्य आसेआ जकीनी कीता जाना	43
प्रसूति स्हायता जकीनी बनाने आस्तै राज्य आसेआ प्रबंध कीता जाना	42

(अनुक्रमणिका)

स्मारकें वगैरा दी सांभ-सम्हाल राज्य आसेआ कीती जानी	49
उद्योग दे प्रबंध च कम्मकारें दा हिस्सा लैना	43क
राज्य आसेआ अनुसरण कीते जाने आहले नीति तत्व	39
नषीले पेय ते दोआइयें पर रोक, राज्य आसेआ कीता जाना	47
बेकारी, वगैरा दी सूरत च, कम्म, षिक्षा ते लोक स्हायता हासल करने दा अधिकार, राज्य आसेआ जकीनी कीता जाना	41
किष तत्वे गी असरी करने आहले कनूने दी व्यावृत्ति.....	31ग
अनसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वगैरा राज्य आसेआ समाजक बेन्याई ते शोषन थमां संरक्षण कीता जाना	46
भाग 4 दे मकसदें आस्तै राज्य दी परिभाषा	36
ग्रांS पंचैत, राज्य आसेआ संगठत कीता जाना.....	40
राज्यक्षेत्री सागर खंड जां महाद्वीवी मग्नतट जिमीं च स्थित चीजें दा संघ च शामिल होना	297
राज्यपाल —	
राज्यपालें आसेआ भाषन	175—176
राज्यपालें आसेआ भत्ते, वगैरा	158
राज्यपालें आसेआ विधान—मंडल दे सभनें सलाना माल्ली ब्यौरें दा रखोआया जाना	202(1)
राज्यपालें दी नियुक्ति	155
संघ राज्यक्षेत्रें दे प्रषासकें दे रूपै च राज्यपालें दी नियुक्ति	239(2)
बिल्ल —	
बिल्लें पर इजाजत	200
राष्ट्रपति दे विचार आस्तै बिल्लें दा आरक्षण.....	200
द'ऊं जां मतियें रियासतें आस्तै इक गै राज्यपाल	153
राज्यपालें दे औहदे आस्तै शर्ता	158
मदाद ते सलाह देने आस्तै मन्त्रि—परिषद्	163

(अनुक्रमणिका)

विधान-मंडल दे सदस्ये दी अयोग्यताएं कन्नै सरबंधत सुआले पर राज्यपाले दा फैसला	192(1)
किष चान-चक्किये च राज्यपाले दे कम्मे दा नर्बाह	160
राज्यपाले दे स्यानपी अख्तेआर	163(1) ते (2), छेमी, 9 ते 18
राज्यपाले दियां उपलब्धियां, भत्ते, बषेध अधिकार ते गैरहाजरी छुट्टी दे सरबंधे च अधिकार	158(3) दूर्ई, क, सतमी, 1, 75
कुसै रियासती सरकार दी कार्यपालिका कारवाई राज्यपाल दे नांS कन्नै होई दी आखी जाहग	166(1)
राज्य दे कार्यपालिका अख्तेआर राज्यपाले च शामिल होना	154
राज्यपाले दे विधायी अख्तेआर	213
अध्यादेश दे तैहत बी दिक्खो।	
राज्यपाले आसेआ सघंद जां प्रतिज्ञा	159
राज्यपाले दा अख्तेआर –	
मजिस्ट्रेटें पर भाग 6, ध्याS 6 लागू करने दे राज्यपाले दे अख्तेआर	237
हेठ लिखे दें गी नियुक्त करने दे अख्तेआर –	
(i) महाधिवक्ता गी – महाधिवक्ता दिक्खो।	
(ii) अध्यक्ष दे औहदे पर आरज़ी खाल्ली थाहरे भरने आस्तै राज्य विधान सभा दे सदस्य गी	180(1)
(iii) सभापति दे औहदे आस्तै खाल्ली थाहरे गी भरने आस्तै राज्य विधान परिषद् दे सदस्य गी.....	184(1)
(iv) लोकसभा आयोग दे सदस्ये गी – दिक्खो लोक सेवा आयोग।	
(v) मंत्रिये गी –दिक्खो मंत्रि-परिशद्।	
विधान-मंडल दे कुसै सदस्य दी अयोग्यता कन्नै सरबंधत मामले च निर्वाचन आयोग दी राS लैने दे अख्तेआर	192(2)
संघ गी राज्य दे कम्म सौंपने दा अख्तेआर	258क

(अनुक्रमणिका)

राज्य लोक सेवा आयोग दे अध्यक्ष ते सदस्ये दिये सेवा दिये शर्ते, वगैरा	
दे बारे च विनियम बनाने दा अख्तेआर	318
हेठ लिखे दे सरबंधे च नियम बनाने दे अख्तेआर –	
अदेषे ते होर लिखते दा प्रमाणीकरण	166(2)
सरकार दा कम्म सुविधापूर्वक कीता जाना	166(3)
राज्य विधान-मंडल दे सदने च संचार कन्ने सरबंधत प्रक्रिया.....	208(3)
कुसे उच्च अदालत आस्तै अधिकारिये दी भर्था वगैरा	299(1), परंतुक
विधान-मंडल दे सदस्ये दे सचिवी अमले दी भर्था	187(3)
माफ वगैरा करने ते दंड अदेष, निलंबन जां घट्ट करने दे अख्तेआर	161
विधान सभा च आंग्ल-भारतीये गी नामजद करने दा अख्तेआर	333
विधान-परिषद् च सदस्ये गी नामजद करने दा अख्तेआर.....	71(3)(ख) ते 171(5)
राज्यपाले दा कनूनी कारवाइये कन्ने संरक्षण	361
राज्यपाल दे रूपे च नियुक्ति आस्तै योग्यतां	157
राज्यपाल दी सफारष पर कुसे अनुदान दी मंग कीती जाना	203(3)
धन-बिल्ल पेष कीते जाने आस्तै जरूरी.....	207
लोडे-थोडे गी प्रक्रिया दे विषे दे रूपे च मन्नना	255
राज्यपाल आसेआ पद-त्याग करना	156(2)
राज्यपाल दा विधान-मंडल च भाषन ते उ'नेंगी सनेह भेजने दा अधिकार	175
राज्यपाल दा विधान-मंडल गी सददने, सत्र स्थगत करने ते भंग	
करने दा अधिकार	174
राज्यपाल आसेआ बषे भाषन	176
राज्यपाल दी बषे जिम्मेवारी	371(2)
अनुपूरन अनुदान, राज्यपाल विधान-मंडल दे सामने रखोआहग	205(1)
राज्यपाल दे औहदे दी औद्ध	156

(अनुक्रमणिका)

राज्य विधान-मंडल

दे अधिनियमें दा सफारषें ते पुज्जमंजूरी सरबंधी लोडें-थोडें दी घाट च	
गैरकनूनी नेई होना	255
विनियोग बिल्ल.....	204
बिल्लें पर अनुमति – दिक्खो राज्यपाल ते राष्ट्रपति।	
दी कमेटियें दे अख्खेआर, चेचे अधिकार ते उन्मुक्तियां, उं'दे सामनै व्यक्तियें गी	
हाजर कराना ते दस्तावेज पेष करना	सतमीं, 2, 37
च सर्वोच्च अदालत ते उच्च अदालत दे जज्जें दे आचरण दे बारे च चर्चा	
नेई कीती जानी	211
दा गठन	168
दा भंग	174(2)(ख)
दी औद्ध	172
रियासत दे कठेरमें कोष पर भार पाने आहले खर्चे दा विधान-मंडल दे मतदान दे	
अधीन नेई होना	203(1)
होरनें खर्चे दा विधान-मंडल दे मतदान दे अधीन होना	203(2)
च भाषा – दिक्खो भाशा।	
आसेआ बनाए गेदे कनूने कन्नै असंगत होने दी सूरत च चलन च नेई होना	251-254
दी विधायी प्रक्रिया	195-201
माल्ली मामलें दे सरबंधे च	202-206
धन-बिल्लें दे सरबंधे च	198
लेखानुदान, प्रत्ययानुदान, वगैरा दे सरबंधे च	206
दे सदस्यें –	
आस्तै अयोग्यतां	191, दसमीं
दी अयोग्यताएं कन्नै सरबंधत सुआलें पर फैसला	192
आसेआ सघंद जां प्रतिज्ञा	188
दे चेचे अधिकार, वगैरा	198, सतमीं, 2, 39

(अनुक्रमणिका)

आस्तै योग्यतां	173
आसेआ इस्तीफा	190(3)(ख)
दियां तनखाहीं ते भत्ते	195, सतमीं, 2, 38
आसेआ सीटें वगैरा दा खाल्ली कीता जाना	190
आसेआ सघंद चुक्के बगैर जां प्रतिज्ञा, वगैरा कीते बगैर वोट, वगैरा देना	193
खाल्ली थाहरें दे होंदे होई विधान—मंडल दे कम्म करने दे अख्तेआर	
ते ओह्दा कोरम	189
राज्य लोक सेवा आयोग दे कम्मं दा विस्तार करने दा अख्तेआर	321
हेठ लिखे दे बारे च कनून बनाने दा अख्तेआर —	
समवर्ती सूची	246(2), सतमीं, 3
विधान—मंडल दा चनांS.....	328
चान—चक्की कोष दी स्थापना	267(2)
माल्ली मामलें च प्रक्रिया	209
राज्य—सूची	246(3), सतमीं, 2
विधान—मंडल —	
दे बषेअ अधिकार वगैरा	194(3), सतमीं
दी कारवाइयें दी कनूनी मानता गी—	
अदालतें आसेआ सुआल नेई चुक्केआ जाना	212
दी कारवाइयें दे प्रकाषन दा संरक्षण	361क
दा सत्र स्थगन.....	174(2)(क)
च कोरम	189(3)
च चर्चा पर निबंधन	211
प्रक्रिया दे नियम	208
दा सचिवालय	187

(अनुक्रमणिका)

महाराष्ट्र ते गुजरात रियासतें दे बारे च बषेप प्रावधान	371(2)
रियासती विधान—मंडल दे अधिवेषन गी —	
सद्दना	174
संघ दा राज्ये कन्नै —	
प्रषासनक सरबंध	256—261
विधायी सरबंध	245—255
विधान—मंडल दे सदनें च मतदान	189
राज्य—सूची	सतमीं, 2
राज्य—	अनुच्छेद 1, पैहली
महाधिवक्ता — दिक्खो महाधिवक्ता ।	
क्षेत्रे दा परिवर्तन, वगैरा	3
रियासतें च समन्वय राष्ट्रपति दी अंतर—रियासती परिषद् नियुक्त करने दे अख्तेआर	263
संघ आसेआ दित्ते गेदे निदेषे दा पालन करने च जां असरी करने	
च असफलता दा प्रभाव.....	365
रियासतें दी कार्यपालिका कारवाई राज्यपाल दे नांऽ कन्नै कीती जानी	166(1)
रियासतें दे कार्यपालिका अख्तेआर दा बस्तार.....	1162
दे कार्यपालिका अख्तेआर दा राज्यपाल च शामिल होना	154(1)
रियासतें च संविधानक तंत्र दा विफल होना	356
नमित्ये रियासतें दा नर्माण	3
राज्यपाल — दिक्खो राज्यपाल ।	
उच्च अदालत — दिक्खो उच्च अदालत ।	
विधान सभा —	
दी संरचना	170
दा भंग	174(2)(ख)

(अनुक्रमणिका)

दी औद्ध	172
दे ऐंग्लो इंडियन समुदाय दी नुमायंदगी	333
च अनुसूचित जातियें ते अनुसूचित जनजातियें दी नुमायंदगी	332
अध्यक्ष ते उपाध्यक्ष –	
दा फ़ैसलाकून वोट	189(1), परंतुक
गी सुनेआ जाना	178
गी हटाने दा कोई प्रस्ताव, विचार हेठ होने पर उंदा पीठासीन नेई होना	181
दी गैरहाजरी वगैरा दे दरान उंदे कर्त्तबें दा पालन	180
गी औहदे थमां हटाया जाना	179(ग)
आसेआ पद त्याग	178(ख)
दियां तनखाहीं ते भत्ते, वगैरा	186, दूई, ग, 8 ते सतमीं, 2, 38
दे औहदे दा खाल्ली होना	179(क)
विधान-परिशद् –	
दा समापन जां सिरजन	169
दे सभापति ते उपसभापति –	
दा निर्णायक मत	189(1)
दा चुनेआ जाना	182
गी हटाने दा कोई प्रस्ताव विचार हेठ होने पर उंदा पीठासीन नेई होना	185
दी गैरहाजरी, वगैरा दे दरान उंदे कर्त्तबें दा पालन	184
दा औहदे थमां हटाया जाना	183(ग)
आसेआ पद त्याग	183(ख)
दियां तनखाहीं ते भत्ते आदि	186, दूई, ग ते सतमीं, 2, 38
दे औहदे दा खाल्ली होना	183(क)
दी संरचना	171
दी औद्ध	172(2)

(अनुक्रमणिका)

मनापलि – दिक्खो मनापलि ।	
लोक कल्याण.....	38
राष्ट्रपति	52
आसेआ भाषण	86–87
सलाना माल्ली ब्यौरा संसद दे अगें रखोआह्ग	112(1)
हेठ लिखे दे दी नियुक्ति –	
महान्यांवादी – दिक्खो महान्यांवादी ।	
संघ ते लोक सेवा आयोग दा अध्यक्ष ते सदस्य – दिक्खो लोक सेवा आयोग ।	
उच्च अदालत दे मुख न्यांमूर्ति ते होर जज्ज – दिक्खो उच्च अदालत ।	
सर्वोच्च अदालत – दिक्खो सर्वोच्च अदालत ।	
नियंत्रक ते महालेखापारखी – दिक्खो नियंत्रक ते महालेखापारखी ।	
रियासतें दे राज्यपाल – दिक्खो राज्यपाल ।	
प्रधानमंत्री ते होर मंत्री – दिक्खो मंत्रि-परिशद् ।	
भाषाई घट्ट गितरी आह्ले वर्गे आस्तै बषे अधिकारी	350(ख)
अनुसूचित जातियें आस्तै बषे अधिकार – दिक्खो अनुसूचित जाति ।	
सर्वोच्च अदालत दे अधिकारियें ते सेवकें दी तनखाह, भत्ते, छुट्टी	
जां पैषनें कन्नै सरबंधत नियमें आस्तै राष्ट्रपति दी ताइद	146 (2), परंतुक
राष्ट्रपति दी इजाजत –	
सधारण बिल्लें पर	111
संविधान दी तरमीम करने आह्लें संसद दे बिल्लें पर	368
रियासती विधान-मंडल दे बिल्लें पर	201
किष सूरतें च पानी जां बिजली टैक्सें दे –	
लाने सरबंधी बिल्लें पर	288(2)
राष्ट्रपति लेखा परीक्षा रपोट संसद सामनै रखोआह्ग	151(1)

(अनुक्रमणिका)

राष्ट्रपति दे औहदे आस्तै शर्ता	57
राज्य दे अधीन नौकरी करने आहले व्यक्ति आसेआ कुसै बदेषी राज्य कोला उपाधियां, भेंट वगैरा स्वीकार करने आस्तै राष्ट्रपति दी सैहमती जरूरी	18(3) ते (4)
संघ दी संविदाएं दा राष्ट्रपति दे नांऽ कन्नै निष्पादन कीता जाना	299(1)
स्हायता ते सलाह दे आस्तै मंत्रि-परिषद्	74(1)
राष्ट्रपति आसेआ संसद दे सदस्यें दियें अयोग्यताएं कन्नै सरबंधत सुआलें पर फैसला.....	103(1)
संघ दे प्रतिरक्षा बलें दा सर्वोच्च समादेश शामिल होना	53(2)
चनांऽ आयोग, मुख चनां आयुक्त ते होर आयुक्तें दी नियुक्ति, वगैरा – दिक्खो चनांऽ। राष्ट्रपति दा चनांऽ	54, सतमीं, 1, 72
परती चनोने आस्तै योग्यता	59
राष्ट्रपति दियां उपलब्धियां, भत्ते ते बषे अधिकार, वगैरा	59(3), दूई, क, सतमीं,, 1, 75
भारती सरकार दी कार्यपालिका कारवाई राष्ट्रपति दे नांऽ कन्नै होई दी आखी जाहग	77(1)
राष्ट्रपति आसेआ वित्त आयोग दा गठन वगैरा – दिक्खो वित्त। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने दी प्रक्रिया	61
राष्ट्रपति दे विधायी अख्तेआर	123(1)
राष्ट्रपति दे चनांऽ दा तरीका	55
राष्ट्रपति दे चनांऽ कन्नै सरबंधत विषे	71
सदनें गी राष्ट्रपति दे सनेह वगैरा	86
राष्ट्रपति आसेआ सघंद जां प्रतिज्ञा	60
राष्ट्रपति गी अध्यादेश जारी करने दे अख्तेआर – दिक्खो अध्यादेश। राष्ट्रपति दा अख्तेआर –	
कनूनें दा अनुकूलन करने दा	372 ते 372क
विमानक्षेत्रें ते महापत्तनें गी सुधारें समेत कनूनें गी लागू करने दा	364
राज्यसभा दे कार्यकारी सभापति नियुक्त करने दा	91(1)

(अनुक्रमणिका)

लोक सभा दे कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने दा	95(1)
अनुसूचित क्षेत्रों दे प्रशासन ते अनुसूचित जनजातियें दे कल्याण बारै रपोट देने आस्तै आयोग नियुक्त करने दा	339
पिछड़े वर्गें दी हालत दी खोज आस्तै आयोग नियुक्त करने दा.....	340
संघ दे शासकी मकसदें आस्तै 15 ब'रें दी औद्ध दरान अंग्रेजी दे इलावा हिंदी दा ते देवनागरी हिंसें दा प्रयोग प्राधिकृत करने दा	343(2), परंतुक
संघ दे कम्में दे प्रशासन सरबंधी ते विधान सरबंधी प्रस्थापनाएं सरबंधी प्रधानमंत्री थमां जानकारी मंगने दा	78ख
राजभाषा दे सरबंधे च रपोट देने आस्तै आयोग गठत करने दा.....	103(2)
सार्वजनक म्हत्तव दे कनून जां तत्थें दे प्रष्नें दे बारे च सर्वोच्च अदालत कन्नै सलाह—मषवरा करने दा.....	143
कुसै राज्य दे दस्से गेदे मकसदें आस्तै बदेशी राज्य घोषत करने दा	367(3), परंतुक
किष सूरतें च संघ दे कम्म रियासतें गी सौंपने दा	258(1)
अंतररियासती परिषद् दी स्थापना करने दा —	263
माफी वगैरा दी ते किष मामलें च स'जा दे अदेष दे स्थगन, छूट जां घट्ट करने दा	72
मजूदा कनूनें दे अनुकूलन आस्तै हुकम जारी करना	372(2)
संक्रमणकाली औद्ध दे दरान कठनाइयें गी दूर करने आस्तै हुकम जारी करने दा	392
किष रियासतें गी संघ दे अनुदानें दे बारे च हुकम जारी करने दा.....	275(2)
अमरजंसी दी उद्घोषना जारी करने दी — दिक्खो अमरजंसी ।	
गैरजरूरी खर्च पूरा करने आस्तै चान—चक्की कोष थमां अग्रिम धन देने दा.....	267(1)
निवारक नजरबंदी च रक्खे गेदे व्यक्तियें दे सरबंधे च किष सूरतें च अदेष देने दा.....	373
मजूदा रियासती—कनूनै तैह्त नदी घाटी परियोजनाएं च पानी ते बिजली दे सरबंधे च टैक्स जारी रक्खने आस्तै अदेष राहें प्रावधान करने दा	288(1)
चान—चक्कियें च राज्यपाल दे कम्में दे नर्बाह आस्तै प्रावधान करने दा	166
संघ, राज्यक्षेत्रें आस्तै विनियम बनाने दा	240

(अनुक्रमणिका)

संघ, राज्य ते संयुक्त लोक सेवा आयोग दे अध्यक्ष ते सदस्ये दिये सेवा दी	
शर्ते वगैरा दे सरबंधे च विनियम बनाने दा	318
सर्वोच्च अदालत दे औहदेदारें दी नियुक्ति दे बारे च	
संघ लोक सेवा अयोग कन्ने सलाह-सूत्तर करिये नियम बनाने दा.....	146(1), परंतुक
राष्ट्रपति दे नांऽ कन्ने कीते गेदे ते निष्पादित अदेषे वगैरा दे बारे च नियम बनाने दा.....	77(2)
लेखा परीक्षा ते लेखा विभाग दे कर्मचारिये दिये सेवा शर्ते दे बारे च नियम बनाने दा.....	148(5)
संसद ते रियासती विधान-मंडल दी दोहरी सदस्यता दे बारे च नियम बनाने दा	101(2)
दौने सदने दी सांझी बैठके च प्रक्रिया सरबंधी नियम बनाने दा	118(3)
लोक सभा ते राज्य सभा सचिवालय दे कर्मचारिये दी भर्ती ते सेवा	
शर्ते दे बारे च नियम बनाने दा.....	98(3)
सरकारी कम्म करने ते उसी मंत्रिये च बंड करने दे बारे च नियम बनाने दा.....	77(3)
लोक सभा च आंगल-भारतीये दे नांऽ निर्देशन दा.....	331
राज्य सभा च बारां सदस्ये दे नांऽ निर्देशन दा	30(1)(क)
रियासते च इंकम टैक्स दी बंड करने दी प्रतिषत शामिल करने दा	270
सर्वोच्च अदालत दे अदेषे दे लागू करने दा तरीका दस्सने दा	142(1)
संक्रमणकारी औद्ध दरान औहदे गी दूर करने दा.....	392(1)
रियासते ते संघ राज्यक्षेत्रे च अनुसूचित जातियां ते अनुसूचित जनजातियां बारै दस्सने दा	341, 342
संसद दे दौने सदने दी सांझी बैठक चलाने दा.....	108(1)
संसद सत्र गी बलाने, सत्र स्थगन करने ते उसी भंग करने दा.....	85(1) ते (2)
दी पुज्ज मंजूरी -	
रियासते च बपार, बन्ज ते समागम पर बेरोक-टोक अधिरोपित करने आहले कुसे बिल्ल	
गी रियासती विधान-मंडल च पेष करने आस्तै जरूरी.....	304(ख), परंतुक
गी सिर्फ प्रक्रिया दा विषे मन्नना	255
राष्ट्रपति दा कनूनी कारवाइये कन्ने संरक्षण	361
दे औहदे आस्तै योग्यतां	

(अनुक्रमणिका)

कुसे अनुदान दी मंग कीते जाने पर राष्ट्रपति दी सफारष	113(3)
हेठ लिखे दे बिल्ल दे पेष कीते जाने आस्तै राष्ट्रपति दा सफारष दी लोड –	
(i) नेह टैक्स लाने पर जेहदे च राज्य हितबद्ध ऐ प्रभाव पाने आहले	274(1)
(ii) माल्ली मामलें बारै	117(1)
(iii) नमियें रियासतें दे नर्माण जां रियासतें दियें हद्दें च फेर–बदल वगैरा दे बारे च	3, परंतुक
राष्ट्रपति दी सफारष गी छड़ा प्रक्रिया दा विषे मन्नना	255
राष्ट्रपति गी औहदे थमां हटाया जाना	56(1), परंतुक(ख)
राष्ट्रपति आसेआ अनुपूरक अनुदानें गी संसद सामनै रक्खोआया जाना	115(1)
राष्ट्रपति दे औहदे दी औद्ध	56
राष्ट्रपति दे औहदे दी रिक्ति ते उसी भरने दी प्रक्रिया	62
राज्यसभा –	
च सीटें दी बंड	80(2) चौथी
दे सभापति–	
दा पीठासीन नेई होना जिसलै उसी हटाने दा कोई प्रस्ताव विचार हेठ होऐ	92
दी तनखाह वगैरा	97, दूई, ग, सतमीं, 1, 73
भारत दे उपराष्ट्रपति दा पदेन सभापति होना	64, 89(1)
राज्य सभा दी संरचना	80
राज्य सभा दा फैसला बहुमत राहें	100(1)
राज्य सभा दे उप सभापति –	
दा सभापति दे रूप च कम्म करना	91
दा चनांS	89(2)
दा पीठासीन नेई होना जिसलै उसी हटाने दा कोई प्रस्ताव विचार हेठ होऐ	92
दा औहदे थमां हटाया जाना	90(ग)
आसेआ औहदे दा त्याग	90(ख)
दियां तनखाहीं, वगैरा	97, दूसरी, ग, सतमीं, 1, 73

(अनुक्रमणिका)

आसेआ औहदा खाल्ली कीता जाना	90(क)
मत ते मतदान	100
राज्य सभा –	
दी औद्ध	83(1)
दा कुसै बैठक च कोरम	100(3) ते (4)
प्रक्रिया दे नियम	118
दा सचवी अमला	98(1)
संसद बी दिक्खो ।	
राह् टैक्स	सतमीं, 2, 59
रिण –	
परिभाषा	366(8)
रियासतें दा लोक रिण	सतमीं, 2, 43
संघ दा लोक रिण	सतमीं, 1, 35
रुजगार –	
कनून, चकित्सा वगैरा	सतमीं, 3, 26
रेल, परिभाषा	366(20) सतमीं, 1, 22
रोग ते नाशक जीव –	
रोगें ते नाशक जीवें दे इक रियासत थमां दूर्ई रियासत च फैलने थमां रोक-थाम	सतमीं, 3, 29
लक्षदीप राज्यक्षेत्र	पैहली
लाटरियां सरकार आसेआ संचालत	सतमीं, 1, 40
लून.....	सतमीं, 1, 58
लेखा –	
संघ ते रियासतें दे लेखे दा प्ररूप	150
लेखा परीक्षा, संघ ते रियासतें दे लेखे दी	सतमीं, 1, 76

(अनुक्रमणिका)

लोक रिण –

रियासतें दे – दिक्खो रिण ।

संघ दे – दिक्खो रिण ।

लोक सभा –

दी संरचना	81
दे फ़ैसले बहुमत राहें.....	100(1)
दा उपाध्यक्ष – दिक्खो अध्यक्ष ।	
दी औद्ध	83
दे सदस्य – दिक्खो संसद दे सदस्य ।	
दी प्रक्रिया दे नियम बनाने दे अख्तेआर.....	118(1)
दे इजलास आस्तै कोरम	100(3)
च आंगल-भारतियें दी नुमायंदगी (नांऽ निर्देषन)	331
च अनुसूचित जातियें ते अनुसूचित जनजातियें दी नुमायंदगी	330
च संघ राज्यक्षेत्रें दी नुमायंदगी	81(1) (ख)
दे सचवी अमलें दी नियुक्ति वगैरा	98
दे अध्यक्ष ते उपाध्यक्ष –	
दा फ़ैसलाकून वोट	100(1)
गी चुनना	93
दा पीठासीन नेई होना, जिसले उ'नेंगी औहदे थमां हटाने दा कोई प्रस्ताव विचार हेठ होऐ	96
दी गैरहाजरी दरान ओहदे औहदे दे कर्त्तबबें दा पालन	95
दा औहदे थमां हटाया जाना	94(ग) ते 96
आसेआ पद त्याग	94(ख) , 97, सतमीं, 1, 73
दियां तनखाहीं, भत्ते वगैरा	97, सतमीं, 1, 73, दूर्ई, ग, 7
आसेआ औहदे दी रिक्ति	94(क)
सदनें च मतदान	100

(अनुक्रमणिका)

लोक सेवा आयोग –

दी सलाना रपोट	323
दे अध्यक्ष ते सदस्ये दी नियुक्ति	316(1) ते (1क)
सदस्ये दियां सेवा शर्तां	318
सदस्य नेई रोहने पर औहदा धारण करने आस्तै पात्रता	391(ख), (ग) ते (च)
परतियै नियुक्त होने आस्तै पात्रता	319
परतियै नियुक्ति आस्तै पात्र नेई होना	316(3)
सदस्ये गी औहदे थमां हटाया जाना	316(2), परंतुक(ख)
सदस्ये गी औहदे थमां हटाया जाना जां मोत्तल कीता जाना	317
सदस्ये आसेआ पद त्याग	316(2), परंतुक (क)
सदस्ये दे औद्धे दी औद्ध	316(2)
लोक सेवा आयोग दे खर्च दा कठेरमें कोष पर भार होना	322
कम्म	320
लोक सेवा आयोग दे कम्मं दा विस्तार करने दे अख्तेआर	321

लोक सेहत ते सफाई	सतमीं, 2, 6
लोक अधिसूचना, परिभाषा	366(9)
लोक व्यवस्था	सतमीं, 2, 1

वाद ते कारवाइयां –

संघ जां रियासतें आसेआ जां उं दे बरुद्ध	300
--	-----

विकास बोर्ड –

महाराष्ट्र ते गुजरात दे हिस्सें आस्तै बक्ख विकास बोर्डे दी स्थापना	371(2)
--	--------

वित्त–

धन बिल्ल बारै बषेप प्रावधान	
संसद च	117
रियासती विधान मंडल च	207

(अनुक्रमणिका)

बिल्लें गी पेष, पास कीता जाना ते व्ययगत होना –	
सांझी बैठक च	100 ते 108
संसद च	107
रियासती विधान–मंडल च	196
संसद च धन बिल्ल –	
परिभाषा	110
दे सरबंधे च प्रक्रिया	109
रियासती विधान–मंडल च धन–बिल्ल –	
परिभाषा	199
दे सरबंधे च प्रक्रिया	198
राज्यपाल आसेआ राष्ट्रपति आस्तै धन–बिल्लें दा आरक्षण	201
वित्त –	
किष खर्चे ते पेंषनें दे बारे च संघ ते रियासतें च समायोजन	290
सलाना माल्ली ब्यौरा	
दिवखो सलाना माल्ली ब्यौरा ।	
देवस्थम् कोषें गी सलाना भुगतान.....	290क
बिल्ल, माल्ली	
संसद च	117
रियासती विधान–मंडल च	207
बिल्ल, रियासतें गी प्रभावित करने आहली टैक्स लाने दे बारे च	274
बिल्ल बी दिवखो ।	
वित्त आयोग –	
दा गठन	280(1)
दा कर्तब्व	280(3)

(अनुक्रमणिका)

दे अख्तेआर, संसद आसेआ नर्धारत कीता जाना	280(4)
सदस्यता आस्तै योग्यतां	280(2)
सफार्षे दा संसद दे हर इक सदन सामनै रक्खेआ जाना	281
भारत दा कठेरमा कोष	266
दी गरंटी पर दोहार लैना	292
हिफाजत.....	283(1)
परिभाषा	266(1)
पर भार पाने आहले खर्चे	112(3)
दा संसद च मतदान आस्तै नेई रक्खेआ जाना	113(1)
रियासतें दा कठेरमा कोष	266
दा गरंटी पर दोहार लैना	293
दी हिफाजत वगैरा	283(2)
परिभाषा	266(1)
दा विधान-मंडल च मतदान आस्तै नेई रक्खेआ जाना.....	203(1)
भारत दा चान-चक्की कोष	267(1)
दी हिफाजत वगैरा	283(2)
रियासत दा चान-चक्की कोष	267(2)
दी हिफाजत वगैरा.....	283(2)
शुल्क -	
संघ आसेआ कठेरे ते संघ ते रियासतें च बंडे जाने आहले	272
संघ आसेआ कठेरे पर रियासतें गी सौंपे जाने आहले	269
राही-बाही आहली जिमीं दे उत्तराधिकार दे सरबंधे च	सतमीं, 2, 47
राही-बाही आहली जिमीं थमां बक्ख संपत्ति दे उत्तराधिकार दे सरबंधे च	सतमीं, 1, 88
संघ आसेआ ग्राहे जाने आहले ते रियासतें आसेआ कठेरे ते विनियोजित कीते जाने आहले.....	268

(अनुक्रमणिका)

सीमा-शुल्क, जेहदे तैहत नर्यात शुल्क बी ऐ	सतमी, 1, 83
उत्पाद-शुल्क, एलकोहली, लिकर, फहीम, भङ्ग, वगैरा पर	सतमी, 2, 51
उत्पाद-शुल्क, तम्माकू वगैरा पर	सतमी, 1, 84
स्टांप-शुल्क, न्यायिक स्टांपे राहें कठेरे दे शुल्कें जां फीसें शा बकख	सतमी, 3, 44
स्टांप-शुल्क दी दर, विनियम पत्रें, वगैरा दे सरबंधै च	सतमी, 1, 91
संघ दे प्रयोजनें आस्तै किष शुल्कें पर सरचारज	271
संघ जां रियासतें आसेआ लोक मकसदें आस्तै अनुदान	282
किष रियासतें गी संघ आसेआ अनुदान	275
सन पर जां सन उत्पादें पर नर्यात शुल्क दे बदले च किष रियासतें गी अनुदान	273
किष रियासतें गी संघ आसेआ अनुदान	275
भाग 12 दे मकसदें आस्तै "वित्त आयोग" दी व्याख्या.....	264
"शुद्ध आगम" वगैरा दी गिंती	279
भारत ते रियासतें दा लोक लेखा	266(2)
कठेरमें कोषें, चान-चक्की कोषें ते लोक-लेखें च ज'मा धनराषियें दी	
सांभ-सम्हाल वगैरा.....	283
लोक सेवकें ते अदालतें आसेआ प्राप्त वाद -	
कर्ताएं दी ज'माराषि च ते होर धनराषियें दा, स्थिति मताबक, भारत दे	
लोक लेखे च जां रियासत दे लोक लेखे च भुगतान कीता जाना	284
राजस्व दी संघ ते रियासतें च बंड -	
शुल्क ते टैक्स, वगैरा, संघ आसेआ कठेरे जाने आहले ते रियासतें गी सौंपने आहले	269
संघ आसेआ ग्राहे ते रियासतें कन्नै बंडे जाने आहले	270 ते 272
संघ आसेआ ग्राहे पर रियासतें आसेआ कठेरे ते विनियोजित	268
सन दे नर्यात पर किष रियासतें गी शुल्क दे बदले च अनुदान	273
संघ दे मकसदें आस्तै किष शुल्कें ते टैक्सें पर अधिकार, संसद आसेआ लाया जाना	271
बिक्री पर टैक्स लाने दे बारै रोक	286

(अनुक्रमणिका)

राज्य आसेआ टैक्स लाना –

थमां छूट, पानी जां बिजली सरबंधी मामलें च287, 288

थमां संघ दी संपत्ति गी छूट285

अनुपूरक अनुदान – दिक्खो अनुपूरक अनुदान।

टैक्स –

प्रति व्यक्तिसतमीं, 2, 61

निगम.....सतमीं, 1, 85

अखबारें दियें मफ्हरियें परसतमीं, 1, 92

होरनें मफ्हरियें परसतमीं, 2, 55

कृषि औंदन परसतमीं, 2, 46

जीव-जंतुयें ते किष्टियें परसतमीं, 2, 59

व्यष्टियें ते कंपनियें दियें आस्तियें दे, जिं दे तैह्त राही-बाही आहली जिमीं नेई ऐ,

पूंजी मुल्ल पर ते कंपनियें दी पूंजी परसतमीं, 1, 86

माल दे भेजने परसतमीं, 1, 92ख

बिजली दे इस्तेमाल जां बेचने परसतमीं, 2, 53

स्थानी क्षेत्रें दे माल दे प्रवेश परसतमीं, 2, 52

सड़कें ते अंतरदेषी जलमार्गें राहें लेई जाने आहले माल ते यात्तरियें परसतमीं, 2, 56

औंदनी पर टैक्स, परिभाषा366(27)

औंदनी पर टैक्स, करसानी आमदन थमां बक्खसतमीं, 1, 82

जिमीं ते इमारतें पर टैक्स.....सतमीं, 2, 49

ऐषो-अराम दी चीजें पर टैक्स, जेह्दे तैह्त मनोरंजन, आमोद, दाऽ ते जुए पर टैक्स बी ऐ.....सतमीं, 2, 62

खनिज सरबंधी अधिकारें पर टैक्ससतमीं, 2, 50

वृत्तियें, बपारें, रुट्टी-रोजी ते नियोजन पर टैक्स276, सतमीं, 2, 60

रेल भाड़े ते माल भाड़े पर टैक्ससतमीं, 1, 89

माल दी खरीद ते फरोख्त पर टैक्ससतमीं, 2, 54, 280 सतमीं 1, 92क

(अनुक्रमणिका)

अखबारें दी खरीद ते फरोख्त पर टैक्स.....	सतमीं, 1, 92
स्टांप शुल्कें थमां बकख, स्टाक-एक्सचेंजें ते वायदा बजारें दे संव्यवहारें पर टैक्स	सतमीं, 1, 90
सड़कें पर इस्तेमाल जोग गड्डियें, जेह्दे तैह्त ट्रामकारां बी न, पर टैक्स	सतमीं, 2, 57
कुसै रियासत च, उस रियासत दे बाहर उद्भूत दा'वें आस्तै टैक्स दी वसूली	सतमीं, 3, 43
माल जां यात्तरियें पर बन्ना टैक्स	सतमीं, 1, 89
टैक्स लाना, परिभाषा	366(28)
रियासती सरकारें जां स्थानी प्राधिकारियें आसेआ ग्राहेआ गेदा मजूदा टैक्स वगैरा दा संघ सूची	
च वर्णत होने पर बी जारी रौहना	277
कनून दे प्राधिकार दे बगैर टैक्स ग्राहे नेई जाह्उन	265
रियासत दी संपत्ति ते ओह्दे थमां आमदन गी संघ दे टैक्स थमां छूट	289

वित्त आयोग – दिक्खो वित्त।

वित्त निगम – दिक्खो निगम।

बदेष कम्म	सतमीं, 1, 10
बदेष कम्म सरबंधी कारणें कन्नै निवारक नज़रबंदी	सतमीं, 1, 9
बदेषी रिण	सतमीं, 1, 37
बिजली पर टैक्स दिक्खो वित्त दे तैह्त।	

विधान-परिशद – दिक्खो राज्य।

विधान सभा – दिक्खो राज्य।

विधायी संबंध, संघ ते रियासतें च	245-255
कनूनी कारवाइयां-संघ ते रियासतें आसेआ उं'दे खलाफ.....	300

विनियम –

किष अधिनियमं ते विनियमं दा कनूनीकरण	31ख ते नौमीं
संघ राज्यक्षेत्रें आस्तै विनियम बनाने दा राष्ट्रपति दा अख्तेआर	240
विन्यास, पूर्त ते धार्मक.....	सतमीं, 3, 28
विनियम-पत्तर चैक, वचन-पत्तर वगैरा	सतमीं, 1, 46

(अनुक्रमणिका)

विमानक्षेत्र –	सतमीं 1, 29
परिभाषा	364(2)
हवाई यातायात ते विमानक्षेत्रें दा विनियमन ते संगठन	सतमीं, 1, 29
विमानक्षेत्रें च कनूनें दे विस्तारण सरबंधी बषेप प्रावधान	364(1)
बिल, बसीयत रैहत ते उत्तराधिकार	सतमीं, 3, 5
विवाद	
उद्योगक ते श्रम	सतमीं, 3, 22
विश (जैहर)	सतमीं, 3, 19
विश्वविद्यालय –	
अलीगढ.....	सतमीं, 1, 63
बनारस	सतमीं, 1, 63
दिल्ली	सतमीं, 1, 63
आंध्र प्रदेश च	सतमीं, 1, 63
राष्ट्री म्हत्तव दे.....	सतमीं, 1, 63
होर	सतमीं, 1, 63
विस्फोटक	सतमीं, 1, 5
विस्थापत व्यक्ति –	
मदाद ते मुढ-बास्सा	सतमीं, 3,
27	
वीजा	सतमीं, 1, 19
वैमानिक शिक्षा वगैरा	सतमीं, 1, 29
शत्रु अंतरदेशी	
गिरफ्तारी ते नज़रबंदी थमां संरक्षण नेई	32
श्मशान ते श्मशान भूमि.....	सतमीं, 2, 10
शव दब्बना ते कब्रिस्तान	सतमीं 2, 10
शासक	

(अनुक्रमणिका)

परिभाषा	366(22)
शासकें दियां निजी थैलियां, अधिकारें ते बषेप अधिकारें दा अंत.....	363क
शासकें दी भारत सरकार कन्नै होई दियें संधियें, वगैरा सरबंधी विवादें दा कुसै अदालत आसेआ पडताल नेई कीती जानी	363
शासकी न्यासी	सतमीं, 3, 11
शहकारी ते शहकार	सतमीं, 2, 30
इक्कला अधिकार मजूद कनूनें ते राज्य आस्तै प्रावधान करने आहले कनूनें दी व्यावृत्ति	305
शिक्षा	21क, 45, सतमीं, 3, 25
ज्यानें आस्तै मुख्त ते जरूरी – दिक्खो निदेशक तत्व । विश्वविद्यालय बी दिक्खो । प्राइमरी स्तर पर मात्तरी भाषा च	350क
संस्था – उच्चतर शिक्षा, समन्वयन ते स्तरें पर नर्धारण आस्तै	सतमीं, 1, 66
वृत्तिक, व्यवसायक वगैरा प्रपिक्षण आस्तै	सतमीं, 1, 65
विज्ञानक ते तकनीकी शिक्षा आस्तै	सतमीं, 1, 64
शुद्ध आगम दी गिंतरी दिक्खो वित्त शोधन असमर्थता ते दिवाला	सतमीं, 3, 9
श्रम –	
विवाद.....	सतमीं, 3, 22
खान्नें ते तेलक्षेत्रें च श्रम दा विनियमन.....	सतमीं, 1, 55
श्रमिकें दा व्यवसायक ते तकनीकी प्रपिक्षण	सतमीं, 3, 25
श्रमिकें दा कल्याण	सतमीं, 3, 24
संकर्म, जिमीं ते इमारतां, राज्य दे	सतमीं, 2, 35
संकर्म नौ-सैना, सैना ते वायु-सैना	सतमीं, 1, 4

(अनुक्रमणिका)

संगम —

साहित्यिक, विज्ञानक ते धार्मिकसतमी, 2, 32

अजायबघर रियासतें आसेआ नियंत्रितसतमी, 2, 12

संस्था बी दिक्खो।

संघ —

च नमियें रियासतें दा प्रवेश जां स्थापना2

दे सषस्त्र बलें जां होरनें बलें दा कुसै राज्य च सिवल शक्ति दी मदाद च अभिनियोजन.....सतमी, 1, 2क

आसेआ दिते गोदे निदेधें दा अनुपालन करने च जां उ'नेंगी असरी करने च

असफलता दा प्रभाव365

दा रियासतें दे बाहरी हमले दा ते अंदरूनी अषांति थमां सुरक्खेआ करने दा कर्त्तब्व355

दी संपत्ति गी राज्य दे टैक्सें थमां छूट285

दी कार्यपालिका अख्तेआर दा विस्तार73

दी कार्यपालिका अख्तेआर दा राष्ट्रपति च शामिल होना53(1)

दी राजभाषा हिंदी343

दी भारत दे बाहर दे राज्यक्षेत्रें सरबंधें च अधिकारिता260

दा नांS ते राज्यक्षेत्र — दिक्खो **भारत**।

दी संपत्तिसतमी, 1, 32

ते रियासतें च प्रषासनक सरबंध256—261

समन्वय263

सांझी जिम्मेवारी.....75(3)

विधायी सरबंध245—255

संघ ते रियासतें दे विधायी अख्तेआरें पर बपार ते बन्ज दे सरबंधें च निर्बंधन303

संघ आसेआ ओह्दे बरुद्ध मकद्दमा ते कारवाइयां300

संघ दा कर्त्तब्व —

हिंदी भाषा दा विकास करना351

(अनुक्रमणिका)

हमले जां अषांति कोला रियासतें दी रक्षा करना	355
संघ सूची	सतमीं, 1
संघ राज्यक्षेत्र –	
दा प्रशासन	239
दी परिभाषा	366(3)
आस्तै उच्च अदालत	241
आस्तै अध्यादेश पेश करने दा प्रशासक दा अख्तेआर	239ख
आस्तै विनियम बनाने दा राष्ट्रपति दा अख्तेआर	240
संघ लोक सेवा आयोग	315
संचार –	
डाक-तार, वगैरा	सतमीं, 1, 31
सड़कां/नगरपालिका ट्राम वगैरा	सतमीं, 2, 13
संचित निधि –	
भारत दी दिक्खो वित्त ।	
रियासतें दी दिक्खो वित्त ।	
सांझी बैठक – संसद दे सदनें दी	100, 108
संयुक्त राष्ट्र संघ	सतमीं, 1, 12
संपत्ति –	
दा अर्जन ते कब्जा	सतमीं, 3, 42
कुसै घट्ट गिंतरी आहले वर्ग आसेआ स्थापत ते प्रशासन कुसै शिक्षा संस्था दी	
संपत्ति दे अर्जन आस्तै रकम	30(1क)
कुसै व्यक्ति गी कनून दे प्राधिकार कन्ने गै उसी ओह्दी संपत्ति	
कोला वंचित कीता जाना	300क
संपत्ति तबादला, राही-बाही आहली जिमीं थमां बक्ख	सतमीं, 3, 6
संपत्ति वगैरा दा उत्तराधिकार	294-295

(अनुक्रमणिका)

राही-बाही आहली जिमीं दा तबादलासतमीं, 2, 18

संपदा शुल्क -

परिभाषा366(9)

राही-बाही आहली जिमीं दे सरबंधे चसतमीं, 2, 48

होर संपत्ति दे सरबंधे चसतमीं, 1, 87

अखबारांसतमीं, 3, 39

संविदा -

संघ जां रियासतें आसेआ राष्ट्रपति जां राज्यपाल दे नांऽ कन्नै कीतियां जाहडन299

संसद -

दे अधिनियम सफारषें ते पुज्ज मंजूरी दे बारे च अपेक्षाएं दे अभाव च गैरकनूनी नेईं होडन255

संसद दियें कमेटियें ते संसद आसेआ नियुक्त आयोगें दे सामनै व्यक्तियें

गी हाजर कराना ते दस्तावेज पेष करनासतमीं, 1, 74

संरचना -

राज्य सभा दी80

लोक सभा दी81

संसद दा गठन -

राज्य सभा - दिक्खो राज्य सभा।

लोकसभा दा भंग85(2)(ख)

संसद दे सदनें दी औद्ध83

भारत दे कठेरमें कोष पर भार पाने आहला खर्च मतदान आस्तै नेईं रक्खेआ जाना113(1)

होर खर्च मतदान आस्तै रक्खेआ जाना113(2)

लोक सभा -दिक्खो लोक सभा।

संसद दे सदनें दा हर ब'रे दो बारी इजलास लगगना85(1)

(अनुक्रमणिका)

सांझी बैठक	100 ते 108
संसद च प्रयोग कीती जाने आहली भाषा –भाशा दे तैह्त दिक्खो।	
कनूनें दा विस्तार	245(1)
किष मामलें च राज्य आसेआ बनाए गे कनूनें पर	251 ते 254
विधायी प्रक्रिया –	
माल्ली विषें दे सरबंधे च	112 ते 117
धन बिल्लें दे सरबंधे च	109
लेखानुदान, प्रत्ययानुदान ते अपवादानुदान दे सरबंधे च	116
प्राक्कलनें दे सरबंधे च	113
संसद दे सदस्य –	
संसद सदस्यें आस्तै अयोग्यतां	102, दसमीं
संसद सदस्यें दियें अयोग्यताएं कन्ने सरबंधत सुआलें पर फैसला	103
संसद–सदस्यें आसेआ सघंद जां प्रतिज्ञा	99
संसद–सदस्यें दे अख्तेआर, बषेअ अधिकार वगैरा	105 सतमीं, 1, 74
संसद सदस्यें आस्तै योग्यतां	84
संसद सदस्यें दी तनखाह ते भत्ते बगैरा	106, सतमीं, 1, 3
संसद आसेआ थाहर खाल्ली करना	101
संसद दे सदनें च मतदान	100
सघंद चुक्कने जां प्रतिज्ञा लैने वगैरा थमां पैहलें मत देने आस्तै दंड	104
संसद दे अधिकारी – दिक्खो राज्य–सभा ते लोक सभा।	
संसद दा अख्तेआर	
रियासतें च विधान परिषदें दा समापन जां सिरजन करने दा	169
खाल्ली थाहरें दे होंदे होई सदनें दा कम्म करने दा अख्तेआर ते कोरम	100
संघ च नमियें रियासतें दे शामिल करने दा	2
रियासतें दे क्षेत्रें, हददें ते नाएं च परिवर्तन करने दा	3

(अनुक्रमणिका)

किष मामलें च पैहली अनुसूची ते चौथी अनुसूची दी तरमीम करने दा	4
पजमीं अनुसूची दी तरमीम करने दा	पजमीं, 7
संविधान दे प्रावधान दी तरमीम दा	368
अनुच्छेद 301 ते अनुच्छेद 304 तगर दे मकसदें गी अमल च आहनने	
आस्तै प्राधिकारी नियुक्त करने दा	307
सर्वोच्च अदालत गी जिमनी अख्तेआर प्रदान करने दा.....	140
अधिकारता प्रदान करने दा	139
किष सूरतें च रियासतें गी संघ दे अख्तेआर प्रदान करने दा.....	258(2)
संघ राज्यक्षेत्रें आस्तै उच्च अदालत गठत करने दा	241
किष राज्यक्षेत्रें आस्तै स्थानी विधान—मंडलें जां मंत्रि—परिषदें	
दा जां दौनें दा सिरजन करने दा	239क
मंत्रियें दियां तनखाहीं ते भत्ते नर्धारण करने दी	75(6)
नमियां रियासतां स्थापत करने दा	2
लोक सेवा आयोग दे कम्मं दा विस्तार करने दा.....	321
अमरजंसी च अपनी औद्ध बधाने दा.....	83(2) परंतुक
संघ दे अंदर बपार, बन्ज जां समागम दी स्वतंत्रता पर रोक लाने दा	302
संघ दे मकसदें आस्तै किष शुल्कें ते टैक्सें पर सरचार्ज लाने दी	271
समवर्ती सूची दे विषें कन्नै सरबंधत कनून बनाने दा	246(2)
राज्य सूची दे विषें दे सरबंधे च राष्ट्री हित च कनून बनाने दा.....	249(1)
अमरजंसी दरान राज्य सूची दे विषें दे सरबंधे च कनून बनाने दा.....	250
दो जां मतियें रियासतें आस्तै उं दी सैहमती कन्नै राज्य दे विषें दे	
सरबंधे च कनून बनाने दा	252
संघ सूची दे विषें दे सरबंधे च कनून बनाने दा	246(1)
उच्च अदालतें दी अधिकारता दा विस्तार जां अपवर्जन दे सरबंधे च कनून बनाने दा	230
अनुसूचित जाति ते अनुसूचित जनजाति अदेषें गी संषोधत करने आस्तै कनून बनाने दा.....	341(2) ते 342(2)

(अनुक्रमणिका)

अंतरराष्ट्री करारें गी असरी करने आस्तै कनून बनाने दा	253
मूल अधिकारें दे सरबंधे च प्रावधानें गी असरी करने आस्तै कनून बनाने दा	35
विधान-मंडलें आस्तै चनाएं दे सरबंधे च कनून बनाने दा	327
कुसै रियासत दे अंदर बपार जां बन्ज ते पैहले पं'जें ब'रें दरान किष चीजें दे उत्पादन, सप्लाई ते बंड दे सरबंधे च कनून बनाने दी	369
वित्त आयोग दे सदस्यें आस्तै योग्यतां ते उ'दे अख्तेआरें दे सरबंधे च प्रावधान बनाने दा	280(2) ते (4)
निवारक नज़रबंदी दे सरबंधे च	22(7)
कुसै रियासत जां स्थानी प्राधिकारी दे तैहत नियुक्ति आस्तै निवास सरबंधत लोडें गी शामिल करने दा.....	16(3)
राज्य सभा दे संघ राज्यक्षेत्रें दे नुमायंदे गी चुनने दा तरीका	80(5)
अंतर राज्यक नदियें ते नदी घाटियें दे जल सरबंधी झमेलें दे न्यांS निर्णे आस्तै प्रावधान करने दा	262
अखिल भारती सेवाएं दे सिरजन आस्तै प्रावधान करने दा	312
चान-चक्कियें च राष्ट्रपति दे कम्मं दे नर्बाह् आस्तै प्रावधान करने दे	70
संसद आसेआ बनाए गेदे कनूनें दे मते चंगे प्रषासन आस्तै अतिरिक्त अदालतें दी स्थापना दा प्रावधान करने दा	247
दो जां मतियें रियासतें आस्तै संयुक्त लोक सेवा आयोग दी स्थापना आस्तै प्रावधान करने दा.....	315
सर्वोच्च अदालत दी डिक्रियें जां अदेषें दे लागू होने दे तरीके दा प्रावधान करने दा	142(1)
पं'दरें ब'रें परैत अंग्रेज़ी भाषा जां हिंसें दे देवनागरी रूप दे प्रयोग दा प्रावधान करने दा	343(3)
माल्ली मामलें च अपनी प्रक्रिया दा विनियमन करने दा	119
राष्ट्रपति ते उपराष्ट्रपति दे चनांS कन्ने सरबंधत विषें दा विनियमन करने दा.....	71(3)
नागरिकता दे अधिकार दा विनियमन करने दा	11
किष सेवाएं दे अधिकारियें दी सेवा दी शर्तें च परिवर्तन करने जां उ'नें प्रतिसंहत करने दा	312क
संसद दे अख्तेआर, चेचे अधिकार वगैरा	105(3) सतमीं, 1, 74

(अनुक्रमणिका)

संसद दियां कारवाइयां –

संसद दियें कारवाइयें दी कनूनी मानता दी अदालतें आसेआ जांच नेई कीती जानी.....	122(1)
संसद दियें कारवाइयें दे प्रकाषन दी हिफाजत	261क
संसद दा सत्र स्थगन	85(2)(क)
संसद दे इजलास आस्तै कोरम.....	100(3)
अवशिष्ट विधायी अख्तेआरें दा संसद च शामिल होना	248, सतमीं, 1, 97
संसद च चर्चा पर रोक	121
हर इक सदन दी प्रक्रिया दे नियम बनाने दे अख्तेआर	118
संसद दे सदनें दा सचिवालय.....	98
संसद गी बलाना	85(1)

संसद सदस्य – संसद दे तैहत दिक्खो।

संस्थाएं—

पूर्त ते धार्मक	सतमीं, 3, 28
इम्पीरियल युद्ध अजायबघर, भारती अजायबघर, भारती युद्ध स्मारक, राष्ट्री पुस्तकालय, विक्टोरिया स्मारक	सतमीं, 1, 62
मात्तरी भाषा च शिक्षा	350क

सघंदसतमीं, 3, 12

समता –

लोक नियोजन दे बारे च मौके दी	16(3)
कनून सामनें प्रतिष्ठा ते मौके हासल करने दे अधिकार दी	प्रस्तावना, 14
मूल अधिकार बी दिक्खो	

समन्वय –

रियासतें च	263
------------------	-----

समवर्ती सूचीसतमीं, 3

सैहकारी सोसाइटियां	सतमीं, 2, 32
--------------------------	--------------

समाजक सुरक्षा ते समाजक बीमा	सतमीं, 3, 23
सर्वोच्च अदालत—	
दे आस्तै जज्ज, उं'दी नियुक्ति वगैरा.....	127
दे प्रशासनक खर्चे दा कठेरमें कोश पर भार होना.....	146(3)
गी संसद आसेआ अनुषांगिक अख्तेआर दित्ते जाना.....	140
दे अधिकारियें ते सेवकें दी नियुक्ति.....	146
दी मदाद आस्तै प्राधिकारियें आसेआ कम्म कीता जाना.....	144
च अपील आस्तै प्रमाण—पत्तर.....	134क
दे कारजकारी मुख न्यांमूर्ति दी नियुक्ति	126
दे जज्जे दी नियुक्ति —दिक्खो जज्ज	
राज्य प्रशासन दे बादधू खर्चे दे बारे च सर्वोच्च अदालत दे मुख न्यांमूर्ति आसेआ	
मध्यस्त दी नियुक्ति	257(4),258(3)
सर्वोच्च अदालत दा गठन, संगठन, अधिकारता ते अख्तेआर.....	सतमीं,1,77
रिकार्ड अदालत	129
भारत दे राष्ट्रपति जां उपराष्ट्रपति दे चनांS थमां पैदा शक्कें ते झमेलें दे बारे च	
सर्वोच्च अदालत दा फैसला	71
सर्वोच्च अदालत दियें डिक्रियें ते अदेपें दा लागू होना	142(1)
सर्वोच्च अदालत दी अधिकारता च बादधा	138
सर्वोच्च अदालत दी स्थापना ते गठन	124
सर्वोच्च अदालत दे खर्चे	146
फेडरल अदालत —	
दे जज्जे दा सर्वोच्च अदालत दा जज्ज होना	374(1)
दे अख्तेआरें ते अधिकारता दा सर्वोच्च अदालत आसेआ बरतूनजोग होना	135
च बकाया पेदे मकददमें, अपीलें ते कारवाइयें दा सर्वोच्च अदालत गी तबादला.....	374(2)
अपील आस्तै सर्वोच्च अदालत दी बषेप अनुमति	136

(अनुक्रमणिका)

सर्वोच्च अदालत दे जज्ज	127
सर्वोच्च अदालत दे जज्जे दी सेवानिवृत्ति आस्तै आयु	124(2)
सर्वोच्च अदालत दे जज्जे दी नियुक्ति	124(2)
सर्वोच्च अदालत दे जज्जे दे आचरण दे बारे च संसद जां रियासती विधान—मंडल च चर्चा नेई कीती जानी	121, 211
सर्वोच्च अदालत दे जज्जे दी आयु दा नर्धारण	124(2क)
सर्वोच्च अदालत दे जज्जे आसेआ सघंद जां प्रतिज्ञा	124(6)
सर्वोच्च अदालत दे जज्जे दे बषेअ अधिकार, भत्ते वगैरा	125(2)
सर्वोच्च अदालत दे जज्जे दी नियुक्ति आस्तै योग्यतां	124(3)
सर्वोच्च अदालत दे जज्जे गी औह्दे थमां हटाय़ा जाना	124(2), परंतुक ख
सर्वोच्च अदालत दे जज्जे दियां तनखाहीं ते भत्ते	125(1), दूर्ई, घ, 9
सर्वोच्च अदालत दी अधिकारिता —	
सलाह् देने दा अख्तेआर	143
संविधान दे स्पष्टीकरण तैहत होने आहले मामलें च अपीली अधिकारता	132
सिवल सरबंधी मामलें च अपीली अधिकारता.....	133
दंड सरबंधी मामलें च अपीली अधिकारता	134
शुरूआती अधिकारिता	131
सर्वोच्च अदालत दी भाषा — दिक्खो — भाशा ।	
सर्वोच्च अदालती आसेआ घोषत कनूनै दा सभनें अदालतें पर मान्य होना	141
सर्वोच्च अदालत दे अख्तेआर —	
मूल अधिकारें गी प्रवर्तित कराने आस्तै रिट्टां जारी करने दी	32
अवमान आस्तै स'जा देने दी	129
अपने फ़ैसले पर परती नज़रसानी करने दी	137
भाग ख रियासतें दी प्रिवी कौंसलें च बकाया पेदी कारवाइयें च सर्वोच्च अदालत गी तबादला	374(4)
सर्वोच्च अदालत दियें बैठकें च सेवानिवृत्त जज्जे दी उपस्थिति	128

(अनुक्रमणिका)

सर्वोच्च अदालत दे नियम	145
सर्वोच्च अदालत दा थाहर	130
सर्वोच्च अदालत आसेआ बषेअ अनुमति	136
सलाना माल्ली ब्यौरा –	
संसद दे सामनै	112
रियासती विधान–मंडल सामनै	202
सलाहकार बोर्ड – दिक्खो निवारक नज़रबंदी।	
सशस्त्र बल –	
सशस्त्र बलें कन्नै सरबंधत कनून दे तैह्त गठत अदालत जां अधिकरण।	
उच्च अदालत दे अधीक्षण गी अख्तेआर नेई देना	227(4)
सशस्त्र बलें जां सशस्त्र बलें दे होर बलें दी कुसै रियासत च सिविल शक्ति दी मदाद आस्तै अभिनियोजन.....	
	सतमीं, 1, 2क
सशस्त्र बलें गी लागू होने आहले मूल अधिकारें गी संसद आसेआ निर्बंधत	
जां निराकृत कीता जाना	33
सशस्त्र बल कन्नै सरबंधत कनून तैह्त गठत अदालत जां अधिकरण दे फ़ैसले, नर्धारण,	
दंड अदेष जां अदेष सर्वोच्च अदालत दे दखल करने दे अख्तेआर दा नेई होना	136(2)
मदाद, निःषक्त ते नियोजन आस्तै अयोग्य व्यक्तियें गी	सतमीं, 2, 29
सागर–खंड –	
राज्यक्षेत्री सागर–खंड, महाद्वीपी मग्न तट भूमि ते इक्के–इक्क आर्थक क्षेत्र च	
समुंदर दे हेठली सारी जिमीं, खनिज ते होर कीमती चीजां संघ च शामिल होडन	297
साक्ष्य	सतमीं, 3, 12
सांझी जिम्मेवारी	75
सार्वजनक कम्में ते अभिलेखें गी मानता	261, सतमीं, 3, 12
सिंचाई, संघ सूची दे इंदराज 56 दे तैह्त	सतमीं, 2, 17

(अनुक्रमणिका)

सिविकम –

आस्तै राज्य सभा च सीटें दी बंड	चौथी
रियासत दे बारे च बषेध प्रावधान	371च
राज्य	पैहली
सिनमा	सतमीं, 2, 33
सिवल प्रक्रिया	सतमीं, 3, 13
सिवल संहिता सभनें नागरिकें आस्तै इक बरोबर	44

सीमा शुल्क –

शुल्क – दिक्खो वित्त ।

सुधार न्यास	सतमीं, 2, 5
सुधारालय	सतमीं, 2, 4
सेना कनून दे तैहत क्षेत्रें च कीते गेदे कम्में आस्तै घाट्टा पूरने दा संसद दा अख्तेआर	34

सेवां –

अखिल भारती	सतमीं, 1, 70
संघ जां कुसै राज्य दी सेवा करने आहले व्यक्तियें दी सेवा दियां शर्ता	309
कम्म करदे रौहना, अदालतें, प्राधिकारियें ते अधिकारियें दा	375
संघ ते रियासतें आस्तै शामिल सेवाएं दा सिरजन.....	312
संक्रमणकाली औद्ध दरान मजूदा कनूनें दी सेवाएं दा लागू होंदे रौहना	313
भारती प्रशासनक सेवा ते भारती पलीस सेवा दा संसद आसेआ	
सिरजत सेवा होना	312(2)
किष सेवाएं दे अधिकारियें दी सेवा दियें शर्ते च परिवर्तन करने जां	
उं'दे प्रतिसंहत करने दा संसद दा अख्तेआर	312क
संघ जां कुसै रियासत दे अधीन सिवल हैसियत च कम्म करने आहले व्यक्तियें	
गी औहदे थमां हटाए जाने, वगैरा दे बरुद्ध हिफाजत	311

(अनुक्रमणिका)

लोक सवां –

राज्य दी	सतमीं, 2, 41
संघ दी	सतमीं, 1, 70
संघ जां कुसै रियासत दी सेवा करने आहले व्यक्तियें दे औहदे दी औद्ध	310
संक्रमणकाली प्रावधान	313

स्टांप शुल्क –

वित्त दे तैहत दिक्खो।

स्टाक एक्सचेंज ते वायदा बजार	सतमीं, 1, 48
स्थानी शासन	सतमीं, 2, 5

स्पष्टीकरण–

भाग 5, ध्याऽ 4 ते भाग 6, ध्याऽ 5 आस्तै संविधान दा	147
आमतौर पर संविधान दा	367
भाग 6, ध्याऽ 6 आस्तै “जि’ला जज्ज” दा	236क
भाग 12 आस्तै “वित्त आयोग” दा	264
भाग 6, ध्याऽ 6 आस्तै न्यायिक सेवा दा	236(ख)
भाग 6 आस्तै “राज्य” दा	152
पजमीं अनुसूची आस्तै “राज्य” दा	पजमीं, क, 1

स्मारक .–

प्राचीन ते इतिहासक–

राष्ट्री म्हत्तव दे	सतमीं, 1, 67
होर	सतमीं, 2, 12

स्मारकें दी सांभ–सम्हाल वगैरा – दिक्खो निदेशक तत्व।

स्वतंत्रता हासल करना, विचार, अभिव्यक्ति, विष्वास धर्म ते उपासना दी	प्रस्तावना
स्वामीहीन होने कारण संपत्ति सरबंधी अधिकार	296
हिंसे, संघ दे शासकी मकसदें आस्तै	343(1)

(अनुक्रमणिका)

हरियाणा –

आस्तै राज्य सभा च सीटें दी बंड चौथी

राज्य पैहली

हिमाचल प्रदेश –

आस्तै राज्य सभा च सीटें दी बंड चौथी

राज्य पैहली

हेठलियें अदालतें पर नियंत्रण 235

होर आर्थक क्षेत्र 297

होर देसी –

अखिल भारती सेवां – दिक्खो सेवां।

भारत दे संविधान च प्रयुक्त तकनीकी शब्दावली

Act	अधिनियम
Accounts	लेखे
Acquisition	अर्जन
Adaptation	अनुकूलन
Additional	बाद्धू, अतिरिक्त
Adhoc Judge	अडहाक जज्ज
Adjustment	समायोजन
Payment	भुगतान
Adopt	अंगीकार करना, अपनाना
Advocate General	महाधिवक्ता
Affidavit	हलफनामा
Affirmation	प्रतिज्ञा
Agreement	करारनामा
Alien	गैरमुखी
Allocate	मिथना
Amendment	तरमीम
Annual financial statement	सलाना माल्ली ब्यौरा
Annuities	वार्षिकियां
Annulment	बेअसरी
Appellate jurisdiction	अपीली अधिकारता
Area	रकबा / क्षेत्र
Article	अनुच्छेद
As nearly as may be	लागै—दुआगै
Assigned	सौंपे गेदे
Attorney-General	महान्यांवादी
Authority	प्राधिकारी
Autonomous	खुदमुख्तेआर
Big Landed Estates Abolition	मती जिमीं जायदाद खातमा
Capacity	हैसियत
Casual vacancy	चान—चक्की खाल्ली थाहर
Cattle pounds	फाटक
Ceiling	जिमीं हदबंदी
Chairman	सभापति
Chief Justice	मुख्य न्यांमूर्ति
Clause	खंड
Code of criminal procedure	फौजदारी प्रक्रिया
Collected	कटेरे गेदे

Commencement	रम्भ
Compensation	मुआवज़ा
Comptroller and Auditor-General	नियंत्रक—महालेखापारखी
Compute	स्थाब लाना
Concurrent List	समवर्ती सूची
Conscience	अंतःकरण
Consequential	नतीजक
Consolidated Fund	कठेरमा कोष
Constituency	चनांS—हल्का
Constituent Assembly	संविधान सभा
Constitutional validity	संविधानक वैधता
Construed	अर्थ लाया
Consultation	सलाह—सूतर
Contingencies	चान—चक्कियें
Contracts	ठेके
Contravene	उलंघन करना
Convict	दोषी
Conviction	दोषसिद्धि
Corporation	निगम
Cotton seed	बाड़े
Council of Ministers	मंत्रि—परिषद्
Council of States	राज्य सभा
Courts of Record	रिकार्ड अदालत होना
Covenant	प्रतिज्ञा—पत्तर
Debt due	देनजोग रिण
Debtors' Relief Act	कर्जा राहत अधिनियम
Defamation	मानहानि
Delimitation	हदबंदी
Derogatory	अपमानजनक
Disability	हांजलता
Discretion	स्यानप
Discrimination	फर्को—फर्की
Disposal	निपटारा
Dissolution	भंग
Dissolve	भंग करना
District Council	जि'ला परिषद्
Domicile	निवास—थाहर/मूल निवासी
Doubts	सैंसे
Draught cattle	दुआई आहले पशु
Duration	मनेआद, औद्ध

Election Commission	चनांS आयोग
Electoral matters	चनां सरबंधी मामले
Electoral roll	निर्वाचक—नामावली
Emoluments	उपलब्धियां/मेहनताना
Enlargement of the jurisdiction	अधिकारता च बाद्धा
Entry	इंदराज
Escheat	राजगामी होना/लवारस जायदाद
Estate	जगीर
Estimated receipts	अनुमानत प्राप्तियां, रसीदां
Estimates	अनुमान
Examination	परख पड़ताल
Exceptional grants	अपवादानुदान
Excess grants	मता अनुदान
Executed	अमल च आहने गेदे
Executive powers	कार्यपालका अख्तेआर
Executive	कार्यपालिका/कार्यकारी
Existing	मजूद
Ex-officio	पदेन
Explanatory Memorandum	व्याख्यात्मक चेता—पत्तर
Extent of Laws	कनूनें दा विस्तार
Finance Commission	वित्त आयोग
Financial Year	माल्ली ब'रा
Foregoing	पछेत्तरे
Foregoing powers	पैहलकी शक्ति
Foregoing provisions	पैहलके प्रावधान
General Election	आम चनांS
Grant	अनुदान
Hazardous	खतरे आह्ला
High Court	उच्च अदालत
House of the people	लोक सभा
Houses of Parliament	संसद दे सदन
Imminent	मती नेडै
Immunities	उन्मुक्तियां
Impeach	महाभियोग लाना
Impeachment	अविष्वास, महाभियोग
Inadmissible	अमान्य, ना—मंजूर
Incidental	घटनात्मी, चान—चक्की
Inconsistency	तालमेल नेई होना
Inconsistent	असंगत
In force	चलन च, अमल च

In proportion	सामां, बरोबर
Inquire	पडताल
Instruments	दस्तावेज
Integrity	अनत्रुटता
Introduced	पेष कीता गोआ
Intermediary	बचौले
Joint sitting	सांझी बैठक
Judiciary	न्यांपालिका
Jurisdiction	अधिकार क्षेत्र
Land for pasture	चरांद
Land revenue	मालिया
Land tenure	बसालगिरी
Last preceding census	खीरी पछेत्तरी जनगणना
Lease	पट्टा
Legislative Council	विधान-परिषद्
Legislative functions	विधानक कम्म-काज
Legislature	विधान-मंडल
Levied	ग्राहे गेदे
Linguistic minorities	भाषाई घट्ट गिंतरी
Local	मुकामी
Luxuries	विलास बस्तां
Mentioned	जकरोए दे
Ministerial	दफ्तरी
Money bill	धन बिल्ल
Money lending	शाह्बुहारी
Monopolies	एकाधिकार / मनापलियां
Mortgaged Properties Act	बंधक जायदाद दा बापसी अधिनियम
Motion	प्रस्ताव
Naturalisation	देसीकरण
Nominations	नामजदगियां
Not with standing	बावजूद एह्दे
Notify	अधिसूचना देना
Oath of Secrecy	राजदारी दी सघंद
Obligation	बाध्यता
Office of Profit	लाह आहला औहदा
Officers	अधिकारी
Oil cakes	खल
Omitted	लोप कीता गोआ
Order of acquitted	बरी होने दा हुकम
Ownership	मलकीयत

Party	पकखकार
Penalty	डन्न
Period	औद्ध
Petition	अर्जी, याचिका
Pleasure	रजामंदी, खुषरजाई
Power	अख्तेआर
Preceding	पछेत्तरे
Pre sanction	पुज्ज मंजूरी
Preside	पीठासीन
Preventive detention	निवारक नज़रबंदी
Prior recommendation	पुज्ज सफारष
Privilege	बषेष अधिकार
Proceedings	कारवाइयां
Professions	कम्म-धंधे
Promissory notes	वचन पत्तर
Promulgate	जारी करना
Propagate	प्रचार करना
Proportional representation	अनुपाती नुमांयदगी
Prospective	भविक्ख लक्षी
Provided further	बषर्ते
Public accounts	लोक लेखे
Public Notification	लोक अधिसूचना
Proviso	परंतुक
Provision	सरिस्ता, प्रावधान
Public record	सार्वजनक रिकार्ड
Reasonable restrictions	वाजब पाबंदियां
Recess	बसांड-काल
Ordinances	अध्यादेश
Recommendation	सफारष
Reconstitution	मुढ-गठन
Rectification of boundaries	हद्दे दी दरुस्ती
Regulation	विनियम
Regional Council	इलाकाई परिषद्
Regulation	विनियम
Rehabilitation	मुढ-बासा, मुढ-ब्हाली
Re-lettered	मुढी लिखेआ गेआ
Relevant figures	सुसंगत आंकड़े
Remains	अवषेष
Re-numbered	मुढ गनोआ
Reorganisation	मुढ गठोआ

Repeal	रद्द करना
Reserved forest	रकख
Residuary powers	अविषिष्ट कनूनी अख्तेआर
Resolution	प्रस्ताव
Restoration	मुढ्ठ स्थापना
Restriction	बंदष, रोक
Retail	परचून
Retrospective effect	पुज्ज असरी
Revenues	राजस्व
Review	मुढ्ठ विचार/नज़रसानी
Rotation	आवर्तन
Schedule	अनुसूची
Secretarial Staff	सचिवी अमला
Service Tax	सेवा-कर
Sinking fund charges	डुब्बने आहली रकमै दा भार
Solemnly affirm	सच्चे मनै प्रतिज्ञा करना
Speaker	अध्यक्ष
Special address	बषेष भाषन
Special provisions	बषेष प्रावधान
Staff	अमला
State Legislature	विधान-मंडल
Statement	ब्यौरा
Statistics	आंकडे
Subject matter of laws	कनूनै दी विषेवस्तु
Subordinate Courts	हेठलियां अदालतां
Subsequent session	अगगें औने आहला इजलास
Subsequent	परैत्तरी
Substantial	मूल
Succeeding	अगेत्तरे
Succeeding period of two year	अगेत्तरे द'ऊं ब'रे
Succession	उत्तराधिकार
Suitor	मुअक्कल
Suits	मकद्दमे
Summon	तलब करना
Supreme Court	सर्वोच्च अदालत
Superintendence	अधीक्षण
Supplemental	अनुपूरक
Supplementary	जिमनी
Suspended	मोत्तल कीता गेआ
Tenancy	बसालगिरी

Term of office	औहदे दी औदध
Territorial constituencies	इलाकाई चनांऽ हल्के
Territorial waters	राजक्षेत्री समुंदर
To be taken	मिथी जाहग
Trades	बन्ज-बपार
Traffic in human beings	मनुक्खी बपार, मनुक्खें दी तस्करी
Transfer	थांतरत, तबादला
Transferable vote	बदलीजोग वोट
Transitional provisions	संक्रमणकाली प्रावधान
Treasury bills	राजहुंडियां
Treaty obligation	संधि-बाध्यता
Tribal	जनजाति
Undischarged insolvent	अनछुड़केआ दिवालिया
Union List	संघ सूची
Union	संघ
Unity	इकजुटता
Validation	कनूनी मान्यकरण
Vested	शामल
Votes of Credit	प्रत्ययानुदान
Votes on account	लेखानुदान
Warrant	अधिकार पत्तर
Waste land	बंजर जिमीं
Water course	कूहल
Wooded waste land	जंगली बंजर जिमीं

